

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.


BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

अर्थशास्त्र पारिभाषिक शब्द-कोश
(DICTIONARY OF TECHNICAL TERMS IN ECONOMICS)

अर्थशास्त्र

पारिभाषिक शब्द-कोश

(DICTIONARY OF TECHNICAL TERMS IN ECONOMICS)



रुद्र दत्त
प्रिन्सिपल

पत्राचार पाठ्यक्रम तथा अनवरत शिक्षा संस्थान महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

एवं

श्रवण कुमार सिंह

प्राध्यापक

अर्थशास्त्र विभाग

आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज

नई दिल्ली-21

1981

एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०

रामनगर, नई दिल्ली-110055

एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०

मुख्य कार्यालय : रामनगर, नई दिल्ली-110055

शो रुम : 4/16-बी, भातफ भली रोड, नई दिल्ली-110002

शाखाएँ :

अमीनाबाद पार्क, लखनऊ-226001
285/बि, बिपिन बिहारी गगुली स्ट्रीट,
कलकत्ता-700012
मुल्तान बाजार, हैदराबाद-500001
3, गांधी सागर ईस्ट,
नागपुर-440002
सर्जांची रोड, पटना-800004
माई हीरां गेट, जालन्धर-144008

152, अन्ना सलाए, मद्रास-600002
ब्लैकी हाउस,
103/5, बालचन्द हीराचन्द मार्ग,
बम्बई-400001
के० पी० सी० सी० बिल्डिंग,
रेस कोर्स रोड, बंगलौर-560009
613-7 महात्मा गांधी रोड, एरनाकुलम,
कोचीन-682011

C

द्वितीय संस्करण : 1981

मूल्य : 80-00

एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०, रामनगर, नई दिल्ली-110055 द्वारा प्रकाशित तथा
राजेन्द्र रवीन्द्र प्रिंटर्स (प्रा०) लि०, रामनगर, नई दिल्ली-110055 द्वारा मुद्रित।

परामर्श मण्डल

डा० यशपाल छिन्नर

प्राध्यापक

अर्थशास्त्र विभाग,

धातमाराम सनातन धर्म कलेज,

नई दिल्ली

श्री ओम प्रकाश कोहली

प्राध्यापक

हिन्दी विभाग,

देशबन्धु कॉलेज, नई दिल्ली

श्री कुलदीप कुमार बहल

प्राध्यापक

अर्थशास्त्र विभाग

स्कूल ऑफ कारेस्पॉण्डेंस कोर्स,

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

श्रीमती राज दत्त

10-ए-38, शक्ति नगर

दिल्ली-7

प्रस्तावना

अर्थशास्त्र से सम्बन्धित पारिभाषिक-शब्द-कोश तैयार करने की आवश्यकता महसूस करने का कारण यह था कि अर्थशास्त्र के बहुत से ग्रन्थ हिन्दी भाषा में हाल ही के वर्षों में छपे हैं और उनमें विभिन्न लेखकों ने अपने-अपने ढंग से शब्द-घयन और शब्द-निर्माण किया है। हाँवर सँकड़री और बी० ए० तक की पुस्तकों में प्रयोग होने वाली शब्दावली तो अपने प्रयोग में खँटकर काफी गिन्नर गयी है परन्तु उच्च स्तर पर प्रयोग होने वाली शब्दावली और मुहावरों के अनुवाद के लिए अभी प्रयत्न जारी रखने होंगे। हमारे इस प्रयास का उद्देश्य उच्च स्तर पर अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए शब्दावली उपलब्ध कराना है। साथ, ही हमारा उद्देश्य यह है कि पुस्तकों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों में से अधिक उपयुक्त शब्दों को एकत्र कर ग्रन्थियों एवं विद्यार्थियों के लिए एक सदर्भ ग्रन्थ तैयार किया जाए, जिससे वे हिन्दी भाषा में अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए प्रेरणाहित हो।

इस पारिभाषिक शब्द संग्रह को तैयार करते समय हमने डॉ० रघुवीर के महान् अंग्रेजी-हिन्दी शब्द-कोश और भारत सरकार द्वारा मंकलित पारिभाषिक शब्द-संग्रह की सहायता ली है। साथ ही हमने डॉ० हरदेव वाहरी के बहुत्र अंग्रेजी-हिन्दी कोश का भी अनेक समस्याओं के समाधान में सहारा लिया है। परन्तु हम कई दृष्टिकोण से डॉ० रघुवीर और भारत सरकार के विशेषज्ञों से भिन्न विचार रखते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि डॉ० रघुवीर का शब्द-कोश एक महान् कृति है और इसे आदर एवं सत्कार-योग्य मानना ही होगा, परन्तु डॉ० रघुवीर ने बहुत से स्थानों पर सरल और प्रयोग में आए हुए शब्दों को खोज सँकृत शब्दावली के आकार पर शब्द-निर्माण करने की चेष्टा की है। शब्द-कोश में कुछ ऐसे शब्द विद्यमान हैं जिनका प्रयोग लम्बे समय के बाद भी सामान्य भाषा में न हो सकेगा। उदाहरणार्थ, Bank शब्द के लिए अधिकोप या Budget शब्द के लिए आद्यव्ययक या Company शब्द के लिए समवाय या Ration शब्द के लिए सम-भाजन आदि। अंग्रेजी के ये शब्द भारतीय भाषाओं में खप चुके हैं और इन शब्दों को स्वीकार करना ही उचित है। हमने इन शब्दों के आकार पर अन्य व्युत्पादित शब्द तैयार किये हैं परन्तु आवश्यकतानुसार उनके शब्द भी साथ ही साथ दे दिए हैं।

इसके विपरीत, भारत सरकार के शब्द-कोश में बहुत से ऐसे अंग्रेजी शब्दों को स्थान दिया गया है जिनके लिए हिन्दी भाषा में उचित शब्द उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ, Share Capital के लिए शेयर-पूँजी, Debenture के लिए डेबेंचर, Package Deal के लिए पैकेज डील, Merchant Banker के लिए मर्चेण्ट बँकर, Tariff Barrier के लिए टैरिफ बरियर, Share Market के लिए शेयर-बाजार, Job Analysis के लिए जॉब विश्लेषण, Corn Laws के लिए कान लॉज। इन सभी शब्दों के लिए अच्छे और सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाले हिन्दी शब्द उपलब्ध हैं।

भारत सरकार के कोश में कई बार कुछ शब्दों की गवने का प्रयास किया गया है और इस प्रयास में शब्द के सही अर्थ का हनन हो गया है। उदाहरण के लिए, शब्द Utility के लिए भारत सरकार के पारिभाषिक शब्द-संग्रह में उपयोगिता की बजाय तुष्टिगुण शब्द का प्रयोग किया गया है परन्तु मनोविज्ञान में उपयोगिता शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। यहाँ पर यह संकेत करना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र में Utility शब्द मूलतः मनोविज्ञान से ही लिया गया है। इसीलिए, यह कहना जाता है कि उपयोगिता अर्थवित्तपरक है

न कि वस्तुपरक। यह कहना कि तुष्टिगुण व्यक्तिपरक है वस्तुपरक नहीं, सही दृष्टिकोण नहीं है। तुष्टि तो व्यक्तिपरक है, परन्तु 'तुष्टिगुण' नहीं। इसी कारण Law of Equi-marginal Utility का अनुवाद समसीमान्त तुष्टिगुण नियम की अपेक्षा समसीमान्त उपयोगिता नियम या समसीमान्त तुष्टि नियम करना ही ठीक होगा। इसी प्रकार Law of Maximum Satisfaction को अधिकतम तुष्टिगुण नियम के स्थान पर अधिकतम तुष्टि नियम कहना अधिक उपयुक्त है। फिर अर्थशास्त्र में शब्द 'Value-in-use' का प्रयोग भी Utility के अर्थ में किया जाता है जिसके लिए भारत सरकार ने शब्द 'उपयोग-तुष्टि' और डॉ० रघुवीर ने शब्द 'उपयोगिता' का प्रयोग किया है। उपयोग-तुष्टि शब्द में वस्तु के प्रयोग पर बल है। इसलिए यदि यहाँ उपयोग शब्द का प्रयोग हो सकता है, तो Utility के लिए उपयोगिता शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए शब्द तुष्टिगुण के निर्माण में कोई त्रुटि नहीं। एक तो यह गड़ा हुआ प्रतीत होता है और दूसरे, यह अपने ध्वनितार्थ को पूर्णतः व्यक्त नहीं करता।

बहुत से अर्थों के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि हिन्दी भाषा में कुछ शब्दों के अनुपयुक्त अनुवाद प्रचलित हो गए हैं। शब्दकोश में इन अनुवादों को सही मान लिया गया है। उदाहरणार्थ, शब्द Deficit Financing के लिए घाटे की वित्त-व्यवस्था या Proletariat के लिए 'सर्वहारा' का प्रयोग या Elasticity of Demand के लिए माँग की मूल्य सापेक्षता आदि। Deficit Financing का अर्थ यह है कि सरकार जान-बूझकर अपनी आय से अधिक व्यय की योजना बनाती है। इस प्रकार बजट को जानबूझ कर घाटेतुलित करने की नीति का प्रयोग युद्धकाल में भी किया जाता है और शान्तिकाल में भी। चूँकि युद्ध-सम्बन्धी वस्तुएँ केवल सापेक्षिक माँग की तुष्टि करती हैं, इसलिए इस प्रक्रिया के कारण स्फीति-प्रभाव पैदा होता है। परन्तु इस शब्द के प्रयोग को लार्ड केन्ज ने अधिक लोकप्रिय बनाया। मन्दी-प्रद अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से निकालने के लिए सार्वजनिक विनियोग का विस्तार करना आवश्यक है और सार्वजनिक विनियोग के लिए कराधान द्वारा वित्त-प्रबन्ध करने की अपेक्षा उधार द्वारा वित्त-प्रबन्ध बेहतर है। इस प्रकार उधार द्वारा प्राप्त किये गये वित्त-प्रबन्ध को Deficit Financing कहते हैं। अतः विनियोग की मात्रा इस प्रकार बढ़ाने से समर्थ माँग बढ़ती है जिससे मन्दी के काल में पुनर्स्थापन को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार अल्प-विकसित देशों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी Deficit Financing का सहारा लिया जाता है। जब राज्य यह अनुभव करता है कि करो एव निजी बचत द्वारा पर्याप्त मात्रा में पूँजी-निर्माण सम्भव नहीं, तो Deficit Financing को सामाजिक बचत के रूप में विकास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। घाटे की वित्त-व्यवस्था या घाटे के वित्त-प्रबन्ध में यह भाव निहित है कि इस क्रिया से किसी पिछले घाटे को पूरा करने का प्रयास किया जाता है परन्तु Deficit Financing तो एक सकारात्मक क्रिया है। इसलिए शब्द न्यूनता-वित्त प्रवर्धन उपयुक्त है। न्यूनता-वित्त-प्रबन्धन में स्पष्टतया यह भाव व्यक्त होता है कि राज्य किसी सार्वजनिक व्यय की योजना को पूरा करने के लिए जब सामान्य आय-उपार्जन के साधनों अर्थात् करों, निजी बचत आदि को अक्षमर्थ पाता है तब यह अभावधारण वित्त प्रबन्ध अर्थात् न्यूनता वित्त प्रबन्ध नीति का प्रयोग करता है।

इसी प्रकार भारत सरकार के विशेषज्ञों ने Elasticity of Demand के लिए 'माँग की मूल्य सापेक्षता' का सुझाव दिया है। यह बिल्कुल अनुचित है। Elasticity of Demand से हमारा अर्थ कीमत, आय अथवा किसी अन्य कारण (प्रतिस्थापन वस्तुओं के आधिष्कार आदि) से माँग में होने वाले परिवर्तन से है। इस प्रकार Elasticity of Demand सम्बन्धी तीन शब्द अर्थशास्त्र में प्रचलित हैं अर्थात् Price Elasticity of Demand, Income Elasticity of Demand और Cross Elasticity of Demand। मूल्य सापेक्षता को Price Elasticity के लिए ही उपयुक्त माना जा सकता है परन्तु यह अन्य अर्थों के व्यक्त करने में अक्षमर्थ है। अतः Elasticity of Demand के लिए प्रयोजित शब्द 'माँग की लोच' कही

अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार Price Elasticity of Demand के लिए मांग की कीमत-बोच, Income Elasticity of Demand के लिए मांग की आय-बोच आदि शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 'लौच' शब्द Elasticity के भाव को पूर्णतया व्यक्त करता है और प्रत्येक क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। अतः हम भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा निर्मित किए गए शब्द 'मूल्यसापेक्षता' को भ्रामक एवं अनुचित मानते हैं।

Proletariat के लिए सर्वहारा शब्द के प्रयोग का कारण यह है कि Proletariat का मौलिक अर्थ समाज के उस निचले वर्ग से है जिसकी सम्पत्ति नाममात्र है अथवा जो सम्पत्तिहीन है। ऐसे अमवर्ग के लिए, जो केवल निर्वाह मजदूरी (Subsistence Wage) प्राप्त करता है और जिसकी समस्त सम्पत्ति अनिवार्यताओं की दृष्टि के लिए गिनी चुनी कुछ वस्तुओं पर आधारित है, सर्वहारा शब्द का प्रयोग किया गया है। इस दृष्टि से सर्वहारा शब्द के प्रयोग में कुछ तर्क प्रतीत होता है। परन्तु यदि हम Proletariat की अर्थ-व्याप्ति पर विचार करें तो इसमें मध्यम वर्ग की निम्नतम श्रेणी, छोटे व्यापारी तथा दुकानदार, दस्तकार, काश्तकार, कारखाने में काम करने वाले मानसिक तथा शारीरिक श्रमिक आदि समाविष्ट किये जाते हैं। इस प्रकार Proletariat की संरचना समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा होती है। इस संदर्भ में Proletariat शब्द का अर्थ समाज के उन सभी सदस्यों से है जो अपनी आय मेहनत करके प्राप्त करते हैं। इस अर्थ में श्रमजीवी शब्द अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इसी प्रकार रूस में विद्यमान शासन-प्रणाली को Rule of the Proletariat कहा जाता है। यहाँ पर हमारा आशय श्रमवर्ग का शासन है और इस संदर्भ में सर्वहारा शब्द अनुपयुक्त समता है। अतः शब्द 'सर्वहारा' Proletariat के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करने में असमर्थ है और इसकी बजाय शब्द श्रमजीवी या श्रमजीवी वर्ग उचित प्रतीत होते हैं। Proletariat के लिए परोक्षकारी या परोक्षकारी वर्ग का भी प्रयोग स्वाभाविक रूप में किया जा सकता है। विदेशी भाषाओं के शब्दों को हिन्दी भाषा की शैली में ढालने का यह प्रयास उचित एवं युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

कई बार हिन्दी भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिए अनुवाद की दृष्टि से शब्द तैयार करने की अपेक्षा सहज भाषा में ही ऐसे शब्द मिल जाते हैं, जो प्रयोग की दृष्टि से बहुत उपयुक्त हैं। हमने उन शब्दों को प्रचलन में लाने का प्रयास भी किया है। इसका एक उदाहरण है Indifference Curve के लिए 'समभाव वक्र'। विभिन्न पुस्तकों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे हैं: उदासीन वक्र, तटस्थता वक्र, सम संतुष्टि वक्र, अनभिमान वक्र। समभाव वक्र शब्द इन सबसे श्रेष्ठ है। Indifference Analysis के लिए समभाव विश्लेषण और Indifference Techniquo के लिए समभाव तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

हमने इस शब्द-कोश में वाक्यांशों व मुहावरों का भी अनुवाद किया है। इसमें हमारा उद्देश्य अर्थशास्त्र में इस्तेमाल किये जाने वाले मुहावरों के रूपान्तर उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त कठिन मुहावरों या विदेशी शब्दों की हिन्दी में व्याख्या भी दी गयी है ताकि पाठकों को उनके सही अर्थ जानने में कठिनाई न हो।

प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों तथा हिन्दी जगत् के अन्य सभी पाठकों से हमारी प्रार्थना है कि वे हमारे इस प्रयास का आलोचनात्मक अध्ययन करके हमें इसके बारे में सुझाव दें। इसी प्रकार हम भारतीय भाषाओं के विकास में सहयोग दे सकते हैं।

रुद्र दत्त
श्वरा कुमार सिंह

अर्थशास्त्र
अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश

A

- Abandonment of claim दावे का परित्याग
Abatement छूट, कमी, कटौती
Abatement of duty शुल्क में छूट
Abatement of purchase money मूल्य कम करना, क्रय राशि कम करना
Abatement of rent लगान में छूट, किराए में छूट
Ability, specialised विशेषीकृत योग्यता, विशेषीकृत सामर्थ्य
Ability rent योग्यता लगान
Ability theory of taxation कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत
Ability to bear सहन-क्षमता, सहन सामर्थ्य
Ability to invest निवेश क्षमता, विनियोग क्षमता/सामर्थ्य
Ability to pay भ्रदा करने की क्षमता/सामर्थ्य
Ability to pay principle of taxation कराधान भ्रदा करने की क्षमता का सिद्धांत—इस सिद्धांत के अनुसार कर-भार व्यक्ति की कर देय क्षमता के अनुसार बाटना चाहिए। आय के सम्बन्ध में सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम लागू करते हुए यह सिद्धांत अधिक धनी व्यक्तियों पर अपेक्षाकृत अधिक कर लगाने की मान्यता पर आधारित है। अधिकतर सरकारें इस नियम के आधार पर अपनी कर प्रणाली को न्यायोचित बनाती हैं।
Ability to save संचय-क्षमता, संचय-सामर्थ्य
Ability to work कार्य करने की शक्ति, कार्य-सामर्थ्य/क्षमता
Ab initio आदिः, आरम्भ से
Abject poverty दारण दरिद्रता, दयनीय दरिद्रता
Able and willing to work कार्य करने में समर्थ और इच्छुक/उद्यत
Able-bodied person समर्थ व्यक्ति, समर्थ शरीर व्यक्ति
Able-bodied unemployment समर्थ बेकारी, समर्थ व्यक्तियों की बेरोजगारी
Abnormal demand असामान्य मांग
Abnormal increase in population जनसंख्या में असामान्य वृद्धि
Abnormal price असामान्य कीमत
Abnormal profit असामान्य लाभ
Abnormal rise in wages मजदूरी में असामान्य वृद्धि या चढ़ाव
Abnormal supply असामान्य समरण, असामान्य पूर्ति
Abnormal yield असामान्य उपज या उत्पात
Abolition of intermediaries मध्यवर्तियों/मध्यस्थों का उन्मूलन, विचोत्रियों का उन्मूलन
Abolition of slavery दास प्रथा का अन्त, दास-प्रथा का उन्मूलन
Abolition of zamindari system जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन
Above par अधिमूल्य पर
Absentee अनुपस्थित, अनुपस्थायी, दूरवासी, ग्रन्थ-वासी
Absentee allowance अनुपस्थायी भत्ता, अनुपस्थिति भत्ता
Absentee capitalism दूरस्थ पूंजीवाद
Absentee landlord ग्रन्थवासी भू-स्वामी, अनुपस्थित भूमिपति, दूरवासी जमींदार, दूरस्थ जमींदार
Absentee landlordism ग्रन्थवासी भूमिपतित्व, अनुपस्थित भू-स्वामित्व
Absentee owner ग्रन्थवासी स्वामी, अनुपस्थित स्वामी

Absenteeism अन्यत्रवासिता, अनुपस्थायिता
 Absenteeism rate अनुपस्थायिता दर
 Absolute advantage निरपेक्ष लाभ, परम लाभ—
 किसी देश, फर्म या श्रमिक को किसी वस्तु या सेवा को अपने प्रतिदोषी की तुलना में कम लागत पर पूरित करने की योग्यता को परम लाभ कहते हैं। विश्व का अधिकतर व्यापार परम लाभ में अन्तर पर आधारित है। प्राकृतिक साधन-सम्पन्नता और इस पर आधारित श्रम-विभाजन से ये लाभ प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड को जूत के उत्पादन में बहुत से देशों की तुलना में परम लाभ प्राप्त है जबकि वगला-देश को पटसन के उत्पादन में।
 Absolute ceiling परम सीमा, निरपेक्ष सीमा
 Absolute cost difference परम लागत अन्तर
 Absolute Economics परम अर्थशास्त्र, शुद्ध अर्थशास्त्र
 Absolute family wage निरपेक्ष पारिवारिक मजदूरी
 Absolute gain निरपेक्ष लाभ
 Absolute maximum परम अधिकतम, अधिकाधिकतम
 Absolute maximum price परमाधिक मूल्य
 Absolute measure of deviation निरपेक्ष विचलन माप
 Absolute monopoly परम या पूर्ण एकाधिकार
 Absolute necessities परम आवश्यकताएँ
 Absolute occupancy परम अधिधारिता
 Absolute occupancy right परम अधिधारिता अधिकार
 Absolute occupancy tenant परम अधिधारिता काश्तकार
 Absolute over-production निरपेक्ष अत्युत्पादन
 Absolute owner परम स्वामी, पूर्ण स्वामी, निर्वाच्य स्वामी
 Absolute ownership परम स्वामित्व, पूर्ण स्वामित्व, निर्वाच्य स्वामित्व

Absolute power परम शक्ति, निरंकुश शक्ति
 Absolute rent निरपेक्ष लगान, निरपेक्ष किराया/भाटक
 Absolute scarcity अत्यन्त कमी, वितान्त दुर्लभता
 Absolute state ownership परम राज्य स्वामित्व
 Absolute surplus value परम अतिरिक्त मूल्य, निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य
 Absolute tenure परम धारणाधिकार, परम पट्टे-दारी
 Absolute value परम मूल्य, निरपेक्ष मूल्य
 Absorbed capital अन्तर्निविष्ट पूँजी
 Absorbed labour नियोजित श्रम, नियोजित श्रमिक, अन्तर्निविष्ट श्रम
 Absorbed overhead अन्तर्निविष्ट उपरिव्यय
 Absorbing banking company अन्तर्लायी बैंक कम्पनी, अन्तर्लायी बैंकिंग कम्पनी
 Absorption and return of currency मुद्रा का अन्तर्लयन और प्रत्यावर्तन
 Absorption capacity of labour श्रम नियोजन क्षमता
 Absorption of money मुद्रा का अन्तर्लयन
 Absorption theory अन्तर्निवेश सिद्धान्त, अन्तर्लयन सिद्धान्त
 Abstinence उपभोग-स्वयगन, उपभोग समय
 Abstinence theory of interest ब्याज का उपभोग-स्वयगन सिद्धान्त, ब्याज का समय सिद्धान्त
 Abstract, account सक्षिप्त लेखा, लेखा सार
 Abstract, budget सक्षिप्त बजट, बजट सार
 Abstract Economics अमूर्त अर्थशास्त्र, शुद्ध अर्थशास्त्र
 Abstract political economy अमूर्त राज्यार्थ-व्यवस्था, अमूर्त अर्थशास्त्र
 Abundance प्रचुरता, बहुतायत, बहुलता
 Abundant factor प्रचुर साधन
 Abysmal poverty अग्राध निर्धनता, अथाह निर्धनता
 Accelerated depreciation त्वरित मूल्यह्रास
 आय कर के सम्बन्ध में किसी अक्षय परिसंपत्ति पर ऐतिहासिक मूल्यह्रास दर की तुलना में अधिक

मूल्यह्रास की व्यवस्था करना। इसके फलस्वरूप परिसम्पत् के जीवनकाल में काफी पहले ही मूल्यह्रास छूट प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार मूल्यह्रास सम्बन्धी उदार धाराधी वा प्रयोग करके कोई भीद्योगिक कर्म प्रपनी नयी अमल सम्पत्ति में पहली परिसम्पत् के प्रयोगकाल के दौरान ही लगभग 50 प्रतिशत अधिक विनियोग प्राप्त कर सकती है। इसका प्रयोग विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरिया के युद्ध के दौरान।

Accelerating investment in developing economies विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ता हुआ विनियोग, विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में विनियोग को त्वरित करना

Acceleration त्वरण

Acceleration principle त्वरण सिद्धांत

Accelerator त्वरक, गतिबंधक

Acceptance, general पूर्ण स्वीकृति, सामान्य स्वीकृति

Acceptance house स्वीकृति गृह, महाजन-गृह, वाणिज्य-बैंक (Merchant House)—ये बैंकों के समान विदेशी व्यापार के भुगतान के लिए विनिमय-पत्रों (ड्रिडिंगों) को मान्यता प्रदान करते हैं प्रपवा स्वीकार करते हैं। एक बार विनिमय-पत्र पर स्वीकृति-गृह की मुहर लग जाए, तो इसका अधिक प्रातानी से बढ़ा किया जा सकता है। रेडविलक समिति (Radeville Committee) के अनुसार स्वीकृति गृह वे वाणिज्य बैंक हैं जिन्हें द्वारा विनिमय-पत्र की स्वीकृति बैंक ऑफ एंग्लैण्ड द्वारा बढ़ते के लिए विनिमय-पत्र स्वीकार करने की छत मानी जाती है। आजकल ये बैंक सभी प्रकार के बैंक-कार्य करते हैं और विनियोग के लिए सहाहकार का कार्य भी करते हैं।

Accepting money on deposit निरोक्ष में राशि स्वीकार करना, जमा में राशि स्वीकार करना

Accession rate नियुक्ति-दर—कुल रोजगार के प्रतिशत के रूप में वित्तो समय-विशेष में नियुक्त प्रतिरिक्त श्रमिकों की मात्रा।

Accessories उपसाधन, सहायक साधन
Accident prevention movement दुर्घटना रोक-थाम आन्दोलन

Accident proneness दुर्घटना प्रवृत्ति, दुर्घटना-शीलता, दुर्घटना प्रवृत्ता

Accident rate दुर्घटना-दर

Accident reporting laws दुर्घटना-प्रज्ञापन विधि, दुर्घटना प्रज्ञापन कानून

Accident severity rate दुर्घटना गम्भीरता-दर

Accidental profit आकस्मिक लाभ

Account लेखा, खाता, हिसाब

Account, adjustment of लेखा-समायोजन

Account, annual वार्षिक लेखा

Account, appropriation विनियोग लेखा

Account, capital पूँजी लेखा

Account, capital and revenue पूँजी और राजस्व लेखा

Account, current चालू विवरण, चालू लेखा

Account, fixed मियादी खाता, सावधि लेखा

Account, income आय लेखा

Account, long-term दीर्घकालीन खाता

Account, money of लेखा मुद्रा

Account, nominee बेनामी लेखा

Account, payee लेने वाले के लेखे में

Account, payee only लेने वाले ही के लेखे में

Account, personal वैयक्तिक लेखा

Account, production उत्पादन लेखा/खाता

Account public सरकारी लेखा, सार्वजनिक लेखा

Account, receipts and balances प्राप्त और शेष का लेखा

Account, record लेखा अभिलेख

Account, revenue राजस्व लेखा

Account, rupee रुपया लेखा

Account, Sterling स्टर्लिंग लेखा

Account, suspense उचित लेखा

Account, year of लेखा-वर्ष

Account period लेखाकाल अवधि
Accounting prices लेखा कीमतें

Accounting procedures लेखांकन क्रिया-विधि
Accounting rate of interest व्याज की लेखा-
दर

Accounting system लेखांकन प्रणाली

Accounting year लेखा वर्ष

Accrued bonus उपाजित बंधुश या बोनस

Accrued income उपाजित आय

Accrued interest उपाजित व्याज, प्राप्य व्याज

Accruing dividend प्रोद्भावी लाभांश

Accumulated revenue संचित राजस्व, संचित आय

Accumulated surplus संचित अतिरिक्त

Accumulation of capital पूँजी संचयन

Accumulation of inventory माल संचयन

Accumulation of stocks भंडार संचयन, स्टॉक
मग्रहण

Accumulation of wealth धन संचयन

Acid test ratio तेजाबी परीक्षण अनुपात —

इम अनुपात द्वारा फर्म की वर्तमान तरल परि-
सम्पत् की तुलना इसके वर्तमान दायित्व से की
जाती है। तरल परिसम्पत् (Liquid assets)
के अंतर्गत नकदी, व्यापार से होने वाली प्राप्त
और तुरन्त विक्रय प्रतिभूतियाँ शामिल की जाती
हैं। यह वर्तमान अनुपात (Current ratio) की
तुलना में फर्म की वर्तमान परिस्थिति का अधिक
विश्वसनीय सूचक है।

Acknowledgement of debt श्रृण-अभिम्बोक्ति

Acknowledgement of liability देयता-अभिम्बोक्ति

Acknowledgement of permanent advance
स्थायी अग्रिम अभिम्बोक्ति

Acquisition cost अधिग्रहण लागत

Acquisition of gains लाभ अधिप्ति, लाभार्जन

Acquisition of gold स्वर्ण प्राप्ति

Acquisition of land भूमि अधिप्ति, भूमि अर्जन

Acquisition of property सम्पत्ति अधिप्ति

Acquisition of stocks भंडार अधिप्ति, स्टॉक
अधिप्ति

Acquisitive society परिग्रहणीयता ममान,
अधिप्ति ममान

Acre, standard प्रामाणिक एकड़, स्टैंडर्ड एकड़

Acreage क्षेत्र, क्षेत्रफल (एकड़ में)

Acreage duty क्षेत्र-शुल्क, एकड़ शुल्क-दर

Acreage rate क्षेत्र-दर

Actionary हिस्सेदार, अदाकारी (यूरोपीय संयुक्त
पूँजी कम्पनी का हिस्सेदार)

Active balance सक्रिय शेष

Active capital सक्रिय पूँजी

Active population अर्जक जनसंख्या, सक्रिय जनसंख्या

Active trade balance अनुकूल व्यापार शेष

Active trust सक्रिय न्यास, सक्रिय ट्रस्ट

Active value सक्रिय मूल्य, सक्रिय अर्हता

Act of bankruptcy दिवालियापन का व्यवहार

Actual consumption वास्तविक उपभोग

Actual cost and expenses वास्तविक परिव्यय
एवं व्यय, वास्तविक लागत और व्यय

Actual expenditure वास्तविक व्यय

Actual expenses वास्तविक व्यय

Actual outlay वास्तविक व्यय, वास्तविक परिव्यय

Actual price वास्तविक कीमत, वास्तविक मूल्य

Actual produce वास्तविक उत्पाद, वास्तविक उपज

Actual production वास्तविक उत्पादन

Actual proprietor of land भूमि का वास्तविक
स्वामी

Actual purchaser वास्तविक क्रेता

Actual receipt वास्तविक प्राप्ति

Actual stock वास्तविक भण्डार/स्टॉक

Actual value वास्तविक मूल्य

Actual wage वास्तविक मजदूरी

A-cyclical policy विचक्रीय नीति

Adaptability अनुकूलनीयता

Additional pay अतिरिक्त वेतन, समधिक वेतन

Additional production अतिरिक्त उत्पादन

Additional quota अतिरिक्त कौटा, समधिक अर्भ्यता

Additional remuneration अतिरिक्त पारिश्रमिक

Adequacy of data अर्हता की पर्याप्तता, आधारा
मामूरी की पर्याप्तता

Adequate personal security समुचित वैयक्तिक
प्रतिभूति

Adequate stock पर्याप्त स्टॉक/भण्डार	की शक्तियों कीमत-निर्धारण में नाम मात्र महत्व रखती हैं अथवा उनका कोई महत्व नहीं होता।
Ad hoc तदर्थ	Administration, economic प्राथिक प्रशासन
Ad hoc allotment तदर्थ वण्टन	Administration, financial वित्तीय प्रशासन
Ad hoc allowance तदर्थ भत्ता	Administration, tax कर-प्रशासन
Ad hoc basis तदर्थ आधार	Administration expenses प्रशासन-व्यय
Ad hoc committee तदर्थ समिति	Administration of public enterprises सार्व-जनिक उद्यमों का प्रशासन
Ad hoc cuts तदर्थ कटौती	Administrative cost प्रशासनिक व्यय, प्रशासनिक लागत
Ad hoc fixation of prices तदर्थ कीमत निर्धारण	Administrative revenue प्रशासनिक राजस्व, प्रशासनिक आय
Ad hoc grant तदर्थ अनुदान	Adult equivalent of population जनसंख्या का ब्यपस्क तुल्यता
Ad hocism तदर्थवाद, तदर्थ प्रवृत्ति	Ad valorem यथामूल्य
Ad hoc payment तदर्थ अदायगी, तदर्थ शोधन	Ad valorem duty यथामूल्य कर, यथामूल्य शुल्क
Ad hoc quota तदर्थ कौटा, तदर्थ अम्यश	Ad valorem rate यथामूल्य दर
Ad hoc socialised concern तदर्थ समाजीकृत उद्योग	Ad valorem tariff यथामूल्य शुल्क
Ad hoc treasury bills तदर्थ राजकोषीय विनिमय-पत्र/बिल	Ad valorem taxation यथामूल्य कराधान
Adding up problem योगशीलता की समस्या, सतत परिवर्धन की समस्या	Advance अग्रिम, अग्रिम धन, पेशगी, ऋण
Additive function योगशील श्रित/फलन	Advance, ways and means अर्थोपाय ऋण/अग्रिम
Adjoining property rights संलग्न साम्पत्तिक अधिकार	Advance account अग्रिम लेखा
Adjudication अर्धनिरणय	Advance collateral अग्रिम प्रतिभूति, उधार प्रतिभूति
Adjudication board अर्धनिरणयक बोर्ड, अर्ध-निरणय बोर्ड	Advance commitments अग्रिम वचन
Adjudication order अर्धनिरणय आदेश	Advance deposit ratio अग्रिम-जमा अनुपात
Adjudicator अर्धनिरणयक	Advance outstanding बकाया उधार
Adjustable currency समायोज्य मुद्रा, लोचदार मुद्रा	Advance payment अग्रिम शोधन, अग्रिम भुगतान, अग्रिम अदायगी, पेशगी अदायगी
Adjusted price समायोजित मूल्य	Advance planning अग्रिम आयोजन
Adjustment account समायोजन लेखा	Advance quota अग्रिम कौटा, अग्रिम अम्यश
Adjustment board समंजन बोर्ड, समंजन मण्डल	Advance recovered वसूल किया गया उधार, प्रत्यावर्त अग्रिम
Administered price निर्देशित कीमत—इस सिद्धान्त के समर्थकों के अनुसार वस्तुधोया सेवाओं की कीमतें बड़ी-बड़ी फर्मों के उच्चाधिकारियों में आपसो समझौते के आधार पर तय की जाती हैं और बाजार परिस्थितियों में परिवर्तन के बावजूद भी उन्हें तबदील नहीं किया जाता बल्कि पूर्ण स्तर पर कायम रखा जाता है। अतः माँग और पूर्ति	Advance refund अग्रिम वापसी
	Advance repayable प्रतिशोध्य अग्रिम
	Advanced capitalism उन्नत पूँजीवाद
	Advanced economy उन्नत अर्थव्यवस्था

Advancing of money धन अग्रिम देना, राशि अग्रिम देना, रुपया उधार देना	Agent, exporting निर्यात एजेंट
Adverse balance of payments प्रतिकूल भुगतान शेष	Agent, importing आयात एजेंट
Advertisement विज्ञापन	Agent, selling विक्रय एजेंट, विक्री अभिकर्ता
Advertisement, competitive प्रतिस्पर्धापूर्ण विज्ञापन	Agent's commission एजेंट का कमीशन, अभिकर्ता कमीशन
Advertisement agent विज्ञापन अभिकर्ता, विज्ञापन एजेंट	Agent of production उत्पादन का साधक
Advertisement cost विज्ञापन लागत	Aggregate consumption समस्त उपभोग, यौगिक उपभोग
Advertisement manager विज्ञापन प्रबंधक	Aggregate cost समस्त लागत, यौगिक लागत
Advertisement rate विज्ञापन-दर	Aggregate demand समस्त मांग, यौगिक मांग
Advertising association विज्ञापन-सघ	Aggregate demand function समस्त मांग श्रित
Advisory board परामर्श मण्डल, सलाहकार-बोर्ड, मंत्रणा-मण्डल	Aggregate demand price समस्त मांग कीमत
Advisory committee परामर्श समिति, सलाहकार समिति	Aggregate deposit समस्त जमा, यौगिक जमा
Advisory service सलाहकार सेवा, परामर्श सेवा	Aggregate employment समस्त रोजगार
Affluent society समृद्ध समाज, सम्पन्न समाज	Aggregate expenditure समस्त व्यय, यौगिक व्यय
Afforestation वनरोपण	Aggregate investment समस्त निवेश, यौगिक विनियोग
Age classification वय-वर्गीकरण	Aggregate money income समस्त/यौगिक/समग्र मुद्रा (या द्रव्य) आय
Age composition वय-ढाँचा, वय-सघटन	Aggregate outlay समस्त/यौगिक व्यय
Age distribution of population जनसंख्या का वयानुसार विभाजन	Aggregate output समस्त/यौगिक उत्पाद
Age group आयु-वर्ग, वय-वर्ग	Aggregate saving समस्त/यौगिक बचत
Age specific fertility rate वय-विशिष्ट प्रसवन-दर	Aggregate supply समस्त/यौगिक पूर्ति या सभरण
Age specific mortality rate वय-विशिष्ट मृत्यु-दर	Aggregate supply function समस्त पूर्ति श्रित, समस्त सभरण श्रित
Age structure वय-ढाँचा, वय-सरचना	Aggregate supply price समस्त/यौगिक सभरण कीमत
Ageing population वार्धक्योन्मुख जनसंख्या, जीर्णोन्मुख जनसंख्या	Aggregate value समस्त मूल्य
Agency एजेंसी, आदत, अभिकरण, निमित्त	Aggregation of labour धम समूहन, धम का एकीकरण
Agency, employment रोजगार अभिकरण, रोजगार एजेंसी	Aggregation of price कीमतों का समूहन
Agency, private operating निजी संचालन अभिकरण	Aggregative Economics समष्टि अर्थशास्त्र, समूह अर्थशास्त्र, समस्त अर्थशास्त्र
Agent एजेंट, अभिकर्ता, कारक, कर्ता, आश्रयिदा	Aggregative index number समूही सूचकांक
	Agio वट्टा, बढौती
	Agio premium बढौती
	Agio theory of interest व्याज का बढौती सिद्धान्त

Agrarian भूमि सम्बन्धी, कृषि सम्बन्धी
 Agrarian co-operatives कृषि सम्बन्धी सहकारिता
 Agrarian economy भूमि-विषयक अर्थव्यवस्था,
 क्षेत्रिक अर्थव्यवस्था
 Agrarian law भू-विधान
 Agrarian policy भू-नीति
 Agrarian reform भू-सुधार
 Agrarian revolution कृषि-क्रांति
 Agrarian socialism कृषक समाजवाद
Agrarianism भू-वितरणवाद, भूमि-सुधारवाद,
 कृषिवाद—प्राचीन रोम में, नागरिकों के बीच
 भूमि के वितरण को विनियमित करने के अधिनियम
 अर्थात् वह दर्शन जो सम्पत्ति और भूमि के समान
 वितरण पर बल देता है ।
 दूसरे अर्थ में, सोवियत रूस में प्रचलित एक
 विचारधारा जिसके समर्थक इस बात में विश्वास
 रखते थे कि जिन देशों में पूँजीवाद परिपक्व नहीं
 हुआ अर्थात् जिनमें औद्योगिक विकास पर्याप्त
 उन्नति नहीं कर पाया, वहाँ समाजवाद की
 स्थापना भूमि के समाजीकरण द्वारा प्राप्त की जा
 सकती है । दूसरे अर्थों में, कृषिवादी, कृषि के
 विकास को ही प्राथिक विकास में मूल महत्त्व देते
 थे । कृषि-सम्प्रदाय के विचारों के समर्थक अब
 नहीं हैं क्योंकि कृषि और उद्योगों के एक-साथ
 विकास का विचार अधिक लोकप्रिय बन गया है ।
 कृषिवादियों में भारदार्य में महत्तमा गांधी को
 गिना जा सकता है । आचार्य विनोबा भावे का
 दर्शन भी कृषिवादी दर्शन ही है ।
 Agrarianist कृषिवादी
 Agreed charge मान्य प्रभार
 Agreed priorities सम्मत प्राथमिकताएँ
 Agreed quota basis सम्मत कौटा आधार
 Agreement, labour श्रम-संधि
 Agreement, marketing विपणन संधि
 Agreement, tying सशर्त संधि
 Agricultural कृषि, कृषि-सम्बन्धी
 Agricultural administration कृषि-प्रशासन
 Agricultural and animal husbandry exten-

sion service कृषि तथा पशु-पालन विस्तार सेवा
 Agricultural and non-agricultural occupa-
 tions कृषि तथा कृषि-भिन्न व्यवसाय
 Agricultural appliances कृषि उपकरण
 Agricultural artisan कृषि शिल्पकार
 Agricultural asset कृषि परिसम्पत्
 Agricultural bank कृषि बैंक
 Agricultural cattle कृषि पशु
 Agricultural census कृषि गणना
 Agricultural classes कृषक वर्ग, खेतियार वर्ग
 Agricultural commission कृषि प्रायोग/कमीशन
 Agricultural commodities कृषि वस्तुएँ, कृषि
 पदार्थ
 Agricultural community कृषक समाज, कृषि-
 ज्ञीयो समाज
 Agricultural company कृषि कम्पनी
 Agricultural co-operation कृषि-सहकारिता
 Agricultural co-operative societies कृषि
 सहकारी समितियाँ
 Agricultural credit कृषि-साख, कृषि ऋण/उधार
 Agricultural credit corporation कृषि उधार
 निगम
 Agricultural crops कृषि फसलें
 Agricultural demonstration farms कृषि-प्रदर्शन
 फार्म
 Agricultural department कृषि विभाग
 Agricultural depression कृषि मदी
 Agricultural development कृषि विकास
 Agricultural economic research centre कृषि
 आर्थिक अनुसंधान केन्द्र
 Agricultural Economics कृषि अर्थशास्त्र
 Agricultural economist कृषि अर्थशास्त्री
 Agricultural economy कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि-
 आर्थिक व्यवस्था
 Agricultural environment कृषि पर्यावरण
 Agricultural experimental station कृषि-प्रयोग
 स्टेशन/स्थान/स्थान
 Agricultural expert कृषि विशेषज्ञ

Agricultural extension कृषि विस्तार	Agricultural market कृषि-मंडी, कृषि-बाजार
Agricultural extension project कृषि विस्तार योजना/परियोजना	Agricultural market report कृषि मंडी रिपोर्ट, कृषि विपणन-प्रतिवेदन
Agricultural extension service कृषि विस्तार सेवा	Agricultural marketable surplus कृषि विषय्य अतिरेक, विक्रीय अतिरेक
Agricultural family कृषि परिवार	Agricultural marketing कृषि विपणन, कृषि बाजार
Agricultural family holding कृषि पारिवारिक जोन	Agricultural marketing co-operative society कृषि विपणन सहकारी समिति, कृषि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, कृषि बाजार सहकारी समिति
Agricultural farming कृषि खेती	Agricultural operations कृषि मंकार्य, कृषि कार्य, कृषि क्रिया
Agricultural finance कृषि वित्त, कृषि वित्त-व्यवस्था	Agricultural parity कृषि मूल्य समता
Agricultural finance corporation कृषि वित्त निगम	Agricultural policy कृषि नीति
Agricultural holding जंत, कृषिघृत क्षेत्र, कृषि-जंत	Agricultural population कृषि जनसंख्या
Agricultural household कृषि परिवार	Agricultural practice कृषि व्यवहार
Agricultural implements कृषि औजार, कृषि उपकरण	Agricultural price index कृषि कीमत सूचकांक
Agricultural improvement कृषि सुधार	Agricultural procurement policy कृषि बसूली नीति
Agricultural income कृषि आय	Agricultural produce कृषि उपज/पंदावार
Agricultural income tax कृषि आय कर	Agricultural produce cess कृषि उत्पाद कर
Agricultural indebtedness कृषि ऋणग्रस्तता	Agricultural produce grading act कृषि-उपज श्रेणीकरण अधिनियम
Agricultural industry कृषि उद्योग	Agricultural produce (grading and marketing) act कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं विपणन) अधिनियम
Agricultural input कृषि आदान, कृषि उपस्कर	Agricultural produce market कृषि उपज बाजार, कृषि उपज विपणन
Agricultural labour कृषि श्रम, कृषि श्रमिक, कृषि मजदूर, खेतिहर मजदूर	Agricultural produce warehouse act कृषि-उत्पाद भण्डारण अधिनियम
Agricultural labour enquiry कृषि-श्रम जाँच आयोग	Agricultural product कृषि-उत्पाद, कृषि पदार्थ, कृषि उपज
Agricultural labour force कृषि श्रम शक्ति	Agricultural production कृषि उत्पादन
Agricultural labourer कृषि श्रमिक	Agricultural productivity कृषि उत्पादकता/उत्पाद-द्विगता
Agricultural labourer, landless भूमिहीन कृषि मजदूर	Agricultural profits कृषि लाभ
Agricultural land कृषि भूमि	Agricultural property कृषि परिसंपत्ति, कृषि सम्पत्ति
Agricultural lease कृषि पट्टा	Agricultural prosperity कृषि समृद्धि
Agricultural legislation कृषि विधान	
Agricultural levy कृषि कर, कृषि उद्ग्रहण	
Agricultural life कृषि जीवन	
Agricultural loans कृषि उधार	
Agricultural machinery कृषि-यन्त्र, कृषि-मशीनरी	

- Agricultural refinance corporation कृषि पुनर्वित्त निगम
- Agricultural rent कृषि लगान
- Agricultural research कृषि अनुसंधान, कृषि श्रवण
- Agricultural resources कृषि ससाधन
- Agricultural revolution कृषि क्रांति
- Agricultural sector कृषि क्षेत्र
- Agricultural serfdom कृषि दासता
- Agricultural society कृषि समिति, कृषक समाज
- Agricultural stage कृषि अवस्था
- Agricultural statistics कृषि सम्बन्धी आँकड़े, कृषि सांख्यिकी
- Agriculture कृषि, खेती-बाड़ी
- Agriculture, mechanised यांत्रिक कृषि, मशीनी कृषि
- Agriculture, mechanisation of कृषि का यन्त्रीकरण, कृषि का मशीनीकरण
- Agriculturist किसान, कृषक, कृषि-जीवी, कृषिविज्ञ
- Agro-industry कृषि-उद्योग
- Agronomy क्षय विद्या, भू-प्रबंध
- Aid सहायता, मदद, सहायक साधन
- Aid, authorisation of सहायता का प्राधिकरण
- Aid, foreign विदेशी सहायता
- Aid, gross foreign सकल विदेशी सहायता
- Aid, net foreign विमुक्त विदेशी सहायता
- Aid, non-project गैर-प्रोजेक्ट/परियोजना सहायता
- Aid, official सरकारी सहायता
- Aid, project प्रोजेक्ट सहायता, परियोजनात्मक सहायता
- Aid, tied बंधी हुई सहायता, विनिश्चित सहायता
- Aid, untied मुक्त सहायता, स्वतन्त्र सहायता, अविनिश्चित सहायता
- Aid, untied non-project गैर-प्रोजेक्ट/परियोजना स्वतन्त्र सहायता
- Aid, utilisation of सहायता का प्रयोग/उपयोग
- Aid India Club (or Consortium) भारत सहायता क्लब (या कॉन्सोर्टियम)
- Air-borne trade वायु-व्यापार, हवाई व्यापार
- Air conditioning technique वातानुकूलन तकनीक
- Air traffic हवाई यातायात
- Air transport हवाई परिवहन
- Air transport company हवाई परिवहन कंपनी
- Alien labour अन्ध देशीय श्रमिक
- Alienation of land भूमि का अन्धक्रामण
- Alienation of property सम्पत्ति का अन्धक्रामण
- Allied industry संबद्ध उद्योग
- Allied product संबद्ध उत्पाद
- Allied services संबद्ध सेवाएँ
- Allied trades council संबद्ध व्यवसाय परिषद्
- Allocation of duties शुल्क आवंटन
- Allocation of expenses परिव्यय आवंटन, व्यय आवंटन
- Allocation of quota अन्धश आवंटन, काटा आवंटन
- Allocation of resources संसाधनों का वण्टन
- Allocation of taxes कर-आवण्टन
- Allocation problem वण्टन की समस्या
- Allotment वण्टन, बाँट
- Allotment of fund निधि-वण्टन, निधि-नियतन
- Allotment of land भूमि-वण्टन
- Allotment of revenue राजस्व-वण्टन
- Allotment of shares हिस्से का वण्टन
- Allotment system वण्टन पद्धति
- Allottee वण्टित, बाँटी, बाँट पाने वाला, नियत भोगी
- Allowance भत्ता
- Allowance, capital राजधानी भत्ता
- Allowance, children सन्तान भत्ता
- Allowance, depreciation मूल्यह्रास छूट, अवधायता छूट
- Allowance, family कुटुम्ब या परिवार भत्ता
- Allowance, fatigue थकान भत्ता
- Allowance, overtime संधयोपरि-भत्ता
- Allowance, project प्रोजेक्ट-भत्ता, परियोजना भत्ता
- Allowance, regular नियमित भत्ता

Allowance, travelling यात्रा-भत्ता	Ancestral trade पैतृक व्यापार
All round economic development सर्वतोमुखी आर्थिक विकास	Ancillary occupations सहायक व्यवसाय, अनुपंगी व्यवसाय
Alternative combinations वैकल्पिक मिश्रण, वैकल्पिक संयोजन, विकल्प जोड़	Ancillary statistics सहायक आँकड़े
Alternative cost विकल्प लागत	An enquiry into the nature and causes of the wealth of nations राष्ट्रों की सम्पत्ति के कारणों तथा स्वरूप का विश्लेषण
Alternative demand वैकल्पिक माँग	Animal husbandry पशु-पालन
Alternative foregone छोड़े हुए विकल्प	Animal husbandry research institute पशु- पालन अनुसंधान संस्था
Alternative means वैकल्पिक साधन	Announced dividend घोषित लाभांश
Alternative rate विकल्प दर	Annual abstract of account वार्षिक लेखा मन्त्रिपत्र
Alternative uses वैकल्पिक प्रयोग	Annual average production वार्षिक औसत उत्पादन
Amalgamated union समामेलित संघ	Annual budget estimate वार्षिक बजट अनुमान
Amalgamation समामेलन, एकीकरण	Annual charge वार्षिक भार, वार्षिक प्रभार
Amalgamation, horizontal समस्तर समामेलन	Annual earning वार्षिक अर्जन, वार्षिक आय, वार्षिक कमाई
Amortisation ऋण-परिचोपन, ऋण-शमन	Annual equal instalments वार्षिक सम प्रभाग
Amortised loan परिचोपित ऋण, किस्त-शमनीय ऋण	Annual financial statement वार्षिक वित्त विबरण
Amount of trade व्यापार की मात्रा	Annual instalment of capital वार्षिक प्रभाग पूँजी, पूँजी की वार्षिक किस्त
Amount outstanding बकाया राशि, शेष राशि	Annual net profits वार्षिक शुद्ध लाभ
Amount overdues कालातीत राशि, बीतकाल राशि	Annual output वार्षिक प्रदा, वार्षिक उत्पाद
Amount realised प्राप्त राशि	Annual product वार्षिक उत्पाद
Amount secured प्रतिभूत राशि	Annual profit वार्षिक लाभ
Amount unpaid बकाया राशि, अनशोधित राशि	Annual rent वार्षिक भाड़ा, वार्षिक लगान, वार्षिक किराया
Analytical Economics विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र	Annual rents and profits वार्षिक भाड़ा और लाभ
Analytical statistics विश्लेषणात्मक सांख्यिकी	Annual statistics वार्षिक आँकड़े
Anarchism अराजकतावाद	Annual survey वार्षिक सर्वेक्षण
Anarchist अराजकतावादी	Annual wage plan वार्षिक मजदूरी योजना
Anarchy अराजकता	Annual wages वार्षिक मजदूरी
Anarchy in production उत्पादन में अराजकता	Annuity वार्षिकी
Ancestral debt पैतृक ऋण	Annuity, certain निश्चित वार्षिकी
Ancestral estate पैतृक सम्पदा, पूर्वपुरुषागत सम्पदा	
Ancestral land पैतृक भूमि, पुरखाश्री की भूमि	
Ancestral occupation पैतृक व्यवसाय, पुरखाश्री का रोजगार	
Ancestral profession पैतृक वृत्ति, पैतृक पेशा, पैतृक व्यवसाय	
Ancestral property पैतृक सम्पत्ति, पूर्वपुरुषागत सम्पत्ति	

Annuity, fixed निश्चित/निश्चित वार्षिकी	Anticipation market मण्डी सम्बन्धी पूर्वानुमान, बाजार पूर्वानुमान
Annuity bond वार्षिकी बाड, वार्षिकी ऋण-पत्र	Anticipation survey प्रत्याशा सर्वेक्षण
Annuity certificate वार्षिकी पत्र	Anticipatory purchase प्रत्याशी क्रय, प्रत्याशी खरीद
Annuity fund वार्षिकी निधि	Anti-corn laws धान्य-विरोध अधिनियम
Annuity guaranteed for life or a given period आजीवन या निर्धारित काल के लिए गारण्टीकृत वार्षिकी	Anti-cyclical policy चक्र-विरोधी नीति
Annuity policy वार्षिकी नीति	Anti-dumping प्रति-राशिपातन, प्रति-पाटन, राशि-पातन विरोधी
Annuity system वार्षिकी पद्धति	Anti-dumping duty प्रति-राशिपातन शुल्क, प्रतिपाटन कर
Annulment of settlement भूस्वत्वस्था का अभि-सूत्यन	Anti-dumping legislation प्रतिपाटन विधान, प्रति-राशिपातन विधान, राशिपातन विरोध विधान
Ante-dated cheque पूर्व दिनांकित चेक	Anti-dumping policy राशिपातन विरोध नीति
Anticipated abatement policy प्रत्याशित छूट पालिसी, पूर्वधारित छूट नीति	Anti-dumping tariff प्रतिपाटन टैरिफ/प्रशुल्क
Anticipated cost प्रत्याशित लागत, पूर्वधारित लागत	Anti-inflationary स्फीति विरोधी
Anticipated demand प्रत्याशित मांग	Anti-inflationary measures स्फीति विरोधी/निवारक उपाय
Anticipated employment प्रत्याशित रोजगार, पूर्वधारित रोजगार	Anti-inflationary policy स्फीतिरोधी नीति, स्फीतिविरोधी नीति
Anticipated expenditure प्रत्याशित व्यय, पूर्व-धारित व्यय	Anti-inflationary shafts मुद्रा-स्फीति-विरोधी बाण
Anticipated flight of capital पूँजी का पूर्व-धारित बहिर्गमन/पलायन	Anti-labour legislation श्रमिक विरोधी विधान
Anticipated increase in income आय में पूर्व-धारित वृद्धि	Anti-monopoly legislation एकाधिकार-विरोधी विधान
Anticipated prices प्रत्याशित कीमतें, पूर्वधारित कीमतें	Anti-recession policy मन्दी विरोधी नीति
Anticipated production पूर्वधारित उत्पादन, प्रत्याशित उत्पादन	Anti-social activities समाजद्रोही क्रियाएँ, समाज-विरोधी कार्य
Anticipated profits पूर्वधारित लाभ, प्रत्याशित लाभ	Anti-trust laws स्वतन्त्र-विरोधी विधान, प्रत्यास विरोध अधिनियम
Anticipated revenue पूर्वधारित आगम, प्रत्याशित आगम	Apex bank शीर्ष बैंक
Anticipated sales पूर्वधारित बिक्रय	Appendage of British colonialism ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उपांग या परिशिष्ट
Anticipated savings पूर्वधारित बचत	Applied Economics व्यावहारिक अर्थशास्त्र
Anticipation प्रत्याशा, पूर्वानुमान	Applied economic research व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान
Anticipation data प्रत्याशा सामग्री, प्रत्याशा माँकड़ा	Applied statistics व्यावहारिक सांख्यिकी
	Appointing authority नियोजक प्राधिकार
	Appreciation अधिसूत्यन

- Appreciation of cost लागन-वृद्धि
 Appreciation of money मुद्रा-मूल्यवृद्धि
 Appreciation of stock स्टॉक की मूल्य-वृद्धि
 Appropriation account विनियोजन लेखा
 Appropriation bill विनियोग विधेयक
 Appropriation of funds निधि का विनियोजन
 Appropriator विनियोजक
 Approved security अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
 Approximate cost लगभग लागत
 Approximate value लगभग मूल्य
 A priori argument नियम्य तर्क
 Arable कृष्य, कृषि योग्य
 Arable farm कृष्य फार्म
 Arable land कृष्य भूमि
 Arbitrage अन्तरपणन, मूल्यान्तर लाभार्थ क्रय-विक्रय
 Arbitrage, direct प्रत्यक्ष अन्तरपणन
 Arbitrage, simple सरल मूल्यान्तर लाभार्थ क्रय-विक्रय
 Arbitrage dealings मूल्यान्तर लाभार्थ क्रय-विक्रय
 Arbitrage operation अन्तरपणन प्रक्रिया
 Arbitration विवाचन, मध्यस्थ निर्णय, पचनिर्णय
 Arbitration, compulsory अनिवार्य विवाचन
 Arbitration, voluntary स्वैच्छिक विवाचन
 Arbitration act विवाचन अधिनियम
 Arbitration board विवाचन मंडल या बोर्ड
 Arbitration committee विवाचन समिति
 Arbitrator विवाचक, मध्यस्थ
 Arbitrator, award of विवाचक-निर्णय, मध्यस्थ निर्णय
 Area sown बीया गया क्षेत्र
 Area under crops फसल आधीन क्षेत्र
 Area under cultivation कृषिगत क्षेत्र, जोता जाने वाला क्षेत्र
 Area under forests वनों से घिरा क्षेत्र, वनाच्छादित क्षेत्र, वनगत क्षेत्र
 Area under irrigation सिंचाई आधीन क्षेत्र
 Aristocracy अभिजात-तन्त्र
 Arithmetic progression अंकगणित-वृद्धि, नमानान्तर श्रेणी
 Arms and ammunitions सन्त्रास्त्र और स्फोटाम्त्र
 Arrange payment भुगतान हेतु राशि प्रबंधन, भुगतान व्यवस्था
 Arrear अग्रशिष्ट राशि, बकाया राशि
 Arrear account अग्रशिष्ट लेखा, बकाया लेखा
 Arrear bill अग्रशिष्ट देयक, बकाया बिल
 Arrear collection अग्रशिष्ट संग्रहण या वसूली
 Arrear due प्राप्य अग्रशिष्ट
 Arrear of land revenue अग्रशिष्ट भू-राजस्व
 Arrear of rent बकाया लगान
 Arrear of work अग्रशिष्ट काम, बकाया काम
 Arrear payable अग्रशिष्ट देय राशि
 Articles of association संस्था की संतनियमावली
 Articles of comfort सुख सामग्री
 Articles of luxury वैभव की वस्तुएँ, वैभव-सामग्री
 Articles of merchandise वाणिज्य वस्तुएँ
 Articles of partnership साझेदारी नियमावली, भागिना लेख
 Artificial fertiliser कृत्रिम उर्वरक
 Artificial insemination centre कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, कृत्रिम रेनोधान केन्द्र, बीजारोपण, बोवाई
 Artificial irrigation कृत्रिम सिंचाई
 Artificial manure कृत्रिम खाद
 Artificial scarcity कृत्रिम न्यूनता, कृत्रिम दुष्प्राप्त्यता, कृत्रिम दुर्लभता
 Artisan गिल्फी, कारीगर
 Artisan union गिल्पकार सघ
 Assess निर्धारण, कर-निर्धारण
 Assessable कर-निर्धारण योग्य
 Assessable area निर्धार्य क्षेत्र
 Assessable income कर-निर्धार्य आय
 Assessable tax निर्धार्य कर
 Assessed निर्धारित कर
 Assessed area कर-निर्धारित क्षेत्र
 Assessed assets कर-निर्धारित परिसंपत्ति
 Assessed income कर-निर्धारित आय
 Assessed rent कर-निर्धारित लगान

Assessed tax निर्धारित कर
 Assessed value of property सम्पत्ति का कर-
 निर्धारित मूल्य
 Assessee कर-दाता, निर्धारित
 Assessment, कर-निर्धारण, शुल्क-निर्धारण
 Assessment, cess उपकर निर्धारण
 Assessment, custom सीमा-शुल्क-निर्धारण
 Assessment, duty शुल्क-निर्धारण
 Assessment, excise उत्पादन शुल्क निर्धारण
 Assessment, impost द्राघात कर निर्धारण
 Assessment, levy उद्ग्रहण निर्धारण
 Assessment, octroi बुँगी निर्धारण
 Assessment, over अधि-निर्धारण
 Assessment, tariff प्रदुलक निर्धारण
 Assessment of balances अधिशेष निर्धारण
 Assessment of compensation प्रतिकर निर्धारण
 Assessment of land revenue भू-राजस्व
 निर्धारण
 Assessment of water rates जल-कर निर्धारण
 Assessment year कर-निर्धारण वर्ष
 Assessor कर-निर्धारक
 Assets परिसम्पत्
 Assets, available उपलब्ध परिसम्पत्
 Assets, capital पूँजी परिसम्पत्
 Assets, circulating चल परिसम्पत्
 Assets, fixed अचल परिसम्पत्, स्थायी परिसम्पत्
 Assets, floating चल परिसम्पत्
 Assets, foreign विदेशी परिसम्पत्
 Assets, frozen अदृढ परिसम्पत्
 Assets, income earning आय अर्जनकारी
 परिसम्पत्
 Assets, intangible अमूर्तिक परिसम्पत्
 Assets, liquid तरल परिसम्पत्
 Assets, non-banking बैंक-भिन्न परिसम्पत्
 Assets and liabilities परिसम्पत् और दायित्व
 Asset structure परिसम्पत् संरचना
 Association of attributes गुण-सम्बन्ध
 Asymmetrical distribution असमिन्न वितरण,

विषय वृष्टन
 Asymmetry in laws of returns प्रत्याय निदमों
 की असमिति
 Atomistic assumptions—परमाणुवादिय
 कल्पनाएँ—यह धार्मिक परिवर्तनों की कल्पना
 रीनर क्रिश्च की है। इसके अन्तर्गत प्रसीमित गति
 में होने वाले परिवर्तनों की परिस्थिति में विभिन्न
 पल-विशेष की परिस्थितियों का विश्लेषण किया
 जाता है।
 Atomistic economy—स्वतन्त्र सधु एकक अर्थ-
 व्यवस्था—ऐसी अर्थव्यवस्था में अनेक छोटे-छोटे
 स्वतन्त्र उत्पादन उद्योग में एक-दूसरे के साथ
 प्रतिযোগिता करते हैं। ऐसे उद्योग में शुद्ध प्रति-
 योगिता की स्थिति पामी जाती है। प्रत्येक उत्पा-
 दक उद्योग के कुल उत्पादन का नगण्य भाग उत्पन्न
 करता है और इस कारण वह बाजार कीमत को
 स्वीकार करता हुआ अपने उत्पादन को उसके
 अनुकूल बनाता है। अतः कोई भी विक्रेता अपने
 व्यक्तिगत कार्य से बाजार कीमत को प्रभावित नहीं
 कर सकता। उत्पादन इकाइयों की संख्या अत्य-
 धिक होने के कारण उनमें उत्पादन को सीमित
 करने के लिए कोई गठजोड़ नहीं होता।
 At par सम-मूल्य पर
 Attached sinking fund सम्बन्धित श्रृण-निवारण
 विधि
 Attachment of salaries वेतन-ग्रन्थाग्रहण
 Augment resources संसाधन आवर्धन/बढ़ाना
 Austerity मितोपभोग
 Austerity measures मितोपभोग उपाय
 Austerity rationing मितोपभोग राशन-व्यवस्था
 Autarchy स्वनिर्भरता, प्राप्तनिर्भरता, आर्थिक
 स्वतन्त्रता—किसी राष्ट्र या समुदाय द्वारा आर्थिक
 प्राप्त-निर्भरता प्राप्त करना। राष्ट्रीय स्वनिर्भरता
 की नीति के अधीन राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर
 नियन्त्रण लगाती हैं ताकि अपने देश को विश्व के
 अन्य देशों से आर्थिक रूप में पृथक रख सकें। इन
 नियन्त्रणों में विदेशी व्यापार पर विशेषकर आयात

और पूर्णों के बहिर्गमन पर अनुसूच, विदेशी मुद्रा नियंत्रण आदि शामिल किये जाते हैं। इसके प्रतिरिक्त देशीय उत्पादन का प्रायोजन इस प्रकार से किया जाता है कि अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं देश में ही उपलब्ध हो सकें। इस नीति को अपनी नीति का मूल कारण राजनीतिक होता है, न कि आर्थिक। कई बार राष्ट्रीय को अपनी सैनिक सुरक्षा के लिए भी यह नीति अपनायी पड़ती है। सोवियन रूस को क्रांति के आरम्भिक वर्षों में इस नीति को अपनाया पड़ा। फासिस्ट जर्मनी ने भी इस नीति को अपनाया।

Authoritarianism प्राधिकारवाद

Authorised expenditure प्राधिकृत व्यय

Authorised grant प्राधिकृत अनुदान

Automatic stabiliser स्वचालित स्थायी कारक/
स्थिरक

Automation स्वचलन

Autonomous borrowing स्वतंत्र उधार, स्वायत्त
उधार

Autonomous exports स्वतंत्र निर्यात, स्वायत्त
निर्यात

Autonomous investment स्वतंत्र विनियोग

Autonomous tariff system स्वायत्त टैरिफ
प्रणाली

Autonomous variable स्वतंत्र चल

Auxiliary capital सहायक पूँजी

Auxiliary industries सहायक उद्योग

Average annual cost औसत वार्षिक लागत

Average annual depreciation औसत वार्षिक
मूल्यह्रास

Average consumer औसत उपभोक्ता

Average cost औसत लागत, प्रति इकाई लागत

Average cultivator सामान्य कृषक

Average family holding औसत पारिवारिक जोत

Average fixed cost औसत स्थिर लागत

Average net profits औसत शुद्ध लाभ

Average price औसत कीमत

Average productivity औसत उत्पादितता

Average propensity to consume औसत
उपभोग प्रवृत्ति

Average purchase price औसत क्रय-कीमत

Average rate of return औसत प्रत्याप-दर

Average revenue औसत भागम/भाप

Average variable cost औसत परिवर्ती लागत

Average yield औसत प्राप्ति, औसत उत्पाद, औसत
उत्पत्ति

Avocation उप-व्यवसाय, सहायक व्यवसाय

Avoidance of wasteful expenditure व्यर्थ व्यय
का परिहार

Award पत्र निर्णय, अवार्ड

Axiomatic economic law स्वयंसिद्ध आर्थिक नियम

B

Backing समर्थन, प्रतिभूति

Backing, cent per cent दत्त प्रतिशत समर्थन

Backlog of unemployed persons प्रवशिष्ट
बेरोजगार व्यक्ति

Backward पिछड़ा हुआ

Backward area पिछड़ा हुआ प्रदेश

Backward areas welfare scheme पिछड़े प्रदेशों
के कल्याण की योजना

Backwardation बढ़ता-खर्च, विपत्ति—किसी
सट्टेबाज द्वारा हिस्सा-बाजार में दिया जाने वाला
वह मुग्तान जो कि उसे क्रेता को निश्चित तिथि
पर माल न पहुँचाने के लिए देना पड़ता है अर्थात्
माल देर से पहुँचाने के कारण विक्रेता द्वारा दी
जाने वाली राशि।

Backward balancing विमुखी संतुलन

Backward classes पिछड़े वर्ग

Backward classes welfare scheme पिछड़े वर्गों
के कल्याण की योजना

Backward country पिछड़ा हुआ देश

Backward economy पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था

Backward integration पश्च एकीकरण—
किसी व्यापार का इस प्रकार विस्तार करना कि
इसे अच्छा माल पुरित करने वाली फर्मों भी एक
ही स्वामित्व में आ जाएँ।

Backward linkage प्रतिपामी सम्बन्ध
 Backward region पिछड़ा हुआ क्षेत्र
 Backward shifting विमुखी अन्तरण
 Backwardness of techniques तकनीकी पिछड़ापन
Backwash effect प्रत्यस्त प्रभाव, प्रतिपादन
 प्रभाव—किसी अल्पविकसित देश में निर्यात व्यापार पर अत्यधिक बल देने के कारण (विशेषकर केवल कच्चे माल के निर्यात पर) देश के विनिर्माण उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रोद्योगीकरण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को प्रत्यस्त प्रभाव कहते हैं। कई अर्थशास्त्रियों का मत है कि प्रत्यस्त प्रभाव प्रसार प्रभाव की तुलना में अधिक होता है और परिणामतः यह अल्पविकसित देशों में प्रोद्योगीकरण की क्रिया पर मन्द प्रभाव डालता है। इस कारण विकसित और अल्पविकसित देशों के बीच उत्पादित के अन्तर और भी बढ़ जाते हैं।
 Bad coin खोटा सिक्का, निकुट सिक्का
 Bad debt अप्राप्य ऋण, प्रशोष्य ऋण
 Bad money निकुट मुद्रा
 Balance संतुलन, शेष
 Balance, active सक्रिय शेष
 Balance, automatic स्वतः संतुलन
 Balance budgetary वजतीय शेष/संतुलन
 Balance, compensating (or compensatory) प्रतिपूरक संतुलन
 Balance, opening and closing आरम्भिक तथा अन्तिम शेष
 Balance, passive निष्क्रिय शेष
 Balance at the close of the year वर्ष के अन्त में शेष
 Balance available प्राप्य शेष
 Balanced and co-ordinated development संतुलित एवं समन्वित विकास
 Balanced budget संतुलित बजट
 Balanced development संतुलित विकास
 Balanced diet संतुलित आहार या भोजन
 Balanced growth संतुलित विकास
 Balanced regional development (or growth)

संतुलित क्षेत्रीय विकास
 Balance in hand नकद शेष, हस्तगत शेष
 Balance of assets and liabilities सम्पत्ति तथा देयताओं का शेष
 Balance of international indebtedness अन्तर्राष्ट्रीय ऋण शेष
 Balance of payments भुगतान-शेष
 Balance of payments, active सक्रिय भुगतान-शेष
 Balance of payments, adverse प्रतिकूल भुगतान-शेष
 Balance of payments, favourable अनुकूल भुगतान-शेष
 Balance of payments, passive निष्क्रिय भुगतान-शेष
 Balance of payments, unfavourable प्रतिकूल भुगतान-शेष
 Balance of payments on capital account पूंजी लेखे पर भुगतान-शेष
 Balance of payment on current account चालू लेखे पर भुगतान-शेष
 Balance of payments on income accounts आय लेखे पर भुगतान-शेष
 Balance of trade व्यापार-शेष
 Balance of trade, active अनुकूल व्यापार-शेष
 Balance of trade, adverse प्रतिकूल व्यापार-शेष
 Balance of trade, favourable अनुकूल व्यापार-शेष
 Balance of trade, passive निष्क्रिय व्यापार-शेष
 Balance of trade, unfavourable प्रतिकूल व्यापार-शेष
 Balance on account समायोजन लेखा
 Balance on income account आय लेखा-शेष
 Balance sheet तुलन-पत्र
 Balance sheet always balances "तुलन-पत्र सदा संतुलन में रहता है"
 Balance sheet of a bank बैंक का तुलन-पत्र
 Balance sheet of national capital राष्ट्रीय

पूँजी का तुलन-पत्र

Bancor वाकोर—1944 में ब्रटेन युद्ध में हुए सम्मेलन में ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डल के नेता लॉर्ड केन्स ने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहकारिता के लिए एक योजना बनायी। इसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा चालू करने का भी सुझाव दिया। इस अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की इकाई का नाम वाकोर (Bancor) प्रस्तावित किया गया था।

Bank बैंक

Bank, agricultural कृषि बैंक

Bank, central केन्द्रीय बैंक

Bank, clearing समाशोधन बैंक

Bank, commercial वाणिज्य बैंक

Bank, co-operative सहकारी बैंक

Bank, exchange विदेशी मुद्रा बैंक

Bank, foreign विदेशी बैंक

Bank, industrial औद्योगिक बैंक

Bank, investment निवेश बैंक, विनियोग बैंक

Bank, joint-stock मिश्रित पूँजी बैंक, संयुक्त पूँजी बैंक

Bank, land mortgage भूमिबधक बैंक

Bank, member सदस्य बैंक

Bank, non-scheduled अनुसूचित बैंक

Bank, people's जनता बैंक

Bank, saving बचत बैंक

Bank, scheduled अनुसूचित बैंक

Bank, subsidiary अनुपगी बैंक

Bank account बैंक लेखा, बैंक खाता

Bank balance बैंक-दोष, खाने में राशि

Bank bill बैंक-पत्र

Bank charges बैंक-प्रभार

Bank clearings बैंक समाशोधन

Bank commission बैंक कमीशन

Bank credit बैंक साध, बैंक उधार

Bank deposit बैंक जमा

Bank discount बैंक बट्टा

Bank disputes tribunal बैंक-विवाद न्यायाधिकरण

Bank draft बैंक ड्राफ्ट

Bank failures बैंकों का दिवाल्ला, बैंक फेल होना, बैंक विफलता

Bank for international settlements अन्तर्राष्ट्रीय परिशोधन बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान बैंक

Bank money बैंक-मुद्रा

Bank note बैंक नोट

Bank notes in circulation परिचलन में बैंक नोट

Bank of issue नोट प्रचालन बैंक

Bank overdraft बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविर्षण

यह बैंको द्वारा उधार देने का एक ढंग है जिसमें किसी जमाकर्ता को उसकी कुल जमा राशि से अधिक माना के लिए बैंक लिखने की अनुमति दे दी जाती है। अतिरिक्त राशि पर बैंक द्वारा प्रति दिन के हिसाब से व्याज वसूल किया जाता है।

Bank pay order बैंक भ्रदायगी भ्रादेश

Bank rate बैंक-दर

Bank rate of discount केन्द्रीय बैंक की बट्टा-दर

Bank rate policy बैंक-दर नीति, केन्द्रीय बैंक-दर नीति

Bank reserve बैंक आरक्षण निधि, बैंक रिजर्व

Bankable bill सुविनियम विल/पत्र

Banker बैंकर, महाजन

Banker's bank बैंकों का बैंक, केन्द्रीय बैंक

Banking बैंक व्यापार, बैंक कार्य, बैंकिंग

Banking, branch शाखा बैंकिंग व्यवस्था

Banking, central केन्द्रीय बैंकिंग

Banking, chain शृंखला बैंकिंग, बैंक-शृंखला

Banking, unit इकाई बैंकिंग व्यवस्था

Banking company बैंकिंग कम्पनी

Banking companies act बैंकिंग कम्पनी अधिनियम

Banking crisis बैंक संकट

Banking currency बैंक करेन्सी, बैंक नोट

Banking department बैंक विभाग

Banking development बैंकिंग विकास

Banking facilities बैंक सुविधाएँ

Banking firm बैंकिंग फर्म

Banking habits बैंक आदतें

Banking money बैंक मुद्रा
 Banking operations बैंक कार्य, बैंक क्रियाएँ
 Banking principles बैंक सिद्धान्त
 Banking school बैंकिंग विचारधारा
 Banking system बैंक-व्यवस्था
 Banking system, indigenous देशी बैंकिंग प्रणाली,
 सहकारी
 Banking union बैंक संघ
 Bankruptcy दिवालियापन
 Bank's financial position बैंक की वित्तीय स्थिति
 Banks, nationalisation of बैंकों का राष्ट्रीयकरण
 Banks, social control of बैंकों का सामाजिक
 नियन्त्रण
 Banks, socialisation of बैंकों का समाजीकरण
 Bargain सौदा
 Bargaining capacity सौदा क्षमता
 Bargaining power सौदा शक्ति
 Bargaining strength सौदा शक्ति
 Bargain sale सस्ती बिक्री
 Barter वस्तु-विनिमय
 Barter system वस्तु-विनिमय प्रणाली
 Barter terms of trade व्यापार का वस्तु-विनिमय
 निबन्धन
 Barter trade वस्तु-विनिमय व्यापार
 Barter trade agreement वस्तु-विनिमय संधि/
 समझौता
 Base coin बुनियादी टंक, हीन-मूल्य सिक्का
 Base year आधार वर्ष
 Basic cost मूल लागत
 Basic determinant आधार कारक
 Basic industries आधारभूत उद्योग, गुनिमादी
 उद्योग, मूल उद्योग
 Basic minimum आधारभूत न्यूनतम आय
 Basing point system आधार-स्वतंत्र प्रणाली—
 किसी बिन्दुता द्वारा किसी एक स्थान 'आधार-
 स्वतंत्र' का चुनाव करके सभी क्रेताओं के लिए
 उसी स्थान से माफ़े का परिचलन करना, चाहे
 माल कहीं से भी भेजा जाए। उदाहरणार्थ, यदि

किसी विक्रेता का एक कारखाना बम्बई में हो
 और दूसरा अहमदाबाद में और वह बम्बई को
 आधार-स्वतंत्र निर्दिष्ट कर दे, तो सभी क्रेताओं को
 इस फर्म से खरीदे गए माल पर बम्बई से ही
 माफ़ा देना पड़ेगा, भले ही तुलनात्मक दृष्टि से
 क्रेता अहमदाबाद के नजदीक स्थित हो।

Basis for calculation गणन आधार, परिकलन
 आधार

Dear मूल्यपाती

Bearish market मूल्यपाती बाजार

Bearish trend मूल्यपाती प्रवृत्ति

"Beggars thy neighbour" policy "अपने
 पड़ोसी को निर्धन करो" ढंग—जय प्रत्येक
 व्यक्ति बेचना चाहता हो और कोई भी खरीदना
 न चाहे और जब प्रतिभूतियों एवं वस्तुओं की
 कीमतें बढ़े वेग से "अपने पड़ोसी को निर्धन करो"
 ढंग से घटने की प्रवृत्ति रहती है।

Below par अवमूल्य पर

Bonami loan बेनामी ऋण

Bonami transaction बेनामी सौदा

Benchmark वास्तविक गणना—किसी समय-
 विधेय पर आर्थिक सामग्री को वास्तविक रूप में
 मापना ताकि इसका प्रयोग वास्तविक जीवन में
 अनुमान तैयार करने के लिए किया जा सके।
 उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय प्राय समिति ने यह सुझाव
 दिया कि देश में उपलब्ध कृषि-योग्य भूमि की
 वास्तविक गणना अर्थात् तल-चिह्न गणना की
 जाए ताकि इसके आधार पर ऐती-आयोजन के
 लिए आधार सामग्री मिल सके।

Benchmark census वास्तविक गणना, तल-चिह्न
 गणना, पीठ-चिह्न गणना

Beneficiary हितार्थिकारी, हितप्राप्ति, उपकृत

Benefits as of rights अधिकार स्वरूप लाभ/मत्ता

Benefits of co-operation सहकारिता के लाभ

Benefit theory of taxation हितधारण करधान
 सिद्धान्त, करधान का उपकार सिद्धान्त

Benelux बनीलक्स—यह आधुनिक संघ 1948 में
 बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग द्वारा कायम

विया गया। इस प्राशुल्क सघ का उद्देश्य राजनीतिक, वित्तीय और सामाजिक समस्याओं में पूर्ण रूप से आर्थिक एक्साएक् समन्वय प्राप्त करना था। इसके प्राचीन इन देशों में आपसी आयात-निर्यात शुल्क हटा दिए परन्तु सभी अन्य देशों के लिए सामा शुल्क लगाया। यूरोपीय सामा बाजार कायम होने से इसका महत्व बहुत कम हो गया है।

Better farming society उन्नत खेती समिति,

खेती उन्नयन समिति, कृषिबहिनी समिति

Better living standard उन्नत जीवन-स्तर

Betterment fund समुन्नति निधि

Betterment levy समुन्नति कर

Big push theory of balanced growth संतुलित विकास का प्रबल प्रयास सिद्धांत

Bilateral account द्विपक्षीय लेखा

Bilateral account countries द्विपक्षीय लेखा देश

Bilateral monopoly द्विपक्षीय एकाधिकार

Bilateral trade द्विपक्षीय व्यापार, द्विपार्श्व व्यापार

Bilateral trade agreement द्विपक्षीय व्यापार संधि, द्विपार्श्व व्यापार संधि

Bilateral treaty द्विपक्षीय संधि

Bilateralism द्विपक्षवाद, द्विपार्श्ववाद

Bill market विनिमय-पत्र बाजार

Bill market scheme विनिमय-पत्र बाजार योजना

Bill of exchange विनिमय-पत्र, हुण्डी

Bill of exchange, demand दर्शनी हुण्डी

Bill of exchange, foreign विदेशी विनिमय-पत्र

Bill for collection उगाही बिल

Bimetallism द्विधातुवाद

Birth control संतति निरोध

Birth control measures संतति निरोध उपाय/प्रयत्न

Birth rate जन्म-दर

Birth rate, standardised मानकीकृत जन्म-दर

Bi-sectoral द्वि-क्षेत्रीय

Black leg हडताल भेदी, हडताल तोड़ने वाला

Black market चोर बाजार, काला बाजार

Black marketing चोर बाजारी, घूसखोरी

Black money छिपा धन, काला धन

Blanket insurance rates व्यापक बीमा दर

Blanket rates सीधी दरें, साविक दरें

Block development officer (B. D. O) प्रखंड विकास अधिकारी (प्र० वि० अ०)

Blocked account निरुद्ध लेखा, प्रवरुद्ध लेखा

Blocked asset प्रवरुद्ध परिसम्पत्

Blocked balance प्रवरुद्ध प्रतिरक, प्रवरुद्ध शेष

—आयात किये गए माल के बदले में अपने ऋण-दाताओं को माल मगवाने के लिए विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाना। उदाहरणार्थ, द्वितीय विश्वयुद्ध में इंग्लैण्ड भारत से माल मगवाता रहा और भारतीय निर्यात का मूल्य खाते में जमा करता रहा और जब भारत ने युद्ध के पश्चात् अपने खाते में जमा हुए स्टर्लिंग अधिशेष (Sterling Balances) के विरुद्ध माल मगवाने का अनुरोध किया, तो इंग्लैण्ड ने इसे प्रवरुद्ध लेखा घोषित कर दिया और 1945 के पश्चात् भारत को इस खाते में से धीरे-धीरे माल मंगवाने की इजाजत दी। इसका मूल कारण यह था कि स्टर्लिंग अधिशेष की मात्रा इतनी अधिक थी कि इंग्लैण्ड उसे एक दम वापिस लौटाने में असमर्थ था। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार इसे लौटाने की योजना बनायी। इसके विरुद्ध 1931 में जर्मनी ने स्वर्णमान छोड़ने के पश्चात् विदेशी मुद्रा नियंत्रण लागू किया और सभी विदेशी व्यापारियों को देय-भुगतान को प्रवरुद्ध खाते में डाल दिया। बाद में, इस खाते में से विदेशी व्यापारियों को प्रतिफल विनिमय दर पर माल खरीदने के लिए मजबूर किया। इस नीति द्वारा अन्य सरकारी ने भी जर्मनी के विरुद्ध प्रतिरोधक कार्यवाही की।

Blocked capital प्रवरुद्ध पूंजी

Blocking price कीमत प्रवरुद्ध करना

Board of directors संचालक मंडल, संचालक समिति, निदेशक मंडल

Board of governors शासक मंडल, अभिशासक मंडल

Board of industries उद्योग मंडल
 Board of management प्रबंध मंडल
 Board of public investment सार्वजनिक निवेश मंडल
 Board of trade व्यापार-बोर्ड, व्यापार-मंडल
 Bolshevism बोलशेविकवाद

Bombay plan बम्बई योजना—स्वतंत्रता-पूर्व काल में ग्राठ उद्योगपतियों द्वारा यह योजना भारत के विकास के लिए बनायी गयी। इसका उद्देश्य पन्द्रह वर्षों में कृषि-उत्पादन को दो गुणा बढ़ा कर और औद्योगिक उत्पादन को पांच गुणा बढ़ा कर प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था। इस योजना में मुख्य बल बड़े पैमाने के उत्पादन को बढ़ा कर औद्योगीकरण को त्वरित करने पर था चाहे कुटीर और सघु-उद्योगों की उपेक्षा न करने का सुझाव दिया गया।

Bond बन्ध, ऋण-पत्र, बाँड
 Bond, convertible परिवर्तनीय बाँड
 Bond, gold स्वर्ण बाँड
 Bond, irredeemable प्रनुद्धाय बाँड—जिनके बदले में सरकार मुद्रा देने का उत्तरदायित्व नहीं लेती
 Bond, gilt-edged उत्तम श्रेणी के बाँड
 Bond, guaranteed प्रतिभूत बाँड, गारंटी प्राप्त बाँड
 Bond, perpetual निरन्तर बाँड
 Bond, prize इनामी बाँड
 Bond, redeemable उद्धाय बाँड
 Bond holder बंध-धारी, ऋण-पत्र धारी
 Bond market ऋण-पत्र बाजार
 Bonded debt बंध-ऋण, बंध निहित ऋण
 Bonded property बंध-ग्रस्त सम्पत्ति, बंधक सम्पत्ति
 Bonus बोनस
 Bonus, cash नकद बोनस
 Bonus, contingent प्रासंगिक बोनस
 Bonus, deferred आस्थगित बोनस
 Bonus, shares बोनस हिस्से
 Bonus certificate बोनस प्रमाण-पत्र
 Bonus wage system बोनस मजदूरी प्रणाली
 Book-Keeping बहीखाता

Book-value बही खाता मूल्य—किसी कम्पनी के लेखा-रिकार्ड के आधार पर मूल्य। इसके परिकलन के लिए परिसंपत्त में से कुल ऋण को घटाना पड़ता है। कुल बही खाता मूल्य को शुद्ध परिसंपत्त भी कहते हैं। उदाहरणार्थ, किसी फर्म की कुल परिसंपत्त 10,00,000 रुपये है और उसके कुल ऋण 1,00,000 रुपये के बराबर हैं, तो उसका कुल बहीखाता मूल्य 9,00,000 रुपये हुआ। यदि फर्म के 20,000 बाकी हिस्से हों, तो प्रति हिस्सा बही खाता मूल्य 45 रुपये हुआ। हिस्सों का बही खाता मूल्य बाजार मूल्य से भिन्न होता है।

Boom तेजी
 Boom period तेजी काल
 Boorish proletariat असभ्य श्रमिक वर्ग
 Borrower ऋणी, उधार लेने वाला
 Borrower country ऋणी देश, उधार लेने वाला देश
 Borrowing उधार
 Borrowing, inter-governmental अन्त. सरकारी उधार, अन्त. शासकीय ऋण
 Borrowing, public सार्वजनिक उधार, सरकारी उधार
 Borrowing power उधार प्रहण शक्ति, उधार लेने की शक्ति
 Bootstraps approach to development स्वसिद्ध विकास पद्धति
 Bound asset समवस्त्र परिसंपत्त
 Bounty अधिदान, निर्यात-न्यायि
 Bourgeoisie पूँजीजीवी वर्ग, बूर्जुआ वर्ग—उच्च-मध्यम वर्ग जिसमें व्यावसायिक व्यक्ति एवं व्यापारी शामिल होते हैं। यह वर्ग मध्य-काल में एक प्रभावी वर्ग के रूप में विरासित हुआ और औद्योगिक क्रांति के काल तक सार्वजनिक जीवन एवं व्यापार में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर गया। इसके पश्चात् आधुनिक समाज में इसका महत्त्व बढ़ता ही गया है। समाजवादियों एवं साम्यवादियों द्वारा इस शब्द का प्रयोग किसी भी महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति-वादी वर्ग के लिए किया जाता है।
 Bourgeois society पूँजीजीवी समाज, बूर्जुआ समाज
 Bovine cattle गोजातीय पशु

Boycott बहिष्कार, बायकॉट
 Brain-drain योग्यता बहिर्प्रवास, कौशल निकास
 Brain worker बुद्धिजीवी
 Brassage दलाई, दलाई-ब्यय
 Brazen law of wages निर्वाह-मजदूरी सिद्धान्त
 Breach of contract सविदा-भंग
 Bread-and-Butter science रोटी-दुकड़े का विज्ञान, आटे-दाल का विज्ञान
 Bread winner परिवार पालक, कुटुम्ब पालक
Break-even point 'लाम-अलाम प्रतिच्छेद बिन्दु— इसका अर्थ विक्रय की उस मात्रा से है जिस पर किसी फर्म को न लाभ होता है और न हानि। यदि फर्म इस मात्रा से अधिक उत्पादन करती है, तो इसे लाभ होता है और इस मात्रा से कम उत्पादन करने पर हानि। अतः लाभ-अलाम प्रतिच्छेद बिन्दु का प्रयोग किसी फर्म के उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर सगभय लाभ या हानि की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
 Bring into cultivation कृषिगत करना, हल के नीचे लाना
 Brokerage दलाली
 Budget बजट
 Budget, balanced संतुलित बजट
 Budget, compensatory policy क्षतिपूर्क बजट नीति
 Budget, deficit घाटे का बजट
 Budget, expenditure and revenue व्यय एवं आगम बजट
 Budget, financial वित्तीय बजट
 Budget, managed policy व्यवस्थित बजट नीति
 Budget, performance निष्पादन बजट
 Budget, revised संशोधित बजट
 Budget, supplementary अनुपूरक बजट
 Budget, surplus प्रतिरेक बजट
 Budget, unbalanced असंतुलित बजट
 Budget allotment बजट वण्टन, प्राय-व्ययक वण्टन
 Budget appropriation बजट विनियोजन, प्राय-व्ययक विनियोजन

Budget division बजट प्रभाग
 Budget estimates बजट अनुमान
 Budget grants बजट अनुदान
 Budget policy बजट नीति
 Budget provisions बजट व्यवस्था
 Budget session बजट सत्र, बजट अधिवेशन
 Budget year बजट वर्ष
 Budgetary control बजट नियंत्रण
 Budgetary deficit बजट घाटा
 Budgetary policy बजट नीति
 Budgetary position बजट स्थिति
 Budgetary surplus बजट अधिशेष
 Budgeting बजट बनाना, बजट-निर्माण
 Budgeting for deficit घाटे वाली बजट नीति
 Budgeting process बजट-प्रक्रिया
 Buffer assets बफर परिसंपत्, प्रत्यारोध परिसंपत्
Buffer stocks बफर स्टॉक—ऐसे स्टॉक जो पूरित के उच्चावचन के कारण कीमतों में घट-बढ़ को रोकने के लिए एकत्र किए गए हों। ये स्टॉक किसी सरकारी विभाग या एजेन्सी द्वारा उस काल में जब उत्पादन काफी हो इकट्ठे किए जाते हैं और जब मण्डों में माल की कमी हो, तो इस स्टॉक में से माल बेच कर बाजार-पूरित को बढ़ाया जाता है। उदाहरणार्थ, अच्छी फसल के वर्षों में भारत सरकार खाद्यान्नों एवं अन्य कच्चे माल को खरीद कर बफर स्टॉक कायम करती है और बुरी फसल के वर्षों में इन्हे बेच कर अभाव की तीव्रता को कम करती है। पहली अवस्था में सरकार मूल्य को अधिक गिरने से रोकती है और दूसरी अवस्था में अधिक बढ़ने से रोकती है।
 Building industry भवन-निर्माण उद्योग
Built-in stabiliser प्राण्यन्तरिक स्थायीकारक— इसका अर्थ किसी आर्थिक ऋतुका सहन करने वाले कार्यक्रम से है जिसके परिणामस्वरूप बिना सरकारी नीति में लगातार परिवर्तन किए प्राय और कीमतों के उच्चावचन नियंत्रित किए जाते हैं। बंधितक और निगम कर और बेरोजगारी बीमा समुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक महत्वपूर्ण

स्वचालित स्थायीकारक माने जाते हैं। जब व्यापार में मंदी आती है, तो सरकार की भाय कर से प्राप्ति वैयक्तिक भाय में कमी की तुलना में एकदम अधिक गिरती है परन्तु इसके विरुद्ध बेरोजगारों को अधिक राशि बेरोजगारी बीमा के आधीन देनी पड़ती है। इस प्रकार उपभोक्ताओं की क्रयशक्ति बढ़ायी जाती है जिसके फलस्वरूप प्रतिसारी दबाव कम हो जाते हैं। कार्मिक सुरक्षा और फार्म-सहायता प्रोग्राम भी आन्वयतिक स्थायीकारक का कार्य करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मंदी को गहरा होने से रोकना होता है।

Bulk of the population जनसंख्या का अधिकांश भाग

Bulk of the purchase खरीद का बड़ा भाग

Bulky product भारी उत्पाद, स्थूल उत्पाद

Bull मूल्यारोपी

Bulldozer Economics धरानीम प्रथंशास्त्र—

बोल्डिग ने अपनी पुस्तक 'Economic Analysis Part II—Macro-Economics' में समष्टि प्रथंशास्त्र को धरानीम प्रथंशास्त्र कहा है। इसका निर्वाण बड़ी-बड़ी समस्याओं को मोटे तौर से समझने के लिए किया गया है; अधिक संवारने के प्रयत्नों से इसकी उपादेयता कम हो जाती है।

Bull market मूल्यारोपी बाजार

Bullion सोना-चाँदी, धातु

Bullion market सफा बाजार

Bullionism बहुमूल्य धातुवाद

Bullish trend मूल्यारोपी प्रवृत्ति

Bumper crop भरपूर खेती, आसानी से खेती, प्रभूत खेती

Bumper year प्रभूत शस्य वर्ष, भरपूर फसल का वर्ष

Bunching of innovation नव क्रियाओं का समूहत्व

Bonyant economy उत्तुल्ल प्रथंस्वरथा

Burden of taxation कर-भार

Bureaucracy अधिकारी संघ, दफतरवाही, नौकरशाही

Bureaucrat अधिकारी, नौकरशाह

Bureau of economics प्रथंशास्त्र विभाग

Bureau of public enterprise सार्वजनिक उद्यम

विभाग/कार्यालय

Business व्यवसाय, कारोबार, कार्य, काम, व्यापार

Business acumen व्यापार चातुर्य

Business balance व्यापार अधिसेप

Business combination व्यापार संघ

Business confidence व्यावसायिक विश्वास

Business contract व्यापारिक अनुबंध

Business crisis व्यापार संकट

Business cycle व्यापार चक्र

Business Economics व्यावसायिक प्रथंशास्त्र

Business expansion motive व्यापार विस्तार

उद्देश्य

Business firm व्यापारिक फर्म

Business index व्यापार-सूचक

Business man व्यवसायी, व्यापारी

Business of money-lending सहकारी, महाजनी

Business operations व्यापार क्रियाएँ

Business opportunity व्यापारिक अवसर

Business optimism व्यापारिक आशावाद

Business organisation व्यवसाय व्यवस्था, व्यापार संगठन

Business pessimism व्यापारिक निराशावाद

Business profit tax व्यापार-लाभ कर

Business proposition व्यवसाय प्रस्ताव

Business psychology व्यावसायिक मनोवृत्ति

Business rivalry व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता

Business statistics व्यापार सम्बन्धी आंकड़े

Business undertaking व्यापारिक फर्म, व्यापारिक उपक्रम

Business union व्यवसाय-संघ

Buyer क्रेता

Buyers' market क्रेता बाजार—बाजार की ऐसी परिस्थिति जिसमें पूंति भाग से अधिक होती है और इस कारण क्रेताओं को सीदेबाजी में लाभ होता है और विक्रेताओं को असंत लागत से भी कम कीमतें स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अपने अतिरिक्त स्टॉक बेचने के लिए, विक्रेताओं को नीचे कीमतें स्वीकार करनी ही पड़ती हैं।

Buyers' monopoly क्रेता एकाधिकार
 Buyers' preference क्रेता अधिमान
 Buyers' preference, irrational अविवेकपूर्ण
 क्रेता अधिमान
 Buyers' preference, rational विवेकपूर्ण क्रेता
 अधिमान
 Buyers' surplus क्रेता अतिरिक्त
 Buying rate क्रय-दर
 Buy on credit उधार पर क्रय
 Bye-employment सहायक रोजगार
 By-product गौण-उत्पादन, उपोत्पाद

C

Callable bond प्रतिदेय बंध पत्र, प्रतिदेय बाँड
 Call deposit माँग जमा, माँग निक्षेप
 Call money माँग-मुद्रा
 Call money market माँग-मुद्रा बाजार
 Called bond उदाये बाँड, याचित बंध
 Called-up capital मांगी पूँजी
 Callings tax व्यवसाय कर

Cambist विपन्न व्यवसायी—1. कोई व्यक्ति जो विदेशी विनिमय-पत्रों का क्रय या विक्रय करता है या विदेशी मुद्रा सम्बन्धी मामलों में विशेष कुशलता रखता है। 2. विभिन्न देशों की मुद्राओं, उनकी विनिमय-दरों एवं सम्बन्धित मामलों के बारे में आधार सूचना देने वाला ग्रन्थ।

Cambridge equations कैम्ब्रिज समीकरण
 Cambridge school कैम्ब्रिज सम्प्रदाय, कैम्ब्रिज विचार-धारा

Cambridge version कैम्ब्रिज विवरण

Cameralism (also kameralism) कैमरलिज्म—यह वणिक्वाद का एक रूप था जो 18वीं शताब्दी के मध्यभाग में जर्मनी और आस्ट्रिया में व्यक्त हुआ। इस आर्थिक विचारधारा का संबंध न केवल उन उपायों से था जिनके द्वारा राज्य धन प्राप्त करता है बल्कि उन सर्वोत्तम प्रयोगों से भी था जिन पर प्राप्त धन को व्यय किया जा सकता था। इस शब्द का प्रयोग आजकल कभी-कभी उस

आर्थिक सिद्धांत के लिए किया जाता है जो राष्ट्रीय समृद्धि में सार्वजनिक आय (Public revenue) पर विशेष ध्यान सम्मिलित अनुचित बल देता है।

Cancellation and consolidation of debts

श्रृणो का विलोपन और समेकन

Cancellation of debts श्रृण विलोपन

Cancelled security विलोपित प्रतिभूति

Canon of certainty निश्चितता प्रनियम

Canon of convenience सुविधा प्रनियम

Canon of economy मितव्ययिता प्रनियम

Canon of elasticity लोच-प्रनियम

Canon of equity न्याय-प्रनियम

Canon of productivity उत्पादिता प्रनियम

Canon of taxation कर-सिद्धान्त, कर प्रनियम

Capacity क्षमता, सामर्थ्य

Capacity, carrying वहन क्षमता

Capacity, excess अधिशमता,

Capacity, growth वृद्धि-क्षमता, वृद्धि-सामर्थ्य

Capacity, idle अग्रपुस्त क्षमता, निष्प्रयोज्य सामर्थ्य

Capacity, optimum अनुकूलतम क्षमता, अनुकूलतम

सामर्थ्य

Capacity, output उत्पादन क्षमता

Capacity, productive उत्पादन क्षमता

Capacity, taxable करदेय क्षमता, करदेय सामर्थ्य

Capacity creation क्षमता-निर्माण

Capacity to save बचत-सामर्थ्य, बचत-क्षमता

Capacity to work कार्यक्षमता

Capacity utilisation rate क्षमता-उपयोग-दर

Capital पूँजी

Capital, authorised अधिकृत पूँजी

Capital, auxiliary सहायक पूँजी

Capital, blocked अवरुद्ध पूँजी

Capital, called-up मांगी पूँजी, प्राप्त पूँजी

Capital, circulating चल पूँजी

Capital, commercial वाणिज्य पूँजी

Capital, depletion of पूँजी का रिक्तिकरण,

पूँजीरिक्ति

Capital, fixed अचल पूँजी

Capital, flight of पूँजी पलायन, पूँजी का देशान्तर-गमन

Capital, floating चल पूँजी

Capital, foreign विदेशी पूँजी

Capital, human मानव पूँजी

Capital, issued जारी पूँजी, निर्गमित पूँजी

Capital, latent प्रतहित पूँजी, गुप्त पूँजी

Capital, locked in घबट्ट पूँजी

Capital, longterm दीर्घकालीन पूँजी

Capital, merchants व्यापारी पूँजी, व्यापारियों की पूँजी

Capital, migration of पूँजी का प्रवासन, पूँजी का देशान्तरगमन

Capital, mobility of पूँजी की गतिशीलता

Capital, money द्रव्य पूँजी, मुद्रा-पूँजी

Capital, national राष्ट्रीय पूँजी

Capital, origin of पूँजी का प्रादुर्भाव, पूँजी का उद्गम

Capital, paid-up चुकती पूँजी

Capital, productivity of पूँजी की उत्पादितता

Capital, pure शुद्ध पूँजी

Capital, reproduction of पूँजी का पुनरुत्पादन

Capital, return on पूँजी पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रत्याय

Capital, share हिस्सा पूँजी

Capital, social सामाजिक पूँजी

Capital, specific विशिष्ट पूँजी

Capital, stock हिस्सा पूँजी, अंश पूँजी

Capital, subscribed स्वीकृत पूँजी

Capital, working कार्यकारी पूँजी

Capital account पूँजी लेखा

Capital accumulation पूँजी संचय

Capital allowance पूँजी छूट, राजधानी भत्ता

Capital and revenue account पूँजी और आय लेखा

Capital appreciation पूँजी की मूल्य-वृद्धि

Capital appropriation पूँजी का आत्मसात्करण, पूँजी विनियोजन

Capital asset पूँजी परिसम्पत्

Capital at charge पूँजी व्यय देय पूँजी, लायू पूँजी

Capital budget पूँजी बजट

Capital charge पूँजी प्रभार

Capital coefficient पूँजी-गुणांक

Capital concentration पूँजी-सन्केन्द्रण

Capital consumption पूँजी-उपभोग

Capital consumption allowance पूँजी

उपभोग छूट—राष्ट्रीय आय लेखे में की गयी एक प्रविष्टि जो किसी व्यावसायिक सामान या समूह के मूल्यहास को किसी समय-विधेय पर व्ययन करती है। इसमें किसी दुर्घटना में मर्त हुई पूँजी तथा अन्य सामान के मूल्य और नये साधन प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय भी शामिल किए जाते हैं। यह छूट कर-नियमावली में स्वीकृत मूल्यहास पर मुख्यतः आधारित होती है और इस कारण पूँजी-यन्त्रों एक अन्य सामान की भौतिक घिसावट को व्यक्त नहीं करती।

Capital cost पूँजीगत लागत

Capital deepening पूँजी-गहन

Capital depreciation पूँजी मूल्यहास, पूँजी श्रवसपण

Capital development पूँजी अभिवृद्धि/अभिवृद्धि

Capital equipment पूँजी संभार, पूँजी यन्त्र, पूँजी उपकरण

Capital expenditure पूँजी-व्यय

Capital formation पूँजी-निर्माण

Capital gains पूँजी-लाभ

Capital Gains tax पूँजी लाभकर—स्टॉक, बॉन्ड और वास्तविक परिसम्पत् के रूप में स्वामित्वाधीन पूँजी के विक्रय से प्राप्त होने वाली प्रतिशत वैयक्तिक आय पर कर। पूँजी लाभ का माप पूँजी-मूल की क्रय-कीमत और अन्तिम विक्रय कीमत का अन्तर है। पूँजी लाभ-कर का उद्देश्य कीमतों की वृद्धि के कारण व्यापारियों को प्राप्त होने वाले आकस्मिक लाभ में से राज्य के लिए कुछ हिस्सा प्राप्त करना है। चूंकि यह एक प्रकार की अनजित आय है, इसलिए इस पर कर

- लगाना न्यायोचित समझ जाता है ।
- Capital goods पूँजी वस्तुएँ, पूँजी माल
- Capital goods industries पूँजी-वस्तु उद्योग
- Capital inflow पूँजी भन्तः प्रवाह, पूँजी भागमन
- Capital inputs पूँजी भादान, पूँजी भागत, पूँजी उपस्कर
- Capital intensive पूँजी-प्रधान
- Capital intensive industries पूँजी-प्रधान उद्योग
- Capital intensive method (or technique) पूँजी-प्रधान उपाय/विधि/तकनीक
- Capital-intensity of production उत्पादन की पूँजी सघनता
- Capital investment पूँजी विनियोग
- Capital issue पूँजी-निर्गम
- Capital-labour ratio पूँजी-श्रम अनुपात
- Capital levy पूँजी शुल्क, पूँजी कर—पूँजी पर लगाया जाने वाला अनावर्ती कर । किसी विशेष अवधि के दौरान प्राप्त किए गए नए पूँजी-मूल्य पर एक विशेष अनावर्ती कर के रूप में यह कर लगाया जाता है । उदाहरणार्थ, युद्ध के दौरान यह कर प्राप्त अतिरिक्त पूँजी-मूल्य पर लगाया गया । इस दृष्टि से पूँजी-कर पूँजी साभकर जैसा ही है । एक दूसरे अर्थ में पूँजी-कर राष्ट्र की समस्त वर्तमान पूँजी पर लगाया जाता है । इस दृष्टि से पूँजी-कर किसी समय-विशेष पर लगाये गये सामान्य पूँजी कर जैसा है ।
- Capital liability पूँजी-देयता
- Capital loan पूँजी उधार
- Capital market पूँजी बाजार
- Capital movement पूँजी-बहान, पूँजी की गति-विधि, पूँजी बहिर्गमन—किसी एक प्रकार के पूँजी-विनियोग को समाप्त करके प्राप्त की गयी राशि को किसी दूसरे प्रकार के विनियोग में लगाना, या किसी एक स्थान से पूँजी को हटाकर दूसरे स्थान पर लगाना । सामान्यतया, इस पद का प्रयोग एक देश से दूसरे देश में पूँजी बहिर्गमन के अर्थ में किया जाता है ।
- Capital outflow पूँजी उत्प्रवाह, पूँजी बहिर्प्रवाह,
- पूँजी निर्गमन
- Capital outlay पूँजी-व्यय, पूँजी लागत
- Capital-Output ratio पूँजी-उत्पाद अनुपात—पूँजी-उत्पाद अनुपात द्वारा किसी विनियोग में दी हुई वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में हुई वृद्धि का सम्बन्ध व्यक्त किया जाता है । पूँजी की जितनी अधिक उत्पादिता होगी, उतना ही कम यह अनुपात होगा । पूँजी-प्रधान उद्योगों में यह अनुपात सामान्यतया अधिक होता है और श्रम-प्रधान उद्योगों में अपेक्षाकृत कम ।
- Capital payments पूँजीगत भदार्थगियाँ/भुगतान
- Capital poor economies पूँजी विपन्न अर्थव्यवस्थाएँ
- Capital profit पूँजी-लाभ
- Capital receipts पूँजीगत प्राप्तियाँ
- Capital redemption fund पूँजी विमोचन निधि, पूँजी वापसी निधि
- Capital requirements पूँजी आवश्यकताएँ
- Capital reserve fund पूँजी आरक्षण निधि
- Capital resources पूँजीगत संसाधन
- Capital rich economies पूँजी सम्पन्न अर्थ-व्यवस्थाएँ
- Capital-saving devices पूँजी-बचाव उपाय
- Capital-saving innovation पूँजी-बचाव नव-प्रवर्तन
- Capital stock पूँजी-स्टॉक/भण्डार
- Capital stores पूँजीगत सामान, पूँजी वस्तु भण्डार/स्टोर
- Capital structure पूँजी संरचना
- Capital sums पूँजीगत राशियाँ
- Capital surplus पूँजी अधिकतम
- Capital transfers पूँजी हस्तांतरण
- Capital turnover पूँजी घावर्त
- Capital-turnover ratio पूँजी-घावर्त अनुपात
- Capital using device पूँजी प्रयोगी उपाय
- Capital value पूँजी मूल्य
- Capital widening पूँजी विस्तारण
- Capitalisation पूँजीकरण

Capitalisation of assets परिसम्पत् का पूँजीकरण

Capitalisation of income आय का पूँजीकरण

Capitalisation of interest ब्याज का पूँजीकरण

Capitalisation of reserve धारक्षण निधि का पूँजीकरण

Capitalisation of taxes करों का पूँजीकरण

Capitalised expenditure पूँजीकृत व्यय

Capitalised profits पूँजीकृत लाभ

Capitalised value पूँजीकृत मूल्य—इस पद का प्रयोग किसी ऐसी परिसम्पत् के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जिससे भविष्य में आय-प्राप्ति की आशा हो। वर्तमान मूल्य के परिकलन के लिए, कुल प्रत्याशित भावी आय का वर्तमान ब्याज-दर से बढ़ा किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी सम्पत्ति का मूल्य 10,000 रुपये है और वर्तमान ब्याज-दर 5 प्रतिशत है, तो उसका वर्तमान बढ़ाकृत मूल्य 9,600 रुपये होगा। यदि किसी सम्पत्ति से बहुत से वर्षों तक आय-प्राप्ति की सम्भावना हो, तो उसका पूँजीकृत मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष के वर्तमान बढ़ाकृत मूल्य को जमा करना होगा। उदाहरणार्थ, किसी मकान से आयामासी 20 वर्षों के लिए 600 रुपये के वार्षिक किराये की आशा हो, तो इसका पूँजीकृत मूल्य प्राप्त करने के लिए नीचे दिया गया फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा :—

$$\text{पूँजीकृत मूल्य} = \frac{I}{(1+r)^t}$$

जहाँ I वार्षिक आय, r ब्याज की वर्तमान दर और t इस सम्बन्ध में परिसम्पत् की अवधि है। इस प्रकार, कोई निर्यातक बहुत-सी परिसम्पत्तियों में से सबसे लाभकारी परिसम्पत्ति का चुनाव कर सकता है, किन्तु यह फार्मूला विभिन्न परिसम्पत्तियों के सापेक्ष जोखिम के बारे में कुछ भी नहीं बताता।

Capitalism पूँजीवाद

Capitalism, advanced उन्नत पूँजीवाद

Capitalism, black काला पूँजीवाद

Capitalism, commercial वणिज्य पूँजीवाद

Capitalism, crisis of पूँजीवाद का संकट

Capitalism, development of पूँजीवाद का विकास

Capitalism, competitive प्रतिस्पर्धी पूँजीवाद

Capitalism, individualistic व्यक्तिपरक पूँजीवाद

Capitalism, industrial औद्योगिक पूँजीवाद

Capitalism, people's जन पूँजीवाद

Capitalism rentier रान्तिये पूँजीवाद—यह आर्थिक पद्धति जिसमें रान्त-वर्ग अपनी समग्र या अधिकतर आय किसी न किसी प्रकार की सम्पत्ति से प्राप्त करता है। 'Rentier' फ्रांसीसी शब्द 'Rentes' से बना है, जिसका अभिप्राय सरकारी प्रतिभूतियों पर ध्याज की निश्चित दर प्राप्त करना था।

Capitalism, state राज्य पूँजीवाद

Capitalism, transformed ह्वातरित पूँजीवाद

Capitalist पूँजीपति

Capitalist age पूँजीवादी युग

Capitalist class पूँजीवादी वर्ग

Capitalist democracy पूँजीवादी लोकतन्त्र

Capitalist economy पूँजीवादी अर्थव्यवस्था

Capitalist farming पूँजीवादी खेती

Capitalistic पूँजीतन्त्रीय, पूँजीमूलक

Capitalistic and roundabout production

पूँजीतन्त्रीय एवं चक्करदार उत्पादन

Capitalistic enterprise पूँजीमूलक उद्यम

Capitalistic imperialism पूँजीवादी साम्राज्यवाद

Capitalistic method of production उत्पादन का पूँजीवादी ढंग

Capitalistic production पूँजीमूलक उत्पादन, पूँजी-प्रधान उत्पादन

Capitalistic society पूँजीवादी समाज

Capitalistic system पूँजीवादी प्रणाली, पूँजीतन्त्र

Capitalistic system of production उत्पादन की पूँजीवादी प्रणाली

Capitalistic tendency पूँजीतन्त्रीय प्रवृत्ति, पूँजीवादी प्रवृत्ति

Capitalistic tendency in Indian agriculture भारतीय कृषि में पूँजीवन्धीय प्रवृत्ति
 Capitation fee प्रति व्यक्ति शुल्क
 Capitation grant प्रति व्यक्ति अनुदान
 Capitation tax प्रति व्यक्ति कर
 Cardinal approach/analysis गण संख्या विश्लेषण
 Cardinal number system गण संख्या पद्धति
 Cargo handling facilities माल चढ़ाने-उतारने की सुविधाएँ
 Carrying capacity वहन-क्षमता
 Carrying cost वहन लागत
 Carrying trade वहन व्यापार
 Carry on business व्यापार चलाना
 Carry on industry उद्योग चलाना
 Cartel कार्टेल, मूल्य-सघ
 Cash रोक, नकद
 Cash a cheque बैंक भुनाना
 Cash account रोक लेखा, नकदी लेखा
 Cash advance रोक अधिम
 Cash-advances ratio रोक-अधिम अनुपात
Cash and carry policy नकद ढाँप दो और माल लो नीति—द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ में अमरीकी सरकार द्वारा यह नीति अपनायी गयी जिसके अनुसार समुच्चत राज्य अमरीका ने इंग्लैण्ड को उस समय तक खाद्य एवं युद्ध-सामग्री उपलब्ध कराने का निर्णय किया जब तक इंग्लैण्ड इनके लिए अदायगी करता और इनके योरोप को परिवहन का प्रवण करता ।
 Cash balance रोक-शेष
 Cash balance approach रोक-शेष विश्लेषण
 Cash balance equation रोक-शेष समीकरण
 Cash balance standard रोक-शेष मान
 Cash balance version of quantity theory of money मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त का रोक-शेष विवरण
 Cash balance with the public जनता के पास रोक-शेष

Cash bonus नकद बोनस
 Cash certificate रोक पत्र, नकद-पत्र
 Cash crops रोक फसलें, नकदी फसलें, बाणिज्य फसलें
 Cash deposit रोक जमा, रोक निक्षेप
 Cash-deposit ratio नकद-जमा अनुपात, रोक-जमा अनुपात
 Cash flow नकदी प्रवाह
 Cash holding रोक संग्रह, नकद संग्रह
 Cash income नकद आय
 Cash-in-hand हस्तगत रोक, तुरत रोक/नकदी
 Cash nexus पैसे का बन्धन
 Cash-position रोक स्थिति, नकदी स्थिति
 Cash preference नकद पसन्दगी, रोक अधिमान, तरलता अधिमान
 Cash ratio नकदी अनुपात, रोक अनुपात
 Cash ratio, safe सुरक्षित नकदी अनुपात, सुरक्षित रोक अनुपात
 Cash reserve रोक निधि, रोक संचित निधि, नकद निधि
 Cash transactions version of quantity theory परिमाण सिद्धांत का नकद लेन-देन विवरण
 Caste system जाति प्रथा
 Casual employment सामयिक नियुक्ति, अनियत नियुक्ति
 Casual income अनियत आय
 Casual labour अनियत श्रम, आकस्मिक श्रम, आकस्मिक श्रमिक
 Casual labourer आकस्मिक श्रमिक, बदली मजदूर
 Casual leave आकस्मिक अवकाश
 Casual method of engaging labour श्रम-नियुक्ति की अनियत विधि
 Casual vacancy आकस्मिक रिक्ति, आकस्मिक रिक्त स्थान
 Casual worker अनियत कामगार
 Cattle पशु
 Cattle, drought भारतवाहक पशु

Cattle, milch दुधार पशु	वैकिंग
Cattle census पशु-गणना	Central board of directors केन्द्रीय संचालक बोर्ड/मंडल
Cattle population पशु-संख्या	Central board of forestry केन्द्रीय वन-मंडल
Cattle wealth पशु-धन	Central board of revenue केन्द्रीय राजस्व बोर्ड
Causal relationship कारण-कार्य सम्बन्ध	Central co-operative bank केन्द्रीय सहकारी बैंक
Caveat emptor क्रेता ! सावधान	Central co-operative store केन्द्रीय सहकारी स्टोर/शेडार
Caveat venditor विक्रेता ! सावधान	Central co-operative union केन्द्रीय सहकारी संघ
Ceiling on holding जोत की अधिकतम सीमा, सिखर जोत	Central exchequer केन्द्रीय राज्य-कोष
Ceiling on holding, lower जोत की निम्नतम सीमा	Central excise केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
Ceiling on holding, upper जोत की उच्चतम सीमा	Central land mortgage bank केन्द्रीय भूमिवंधक बैंक
Ceiling on property सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	Central loan fund केन्द्रीय ऋण-निधि
Ceiling on urban property शहरी/नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	Central planning केन्द्रीय आयोजन
Ceiling price सिखर मूल्य, उच्चतम मूल्य	Central planning board केन्द्रीय आयोजन मंडल/बोर्ड
Ceiling purchase price सिखर क्रय-कीमत	Central revenues केन्द्रीय आय, केन्द्रीय धन
Ceiling quota अधिकतम अम्यंश/कीटा	Central Statistical Organisation केन्द्रीय सांख्यिकी संस्था
Census गणना	Centralisation of industries उद्योगों का केन्द्रीय-करण/संकेन्द्रण/केन्द्रीकरण
Census of consumption उपभोग-गणना	Centralisation of investment decisions विनियोग निर्णयों का केन्द्रीकरण
Census of manufactures निर्मित वस्तुओं की गणना	Centrally planned economy केन्द्र द्वारा आयोजित अर्थव्यवस्था
Census of population जनगणना	Centrally sponsored programmes केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रम/प्रोग्राम
Census of production उत्पादन-गणना	Certificate of incorporation निगमन प्रमाण-पत्र; समामेलन-पत्र
Census of production method उत्पादन-गणना प्रणाली	Ceteris paribus यदि अन्य बातें पूर्ववत् रहें
Census organisation जनगणना संगठन	Chain-banking शृंखला बैंकिंग
Central account केन्द्रीय लेखा	Chain index number शृंखला सूचकांक
Central authority केन्द्रीय प्राधिकार	Chain method शृंखला प्रणाली
Central bank केन्द्रीय बैंक	Chain method of price comparison कीमत-सुलना की शृंखला-प्रणाली
Central banking केन्द्रीय बैंक-कार्य	Chance gain क्षेत्र प्राप्ति, आकस्मिक लाभ
Central banking authority केन्द्रीय बैंक प्राधिकार	Chance profit क्षेत्र लाभ, आकस्मिक लाभ
Central Banking Enquiry Committee केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति	
Central banking in undeveloped money market अ विकसित मुद्रा बाजारों में केन्द्रीय	

Chancellor of the exchequer वित्त-मन्त्री,
चांसलर ऑफ दी एक्सचेंजर—इंग्लैंड में मन्त्रि-
मण्डल के उस मन्त्री के लिए इस शब्द का प्रयोग
होता है जोकि देश की मौद्रिक नीतियों को
कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार होता है। वह
न केवल लोकसभा में बजट पेश करता है अपितु
राजकीय ग्रौर बैंक ऑफ इंग्लैंड की सहायता से
मौद्रिक नीतियों के माध्यम द्वारा उन सभी पहलुओं
की देखभाल करता है जो स्क्रैपिटी ग्रौर रोजगार-
स्तर से सम्बन्धित होती हैं।

Changes through the course of time काल के
मध्याद् होने वाले परिवर्तन

Channelisation of saving बचत का मार्गीकरण,
बचत का निर्देशन, बचत के लिए दिशा-निर्धारण

Charges प्रभार, खर्च, व्यय

Charges, capital पूँजी प्रभार

Charges, collection वसूली खर्च, वसूली-लागत

Charges, contingent प्रासंगिक प्रभार

Charges, debt ऋण-प्रभार, ब्याज

Charges, depreciation मूल्यहास प्रभार

Charges, maintenance अनुरक्षण व्यय

Charges, overhead उपरि व्यय

Charitable grant पुण्यार्थ अनुदान

Charitable trust पुण्यार्थ न्यास

Charm prices विमोहक कीमत

Chattel अस्वावर सम्पत्ति, चल सम्पत्ति

Chattel mortgage चल सम्पत्ति बन्धक

Cheap grain supply scheme सस्ता अन्न संभरण
योजना

Cheap money drive सुलभ/सस्ती मुद्रा आंदोलन

Cheap money policy सुलभ/सस्ती मुद्रा नीति

Chest money (or till money) तिजोरी रोकड़

Cheque चैक

Cheque, ante-dated पूर्व-तिथि चैक

Cheque, bearer धारक चैक

Cheque, blank खुला चैक, निरंक चैक

Cheque, crossed रेसित चैक, साहजोग चैक

Cheque, order नामजोग चैक

Cheque, out-station बाहरी चैक

Cheque, post-dated उत्तर-तिथि चैक

Cheque, stale गतावधि चैक, पुराना चैक

Cheque, travellers' यात्री चैक

Chief of personnel कर्मक-वर्ग प्रमुख

Child-bearing age सन्तान-धारण वय/अवस्था

Child insurance बाल बीमा

Child labour बाल-श्रम

Child mortality बाल मृत्यु-दर

Children's allowance सन्तान भत्ता

Choice objects मनपसन्द चीजें

Choice of occupation ध्यवसाय का चुनाव/चयन

Choice of projects परियोजनाओं का चयन

Choice of technique तकनीक का चुनाव/चयन

Christian socialism ईसाई समाजवाद—ईसाई
धर्म के सिद्धांतों और समाजवाद के मूल उद्देश्यों के
सम्मिश्रण से चलाया जाने वाला आंदोलन। इसमें
उत्पादन के साधनों के सरकारी स्वामित्व का
समर्थन न करके सहकारी उत्पादन और सामाजिक
सुधार पर बल दिया गया। निजी श्रम प्रेरणा
की अपेक्षा सम्पत्ति के समान वितरण की संकल्पना
को अपनया गया परन्तु व्यक्ति की आर्थिक
स्वतन्त्रता की श्रेष्ठता की पुष्टि की गयी।

c. i. f. (cost, insurance and freight) लागत-
बीमा-भाड़ा सहित

Circular flow बतुल प्रवाह, चक्रीय प्रवाह

Circular flow of money मुद्रा का चक्रीय प्रवाह

Circulating asset परिचल सम्पत्ति

Circulating medium परिचल माध्यम

Circulation of currency करेन्सी का परिचलन,
चलाय-परिचलन

Circulation of money मुद्रा-परिचलन

Circulation of notes नोटों का परिचलन, पत्र-
मुद्रा का परिचलन

Civil administration अर्सेनिक/नागरिक प्रशासन

Civil aviation अर्सेनिक/नागरिक विमान-वहन

Civil budget अर्सेनिक/नागरिक बजट

Civil consumption अर्सेनिक/नागरिक उपभोग

Civil defence नागरिक सुरक्षा

Civil employee अर्सेनिक कर्मचारी

Civil employment ग्रसैनिक नियोजन, प्रसैनिक रोजगार

Civil expenditure ग्रसैनिक व्यय

Civilian population ग्रसैनिक जनसंख्या

Civil service ग्रसैनिक सेवा, सिविल सेवा, जनपदाधिकारी वर्ग

Civil supplies ग्रसैनिक संभरण, नागरिक संभरण

Class antagonism वर्ग-विरोध, वर्ग-संघर्ष

Class conflict वर्ग-तघर्ष

Class conscious labour force वर्ग-चेतन श्रम-शक्ति

Class consciousness वर्ग-चेतना

Class relations वर्ग-सम्बन्ध

Class rule वर्ग-शासन, वर्ग-सत्ता

Class struggle वर्ग-संघर्ष

Class theory वर्गवाद, वर्ग सिद्धांत

Class war theory वर्ग-युद्ध सिद्धांत

Classical Economics प्रतिष्ठित प्रथंशास्त्र, संस्थापित अर्थशास्त्र

Classical economist संस्थापित अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित नर्थशास्त्री

Classical liberalism संस्थापित उदारतावाद

Classical models प्रतिष्ठित मॉडल

Classical school of thought प्रतिष्ठित विचार-धारा, संस्थापित संप्रदाय

Classical theory of international trade अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत

Classificatory definition वर्गवादी परिभाषा

Classified tax वर्गीकृत कर

Classless society वर्गहीन समाज

Clearing a bill बिल समाशोधन, हण्डी समाशोधन

Clearing agreement समाशोधन संविदा

Clearing bank समाशोधन बैंक

Clearing house समाशोधन गृह

Clearing member bank समाशोधन सदस्य बैंक

Close an account लेखा संवरण, लेखा बन्द करना

Closed community संवृत समुदाय, बहिःसम्बन्ध-विहीन समाज/समुदाय

Closed economy संवृत अर्थ-व्यवस्था

Closed shop संवृत दुकान—एक ऐसी दुकान जिसमें केवल श्रम-संघ के सदस्यों को ही नौकरी दी जाती है और जिसमें रोजगार के लिए वही स्वीकार किए जाते हैं।

Close substitutes निकट स्थानापन्न वस्तुएँ

Closing balance रोकड़ बाकी, संवरण शेष

Closing price अन्तिम मूल्य, बन्द भाव

Closing stock अन्तिम स्कन्ध, संवरण स्टॉक

Coal washery कोयला प्रशालनालय

Coastal trade समुद्रतटीय व्यापार, तटीय व्यापार

Coastal transport समुद्रतटीय परिवहन

Cobweb theorem तंतुजाल प्रमेय, मकड़-जाल प्रमेय—एच० शुल्स और जे० टिनवरजन द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत द्वारा कुछ वस्तुओं के उत्पादन और कीमतों में नैमित्तिक रूप से बार-बार व्यक्त होने वाले उच्चावचन या चक्र की व्याख्या की गयी है। चूंकि कीमतों में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रतिरूप एक मकड़ी के जाल जैसा था, अतः एन० कार्लर ने इसका नाम मकड़-जाल प्रमेय रख दिया। यह प्रमेय प्रमाणित करता है कि विसुद्ध प्रतियोगिता के अधीन स्पर्धिक परिस्थितियों में प्रतिष्ठित कल्पनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्पादन और कीमतों का संतुलन यदि भंग कर दिया जाए, तो यह अनिवार्य नहीं कि वह अपने-आप पुनः संतुलन की स्थिति में आ जाया।

Co-efficient of acceleration त्वरण गुणांक

Co-efficient of concentration संकेन्द्रण गुणांक

Co-efficient of correlation सहसम्बन्ध गुणांक

Co-efficient of cross-elasticity प्रतिलोच गुणांक, तिर्यक् लोच गुणांक

Co-efficient of determination निर्धारण गुणांक

Co-efficient of elasticity लोच गुणांक

Coin टंक, सिक्का, फलदार

Coin, debased छोटा सिक्का, हीन मूल्य सिक्का

Coin, full-bodied पूर्णकाय सिक्का

Coin, gold स्वर्ण सिक्का

- Coin, money टंक मुद्रा
 Coin, silver रजत सिक्का
 Coin, standard प्रामाणिक सिक्का
 Coin, subsidiary सहायक सिक्का, छोटा सिक्का
 Coin, token प्रतीक सिक्का
 Coinage सिक्का डलाई, टकन
 Coinage, decimal system of दशमिक सिक्का प्रणाली
 Coinage, free खुली सिक्का डलाई
 Coinage, gratuitous निःशुल्क सिक्का डलाई
 Coinage, limited सीमित सिक्का डलाई
 Coinage production टक उत्पादन
 Coining टकन
 Cold-blooded income deflation निर्दयी आय अवसृष्टि
 Collaboration agreements सहयोग समझौते
Collateral रेहन, गिरवी—सम्पत्ति या सम्पत्ति सम्बन्धी प्रमाण जो गारण्टी के रूप में ऋण प्राप्त करने के लिए ऋणदाता के पास जमा करवाना पड़ता है ।
 Collateral advance सापारिचिक अधिम
 Collateral loan सापारिचिक उधार
 Collateral security सापारिचिक प्रतिभूति
 Collection of land revenue भू-राजस्व का संग्रहण
 Collection of rent लगान-संग्रहण
 Collection of revenue राजस्व संग्रहण
 Collective action सामूहिक कार्रवाई/क्रिया
 Collective agreement सामूहिक समझौता
 Collective bargaining सामूहिक हौदा-वक्ति
 Collective bargaining system सामूहिक सौदा प्रणाली
 Collective consumption सामूहिक उपभोग
 Collective decision सामूहिक निर्णय
 Collective farming सामूहिक खेती
 Collective goods सामूहिक वस्तुएँ
 Collective investment सामूहिक विनियोग
 Collective ownership सामूहिक स्वामित्व
 Collective savings सामूहिक बचत
 Collective wants सामूहिक आवश्यकताएँ
 Collective wealth सामूहिक सम्पत्ति/धन
 Collectivism समूहवाद
 Collectivist economy समूहवादी अर्थव्यवस्था
 Collectivist economy, the very corner stone of planning सामूहिक अर्थव्यवस्था का अनिवार्य आधार समूहवादी प्रायोजन
 Collectivist समूहवादी
 Collectivization समूहन, सामूहिकीकरण
 Collectivization of agriculture कृषि का समूहन
 Collectivization of industry उद्योग का समूहन
Colombo plan कोलम्बो योजना—दक्षिण-पूर्व एशिया के अल्पविकसित देशों को विकास-प्रोग्राम के लिए दी जाने वाली सहायता की योजना जो 1950 में कोचम्बो में तैयार की गयी । इस योजना के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लैण्ड, राष्ट्र-मण्डल के आर्थिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्रों और जापान ने सहायता देने का वचन दिया ।
 Colonialism उपनिवेशवाद
 Colonization उपनिवेशन, बस्ती बसाना
 Combination संघ, गुटबन्दी, संयोजन
 Combination acts संयोजन कानून
 Combination in restraint of trade व्यापार अवरोधन गुटबन्दी
 Combination of goods वस्तुओं का संयोग
 Combine गुट
Comecon कोमीकोन (Abbreviation of Council for Mutual Economic Aid)—यू० एस्० एस्० आर० और अन्य सोरोपीय साम्यवादी देशों द्वारा पारस्परिक सहायता के लिए बनायी गयी परिषद् । इसमें अल्बानिया और यूगोस्लाविया शामिल नहीं हैं परन्तु मंगोलिया शामिल है ।
 Comforts सुविधाएँ
 Comforts, reasonable उचित सुविधाएँ
 Commanding heights of an economy अर्थ-व्यवस्था की वामजोर
 Commerce वाणिज्य

- Commercial blockade वाणिज्य नाकाबन्दी
 Commercial capital वाणिज्य पूँजी
 Commercial capitalism वाणिज्य पूँजीवाद
 Commercial centre वाणिज्य केन्द्र
 Commercial crisis वाणिज्य संकट
 Commercial crops वाणिज्य फसलें
 Commercial demand वाणिज्य माँग
 Commercial enterprise वाणिज्यिक उपक्रम
 Commercial minded वाणिज्य मनस्क, दृष्टिक
 मन-स्थिति
 Commercial relations वाणिज्य सम्बन्ध
 Commercial revenue वाणिज्यिक आय/प्राप्त
 Commercial revolution वाणिज्य क्रांति
 Commercial services वाणिज्य सेवाएँ
 Commercial treaty व्यापारिक सन्धि, वाणिज्य
 सन्धि
 Commercialisation of agriculture कृषि का
 वाणिज्यीकरण/वाणिज्यन
 Commercialism वाणिज्यता, वाणिज्यवाद
 Commodity पण्य वस्तु, पदार्थ
 Commodity, heterogeneous विजातीय वस्तु,
 भेदात्मक वस्तु
 Commodity, homogeneous समरूप वस्तु
 Commodity, non-perishable अविकारी वस्तु,
 अनश्वर वस्तु
 Commodity, perishable नश्वर/नाशवान वस्तु,
 विकारी वस्तु
 Commodity agreement वस्तु सन्धि
 Commodity balance वस्तु शेष
 Commodity capital वस्तु पूँजी
 Commodity exchange वस्तु-विनिमय, सट्टा
 बाजार
 Commodity flow वस्तु-प्रवाह
 Commodity market वस्तु बाजार
 Commodity money वस्तु मुद्रा
 Commodity price वस्तु कीमत
 Commodity production वस्तु उत्पादन
 Commodity production, simple साधारण वस्तु
 उत्पादन
 Commodity rate of interest ब्याज की वस्तु-दर
 Commodity standard वस्तु मान
 Commodity tax वस्तु कर
 Commodity theory of money मुद्रा का पण्य
 सिद्धान्त
 Common market साझा बाजार, सामान्य बाजार
 Common means of payment भुगतान का
 सामान्य साधन
 Commonwealth preference राष्ट्रमण्डल प्रधि-
 मान
 Communal consumption सामूहिक उपभोग,
 सामुदायिक उपभोग
 Communal property सामुदायिक सम्पत्ति
 Communism साम्यवाद— कार्ल मार्क्स ने
 समाजवाद की स्थापना के पश्चात् एक और
 ऊँची सामाजिक व्यवस्था का परिकल्पन किया
 जिसे साम्यवाद कहा जाता है। साम्यवाद
 और समाजवाद में मुख्य भेद यह है कि जहाँ
 समाजवाद में केवल उत्पादन की व्यवस्था समाज
 द्वारा की जाती है और उपभोग के बारे में व्यक्ति
 स्वतन्त्र है, वहाँ साम्यवाद में उत्पादन और उप-
 भोग दोनों समाज के अधीन होंगे। जहाँ समाज-
 वाद का सिद्धान्त है, 'कार्य क्षमता के अनुसार और
 मजदूरी कार्य के अनुसार' वहाँ साम्यवाद का मूल
 सूत्र है 'प्रत्येक व्यक्ति का कार्य योग्यता के अनुसार
 और मजदूरी आवश्यकतानुसार।' इस सूत्र का
 अर्थ यह है कि निजी पूँजी की समाप्ति के कारण
 मानव की प्रायिक जालसा की प्रवृत्ति समाप्त हो
 जाएगी। ऐसे समाज में सभी प्रकार के नियन्त्रण
 हटा दिए जाएँगे क्योंकि मानव 'पूर्ण पुरुष'
 (Perfect man) बन जाएगा। ऐसे समाज में
 राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए
 साम्यवाद राज्यहीन समाज (Stateless Society)
 का दूसरा नाम है।
 एक दूसरे अर्थ में, साम्यवाद शब्द का प्रयोग रूस में
 विकसित सामाजिक व्यवस्था के रूप में किया
 जाता है। वास्तव में रूस में प्रचलित सामाजिक
 व्यवस्था समाजवादी है जैसा कि रूस के प्रोपचा-

रिक नाम से ही स्पष्ट है, रूस को सोवियत समाजवादी गणतन्त्रों का संघ (Union of Soviet Socialist Republics) कहते हैं। परन्तु रूस के सत्ताह्व दल का नाम 'साम्यवादी दल' है। वास्तव में लेनिन ने रूस को 'समाजवादी पार्टी' और अन्य देशों की समाजवादी पार्टियों में भेद करने के लिए अपनी पुस्तक 'राज्य और क्रान्ति' (State and Revolution) में अपनी समाजवादी पार्टी को साम्यवादी पार्टी कहा। अतः अन्य लेखकों ने रूस में प्रचलित व्यवस्था को 'साम्यवाद' कहना आरम्भ कर दिया। वास्तव में लेनिन स्वयं साम्यवाद को समाज के विकास की चरम सीमा मानता था और यह विश्वास रखता था कि समाज की इस अवस्था में राज्य लुप्त हो जाएगा।

Communist manifesto साम्यवादी लोक घोषणा/ घोषणा-पत्र

Community development सामुदायिक विकास

Community development project सामुदायिक विकास योजना

Community indifference curve सामूहिक सम-भाव वक्र

Community project सामुदायिक योजना, सामूहिक योजना

Community property सामुदायिक सम्पत्ति

Community property principle सामुदायिक सम्पत्ति सिद्धान्त

Commuted bonus रूपांतरित बोनस

Commuted value रूपांतरित मूल्य

Company कम्पनी

Company, joint stock संयुक्त/मिश्रित पूंजी कम्पनी

Company, limited सीमित देयता कम्पनी

Company, private निजी कम्पनी

Company, public सार्वजनिक कम्पनी

Company, unlimited असीमित देयता कम्पनी

Company legislation कम्पनी विधान

Company union कम्पनी मजदूर संघ

Comparative advantage तुलनात्मक लाभ

Comparative costs तुलनात्मक लागत

Comparative costs, law of तुलनात्मक लागत

नियम/सिद्धांत

Comparative differences in costs लागतों में तुलनात्मक अंतर

Comparative disadvantage तुलनात्मक अलाभ/हानि

Comparative productivity तुलनात्मक उत्पादिता

Comparative remuneration तुलनात्मक पारिश्रमिक

Comparative statics तुलनात्मक स्थितिकी— विश्लेषण की यह पद्धति स्थितिक संतुलन की विभिन्न परिस्थितियों की तुलना करती है। तुलनात्मक स्थितिकी में उस क्रिया की ओर ध्यान नहीं दिया जाता जिसके प्रभावार्थी अर्थव्यवस्था एक संतुलन से दूसरे संतुलन में प्रवेश करती है। यह तो परिवर्तन से 'पहले' और परिवर्तन के 'बाद' स्थापित संतुलन की तुलना करती है। जॉन मेनाडें केन्ज ने इस मॉडल को सबसे पहले चालू किया और राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में प्रयोग किया। यह विश्लेषण गत्यात्मक संतुलन की समत्याओं को सम्भालने में असमर्थ है।

Compensating variation in income आय में समकारी/क्षतिपूरक परिवर्तन

Compensation क्षतिपूर्ति, मुआवजा

Compensation, adequate and reasonable पर्याप्त एवं उचित मुआवजा

Compensation, under अल्प क्षतिपूर्ति

Compensation, unemployment बेरोजगारी क्षतिपूर्ति

Compensation award क्षतिपूर्ति पंचाट

Compensation money क्षतिपूर्ति राशि

Compensatory allowance संपूरक भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, क्षतिपूरक भत्ता

Compensatory borrowing संपूरक उधार

Compensatory depreciation संपूरक मूल्यह्रास

Compensatory duty संपूरक शुल्क

Compensatory expenditure संपूरक व्यय

Compensatory financing क्षतिपूर्ति वित्त प्रबंधन

Compensatory fiscal policy संपूरक राज-

कोषीय नीति—राष्ट्रीय धाय एवं रोजगार में उच्चावचन को कम करने के लिए सरकारी वित्त का प्रयत्न करना। संपूरक राजकोषीय नीति जितने न्यून वित्त व्यवस्था एवं अतिरिक्त वित्त व्यवस्था दोनों शामिल होती है, या उद्देश्य राष्ट्रीय धाय का स्तर ऊँचा रखकर रोजगार का ऊँचा स्तर प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य के लिए कराधान और सरकारी व्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रतिस्पर्ध के दौरान, जब गैर-सरकारी व्यय भ्रष्टाचार विनियोग गिर जाता है, तो सरकार इसकी पूर्ति के लिए या तो सरकारी व्यय को बढ़ाती है या कराधान को कम करती है; या दोनों उपाय करती है ताकि उगभोवताओं की धाय बड़े और व्यापार को प्रोत्साहन मिले। स्फीति के दौरान, सरकार राजकीय व्यय को कम करती है और जहाँ तक सम्भव हो सके, करों को भी बढ़ाती है या दोनों उपाय करती है। इसका उद्देश्य स्फीति को बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकना होता है। यदि संपूरक राजकोषीय नीति सम्बन्धी उपाय समय पर लागू कर दिए जाएँ, तो इनसे व्यापारिक उच्चावचनों के प्रभाव अवश्य कम किये जा सकते हैं।

Compensatory official financing संपूरक सरकारी वित्त-प्रयत्न

Compensatory spending संपूरक व्यय

Competing groups of labour श्रमिकों के स्पर्धी वर्ग

Competition प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता

Competition, cut-throat संघर्षी प्रतियोगिता, गलाकट प्रतियोगिता, घातक प्रतियोगिता

Competition, fair उचित प्रतियोगिता

Competition, free निःबाध प्रतियोगिता

Competition, horizontal समस्तर प्रतिस्पर्धा/प्रतियोगिता

Competition, imperfect अपूर्ण प्रतिस्पर्धा/प्रतियोगिता

Competition, monopolistic एकाधिकारारमक प्रतियोगिता

Competition, perfect पूर्ण प्रतिस्पर्धा/प्रतियोगिता

Competition, potential संभाव्य प्रतियोगिता

Competition, pure शुद्ध प्रतियोगिता

Competition, thorough-going सम्पूर्ण प्रति-योगिता

Competition, unfair अनुचित प्रतियोगिता

Competitive advertisement स्पर्धात्मक विज्ञापन, स्पर्धी विज्ञापन

Competitive bidding प्रतियोगितात्मक बोली लगाना

Competitive demand प्रतियोगी माँग, स्पर्धी माँग

Competitive economy स्पर्धी अर्थव्यवस्था

Competitive equilibrium स्पर्धी संतुलन

Competitive firm स्पर्धी फर्म

Competitive goods प्रतियोगी वस्तुएँ

Competitive industry प्रतियोगी उद्योग

Competitive price स्पर्धी कीमत

Competitive strength स्पर्धी शक्ति

Competitive supply स्पर्धी पूर्ति, प्रतियोगी सम्भरण

Competitive value स्पर्धी मूल्य

Competitiveness स्पर्धा शक्ति, स्पर्धा क्षमता

Competitor प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धी, स्पर्धक

Compilation of statistics आँकड़ों का संकलन

Complementarity पूरकता

Complementarity, international अन्तर्राष्ट्रीय

पूरकता—उन्नीसवीं शताब्दी में, विश्व व्यापार के जिस ढलिन का प्राविर्भाव हुआ, वह अन्तर्राष्ट्रीय पूरकता पर आधारित था। उसमें दो प्रकार के देश थे—औद्योगिक देश और प्राथमिक उत्पादन करने वाले देश। प्राथमिक उत्पादन करने वाले देश औद्योगिक देशों को कच्चा माल तथा साधन-पदार्थ जूटते और औद्योगिक देश बदले में निर्मित वस्तुएँ भेजते। इस प्रकार इन अर्थ-व्यवस्थाओं में पूरकता विद्यमान थी। वास्तव में पूरकता सिद्धान्त का प्रयोग साम्राज्यवादी देशों ने उपनिवेशों के घोषण के लिए किया। औद्योगिक शताब्दी में पूरकता की कड़ी आलोचना होने लगी और जैसे औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रवादी सरकारें

कायम हुईं, उन्होंने स्वावलम्बिता की नीति अपनायी आरम्भ की और पूरकता का पतन हुआ ।

- Complementary पूरक
 Complementary demand पूरक मांग
 Complementary employment सहायक रोजगार
 Complementary factors पूरक साधन
 Complementary function पूरक कार्य, पूरक श्रित
 Complementary goods पूरक वस्तुएँ
 Complementary job पूरक काम
 Complementary productive units पूरक उत्पादन इकाइयाँ
 Composite समिश्र, संग्रहित, योगिक, मिश्रित, समुक्त
 Composite commodity मिश्रित वस्तु, संग्रहित वस्तु
 Composite demand संग्रहित मांग, समिश्र मांग
 Composite rent मिश्रित लगान/किराया
 Composite supply संग्रहित सभरण, समिश्र पूति
 Composition of national income राष्ट्रीय आय की संरचना
 Composition of production उत्पादन की संरचना
 Composition of trade व्यापार का ढाँचा
 Compound interest चक्र-वृद्धि ब्याज, सूद-दर-सूद
 Comprehensive planning व्यापक आयोजन
 Compulsory deposit अनिवार्य जमा
 Compulsory delivery of foodgrains अनिवार्य खाद्यान्न प्रदान, खाद्यान्न की अनिवार्य वसूली
 Compulsory liquidation अनिवार्य परिसमापन
 Compulsory procurement अनिवार्य प्राप्ति/वसूली
 Compulsory saving अनिवार्य बचत
 Compulsory social insurance अनिवार्य सामाजिक बीमा
 Compulsive factors अनिवार्यतात्मक कारणात्मक/कारक
 Concentration of economic power आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण
 Concentration of production उत्पादन का संकेन्द्रण

Concentration of ownership स्वामित्व का संकेन्द्रण

Concentration ratio संकेन्द्रण अनुपात—इस शब्द का अभिप्राय किसी उद्योग के कुल उत्पादन के उस प्रतिशत से है जो कि सबसे बड़ी कुछ फर्मों के आधीन होता है । इसका उद्देश्य एक सन्दर्भ सूचक के रूप में उद्योग में स्वामित्व के संकेन्द्रण या एकाधिकार की मात्रा को मापना होता है । उदाहरणार्थ, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एकाधिकार जाँच आयोग (1965) में प्रोसेसर आर० के० हजारी ने उत्पादानुसार संकेन्द्रण को परिभाषित करते हुए लिखा कि जिस वस्तु में सबसे बड़े तीन उत्पादकों का भाग 75 प्रतिशत से अधिक था, वहाँ संकेन्द्रण अनुपात अधिक माना जाएगा । जब तीन बड़े उत्पादकों का कुल उत्पादन में भाग 60 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के बीच होगा, तो संकेन्द्रण अनुपात मध्यम समझा जाएगा और जब यह अनुपात 50 और 60 प्रतिशत के बीच होगा, तो संकेन्द्रण की मात्रा कम मानी जाएगी और जब तीन उच्चतम उत्पादन इकाइयों का भाग 50 प्रतिशत से भी कम होगा, तो संकेन्द्रण अनुपात शून्य माना जाएगा ।

Concept संकल्पना

Concept of parity समानता की संकल्पना

Concern प्रतिष्ठान/कारोबार

Conciliation board समझौता समिति

Conciliator समझौताकार

Concurrent and coincident समवर्ती तथा सम्पाती

Concurrent list समवर्ती सूची

Condemned stock निस्प्रयोज्य स्टॉक, निकम्मा स्टॉक, बेकार स्टॉक

Conditional aid शर्तों सह्यता

Conditional grant शर्तों अनुदान

Conditions of employment रोजगार की शर्तें, रोजगार की परिस्थितियाँ

Conditions of work कार्य की दशाएँ, कार्य की शर्तें

Confiscated property समपहृत सम्पत्ति, जब्त सम्पत्ति

Confiscatory rates of excess profits tax	Consume उपभोग करना
ग्रहण-लाभ कर पर जल्दी दरें	Consumed उपभुक्त
Concoaled labour संचित श्रम	Consumer उपभोक्ता
Conscience money अन्तरात्मा प्रेरित राशि, प्राय- विचित्र कर-अदायगी—इसका अर्थ किसी गुणनाम	Consumer, rational विवेकशील उपभोक्ता
व्यक्ति द्वारा स्वेच्छापूर्वक दी गयी उस मुद्रा-राशि	Consumer, ultimate अन्तिम उपभोक्ता
से है जो कुछ समय पूर्व उसने कर न देकर बचा	Consumer-buyer उपभोक्ता-क्रेता
ली हो।	Consumer-group उपभोक्ता-समूह
Consequent saving परिणामी बचत/संचय	Consumer pressure group उपभोक्ता दबाव वर्ग
Consol (abbreviation for consolidated	Consumer's behaviour उपभोक्ता व्यवहार
annuities) समेकित संवर्षिकी/सनिधि	Consumers, co-operation उपभोक्तार्थों की सह- कारिता/सहयोग
Consol certificate संवर्षिकी पत्र	Consumers' co-operative society उपभोक्ता सह- कारी समिति
Consolidation of debts ऋण समेकन	Consumers' co-operative store उपभोक्ता सह- कारी स्टोर
Consolidation of holdings जोतों की चकदन्दी,	Consumers' council उपभोक्ता परिषद्/समिति
चकदन्दी	Consumers' credit उपभोक्ता उधार/साह
Consolidation of holdings, compulsory प्रति- वर्ष चकदन्दी	Consumers' distribution stores उपभोक्ता वितरण भण्डार
Consolidation of holdings, co-operative सह- कारी चकदन्दी	Consumers' equilibrium उपभोक्ता समतुलन
Conspicuous consumption अभिहृद्य उपभोग, प्रदर्शी उपभोग, विशिष्ट उपभोग, स्वतः उपभोग	Consumers' goods (=consumption goods) उपभोक्ता वस्तुएं/माल
Constant and variable घनर व चर	Consumers' goods, durable चिरस्थायी उप- भोक्ता वस्तुएं
Constant capital निश्चित पूंजी, स्थिर पूंजी	Consumers' goods, final अन्तिम उपभोक्ता वस्तुएं, तैयार उपभोक्ता वस्तुएं
Constant cost स्थिर लागत	Consumers' goods industries उपभोक्ता-वस्तु उद्योग
Constant demand स्थिर मांग	Consumers' guilds उपभोक्ता श्रेणियों, उपभोक्ता संघ
Constant product curve समान उत्पादवक्र	Consumers' organisation उपभोक्ता संस्था, उप- भोक्ता संगठन
Constant production स्थिर उत्पादन	Consumer's outlay उपभोक्ता-व्यय
Constant returns स्थिर प्रत्याय, समानुपातिक प्रत्याय	Consumer's preference उपभोक्ता की प्राय- मिकता, उपभोक्ता-प्रधानता
Constant returns to scale मात्रा सम्बन्धी स्थिर प्रत्याय	Consumers' price index उपभोक्ता कीमत सूचकांक
Constant use अविरत प्रयोग, सतत प्रयोग	Consumers' resistance उपभोक्ता प्रतिरोध
Constant wage plan नियत मजदूरी योजना	Consumers' sovereignty उपभोक्ता की प्रभुता, उपभोक्ता प्रभुत्व
Constellation of forces शक्तियों के पुंज	
Construction of index numbers सूचकांक निर्माण	
Constructional trades निर्माण उद्योग, भवन- निर्माण उद्योग	
Consumable income उपभोग-योग्य आय, उपभोग्य आय	

Consumers' store उपभोजता भण्डार	Consumption trend उपभोग प्रवृत्ति
Consumer's surplus उपभोजता अतिरिक्त	Consumption unit उपभोग इकाई
Consumers' utility उपभोजता उपयोगिता	Contemporary economists समकालीन अर्थशास्त्री
Consumption उपभोग	Contending classes विरोधी वर्ग
Consumption, conspicuous अतिदृश्य उपभोग, प्रदर्शन उपभोग, विशिष्ट उपभोग, विलासी उपभोग	Contingency balances आकस्मिकताधिशेष
Consumption, direct प्रत्यक्ष उपभोग	Contingency fund आकस्मिकता निधि
Consumption, domestic देशीय उपभोग, अन्त- रिक उपभोग	Contingent bonus प्रासंगिक बोनस
Consumption, final अन्तिम उपभोग	Continuing changes अविरत परिवर्तन — हैरड के अनुसार हमें गतिकी (Dynamics) को अविरत परिवर्तनो तक सीमित रखना चाहिए और इसमें एकदा व सदा के लिए होने वाले परिवर्तन सम्मिलित नहीं करने चाहिए ।
Consumption, indirect अप्रत्यक्ष उपभोग	Continuous supply निरन्तर संभरण
Consumption, induced प्रेरित उपभोग	Contraband goods निषिद्ध वस्तुएँ
Consumption, internal आन्तरिक उपभोग	Contraceptives गर्भ-निरोधक
Consumption, over- अतिउपभोग, उपभोग आधिक्य	Contra-quantity theory of causation कारणता का विपरीत परिमाण सिद्धान्त
Consumption, productive उत्पादक उपभोग	Contract ठेका, अनुबंध, सविदा
Consumption, stipulated नियत उपभोग, निश्चित उपभोग	Contract, buying क्रय ठेका, क्रय-अनुबंध
Consumption, under- न्यून उपभोग	Contract, freedom of अनुबंध की स्वतन्त्रता
Consumption, unproductive अनुत्पादक उपभोग	Contract, wage मजदूरी सविदा
Consumption, wasteful ध्वंस उपभोग	Contract labour अनुबंधित श्रम, ठेका मजदूर
Consumption capital उपभोग पूँजी	Contract price अनुबंधित कीमत
Consumption ceiling अधिकतम उपभोग सीमा	Contract rent ठेका लगान, सविदा लगान
Consumption centre उपभोग केन्द्र	Contract wage ठेका मजदूरी, अनुबंधित मजदूरी
Consumption demand उपभोग माँग	Contraction संकुचन
Consumption Economics उपभोग अर्थशास्त्र	Contraction of currency करेन्सी-संकुचन
Consumption education उपभोग शिक्षा	Contraction of demand माँग-संकुचन
Consumption expenditure उपभोग व्यय	Contraction of money मुद्रा-संकुचन
Consumption function उपभोग श्रित	Contraction of supply सभरण-संकुचन, पूर्ति संकुचन
Consumption goods उपभोग वस्तुएँ	Contractual income अनुबंधित आय
Consumption income उपभोग आय	Contribution अदान
Consumption line उपभोग रेखा	Contributory health service अंशदायी स्वास्थ्य सेवा
Consumption loan उपभोग ऋण	Contributory provident fund अंशदायी पूर्वोपायी कोष/भविष्य निधि
Consumption multiplier उपभोग गुणक	Control नियंत्रण
Consumption output उपभोग उत्पाद	Controlled commodity नियंत्रित पण्य वस्तु
Consumption pattern उपभोग ढाँचा/शरूप	Controlled credit नियंत्रित उधार
Consumption quota उपभोग अम्बंश, उपभोग कोटा	
Consumption standard उपभोग मान	
Consumption tax उपभोग कर	

Controlled economy नियंत्रित अर्थव्यवस्था
 Controlled price नियंत्रित मूल्य
 Controlled rate नियंत्रित दर
 Controlling interest नियंत्रणकारी हित, नियंत्रक भागीदार/भाग
 Control of credit उधार नियंत्रण, साख-नियंत्रण
 Control of monopoly एकाधिकार नियंत्रण
 Control of price कीमत नियंत्रण
 Control of supply संभरण नियंत्रण
 Conventional Economics रुढ़ सभ्यतात्मक, पारम्परिक अर्थशास्त्र
 Conventional necessities परम्परागत/रिवाजी आवश्यकताएँ
 Conversion of debt ऋण का परिवर्तन
 Conversion of government promissory notes into stock certificates शासकीय वचनपत्रों का स्क्रिप्ट प्रमाण-पत्रों में परिवर्तन
 Conversion price परिवर्तन-कीमत, बदला कीमत
 Conversion rate परिवर्तन-दर
 Convertibility परिवर्तनीयता, विनिमेयता
 Convertibility crisis मुद्रा-परिवर्तन संकट
 Convertibility of currencies चल-मुद्राओं की परिवर्तनीयता, चल-मुद्राओं की विनिमयसाध्यता
 Convertible bond परिवर्ती बॉन्ड/बंध पत्र
 Convertible currency परिवर्तनीय करेंसी
 Convertible into cash रोक में परिवर्तनीय
 Convertible into gold स्वर्ण में परिवर्तनीय
 Convertible legal tender परिवर्तनीय कानूनी प्राह
 Convertible money परिवर्तनीय मुद्रा
 Convertible paper परिवर्तनीय अर्थपत्र
 Convertible paper currency परिवर्तनीय पत्रमुद्रा
 Convertible security परिवर्त्य प्रतिभूति
 Convertible sterling परिवर्त्य स्टर्लिंग
 Cooling-off period उपशमन अवधि — वह अवधि जिसके दौरान न तो कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं और न ही मालिक तालाबन्दी। इस अवधि के दौरान जब समिति औद्योगिक विवाद सम्बन्धी कारणों का अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देती है। यदि इसके पश्चात् भी अमन-संध

कारखाने के मालिकों के आखिरी प्रस्ताव को रद्द कर देते हैं, तो हड़ताल होने दी जाती है। सामान्यतः इस अवधि का प्रयोग दोनों पक्षों को शान्त कर समझौता करने के लिए किया जाता है।

Co-operation सहकारिता
 Co-operatives सहकारी संस्थाएँ
 Co-operative activities सहकारी क्रियाएँ
 Co-operative agricultural credit सहकारी कृषि उधार
 Co-operative agricultural non credit societies कृषि-प्रदाय सहकारी समितियाँ
 Co-operative agricultural societies सहकारी कृषि समितियाँ
 Co-operative artisans' society सहकारी शिल्पी समिति
 Co-operative bank सहकारी बैंक
 Co-operative bank, central केन्द्रीय सहकारी बैंक
 Co-operative bank, state राज्य सहकारी बैंक
 Co-operative consumers' societies उपभोक्ता सहकारी समितियाँ
 Co-operative credit सहकारी उधार
 Co-operative credit societies act सहकारी उधार समिति अधिनियम
 Co-operative credit society सहकारी साख समिति, सहकारी उधार समिति
 Co-operative credit structure सहकारी उधार संरचना
 Co-operative debt सहकारी ऋण
 Co-operative distributive society सहकारी वितरण समिति
 Co-operative emporium सहकारी वाणिज्य केन्द्र
 Co-operative endeavour सहकारी प्रयास
 Co-operative enterprise सहकारी उद्यम
 Co-operative farming सहकारी खेती/कृषि
 Co-operative farming society सहकारी कृषि/खेती समिति
 Co-operative growers' association सहकारी उत्पादक संस्था

Co-operative housing society सहकारी गृह-निर्माण समिति	सन् 1436 से 1846 तक खाद्यान्न-व्यापार पर लगाए गए ब्रिटिश कानूनों से है। घरेलू उपभोग के लिए आयातित खाद्यान्न पर भारी आयात-शुल्क लगाए गए ताकि खाद्यान्न की अन्तर्देशीय कीमत एक विशिष्ट स्तर से नीचे न गिर जाए। 1837 के पश्चात् इन नियमों के विरुद्ध कड़ा विरोध होने के कारण इन्हें समाप्त करना पड़ा।
Co-operative industrial society सहकारी उद्योग समिति	Corn rent धान्य लगान
Co-operative insurance society सहकारी बीमा समिति	Cornering बाजार सभेटना, एकाधिकारात्मक क्रय
Co-operative joint-farming society सहकारी समुक्त खेती समिति	Corporate business enterprise निगम व्यापार उद्यम
Co-operative land mortgage bank सहकारी भूमि-व्ययक बैंक	Corporate financing कम्पनी वित्त प्रवच, निगम वित्त प्रवच
Co-operative marketing सहकारी विपणन	Corporate income tax निगम आय कर
Co-operative marketing-cum-credit societies सहकारी विपणन एवं साख समितियाँ	Corporate saving निगम बचत
Co-operative marketing society सहकारी विपणन समिति	Corporate sector निगम क्षेत्र
Co-operative marketing system सहकारी विपणन/मंडी प्रणाली	Corporation निगम
Co-operative movement सहकारी आन्दोलन	Corporation, dividend of निगम-लाभाज
Co-operative non-agricultural credit कृषि-भिन्न साख सहकारी समिति	Corporation, private वैयक्तिक/निजी निगम
Co-operative non-agricultural non-credit Society कृषि भिन्न असाख सहकारी समिति	Corporation, public सार्वजनिक निगम
Co-operative non-agricultural societies सहकारी अकृषि/कृषि-भिन्न समितियाँ	Corporation finance निगम-वित्त
Co-operative organisation सहकारी संगठन	Corporation tax निगम कर
Co-operative planning सहकारी आयोजन	Corrected statistics संशोधित आँकड़े
Co-operative principle सहकारिता सिद्धांत	Correlation coefficient सह-सम्बन्ध गुणांक
Co-operative production सहकारी उत्पादन	Correlation ratio सह-संबंधानुपात
Co-operative society सहकारी समिति	Correspondent bank system परस्पर पत्र-दाता बैंक प्रणाली
Co-operative store सहकारी भंडार/स्टोर	Corresponding price अनुह्य कीमत
Co-operative union सहकारी संघ	Co-sharing सह-भाजन
Co-operator सहकार, सहकर्ता	Cosmopolitan wealth सार्वभौम सम्पत्ति
Co-ordination of rail-road transport रेल-सड़क परिवहन समन्वय	Cost लागत, व्यय
Co-ownership सह-स्वामित्व	Cost, advertising विज्ञापन-व्यय
Co-partnership सह-साझेदारी, सहभागिता	Cost, average औसत लागत
Core industries आन्तरिक उद्योग	Cost, average fixed औसत स्थिर लागत
Core projects केन्द्रीय या महत्वपूर्ण परियोजनाएँ	Cost, average total unit औसत कुल इकाई लागत
Corn laws अनाज अधिनियम—इस शब्द का प्रयोग	Cost, average variable औसत परिवर्तनशील लागत
	Cost, capital पूँजीगत लागत
	Cost, constant स्थिर लागत, समान लागत
	Cost, decreasing ह्रासमान लागत

- Cost, direct प्रत्यक्ष लागत
- Cost, element of लागत-तत्त्व
- Cost, explicit सुव्यक्त लागत
- Cost, factor उपादान/साधन लागत
- Cost, factory फैक्ट्री लागत
- Cost, farm operating फार्म संचालन व्यय, फार्म परिवर्ती लागत
- Cost, fixed निश्चित लागत, बंधी लागत
- Cost, implicit अस्पष्ट लागत
- Cost, imputed अभाष्यारोपित लागत
- Cost, increasing बढ़मान लागत
- Cost, joint संयुक्त लागत
- Cost, labour श्रम लागत
- Cost, long-period दीर्घकालीन लागत
- Cost, management प्रबंध लागत
- Cost, manufacturing विनिर्माण लागत
- Cost, marginal सीमान्त लागत
- Cost, minimum न्यूनतम लागत
- Cost, money (-nominal cost) मुद्रा-लागत, नकद लागत
- Cost, non-recurring अनावर्ती लागत
- Cost, normal सामान्य लागत
- Cost, operating प्रचालन व्यय/लागत
- Cost, opportunity अवसर लागत, विकल्प लागत
- Cost, out of pocket नुरत-देय लागत
- Cost, overhead उपरि व्यय
- Cost, prime मूल लागत, मुख्य लागत, परिवर्ती लागत
- Cost, proportionate अनुपातिक लागत
- Cost, real वास्तविक लागत
- Cost, recurring प्रावर्ती लागत
- Cost, short-period अल्पकालीन लागत
- Cost, supplementary अनुपूरक लागत
- Cost, total कुल लागत
- Cost, unit इकाई लागत
- Cost, user उपयोगलागत** — इस पद का प्रयोग लाई केन्ज ने किया। किसी संगठन को खाली छोड़ देने पर भाने वाली लागत से जितना अधिक व्यय उसके प्रबन्धण और बनाए रखने पर आए, वह उसकी उपयोग लागत है।
- Cost, variable परिवर्ती लागत, पटती-पड़ती लागत
- Cost, wage मजदूरी लागत
- Cost account लागत-लेखा, परिष्कृत लेखा
- Cost advantage लागत सुलभ/वचत
- Cost appreciation लागत वृद्धि
- Cost-benefit analysis लागत-लाभ विश्लेषण**— किसी परियोजना (प्रोजेक्ट या प्रोग्राम) की सामाजिक लागत और उससे प्राप्त होने वाले सामाजिक लाभ की तुलना करने की तकनीक।
- Cost calculation लागत परिकलन
- Cost competitiveness लागत प्रतिगोणित्व
- Cost constraint लागत प्रतिबन्ध
- Cost curve लागत वक्र
- Cost dispersions लागत-प्रसार
- Cost gradient लागत-प्रवणता
- Cost ladder लागत सोपान
- Cost of cultivation कृषि लागत
- Cost of distribution वितरण लागत
- Cost of haulage ढुलाई लागत, कर्षण लागत
- Cost of living निर्वाह-व्यय, रहन-सहन की लागत
- Cost of living index number रहन-सहन की लागत का सूचकांक
- Cost of maintenance धनुरक्षण-व्यय
- Cost of management प्रबन्ध लागत
- Cost of production उत्पादन लागत
- Cost of production theory of value मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धांत
- Cost of replacement प्रतिस्थापन लागत
- Cost of reproduction पुनरुत्पादन लागत
- Cost of service सेवा लागत
- Cost of service principle सेवा-लागत का प्रनियम
- Cost of training प्रशिक्षण लागत
- Cost of transport परिवहन लागत
- Cost outlay line लागत परिष्कृत रेखा
- Cost per unit प्रति इकाई लागत
- Cost plus pricing सलभ-लागत कीमत**— लागत परिकलन की वह विधि जिसमें कुल कीमत निश्चित करते समय इसमें वास्तविक लागत का एक विशेष प्रतिशत या अनुपात शामिल कर लिया जाता है।
- Cost price लागत-मूल्य/कीमत
- Cost-push inflation लागत-प्रेरित स्फीति, लागत-प्रेरित स्फीति

- Cost schedule लागत अनुसूची
 Costing लागतगणना
 Costing, full पूर्ण लागतगणना
 Costing, marginal सीमांत लागतगणना
 Cottage industries कुटीर उद्योग
 Cottage industries board कुटीर उद्योग मंडल
 Counter balancing duty प्रति-संतुलनकारी शुल्क
 Countercyclical measures प्रतिचक्रीय उपाय
 Counterfeit coin कूट टक, जाली सिक्का, खोटा सिक्का
 Counterfeit coining जाली सिक्के बनाना
 Counterfeit currency जाली करेंसी
 Counterfeit money कूट मुद्रा, जाली मुद्रा
 Counterfeit note जाली नोट
 Counterpart fund प्रतिरूप निधि
 Countervailing duty प्रति-प्रभावी शुल्क, प्रति शुल्क
 Counter-variations in public investment सार्वजनिक निवेश में विपरीत परिवर्तन
 Country of destination गन्तव्य देश
 Country of origin उद्गम देश
 Country-wise concentration देशानुसार सन्केन्द्रण
 Country-wise trade देशानुसार व्यापार
 Course of trade व्यापार-क्रम
 Craft guild शिल्प श्रेणी
 Craft guild stage दस्तकार श्रेणी अवस्था, शिल्प श्रेणी अवस्था
 Craftsman शिल्पकार
 Crash programme महाभियान
 Credit साख, विश्वास, उधार
 Credit, Controlled नियंत्रित उधार
 Credit, external विदेशी उधार, बाह्य उधार
 Credit, factory of साख का कारखाना (बैंकों को कहते हैं)
 Credit, integrated एकीकृत उधार
 Credit, revolving परिक्रामी उधार
 Credit, rupee रुपया ऋण
 Credit, stand by उद्यत उधार
 Credit account उधार लेखा
 Credit and banking institutions साख तथा बैंक संस्थाएँ
 Credit balance बकाया उधार, अवशिष्ट उधार
 Credit contraction उधार संकुचन
 Credit control उधार नियंत्रण, साख नियंत्रण, साख नियमन
 Credit control, direct प्रत्यक्ष साख नियंत्रण/नियमन
 Credit control, general सामान्य साख नियंत्रण
 Credit control, indirect अप्रत्यक्ष साख नियंत्रण
 Credit control, qualitative गुणात्मक साख नियमन/नियंत्रण
 Credit control, quantitative परिमाणात्मक साख नियंत्रण/नियमन
 Credit control, selective चयनात्मक साख नियमन/नियंत्रण
 Credit control, specific विशिष्ट साख नियमन
 Credit control policy साख नियंत्रण/नियमन नीति
 Credit co-operation साख-सहकारिता
 Credit creation साख-निर्माण, उधार-निर्माण
 Credit creation, limits of साख निर्माण की सीमाएँ
 Credit creation, multiple बहुगुण साख निर्माण
 Credit deposit साख जमा
 Credit expansion साख विस्तार
 Credit financed investment उधार पोषित विनियोग
 Credit inflation उधार स्फीति, साख-स्फीति
 Credit instrument साख-पत्र
 Credit monetisation साख-मुद्रीकरण
 Credit money साख मुद्रा
 Credit needs उधार आवश्यकताएँ
 Credit note उधार पत्र
 Credit policy साख नीति
 Credit position साख स्थिति, उधार स्थिति
 Credit rationing उधार राजनिग—इस नीति के अनुसार बैंक अपने विभिन्न उधार मागने वाली में भेद करते हैं, वे कुछ को तो उधार

दे देते हैं परन्तु प्रत्यक्ष को या तो दण्ड कर देते हैं या उधार की मात्रा सीमित कर देते हैं। बैंक इस नीति को अपनी इच्छा से भी लागू कर सकते हैं यदि उनका उद्देश्य परिवर्तनीय क्रियाओं के लिए उधार की मात्रा सीमित करना हो। कई बार मौद्रिक प्राधिकार के निर्देशानुसार भी इस नीति की पालना करनी पड़ती है।

Credit sale उधार बिक्री

Credit squeeze उधार प्रधिसंकुचन, उधार निषीडन

Credit system उधार प्रणाली

Creditworthiness उधार/साव्य पात्रता

Creditor ऋणदाता

Creditor country ऋणदाता देश

Creeping inflation चंद स्फीति

Creeping socialism मंद गति समाजवाद—इस पद का प्रयोग राष्ट्रपति ब्राइजनहॉवर द्वारा 1953 में अपने एक वक्तव्य में किया गया। इसका अर्थ सरकार द्वारा धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था के गैर-सरकारी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाते जाने से है। पूँजीवादी मंद गति समाजवाद की नीति से उबरते हैं और इसका विरोध करते हैं। उनके भय का कारण यह है कि इस प्रकार पूर्ण समाजवाद स्थापित करने के आन्दोलन को प्रोत्साहन मिलता है।

Crest शिखर

Crisis संकट

Crisis, economic आर्थिक संकट

Crisis, foreign exchange विदेशी विनिमय संकट

Crisis, industrial औद्योगिक संकट

Crisis, monetary मुद्रा संकट

Crisis, periodicity of संकट आवृत्तिता

Crisis, theory of संकट सिद्धांत

Crisis, trade व्यापार संकट

Crisis of implementation कियान्वयन का संकट

Criteria for investment विनियोग की कसौटियाँ

Critical level of output उत्पादन का क्रांतिक स्तर

Crops फसलें, सब्ज, उपज

Crops, cash नकदी फसलें

Crops, commercial व्यापारिक फसलें

Crops, fibre तंतु फसलें

Crops, food खाद्य फसलें

Crops, non-food खाद्य-भिन्न फसलें, अखाद्य फसलें

Crops, plantation रोपे फसलें, बागानी फसलें

Crop diseases फसल रोग

Crop failure फसल विफलता

Crop insurance फसल-बीमा, फसलों का बीमा

Cropped area छस्य क्षेत्र, फसलाधीन क्षेत्र

Cropping pattern फसलों का ढाँचा

Crop production फसल उत्पादन

Crop protection फसल रक्षण

Crop rotation फसल घावर्तन, फसलों का चक्र

Crop sharing फसल बटवारी, फसल सहभागन

Crop statistics फसल सम्बन्धी आँकड़े

Crop yield फसल उत्पत्ति

Cross demand परस्पर माँग, तिर्यक् माँग

Crossed cheque खेति चंक्र, खेति चंक्र

Cross elasticity of demand माँग की परस्पर लोच/तिर्यक् लोच

Cross elasticity of supply पूर्ति की परस्पर लोच/तिर्यक् लोच

Cross transport प्रति परिवहन

Cross transport charges प्रति परिवहन लागतें

Crude birth rate अरोधित जन्म-दर

Crude death rate अरोधित मृत्यु-दर

Crushing period घेरने की अवधि

Crystallised labour घनीभूत श्रम—पार्लमेंट द्वारा प्रतिपादित 'मूल्य के श्रम सिद्धांत' में पूँजी बस्तुओं में पूर्वकाल का निहित प्रयास घनीभूत श्रम माना गया अर्थात् सभी मूल्य किसी बस्तु में श्रम के सम्मिलित होने से उत्पन्न होता है और मानव-भिन्न साधन (Non-human factors) में पूर्वकाल का श्रम मिला होता है।

Cultivable area कृष्य प्रदेश, कृष्य योग्य क्षेत्र

Cultivable land कृष्य भूमि

Cultivable wasteland कृष्य बंजर भूमि, बंजर भूमि

Cultivating implements वर्षक उपकरण, जुताई उपकरण

Cultivation कृषि, खेती
 Cultivation, owner भू स्वामी द्वारा खेती
 Cultivator निसान, कृषक
 Cumulative advantage संचयी लाभ
 Cumulative dividend संचयी लाभांश
 Cumulative error संचयी त्रुटि
 Cumulative preference shares संचयी पूर्वाधिकार अंश, संचयी अधिमान हिस्से
 Cumulative shares संचयी हिस्से
 Cumulative sinking fund संचयी श्रृणु निवारण निधि, संचयी घोषण निधि
 Cumulative time deposit scheme सावधि संचयी जमा योजना
 Currency करेन्सी, चलमुद्रा
Currency, appreciation of करेन्सी की मूल्य वृद्धि, करेन्सी का अधिमूल्यन—विदेशी मुद्रा बाजार में किसी करेन्सी के अन्य देशों की मुद्राओं के मूल्य के रूप में वृद्धि। इस पद का प्रयोग विशेषकर उस विदेशी मुद्रा प्रणाली के लिए किया जाता है जिसमें माँग और पूर्ति में परिवर्तन के फलस्वरूप मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव की स्वतन्त्रता होती है। अतः यदि निर्यात (दृश्य एवं अदृश्य) आयात से अधिक हो, तो देश की करेन्सी की पूर्ति माँग से अधिक हो जाएगी और परिणामतः विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। अतः हम यह कहेंगे कि मुद्रा का अधिमूल्यन हो गया है।
 Currency, approved अनुमोदित करेन्सी, मान्य मुद्रा
 Currency, blocked अवरुद्ध करेन्सी
 Currency, convertible परिवर्तनीय करेन्सी
 Currency, debased कुम्प्य करेन्सी, छोटा चलन
 Currency, deflation of करेन्सी अवन्यति
 Currency, depreciation of मुद्रा मूल्यहास
 Currency, devaluation करेन्सी अवन्यन
 Currency, foreign विदेशी मुद्रा
 Currency, hard दुर्लभ मुद्रा, दुर्लभ करेन्सी
 Currency, inflation of मुद्रा-स्फीति

Currency, managed नियंत्रित मुद्रा, प्रबन्धित करेन्सी
 Currency, overvaluation of मुद्रा का अधिमूल्यन
 Currency, par value of मुद्रा का सममूल्य
 Currency, scarce दुर्लभ मुद्रा/ करेन्सी
 Currency, soft मुलभ मुद्रा
 Currency, undervaluation of मुद्रा का अवन्यन
 Currency, withdrawn प्रत्याहृत चलार्थ, वापिस ली गई मुद्रा
 Currency account करेन्सी लेखा
 Currency area करेन्सी क्षेत्र, चल मुद्रा क्षेत्र
 Currency authority करेन्सी प्राधिकार, चल मुद्रा प्राधिकार
 Currency money करेन्सी, चलन मुद्रा
 Currency note करेन्सी नोट, चलार्थ पत्र
 Currency standard करेन्सी प्रमाण, चलार्थ प्रमाण
 Currency system मुद्रा प्रणाली
 Currency unit करेन्सी इकाई, चकार्य एकक
 Currency-wise trade करेन्सी अनुसार व्यापार
 Current account चालू खाता
 Current bank paper प्रचलित बैंक-पत्र
 Current budget चालू बजट
 Current coin प्रचलित सिक्का
 Current deposit चालू जमा
 Current expenditure चालू व्यय
 Current financial year चालू वित्त-वर्ष
 Current price प्रचलित मूल्य
 Current rate of exchange वर्तमान विनिमय दर
Current ratio वर्तमान अनुपात—किसी फर्म की वर्तमान परिष्पत्तु और वर्तमान दायित्व के बीच अनुपात। यदि किसी फर्म की वर्तमान परिष्पत्तु 10 लाख रुपये और वर्तमान दायित्व 5 लाख रुपये है, तो उसका वर्तमान अनुपात 2 : 1 हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 रुपये के प्रत्येक श्रृणु के विरुद्ध फर्म के पास 2 रुपये की वर्तमान परिष्पत्तु उपलब्ध है। इस सूचक का प्रयोग किसी फर्म की वर्तमान स्थिति जानने के लिए किया जाता है चाहे वह इसका सर्वोत्तम सूचक नहीं। इसका कारण यह है कि परिष्पत्तु के

अन्तर्गत मालतालिकाओं का मूल्य भी जोड़ दिया जाता है। इसकी तुलना में टेजाबी परीक्षण अनुपात (Acid Test Ratio) फर्म की वर्तमान परिस्थिति का प्रथम विश्वसनीय सूचक है।

Current revenues वर्तमान राजस्व
 Current wage-rate प्रचलित मजदूरी-दर
 Current year चालू वर्ष
 Current year's budget वर्तमान वर्ष का बजट
 Current yield वर्तमान प्राप्ति
 Curve वक्र
 Custom duty सीमा-शुल्क, आशुल्क
 Custom free trade zone सीमा शुल्क व्यापार क्षेत्र
 Custom house सीमा-शुल्क कार्यालय
 Custom of trade व्यापार-प्रथा
 Customary rent रिवाजी किराया, प्रथागत लगान
 Customary wage रिवाजी मजदूरी
 Customer शाहक
 Customs and union excise revenue statement आशुल्क और संघ उत्पादन शुल्क विवरण
 Customs barrier शुल्क-द्वार, सीमा-शुल्क अवरोधक
 Customs budget सीमा-शुल्क बजट
 Customs duty receipt आशुल्क/सीमा-शुल्क प्राप्ति
 Customs tariff सीमा शुल्क सूची
 Customs union सीमा-शुल्क संघ
Cutback छंटनी—श्रम-सम्बन्धों में इस पद का प्रयोग काम को बचाने के कारण श्रमिकों को नौकरी से अलग करने के रूप में किया जाता है।
 Cut price घटी कीमत
 Cyclical growth चक्रिक वृद्धि
 Cyclical fluctuations चक्रिय उच्चावचन, चक्रिक उच्चावचन
 Cyclical manifestations चक्रिय अभिव्यक्तियाँ
 Cyclical price चक्रिय कीमत
 Cyclical unemployment चक्रिक बेरोजगारी
 Czarism (also Tzarism) जारशाही

D

Daily bank sheet दैनिक प्रथिकोप-पत्र
 Daily hours दैनिक कार्य घण्टे

Daily paid labour दिहाड़ीदार मजदूर, दैनिक प्रथिक
 Daily sale दैनिक विक्रय
 Daily wage दैनिक मजदूरी, दिहाड़ी
 Dairy farming गन्धशाला उद्योग, डेरी उद्योग
 Dairy product डेरी उत्पाद, गन्धशाला उत्पाद
 Data साक्ष्यी, आधार-साक्ष्यी, साँकड़े
 Data, irrelevant असम्बद्ध सामग्री
 Data, observable पर्यवेक्षणीय तथ्य
 Data, raw कच्ची सामग्री
 Data, relevant सम्बद्ध सामग्री
 Data analysis साँकड़ा विश्लेषण
 Data collection साँकड़ा संग्रहण
Dating of quantities or variables परि-
 माणों लक्ष्यता चरों का दिनांकन—इस पद का प्रयोग स्थैतिकी (Statics) व गतिकी (Dynamics) के संदर्भ में किया जाता है।
 Days of grace रिवायती दिन, अनुग्रह दिवस
 Day-to-day business दैनिक व्यापार
 Day-to-day loans दैनिक उधार
 Day-to-day money दैनिक राशि
 Dead account निष्क्रिय लेखा, बट्टा खाता
 Dead loan मृत ऋण, बट्टा ऋण
 Dead rent मृत लगान, मृत भाटक
 Dead stock मृत स्तक्य
 Dealer व्यापारी
 Dealings in money मुदा पणन, मुदा का लेन-देन
 Dear money महंगी मुद्रा, उच्च व्याज मुद्रा
 Dear money policy दुर्लभ या महंगी मुद्रा-नीति
 Dearness allowance महंगेपई भत्ता
 Death duty मृत्यु-कर
 Death rate मृत्यु-दर, मृत्यु अनुपात
 Debasement धातु हासन, अधिकुम्पन
 Debenture ऋण-पत्र
 Debenture capital ऋण-पत्र पूँजे
 Debenture interest ऋण-पत्र व्याज
 Debenture loan ऋण-पत्र उधार
 Debenture redemption fund ऋण-पत्र विमोचन निधि, ऋण-पत्र निष्क्रयण-निधि
 Debt ऋण

Debt, burden of ऋण-भार	Debt, redeemable प्रतिदेय ऋण
Debt, burden of maturing देय-ऋण वा बोक	Debt, redeemable long-period दीर्घावधि प्रति- देय ऋण
Debt, callable तुरन्त-देय ऋण, याचना-योग्य ऋण	Debt, redeemable short-period अल्पावधि प्रतिदेय ऋण
Debt, classification of public सरकारी/ सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण	Debt, redemption ऋण विमोचन
Debt, compulsory अनिवार्य ऋण	Debt, redemption of external विदेशी ऋण का शोधन/विमोचन
Debt, conversion of ऋण की बदली/परिवर्तन	Debt, redemption of internal आंतरिक ऋण का शोधन/प्रतिदान
Debt, dead weight मृत-भार ऋण, निष्परिसंपद् ऋण	Debt, refunding of ऋण की वापसी, ऋण का पुनर्शोधन
Debt, direct burden of प्रत्यक्ष ऋण-भार	Debt, repatriation of sterling स्टर्लिंग ऋण प्रत्यावर्तन
Debt, external बाहरी/बाह्य ऋण	Debt, service charge on public सार्वजनिक ऋण का सेवा-व्यय
Debt, external interest bearing बाह्य व्याज- मूलक ऋण	Debt, short-period अल्पकालिक ऋण
Debt, floating अनिश्चित ऋण	Debt, terminal मियादी ऋण
Debt, foreign विदेशी ऋण	Debt, uncovered अमुरक्षित ऋण
Debt, forms of public सार्वजनिक ऋण के रूप	Debt, undated लिखिरहित ऋण, अनिश्चित काल ऋण
Debt, funded निधिबद्ध ऋण, निधिक ऋण	Debt, unfunded अनिधिक ऋण, अनिधिबद्ध ऋण, अल्पकालिक ऋण
Debt, gross सबल ऋण	Debt, unproductive अनुत्पादक ऋण
Debt, indirect burden of अप्रत्यक्ष ऋण-भार	Debt, voluntary ऐच्छिक ऋण
Debt, inter-governmental अन्तः सरकारी ऋण	Debt adjustment ऋण समायोजन
Debt, interest-bearing व्याज सहित ऋण, व्याज- मूलक ऋण	Debt avoidance ऋण परिहार
Debt, internal आंतरिक ऋण	Debt capital ऋण-पूँजी
Debt, internal interest-bearing आंतरिक व्याज सहित ऋण	Debt charges ऋण-प्रभार
Debt, irredeemable अप्रतिदेय ऋण	Debt conciliation board ऋण सम्झौता मंडल/ बोर्ड
Debt, longterm दीर्घकालिक ऋण	Debt management ऋण-प्रबन्ध
Debt, management of public सार्वजनिक ऋण का प्रबन्ध	Debt monetisation ऋण मुदीकरण
Debt, marketable विक्रय ऋण	Debt obligation ऋण दायित्व
Debt, national राष्ट्रीय ऋण	Debt redemption ऋण विमोचन
Debt, net शुद्ध ऋण	Debt redemption levy ऋण शोधन कर (प्रयात् पूँजी कर)
Debt, non-interest bearing व्याजरहित ऋण	Debt reduction ऋण प्रह्रास
Debt, non-marketable अविक्रय ऋण	Debt relief measures ऋण निवृत्ति उपाय
Debt, perpetual सतत ऋण, अद्विरेल ऋण	
Debt, private निजी ऋण, गैर-सरकारी ऋण	
Debt, productive उत्पादक ऋण	
Debt, public सरकारी ऋण, लोक ऋण, सार्वजनिक ऋण	

Debt repayment ऋण अदायगी/बुकीती/वापसी
 Debt repudiation ऋण निराकरण, ऋण निषेध,
 ऋण प्रत्याख्यान
 Debt secured on movable property चल-
 सम्पत्ति प्रतिभूत ऋण
 Debt service ऋण-प्रभार, ऋण-सेवा
 Debtor ऋणी, देनदार
 Debtor country देनदार देश, ऋणी देश
 Debt-to-net-worth ratio ऋण-शुद्ध-परिसम्पत्
 अनुपात—किर्मी कर्मे के कुल दायित्व और इसकी
 शुद्ध परिसम्पत् में अनुपात।
 Debit account विकलन लेखा, नाम लेखा
 Debit balance विकलन-शेष, नाम शेष
 Debit side नाम की धोर, विकलन-पार्श्व
 Debit transactions विकलन-व्यवहार, नाम
 व्यवहार
 Decentralisation of industries उद्योगों का
 विकेन्द्रीकरण
 Decentralised industry विकेन्द्रित उद्योग
 Decentralised loan विकेन्द्रित उधार
 Decimal coinage system दशमिक सिक्का प्रणाली
 Declining economy घटती-घटती अर्थव्यवस्था
 Decontrol विनियंत्रण
 Decreasing cost ह्रासमान लागत, घटती लागत
 Decreasing cost industry ह्रासमान लागत उद्योग
 Decreasing marginal cost घटती सीमांत लागत,
 ह्रासमान सीमान्त लागत
 Decreasing returns ह्रासमान प्रत्याय
 Decumulation विसंचयन
 Deductive method निगमन विधि
 Deductive science निगमन विज्ञान
 Defalcation रवानत—धन या सम्पत्ति का छिनेहरण
 Defence deposit certificate रक्षा जमा-पत्र
 Defence expenditure सुरक्षा व्यय
 Deferred rebate system स्थगित छूट प्रणाली
 Deficiency of capital पूँजी की न्यूनता
 Deficit घाटा
 Deficit budget न्यूनता बजट, घाटे का बजट
 Deficit economy घाटे की अर्थव्यवस्था

Deficit expenditure न्यूनता व्यय
 Deficit finance न्यूनता वित्त
 Deficit financing न्यूनता वित्त-प्रबंधन, हीन
 वित्त-प्रबंधन—जानबूझकर बजट में घाटा कायम
 करना। बजट द्वारा राजकीय नीति और मौद्रिक
 नीति अब एक-दूसरे की पूरक मानी जाती हैं।
 स्फीति को रोकने के लिए बजट-धितरेक की नीति
 अपनाई जाती है ताकि उपभोक्ताओं के पास क्रय-
 शक्ति की मात्रा कम की जा सके। परन्तु व्यापारिक
 मन्वी और गहरी बेरोजगारी की स्थिति में, न्यूनता
 वित्त प्रबंधन द्वारा जानबूझ कर राज्य सरकार व्यय
 को बढ़ाती है। चूंकि राजकीय व्यय राज-
 कीय आयम से ढक जाता है, इसलिए सरकारी
 बजट में राजस्व की न्यूनता का वित्त-प्रबंधन करने
 के लिए या तो सरकार द्वारा इमे उधार लेकर या
 प्रधिक नोट छाप कर पूरा किया जाता है।
 यह राजकीय व्यय किसी-न-किसी प्रकार के धार्म-
 जनिक निर्माण प्रोग्राम पर लगाया जाता है जिसमें
 लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ती है और आयिक क्रिया
 त्वरित हो जाती है। इस प्रकार पुनरुत्थान की
 प्रवृत्ति बल पकड़ जाती है।
 अल्पविकसित देशों की विकास योजनाओं में
 जब आयोजित विनियोग के लिए वित्त के अर्थ
 स्रोतों से पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, तो
 सरकार न्यूनता वित्त-प्रबंधन का सहाय लेती है।
 Deficit region न्यूनता प्रदेश
 Deflation अपस्फीति, धबस्फीति
 Deflation of currency करेन्सी अपस्फीति
 Deflation of index number सूचकांक का सममूल्य-
 करण
 Deflation of national income राष्ट्रीय आय का
 सममूल्यकरण, राष्ट्रीय आय का अवमूल्यन
 Deflationary अपस्फीतिकारी, अवस्फीतिकारी
 Deflationary gap धबस्फीतिकारी अन्तर—धब-
 स्फीति के काल में उपलब्ध सभी वस्तुओं और
 सेवाओं का प्रयोग व्यय के अभाव के कारण नहीं
 हो सकता। व्यय की वह मात्रा, (चाहे वह गैर-
 सरकारी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध
 कराया जाए) जो पूर्ण रोजगार की स्थिति के लिए

आवश्यक है, अवस्फीतिकारी अन्तर को व्यक्त करती है। पूर्ण रोजगार स्तर पर सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग हो सकता है।

Deflationary motive अवस्फीति उद्देश्य

Deflationary movement अवस्फीति गति

Deflationary period अवस्फीति काल, अवस्फीति काल

Deflationary tendency अवस्फीति-प्रवृत्ति

Deflationary unemployment अवस्फीतिकारी बेरोजगारी

Deflationist अवस्फीतिवादी

Degrassive taxation ह्रासमान भारोही कराधान

—एक भारोही कर जो घटती हुई दर पर बढ़ता है। इस कर में जैसे-जैसे कराधीन राशि बढ़ती जाती है, कर-दर में वृद्धि होती तो है परन्तु घटते हुए अनुपात में। एक सीमा ऐसी आ जाती है जिसके पश्चात् प्राप्त होने वाली सभी आय पर एक प्रकार का आनुपातिक कर लगाया जाता है।

Delinquent tax उद्घाह्य कर, बकाया महसूल— एक ऐसा कर जो भुगतान तिथि के पश्चात् भी प्रदा न किया गया हो। बकाया कर के लिए दण्ड दिया जाता है।

Demand माँग

Demand, abnormal असामान्य माँग

Demand, aggregate समस्त माँग

Demand, aggregate function समस्त माँग फ़िक्त

Demand, anticipated प्रत्याशित माँग

Demand, brisk त्वरित माँग

Demand, competitive स्पर्धी माँग

Demand, composite समूहित माँग

Demand, contraction of माँग का संकुचन

Demand, constant स्थिर माँग

Demand, cross elasticity of माँग की परस्पर लोच/द्विर्क लोच

Demand, decrease of माँग में कमी

Demand, deferred दायित्वित माँग

Demand, deficiency of effective समर्थ माँग का अभाव

Demand, definite निश्चित माँग, निश्चित अभिवाचन

Demand, derived व्युत्पन्न माँग

Demand, direct प्रत्यक्ष माँग

Demand, effective समर्थ माँग

Demand, elastic लोचदार माँग

Demand, elasticity of माँग की लोच

Demand, excess अति माँग

Demand, expansion of माँग का विस्तार

Demand, extension of माँग का विस्तार

Demand, hyper-sensitivity in माँग में प्रति-हृपता/प्रति संवेदनशीलता

Demand, income elasticity of माँग की प्राय लोच

Demand, increase of माँग में वृद्धि

Demand, inelastic लचकहीन माँग, लोचहीन माँग

Demand, insensitive संवेदनाशून्य माँग, अहृप माँग

Demand, inter-connected अन्तःनिर्भर माँग

Demand, investment निवेश माँग

Demand, joint संयुक्त माँग

Demand, law of माँग का नियम

Demand, marginal सीमांत माँग

Demand, market बाजार माँग

Demand, measurement of price elasticity of माँग की कीमत लोच का माप

Demand, negative income elasticity of माँग की ऋणात्मक आय लोच

Demand, normal सामान्य माँग

Demand, outstanding प्राप्य माँग, प्राप्य अभिवाचन

Demand, pattern of माँग का स्वरूप

Demand, perfectly elastic पूर्णतया लोचदार माँग

Demand, perfectly inelastic पूर्णतया लोचहीन माँग

Demand, potential संभाव्य माँग

Demand, pressure of माँग का दबाव

Demand, price elasticity of माँग की कीमत लोच

Demand, reciprocal परस्पर माँग
 Demand, relatively elastic सापेक्षतया लोचदार माँग
 Demand, relatively inelastic सापेक्षतया बेलोच माँग
 Demand, replacement प्रतिस्थापन माँग
 Demand, responsiveness of माँग की प्रस्तुतरता
 Demand, rival (=competitive demand) स्पर्धी/प्रतियोगी माँग
 Demand, speculative परिकल्पनी माँग
 Demand, substitution elasticity of माँग की स्थापान लोच
 Demand, unitary elastic ऐकिक लोचदार माँग
 Demand, zero income elasticity of माँग की शून्य आय लोच
 Demand bill ऋभियाचन विपद
 Demand curve माँग वक्र
 Demand curve, conventional पारम्परिक माँग वक्र
 Demand curve, exceptional अपवादी माँग वक्र
 Demand curve, horizontal straight line समस्तर सीधा माँग-वक्र
 Demand curve, individual व्यक्तिगत/वैयक्तिक माँग-वक्र
 Demand curve, kinked विवृजित माँग वक्र
 Demand curve, market बाजार माँग वक्र
 Demand curve, normal सामान्य माँग वक्र
 Demand curve, rectangular hyperbola आयताकार अर्ध-द्वितीय माँग-वक्र
 Demand curve, shift of माँग-वक्र का विचलन
 Demand curve, traditional पारम्परिक माँग वक्र
 Demand curve, vertical straight उदग्र सीधा माँग वक्र
 Demand deposit माँग जमा, ऋभियाचन जमा, ऋभियाचन विशेष
 Demand draft माँग ड्राफ्ट, दर्शनी हुंडी
 Demand draft purchased क्रीत-माँग ड्राफ्ट, क्रीत दर्शनी हुंडी
 Demand function माँग भित्त
 Demand liability माँग देयता, ऋभियाचन देयता

Demand loan माँग उधार, ऋभियाचन उधार
 Demand price ऋभियाचन मूल्य, माँग मूल्य
 Demand promissory note माँग/ऋभियाचन-पत्र
 Demand rate माँग दर, ऋभियाचन-भर्ष
 Demand schedule माँग सूची, ऋभियाचन अनुसूची
 Demand schedule, individual व्यक्तिगत माँग अनुसूची
 Demand schedule, market बाजार माँग अनुसूची
 Democratic socialism लोकतन्त्रीय समाजवाद-यह कुछ हद तक एक अस्पष्ट संकल्पना है जिसमें समाजवाद के संशोधित रूप, विशेषकर राष्ट्रीय आर्थिक प्रभोजन और कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का संसदीय क्रियाओं और पारम्परिक नागरिक स्वतन्त्रताओं से समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में यह धारणा अशोक मेहता, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों द्वारा प्रतिपादित की गयी और सत्ताधारी कांग्रेस दल इसे नए समाज के विकास का आधार मानता है।
 Demographer जनान्किकीविद्
 Demographic features जनान्किकीय लक्षण
 Demographic habits जनान्किकीय आदतें
 Demographic investment जनसंख्या पर विनियोग
 Demographic training and research centre जनान्किकीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र
 Demographic transition जनान्किकीय संक्राति
 Demographic trend जनान्किकीय प्रवृत्ति
 Demography जनान्किकी
 Demonetisation विमुद्रीकरण
 Demonetisation of notes नोटों का विमुद्रीकरण
 Demonstration effect प्रदर्शन-प्रभाव
 Demotion पदावनति
 Demurrage दिलम्ब शुल्क
 Denationalisation धरास्ट्रीयकरण, विरास्ट्रीयकरण
 Denomination मूल्य वर्ग
 Denomination of security प्रतिभूति का अंकित मूल्य
 Denominational share मूल्यअंकित हिस्सा
 Denominational value अंकित मूल्य
 Densely populated areas सघन आबादी वाले क्षेत्र

Density of population	जनसंख्या का घनत्व, जनघनत्व	Depreciation fund	अवक्षयण निधि, अवमूल्यन निधि, मूल्यह्रास निधि
Dependence allowance	आश्रय भत्ता, पराश्रय भत्ता	Depreciation of capital	पूँजी मूल्यह्रास
Dependent variable	आश्रित चर	Depreciation of currency	वरेन्सी अवमूल्यन
Depletion allowance	अवक्षय छूट	Depreciation of money	मुद्रा-अवमूल्यन
Depopulation	निर्जनीकरण	Depreciation of plant and machinery	सयन्त्र एवं मशीनरी का मूल्यह्रास
Deposit	जमा, निक्षेप	Depreciation of value	मूल्यह्रास
Deposit, cumulative time	सावधि संचयी जमा	Depreciation reserve	मूल्यह्रास आरक्षण निधि
Deposit, current	चालू जमा	Depreciation-reserve ratio	मूल्यह्रास आरक्षित निधि अनुपात
Deposit, defaulted	असोधित जमा	Depressed area	अवनत क्षेत्र, अवसन्न क्षेत्र
Deposit, fixed	मियादी जमा	Depressed industry	मंद/अवनत उद्योग
Deposit, idle	निष्क्रिय जमा	Depressed market	अवसन्न बाजार
Deposit, longterm	दीर्घकालीन जमा	Depression	मंदी
Deposit, recurring	आवर्ती जमा	Depression, economic	आर्थिक मंदी
Deposit, time	सावधि जमा	Depression, industrial	औद्योगिक मंदी
Deposit, account	जमा लेखा, निक्षेप लेखा	Depression, periodic	सामयिक मंदी
Deposit and advances	निक्षेप और अग्रिम	Depression in price	मूल्यावसाद
Deposit at call	याचना देय निक्षेप/जमा	Depression in trade	व्यापार-अवसाद
Deposit at call receipt	याचना देय निक्षेप की प्राप्ति	Depressive monetary repercussions	अवसादी मौद्रिक क्रियाएँ
Deposit balance	निक्षेप शेष	Derived demand	व्युत्पन्न मांग
Deposit bill	निक्षेप विषत्र	Derived supply	व्युत्पन्न संभरण पूर्ति
Deposit book	निक्षेप पुस्तक	Descending order of productivity	उत्पादितता का निम्नगामी क्रम
Deposit creation	निक्षेप निर्माण	Descriptive Economics	वर्णनात्मक अर्थशास्त्र
Deposit creation in multi-bank system	बहु-बैंक प्रणाली में निक्षेप निर्माण	Dessert products	मिष्ठान्न उत्पाद (काफी, चाय, चीनी आदि को कहा जाता है)
Deposit insurance	जमा/निक्षेप बीमा	Determinants of prices	कीमत निर्धारक तत्व
Deposit liability	जमा देयता	Determinate maximum point	निश्चिन अधिकतम बिन्दु
Deposit money	निक्षेप/जमा राशि	Determination of compensation	क्षतिपूर्ति का निर्धारण
Deposit of funds	निधि निक्षेप	Determination of value	मूल्य निर्द्वयन, मूल्य निर्द्वयन, कीमत निर्धारण
Deposit turnover	जमा आवर्त	Devaluation	अवमूल्यन
Depositor	जमाकर्ता, निक्षेपक	Devaluation of currency	मुद्रा का अवमूल्यन, चलार्थ अवमूल्यन
Depositor's insurance benefit scheme	जमाकर्ता बीमा लाभ योजना		
Depreciation	मूल्यह्रास, प्रयोग में मूल्य ह्रास, अवमूल्यन		
Depreciation allowance	मूल्यह्रास छूट		
Depreciation charge	मूल्यह्रास प्रभार		

Developing economy	विकसमान/विकासोन्मुख/ विकासशील अर्थव्यवस्था	Development via excess capacity	अतिरिक्त सामर्थ्य द्वारा विकास
Development	विकास	Development via shortage of over-head social capital	सामाजिक उपरि पूँजी को न्यूनता द्वारा विकास
Development, all round	सर्वांगीण विकास	Developmental change	विकास संबंधी परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन
Development, arrested	कुटित विकास	Developmental data	विकासात्मक सामग्री
Development, economic	आर्थिक विकास	Developmental education	विकासी शिक्षण
Development, level of	विकास-स्तर	Developmental expenditure	विकास-व्यय
Development, social	सामाजिक विकास	Developmental growth	विकासात्मक वृद्धि
Development and planning department	विकास तथा योजना विभाग	Developmental imports	विकास संबंधी आयात
Development and resettlement department	विकास एवं पुनर्वासन विभाग	Developmental planning	विकासात्मक आयोजन
Development area	विकास-क्षेत्र	Developmental programming	विकास-प्रोग्रामी- करण, विकासात्मक कार्यक्रमीकरण
Development block	विकास समूह, विकास प्रखंड	Developmental protection	विकासी संरक्षण
Development board	विकास मंडल	Developmental research	विकास अन्वेषण
Development budget estimates	विकास बजट प्राक्कलन	Developmental scheme	विकास योजना
Development charges	विकास प्रभार, विकास- व्यय	Developmental significance	विकास महत्त्व
Development commission	विकास आयोग	Developmental tendencies	विकास संबंधी/ विकासात्मक प्रवृत्तियाँ
Development commissioner	विकास आयुक्त	Devolution	अन्तरण, प्रकामण
Development council	विकास परिषद्	Devolution act	प्रकामण अधिनियम
Development department	विकास विभाग	Devolution of agricultural land	कृषि भूमि का प्रकामण
Development finance	विकास वित्त	Devolution of property	सम्पत्ति का प्रकामण
Development fund	विकास निधि	Devolution rules	प्रकामण नियम
Development loan	विकास उधार	Dialectical materialism	द्वंद्वात्मक भौतिकवाद
Development minister	विकास मंत्री	Differential reward	भिन्नक/विभेदक/विशेषक पुरस्कार
Development officer	विकास अधिकारी	Differential surplus	विशेषक बचत
Development of industries	उद्योगों का विकास	Differential tariff	विभेदक टैरिफ/शुल्क
Development of minerals	खनिज विकास	Diffusion of national income	राष्ट्रीय आय का प्रसारण/विसरण
Development oriented loans	विकास-प्रमुख ऋण, विकासोन्मुख ऋण	Diffusion of ownership	स्वामित्व-प्रसारण, स्वा- मित्व विसरण
Development plan	विकास योजना	Diffusion theory of taxation	कराधान का प्रसारण सिद्धांत, कराधान का व्यापकता सिद्धांत
Development planning	विकास आयोजन		
Development process	विकास प्रक्रिया		
Development project	विकास योजना/परियोजना		
Development programme	विकास कार्यक्रम/ प्रोग्राम		
Development standing committee	विकास स्थायी समिति		

Diminishing increment of product हासमान उत्पाद वृद्धि
 Diminishing marginal utility हासमान सीमांत उपयोगिता
 Diminishing productivity हासमान उत्पादिता
 Diminishing returns हासमान प्रतिकल
 Direct control of investment विनियोग का प्रत्यक्ष नियन्त्रण
 Direct demands on the revenue राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष मांग (व्यय)
 Direct entrepreneurial investment प्रत्यक्ष उद्यमकर्ता-विनियोग
 Direct personal services प्रत्यक्ष वैयक्तिक सेवाएँ
 Direct subsidy प्रत्यक्ष साहाय्य
 Direct tax प्रत्यक्ष कर
 Direct wage प्रत्यक्ष भृति/मजदूरी
 Direction of trade व्यापार की दिशा
 Directly productive capital प्रत्यक्ष रूप में उत्पादक पूँजी
 Director निदेशक
 Disablement benefit विकलांगता सहायता, अपा-ह्रियन सम्बन्धी सहायता
 Disciplinary lay-off अनुशासनारमक बाध्य छुट्टी
 Discomfort असुविधा
 Discount बट्टा
 Discount house बट्टा गृह, बट्टा घर, पूर्व प्रापण गृह
 Discount market विपन्न विपणि, हुण्डी बाजार
 Discount rate बैंक दर, बट्टा दर
 Discounted bills बट्टागत हुण्डियाँ, बट्टागत-विनियम पत्र
 Discounted cash flow method बट्टाहृत रोक प्रवाह प्रणाली—इसका प्रयोग विनियुक्त पूँजी पर प्राप्त प्रत्याय-दर को मापने के लिए किया जाता है। किसी प्रोजेक्ट का मूल्य व्याज-दर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिस पर प्रोजेक्ट की कुल भावी प्राप्ति उस काल में बट्टा करने के पश्चात् मौलिक विनियोग के बराबर हो जाती है। यह प्रणाली अन्य प्रणालियों से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें मुद्रा के समय-मूल्य के महत्त्व को

स्वीकार किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा किसी प्रोजेक्ट की अस्वीकार्यता का निर्णय उस प्रोजेक्ट से प्रत्याशित प्रत्याय-दर और फर्म की मानक-दर से तुलना करके किया जाता है।

Discounted value बट्टागत मूल्य
 Discounting बट्टा काटना
 Discretionary expenditure विवेकाधीन व्यय
 Discretionary grant विवेकाधीन अनुदान, विवेकानुदान
 Discriminating duty विभेदकारी शुल्क
 Discriminating freight rates विभेदकारी भाटक, विभेदकारी भाडा दरें
 Discriminating monopoly विभेदकारी एकाधिकार, भेदमूलक एकाधिकार
 Discriminating monopoly of first degree पहले दर्जे का भेदमूलक एकाधिकार
 Discriminating monopoly of second degree दूसरे दर्जे का भेदमूलक एकाधिकार
 Discriminating monopoly of third degree तीसरे दर्जे का भेदमूलक एकाधिकार
 Discriminating protection भेदमूलक संरक्षण
 Discriminating rates विभेदकारी व्याज-दरें
 Discriminating support विभेदरमक प्रालम्बन
 Discriminating tariff विभेदकारी प्रशुल्क
 Discrimination in prices मूल्य के भेद-भाव
 Discriminatory currency practices विभेदकारी करन्सी व्यवहार
 Discriminatory taxation भेदमूलक कराधान
 Diseconomies अमितव्ययताएँ
 Diseconomies, external बाहरी/बाह्य अमित-व्ययताएँ
 Diseconomies, internal अन्तरिक/भाम्यन्तर अमितव्ययताएँ
 Disequilibrium असंतुलन, असमतोल
 Disguised unemployment गुप्त बेरोजगारी, छुप बेरोजगारी
 Disharding विसंग्रह, विसंग्रहण
 Dishonour a bill बिल नकारना, विपन्न भनादरण
 Dishonour a cheque बैंक नकारना, बैंक भनादरण

- Disinflation विस्फीति
- Disinvesting economy घटानियोजी प्रथमव्यवस्था
- Disinvestment घटानियोजन
- Dislocated trade विस्थापित व्यापार
- Dislocation of business व्यापार का प्रस्त-व्यस्त
होना, व्यापार का विस्थापन
- Dislocation of labour श्रम-विस्थापन
- Dislocation of normal trade सामान्य व्यापार
का विस्थापन
- Dismal science** निकृष्ट विज्ञान — थॉमस कार्लाइल
द्वारा प्रथमशास्त्र के लिए निकृष्ट विज्ञान शब्द का
प्रयोग किया गया। इसका कारण यह नहीं कि
वह इस शास्त्र की विय-सामग्री से प्रसतुष्ट था,
बल्कि उबने मालदस घोर उसके अनुयायियों की
निराशाजनक भविष्यवाणी से खिन्न हो इसका
नाम निकृष्ट विज्ञान रख दिया।
- Dismissal पदच्छुति, बर्खास्तगी
- Disparity असमतता
- Disparity of prices मूल्य-असमतता
- Dispersed industries विच्छिन्न उद्योग
- Dispersion प्रसार, फैलाव
- Displaced government servant विस्थापित
सरकारी कर्मचारी
- Displaced person विस्थापित व्यक्ति
- Displacement of skill कौशल विस्थापन
- Displacement tonnage विस्थापन टन-भार
- Disposable income प्रयोज्य आय, निर्वाह्य आय
- Disposal of balance of wages बकाया मजदूरी
का भुगतान
- Disposal of property सम्पत्ति का निवर्तन, सम्पत्ति
निपटान
- Disposal register निपटान रजिस्टर
- Disputant विवादी
- Dispute, economic प्राथिक विवाद, प्राथिक समझौता
- Dispute, industrial औद्योगिक विवाद
- Dispute, jurisdictional प्रमलदारी विवाद
- Dispute, labour श्रम-विवाद
- Dispute, trade व्यापार-विवाद
- Dispute, wage मजदूरी-विवाद
- Disputed debt विवादग्रस्त श्रृण
- Disavow प्रथिव्य, निरासंचय, निर्बंधन
- Dissenting opinion विमत, विभिन्न मति
- Dissolution of a company कम्पनी का परि-
समापन या दिघटन, कम्पनी का समापन
- Distant return दीर्घकालीन प्रतिकल
- Distant satisfaction भावी सुष्टि
- Distant substitutes दूरस्थ प्रतिस्थापन
- Distressed area पीड़ित क्षेत्र
- Distress relief fund आपदा निवारण निधि
- Distress sale आपदा विक्रय
- Distributable pool विभाज्य समुच्चय
- Distribute freely घनघात वितरण करना
- Distribution वितरण
- Distribution, asymmetrical असमित वितरण
- Distribution, equal समान वितरण
- Distribution, equitable साम्यिक वितरण
- Distribution, ideal आदर्श वितरण
- Distribution, general theory of वितरण का
सामान्य सिद्धांत
- Distribution, marginal productivity theory
of वितरण का सीमांत उत्पादिका सिद्धांत
- Distribution expenses वितरण खर्च
- Distribution of assets परिसंपद विभाजन
- Distribution of labour काम बाँटना, श्रम-वितरण
- Distribution of profits लाभ-वितरण
- Distribution of revenue राजस्व का बँटवारा,
प्राप्त्य वण्टन
- Distribution of risk जोखिम की बाँट
- Distribution scheme वितरण योजना
- Distribution stage वितरण अवस्था
- 'Distributist' state 'वितरक' राज्य
- Distributive cost वितरण लागत
- Distributive effect of taxation करायान का
वितरण प्रभाव
- Distributive justice वितरण सम्बन्धी न्याय
- Distributive society सुधितरक समाज
- Distributive trade वितरक व्यापार
- Distributive transport वितरक परिवहन
- Distributory occupation वितरण व्यवसाय

- Disutility अनुभवयोगिता, तुष्टिहीनता
 Diversification विशाखन, विविधीकरण
 Diversification of industries उद्योगों का विशाखन
 Diversification of occupations व्यवसायों का विशाखन
 Dividend लाभांश
 Dividend, cumulative संचयी लाभांश
 Dividend, deferred आस्थगित लाभांश
 Dividend, free of tax कर-मुक्त लाभांश
 Dividend, national राष्ट्रीय लाभांश
 Dividend, social सामाजिक लब्धि
 Dividends, inter-corporate अन्तर्निगम लाभांश
 Divisible factors विभाज्य साधन
 Divisible surplus विभाज्य अधिशेष/प्रतिरेक
 Divisibility विभाज्यता
 Division of labour धम-विभाजन
 Division of labour, complex जटिल धम-विभाजन
 Division of labour, geographical भौगोलिक धम-विभाजन
 Division of labour, simple सरल धम-विभाजन
 Division of labour, territorial प्रादेशिक धम-विभाजन, क्षेत्रीय धम-विभाजन
 Docking डंड कटौती—मजदूरी का कुछ भाग दंड के रूप में काट लेना
 Doctrinaire state socialism सैद्धांतिक राजकीय समाजवाद
 Doctrine of equalities of advantages लाभ की समता का सिद्धांत
 Document for acceptance स्वीकृति के लिए प्रलेख
 Document for delivery वस्तुएँ देने के लिए प्रलेख
 Document for payment भुगतान के लिए प्रलेख
 Dollar-gap डॉलर-अन्तर, डॉलर की कमी
 Dollar shortage डॉलर-दुर्लभता
 Domestic consumption पारिवारिक उपभोग/देशीय उपभोग, आंतरिक उपभोग/खपत
 Domestic Economics पारिवारिक अर्थशास्त्र, देशीय अर्थशास्त्र
 Domestic economy पारिवारिक अर्थ-प्रबंध, पारिवारिक अर्थव्यवस्था
 Domestic finance देशीय वित्त
 Domestic gold standard घरेलू स्वर्णमान, देशीय स्वर्णमान
 Domestic goods industries अन्तर्देशीय वस्तु उद्योग
 Domestic income घरेलू/देशीय आय, आंतरिक आय, अन्तर्देशीय आय
 Domestic investment and maintenance घरेलू निवेश और अनुरक्षण
 Domestic market घरेलू बाजार, अन्तर्देशीय बाजार
 Domestic necessities घरेलू आवश्यकताएँ
 Domestic production अन्तर्देशीय उत्पादन
 Domestic system of production घरेलू उत्पादन पद्धति
 Domestic trade देशीय/आन्तरिक व्यापार
 Dominating factor प्रभावी कारक
 Donation दान
 Donation for charitable purposes धर्मार्थ दान
 Donation in cash नकद दान
 Donation in kind वस्तु रूप में दान, वस्तु-दान
 Donor country दाता देश
 Dormant capital निष्क्रिय पूँजी
 Dose मात्रा, खुराक
 Dose, marginal सीमांत मात्रा
 Dose of capital पूँजी की मात्रा, पूँजी की इकाई
 Double account system दो/द्वि-लेखा-पद्धति
 Double benefit policy दोहरे हित की नीति, दोहरा लाभ नीति
 Double budget दोहरा बजट
 Double coincidence of wants आवश्यकताओं का दुहरा समोच
 Double crop दुहरी फसल
 Double-crop area दुफसली क्षेत्र
 Double-cropped land द्वि-वस्य भूमि, दुफसली भूमि
 Double cropping दुफसली क्षेत्र, दुहरी फसल

- Double employment** दो जगह रोजगार
Double entry system दोहरी खतान पद्धति
Double fare दुगुना किराया
Double insurance दोह्रा बीमा
Double-job family धार्मिक दम्पति
Double payment दुबारा मुगतान, दुबारा भुगतान
Double pricing दोहरी कीमत
Double taxation दोह्रा कराधान, द्विगुण कराधान
Down payment तत्क्षण भुगतान, तत्क्षण किस्त, फौरी किस्त
Downward phase of trade cycle व्यापार-चक्र की अवरोमुखी अवस्था
Downward tendency अवरोमुखी प्रवृत्ति
Draft ड्राफ्ट
Draft on private sector savings निजी क्षेत्र की बचत में से सिखाव
Drainage tax जलोत्सारण/जल-निकास कर
Drain of bullion कलशोत-उत्सारण
Drastic devaluation उग्र अवमूल्यन
Drastic price changes कीमत में उग्र परिवर्तन
Draw a cheque बैंक काटना, बैंक लिखना
Drawback of duty बूंगो की वापसी, शुल्क-वापसी—आयातित माल पर एकत्र किए गए शुल्क या प्रांतरिक करों पर दी गयी वापसी। चूंकि ये आयातित वस्तुएं परेजु उपभोग के लिए नहीं मंगवायी जातीं, इसलिए उनका पुनर्निर्यात किया जाता है।
Drawee आदेशिती, चुकाने वाला, आह्वर्ता
Drawee of a cheque बैंक आह्वर्ता
Drawee of a hundi हण्डी चुकाने वाला
Drawer आदेशक, लिखने वाला
Drawer of cheque बैंक काटने वाला
Drawer of hundi हण्डी करने वाला, हण्डीकर्ता
Drawing rights आहरण अधिकार, निकालने के अधिकार—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपनी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा की निश्चित मात्रा निम्नी सदस्य देश को क्रय करने का अधिकार।
Drive to maturity परिपक्वता के लिए आंदोलन
Drought cattle भारवाहक पशु
Dry farming शुष्क खेती, सूखी खेती
- Dualism** द्वैतवाद
Dual pay system द्विधा वेतन प्रणाली
Dual valuation दोह्रा मूल्य विवचन
Due date नियत दिन/तिथि
Due debt देय ऋण
Due from bank बैंक से प्राप्त
Dull business मन्द व्यापार
Dull market मन्द विपणन, मन्द बाजार
Dumping डम्पिंग, राशिपातन, पाटना
Dumping of goods वस्तु-राशिपातन
Dumping price theory राशिपातन मूल्य सिद्धान्त
Duopoly द्व्यधिकार
Duopsony द्वि-क्रयताधिकार
Durable capital goods विरस्थायी पूंजीगत वस्तुएं
Durable consumer-goods विरस्थायी उपभोग वस्तुएं
Durable goods विरस्थायी वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं
Durability of labour श्रम की विरस्थायिता, धार्मिक विरक्षयता
During the course of employment नियुक्ति-पर्यन्त
During the currency of settlement भू-स्थयवस्था की प्रवर्तनावधि में
During the interim period अन्तरिम अवधि में, अन्तरिम काल में
Dutiable goods शुल्कयोग्य माल, करदेय माल
Duties, preferential तरजीही कर
Duties, specific विशिष्ट कर, नाफ-तोल कर
Duty कर, शुल्क
Duty, advalorem वयामूल्य शुल्क
Duty, anti-dumping प्रतिपादन शुल्क, प्रति राशि-पातन शुल्क
Duty, compound यौगिक कर
Duty, counterbalancing प्रति-संतुलनकारी शुल्क
Duty, countervailing प्रतिकर, जमाकी कर
Duty, custom सीमा-शुल्क, सीमाकर
Duty, death मरण-शुल्क, मृत्यु-शुल्क
Duty, differential विभेदक शुल्क
Duty, estate सम्पदा शुल्क, सम्पत्ति शुल्क

Duty, excise उत्पादन कर, प्रावकारी
 Duty, export निर्यात शुल्क/कर
 Duty, import आयात शुल्क/कर
 Duty, octroi चुंभी
 Duty, preferential अधिमानात्मक शुल्क, तरजीही शुल्क
 Duty, restrictive प्रतिबन्धी कर
 Duty, retaliatory प्रतिशोधनात्मक शुल्क, जवाबी शुल्क
 Duty, stamp मुद्राक शुल्क, स्टाम्प शुल्क
 Duty, succession उत्तराधिकार शुल्क
 Duty, uniform समान कर
 Duty free शुल्क मुक्त
 Duty-paid price शुल्क/कर प्रदत्त कीमत, कर-शुल्की कीमत
 Duty-paid warehouse प्रदत्त-शुल्क माल गोदाम
 Dwelling house निवास/आवास-गृह
 Dynamic change गत्यात्मक परिवर्तन
 Dynamic Economics गत्यात्मक अर्थशास्त्र
 Dynamic economy गत्यात्मक अर्थव्यवस्था
 Dynamic equilibrium गत्यात्मक सन्तुलन
 Dynamic function of money मुद्रा का गत्यात्मक कार्य
 Dynamic growth factor गतिशील विकास-तत्व
 Dynamic system गतिशील तंत्र
 Dynamic theory of Economics अर्थशास्त्र का गत्यात्मक सिद्धान्त
 Dynamics of fluctuating exchangers घटती-बढ़ती विनिमय-दर का गति-सिद्धान्त

E

Earlier estimate पूर्व आगणन, पूर्व प्रावकलन
 Earmarked gold उद्दिष्ट स्वर्ण
 Earmarked taxes उद्दिष्ट कर
 Earn उपाजन करना, अर्जन करना
 Earned income अर्जित आय
 Earned leave अर्जित अवकाश
 Earned surplus अर्जित अतिरिक्त
 Earner अर्जक, उपाजक

Earnest money सत्यकार, बयाना, साई
 Earning कमाई, उपाजन, आय
 Earning, gross कुल कमाई
 Earning, net निवल कमाई
 Earning, nominal नकद कमाई, मुदा रूपी कमाई
 Earning, real वास्तविक कमाई
 Earning assets अर्जनकारी परिसंपत्, अर्जक परिसंपत्ति
 Earning capacity अर्जन क्षमता
 Earning dependents अर्जक आश्रित
 Earning of management प्रबंध की कमाई/प्राप्त
 Earning rate अर्जन-दर
 Earning stream उपाजन धारा
 Earth work मिट्टी का काम, कटाई और भराई
 Easy money सुगम मुद्रा, सुलभ मुद्रा
 Easy money policy सुलभ/सुगम मुद्रा नीति
 Econometric analysis अर्थमितीय विश्लेषण
 Econometrics अर्थमिति—अर्थशास्त्र की वह शाखा जो आर्थिक सिद्धान्तों को गणितीय रूप में व्यवस्थित करके सांख्यिकी विधियों के आधार पर उनका परीक्षण करती है। इसका सम्बन्ध ऐसी आर्थिक घटनाओं से है जो अनुभवजन्य होती हैं और गणितीय रूप में अभिव्यक्त की जा सकती हैं।
 Economic अर्थ संबंधी, आर्थिक
 Economic activity आर्थिक क्रिया
 Economic adjustment आर्थिक समंजन
 Economic advantage आर्थिक लाभ
 Economic adviser अर्थ सलाहकार
 Economic aid आर्थिक सहायता
 Economic analysis आर्थिक विश्लेषण
 Economic analysis, techniques of आर्थिक विश्लेषण की तकनीकें
 Economic anatomy आर्थिक विश्लेषण
 Economic and business condition आर्थिक और व्यापार अवस्था
 Economic and financial committee आर्थिक और वित्तीय समिति
 Economic and social council आर्थिक और सामाजिक परिषद्

Economic arithmetic आर्थिक अंकगणित
Economic assumptions आर्थिक मान्यताएँ/कल्प-
 नाएँ/पूर्वधारणाएँ
Economic backwardness आर्थिक पिछड़ापन
Economic barometer आर्थिक स्थिति सूचक
Economic basis आर्थिक आधार
Economic blockade आर्थिक नाकाबन्दी
Economic botanist अर्थ-वनस्पति विज्ञ
Economic boundaries आर्थिक सीमाएँ
Economic boycott आर्थिक बहिष्कार
Economic breakdown अर्थव्यवस्था-भंग, आर्थिक
 पतन
Economic calculus आर्थिक परिकलन
Economic capacity आर्थिक क्षमता
Economic character आर्थिक गुण
Economic chivalry अर्थोपकार शीर्ष--निर्बल
 दल का पक्ष ग्रहण करने की प्रवृत्ति
Economic classes आर्थिक वर्ग
Economic classification scheme आर्थिक वर्गी-
 करण योजना
Economic contradiction आर्थिक प्रसंगति/अन्त-
 विरोध
Economic crisis आर्थिक संकट
Economic cycles अर्थ चक्र, व्यापार चक्र
Economic data आर्थिक आधार सामग्री, आर्थिक
 आँकड़े
Economic decisions आर्थिक निर्णय
Economic democracy आर्थिक प्रजातंत्र, आर्थिक
 लोकतन्त्र
Economic depression आर्थिक अवसाद/मंदी
Economic determinants आर्थिक निर्धारक
Economic determinism आर्थिक निर्धारणवाद
 —इस विचार के अनुसार सामाजिक प्रगति आर्थिक
 शक्तियों का परिणाम है।
Economic development आर्थिक विकास
**Economic development of under-developed
 countries** अल्पविकसित देशों का आर्थिक
 विकास
Economic differentiation आर्थिक क्रियाओं में
 भेदकरण

Economic discrimination आर्थिक भेद-भाव
Economic dispute आर्थिक विवाद
Economic divisions आर्थिक प्रभाग
Economic domination आर्थिक प्रभुत्व
Economic dynamics आर्थिक प्रवर्तिका
Economic efficiency आर्थिक कुशलता
Economic effort आर्थिक प्रयास, आर्थिक प्रयत्न
Economic egalitarianism आर्थिक समतावाद
Economic equality आर्थिक समता
Economic environment आर्थिक परिवेश/पर्यावरण
Economic equalitarianism आर्थिक समतावाद
Economic exploitation आर्थिक शोषण
Economic factor आर्थिक कारक
Economic fatalism आर्थिक निपतिवाद, आर्थिक
 दैववाद, आर्थिक भाग्यवाद
Economic fluctuations आर्थिक उल्थावचन/चटबट
Economic forces आर्थिक शक्तियाँ
Economic freedom आर्थिक स्वतंत्रता
Economic friction आर्थिक निर्घर्ष
Economic geology आर्थिक भू-विज्ञान
Economic goods आर्थिक वस्तुएँ, उपयोगी वस्तुएँ
Economic growth आर्थिक वृद्धि
Economic harmony आर्थिक सार्म्वस्य, आर्थिक
 संगति
Economic history आर्थिक इतिहास
Economic holding लाभकर जोत
Economic holding, size of लाभकर जोत का
 आकार
Economic ideal आर्थिक आदर्श
Economic imperialism आर्थिक साम्राज्यवाद,
 आर्थिक साम्राज्य नीति, आर्थिक साम्राजिकता
Economic incentive आर्थिक प्रोत्साहन, आर्थिक
 उद्दीपक, आर्थिक प्रेरणा
Economic indicators आर्थिक देवक, आर्थिक सूचक
Economic individualism आर्थिक व्यक्तिवाद
Economic inequalities आर्थिक अतमानताएँ/
 विषमताएँ
Economic infrastructure आर्थिक अर्थ-संरचना,
 आर्थिक अवस्थापना

Economic institutions आर्थिक संस्थाएँ/संस्थान

Economic integration आर्थिक एकीकरण

Economic internationalism आर्थिक अन्तर-राष्ट्रीयता/अन्तर्राष्ट्रीयतावाद

Economic interpretation of history

इतिहास की आर्थिक व्याख्या—बार्न मान्स ने (1859) अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'A Contribution of the Critique of Political Economy' में यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि इतिहास के किसी भी काल में होने वाली घटनाओं के मूल में उस युग अथवा काल में वर्तमान आर्थिक संस्थाएँ होती हैं, न कि उस युग के कुछ व्यक्तियों की इच्छाएँ या आकांक्षाएँ। मान्स के शब्दों में "भौतिक जीवन में उत्पादन के ढंग द्वारा सामाजिक, राजनैतिक और जीवन की आध्यात्मिक क्रियाओं का सामान्य स्वरूप निर्धारित होता है। मनुष्यों की चेतना ही उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि इसके विरुद्ध, उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है।" मान्स के अनुसार, किसी समाज में उत्पादन का ढाँचा उसके वर्ग-ढाँचे को निर्धारित करता है। मान्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धान्त और वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त में गहरा सम्बन्ध है क्योंकि वर्ग-संघर्ष ही किसी समाज के इतिहास की चालक-शक्ति है।

Economic justification आर्थिक औचित्य

Economic laws आर्थिक नियम

Economic lever आर्थिक उत्तोलक

Economic liberalism आर्थिक उदारतावाद—

आर्थिक उदारतावाद का दार्शनिक आधार लॉक (Locke) और रूसो (Rousseau) के विचार थे जिनके अनुसार मानव-जीवन के दो मूल अधिकार हैं : स्वतन्त्रता का अधिकार तथा सम्पत्ति का अधिकार। ये अधिकार प्राकृतिक और न्यायसंगत हैं। राज्य का यह कर्तव्य है कि इन अधिकारों की उस सीमा तक सुरक्षा करे जहाँ तक कि वे अन्य नागरिक अधिकारों के साथ टकराए नहीं खाते। इसी प्रकार बेन्थम ने अठारहवीं शताब्दी के अन्त में और उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भिक काल में

'अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ' (The greatest good of the greatest number) का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। इन दार्शनिकों का सख्त उन सामन्ती तथा सम्राटों के निरंकुश शासन का विरोध करना था जिसके कारण जनसामान्य दासता की दयनीय परिस्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन विचारों के फलस्वरूप प्रजातन्त्रीय शासन की स्थापना में बड़ी सहायता मिली। फ्रांस की क्रान्ति और अमेरिका की क्रान्ति इन्हीं विचारों के प्रभावधीन उत्पन्न हुईं। समाजवाद के विचारों के 20वीं शताब्दी में फैलने के कारण उदारवादी दलों में लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है।

Economic man आर्थिक मनुष्य/मानव—आर्थिक

मनुष्य की संकल्पना एक ऐसे मनुष्य के रूप में की गई जिसका व्यवहार केवल आर्थिक प्रेरणाओं से प्रभावित होता है। इस संकल्पना को प्रतिष्ठित सम्प्रदाय (Classical school) के अर्थ-शास्त्रियों ने प्रतिपादित किया। ऐतिहासिक सम्प्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने इस संकल्पना को अवास्तविक बताया। उनके अनुसार मानव केवल लाभ और भौतिक हितों से ही प्रेरित नहीं होता, बल्कि उसे श्रवकाश, स्वतन्त्रता, सुरक्षा एवं अन्य भौतिक हित भी प्रेरित करते हैं। अतः ऐतिहासिक सम्प्रदाय ने मानव के इस संकुचित दृष्टिकोण को छोड़ अपने अध्ययन का केन्द्र सामान्य मनुष्य को बनाया जो आर्थिक एवं आर्थिकेतर दोनों प्रेरणाओं के आधार पर कार्य करता है।

Economic method आर्थिक विधि

Economic mobilisation आर्थिक गतिमत्ता, आर्थिक जुटाव

Economic model आर्थिक मॉडल, आर्थिक प्रतिमान

Economic motive आर्थिक प्रेरणा/उद्देश्य

Economic movements आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक आंदोलन

Economic nationalism आर्थिक राष्ट्रीयता/राष्ट्रवाद

Economic norms आर्थिक मानदण्ड

Economic objectives आर्थिक उद्देश्य

Economic opportunity आर्थिक अवसर
 Economic organism आर्थिक अंगरत्न
 Economic organisation आर्थिक व्यवस्था/संगठन
 Economic organisation, modern आधुनिक
 अर्थव्यवस्था, आधुनिक आर्थिक संगठन
 Economic overheads आर्थिक उपरि लागत/व्यय
 Economic paradox आर्थिक विरोधाभास
 Economic penetration आर्थिक अन्तःप्रवेशन,
 आर्थिक वेधन
 Economic phenomenon आर्थिक घटना
 Economic physiology आर्थिक क्रिया विज्ञान
 Economic plan आर्थिक योजना
 Economic planning आर्थिक आयोजन
 Economic policy आर्थिक नीति/अर्थ नीति
 Economic policy, broad स्थूल आर्थिक नीति
 Economic policy, instruments of आर्थिक
 नीति के अस्त्र/साधन
 Economic policy, objectives of आर्थिक नीति
 के उद्देश्य
 Economic pressures आर्थिक दबाव
 Economic priorities आर्थिक प्राथमिकताएँ
 Economic problem of choice-making चयन
 की आर्थिक समस्या
 Economic progress आर्थिक प्रगति/उन्नति
 Economic prosperity आर्थिक वैभव, आर्थिक
 समृद्धि
 Economic quantities आर्थिक मात्राएँ
 Economic region आर्थिक प्रदेश/क्षेत्र
 Economic rent आर्थिक लगन
 Economic reorganisation आर्थिक पुनर्गठन
 Economic review आर्थिक पुनर्विचोचन
 Economic sanctions आर्थिक रोकें, आर्थिक दण्ड

—अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में किसी देश पर दबाव डालने
 के लिए किए गए प्रतिरोधक उपायों को आर्थिक
 रोकें कहते हैं। ये उपाय किसी एक राष्ट्र द्वारा किसी
 दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध, या कुछ राष्ट्रों के समूह द्वारा
 किसी राष्ट्र के विरुद्ध किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र
 संघ या इसके पहले सीम ऑफ नेशनस के नियमों
 की रंग करने वाले राष्ट्र की आक्रामककारी नीति

को सीमित करने के लिए उस राष्ट्र के विरुद्ध ये
 रोकें लगाई जाती थी। इन उपायों में उस देश की
 पूर्ण नाकाबन्दी या उसे अनिवार्य वस्तुओं के संभ-
 रण रोक देना शामिल हैं।

Economic satisfaction आर्थिक संतोष/सुखि
 Economic self-sufficiency आर्थिक आत्म-
 निर्भरता/स्वावलम्बिता
 Economic size आर्थिक आकार
 Economic stability आर्थिक स्थायित्व
 Economic stabilisation आर्थिक स्थायीकरण/
 स्थिरीकरण
 Economic statistics आर्थिक सांख्यिकी
 Economic stimulant आर्थिक प्रेरक, आर्थिक
 उत्प्रेरक
 Economic strike आर्थिक हड़ताल
 Economic structure आर्थिक ढांचा
 Economic survey आर्थिक सर्वेक्षण
 Economic system आर्थिक प्रणाली/अर्थव्यवस्था
 Economic tendency आर्थिक प्रवृत्ति
 Economic theory आर्थिक सिद्धान्त
 Economic thought आर्थिक विचारधारा/प्रणाली
 Economic union आर्थिक संघ/संघटन
 Economic use वित्तीययोग
 Economic utopia आर्थिक आदर्शलोक/काल्पनिक
 लोक
 Economic value आर्थिक मूल्य
 Economic viability आर्थिक जीवन क्षमता
 Economic welfare आर्थिक कल्याण
 Economic yield आर्थिक प्राप्ति, आर्थिक उत्पत्ति
 Economically sound आर्थिक दृष्टि से ठीक,
 आर्थिक रूप से सुदृढ़
 Economics अर्थशास्त्र
 Economics, aggregative राष्ट्रवर्क अर्थशास्त्र,
 संकलन अर्थशास्त्र, योगिक अर्थशास्त्र
 Economics, agricultural कृषि अर्थशास्त्र
 Economics, applied व्यावहारिक अर्थशास्त्र
 Economics, bourgeoisie बुर्जुआ अर्थशास्त्र, पूँजी-
 पति अर्थशास्त्र
 Economics, capitalist पूँजीवादी अर्थशास्त्र

- Economics, classical संस्थापित अर्थशास्त्र
- Economics, descriptive वर्णनात्मक अर्थशास्त्र
- Economics, dynamic गतिशील अर्थशास्त्र
- Economics, Gandhian गांधीवादी अर्थशास्त्र
- Economics, growth वृद्धि अर्थशास्त्र
- Economics, home गृह अर्थशास्त्र
- Economics, international अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र
- Economics, Keynesian केन्सवादी अर्थशास्त्र
- Economics, macro समष्टि अर्थशास्त्र
- Economics, Marxian मार्क्सवादी अर्थशास्त्र
- Economics, mathematical गणितीय अर्थशास्त्र
- Economics, medieval मध्यकालीन अर्थशास्त्र
- Economics, micro सूक्ष्म अर्थशास्त्र
- Economics, monetary मौद्रिक अर्थशास्त्र
- Economics, prescriptive उपचार अर्थशास्त्र, निर्देशनात्मक अर्थशास्त्र
- Economics, public सार्वजनिक/सामाजिक अर्थशास्त्र
- Economics, pure (=theoretical economics) सैद्धांतिक अर्थशास्त्र
- Economics, rural ग्राम अर्थशास्त्र
- Economics, scope of अर्थशास्त्र का विषय-क्षेत्र
- Economics, socialist समाजवादी अर्थशास्त्र
- Economics, static स्थैतिक अर्थशास्त्र
- Economics, utilitarian हानोपनितावादी अर्थशास्त्र
- Economics, welfare कल्याण अर्थशास्त्र
- Economics of consumption उपभोग अर्थशास्त्र
- Economics of control नियंत्रण/निर्देशन अर्थशास्त्र
- Economics of distribution वितरण अर्थशास्त्र
- Economics of education शिक्षण/शिक्षा अर्थशास्त्र
- Economics of employment रोजगार अर्थशास्त्र
- Economics of pricing कीमत अर्थशास्त्र
- Economics of production उत्पादन अर्थशास्त्र
- Economics of resource allocation संसाधन वंटन अर्थशास्त्र
- Economics of resource use संसाधन-प्रयोग अर्थशास्त्र
- Economics of standardisation मानकीकरण अर्थशास्त्र
- Economics of waste अपव्यय अर्थशास्त्र
- Economics मिश्रव्यवस्थाएँ, विभाजन
- Economics, commercial वाणिज्यिक मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economics, endogenous अन्तर्जनन
 विकासमें—विनी उद्योग का अर्थ है विस्तार से प्राप्त होने वाली विकासमें
- Economics, exogenous बाह्यजनन विकासमें—
 विनी उद्योग का अन्य उद्योगों के विस्तार से प्राप्त होने वाली विकासमें
- Economics, external बाह्य मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economics, financial वित्तीय मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economics, internal आन्तरिक/भीतरी मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economics, labour श्रम संबंधी मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economics, managerial प्रबंध-संबंधी मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economics, marketing विपणन सम्बन्धी मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economics, risk-taking जोखिम सम्बन्धी मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economics, survival उत्तर-जीवन मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economics, technical तकनीकी मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economics of increased dimensions आयाम वृद्धि की विकासमें
- Economics of large-scale production बड़े पैमाने के उत्पादन की मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economics of linked process सम्बद्ध क्रियाओं से प्राप्त मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economics of scale मात्रा सम्बन्धी मिश्रव्यवस्थाएँ, उत्पादन वृद्धि अन्य मिश्रव्यवस्थाएँ, उत्पादन के पैमाने संबंधी मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economics of specialisation विद्विष्टीकरण अन्य मिश्रव्यवस्थाएँ
- Economiser नियोजन, नियोजकी
- Economism अर्थवाद
- Economist अर्थशास्त्री
- Economist, classical संस्थापक अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री
- Economist, modern आधुनिक अर्थशास्त्री
- Economist, neo-classical नव संस्थापक/नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री

Economisation मितव्ययिता

Economy अर्थव्यवस्था, मितव्ययता, कृपायत,
अर्थप्रवण्य

Economy, advanced उन्नत अर्थव्यवस्था

Economy, authoritarian प्राधिकारवादी/सत्ता-
वादी अर्थव्यवस्था

Economy, backward पिछड़ी अर्थव्यवस्था

Economy, barter वस्तु-विनिमय अर्थव्यवस्था

Economy, capitalist पूँजीवादी अर्थव्यवस्था

Economy, capital poor पूँजी ग़नी अर्थव्यवस्था,
पूँजी दरिद्र अर्थव्यवस्था, पूँजी विपन्न अर्थव्यवस्था

Economy, capital rich पूँजी सम्पन्न/पूँजी बहुल
अर्थव्यवस्था, पूँजी समृद्ध अर्थव्यवस्था

Economy, closed संवृत अर्थव्यवस्था

Economy, collectivist समूहवादी अर्थव्यवस्था

Economy, competitive प्रतियोगी/प्रतिस्पर्धी/
स्पर्दायुक्त अर्थव्यवस्था

Economy, controlled नियंत्रित अर्थव्यवस्था

Economy, developed विकसित अर्थव्यवस्था

Economy, developing विकसमान/विकासशील/
विकासी-मुख अर्थव्यवस्था

Economy, diversified बहुविध अर्थव्यवस्था

Economy, dynamic गतिरमक अर्थव्यवस्था

Economy, exchange विनिमय अर्थव्यवस्था

Economy, feudal सामन्तवादी अर्थव्यवस्था

Economy, free competitive निर्बाध प्रतियोगी
अर्थव्यवस्था

Economy, guild श्रेणी अर्थव्यवस्था, गिल्ड अर्थ-
व्यवस्था

Economy, laissez faire निर्बाध अर्थव्यवस्था

Economy, market बाजार अर्थव्यवस्था

Economy, market-oriented बाजार-प्रधान अर्थ-
व्यवस्था

Economy, mature परिपक्व/प्रीढ़ अर्थव्यवस्था

Economy, mixed मिश्रित/मिश्र अर्थव्यवस्था

Economy, monetised मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था

Economy, open अनायुक्त अर्थव्यवस्था

Economy, pain दुःखद अर्थव्यवस्था

Economy, peasant श्रेणिकर अर्थव्यवस्था

Economy, planned आयोजनावद्ध/नियोजित अर्थ-
व्यवस्था

Economy, pleasure सुखद अर्थव्यवस्था

Economy, profit लाभ-प्रधान अर्थव्यवस्था

Economy, progressive प्रगतिशील अर्थव्यवस्था

Economy, regulated विनियमित अर्थव्यवस्था

Economy, retrogressive प्रतिगामी अर्थव्यवस्था

Economy, rural ग्राम/ग्रामीण अर्थव्यवस्था

Economy, self-generating स्वनालित/स्वयंस्रूत
अर्थव्यवस्था

Economy, self-sustained स्वयंस्रूत अर्थव्यवस्था,
स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था, स्वयंपोषी अर्थव्यवस्था

Economy, slave दास अर्थव्यवस्था

Economy, socialist समाजवादी अर्थव्यवस्था

Economy, stagnant अग्ररुद्ध/गतिहीन अर्थव्यवस्था

Economy, static स्थैतिक अर्थव्यवस्था

Economy, totalitarian अधिकारवादी अर्थ-
व्यवस्था

Economy, under-developed अल्पविकसित
अर्थव्यवस्था

Economy, unplanned आयोजनारहित/अनियोजित
अर्थव्यवस्था

Economy, young नवोदित अर्थव्यवस्था

Economy measures मितव्यय/मितव्ययता/कृपा-
यत के उपाय

Economy of abundance सुलभता अर्थव्यवस्था,
सुलभता-प्रधान अर्थव्यवस्था, प्रचुरता/प्राचुर्य
अर्थव्यवस्था

Economy of scarcity दुर्लभता-प्रधान अर्थव्यवस्था
Economy of the use of by-product उपोत्पाद
के प्रयोग से मितव्ययता

Economy slip मितव्यय पर्षी

Economy wagon कृपायती वैगन

Economy without planning आयोजनाविहीन
अर्थव्यवस्था

Effective demand प्रभावी माँग, समर्थ माँग

Effective equity प्रभावी हिस्सा पूँजी

Effective interest rate प्रभावी ब्याज-दर

Effective supply of labour श्रम का प्रभावी
संभरण

Effective supply of money मुद्रा का प्रभावी
संभरण

Effective tax rate कर की प्रभावी दर

Efficiency कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, कुशलता,
दक्षता

Efficiency, economic आर्थिक कुशलता

Efficiency, industrial औद्योगिक कुशलता

Efficiency, intellectual बौद्धिक दक्षता

Efficiency, mechanical यांत्रिक दक्षता

Efficiency, measuring rod of क्षमता का माप-
दंड

Efficiency, operating प्रचालन कुशलता/दक्षता

Efficiency audit कुशलता लेखा परीक्षण

Efficiency bar दक्षता रोध, कुशलता रोध

Efficiency earnings कुशलता-आधारित आय,
कुशलता-कमाई

Efficiency index क्षमता सूचकांक, दक्षता-सूचकांक
Efficiency of labour श्रम की कार्यक्षमता, श्रम की
कार्यकुशलता

Efficiency of money मुद्रा की कार्यसाधकता,
मुद्रा की कार्यकुशलता

Efficiency of production उत्पादन कुशलता

Efficiency principle दक्षता/कुशलता सिद्धांत

Efficiency units कुशलता इकाइयाँ—समरूप
इकाइयों का अर्थ है कुशलता इकाइयाँ ।

Efficiency wages कुशलता-आधारित मजदूरी,
दक्षता भृति

Effort, concentrated एकाग्र प्रयास

Effort, co-operative सहकारी प्रयास

Effort-income relationship प्रयास-आय संबंध
Egalitarian society सम-समाज, समतामूलक
समाज

Egalitarianism समतावाद

Ejection of tenants मुजारों की बेदखली, असाती
की बेदखली

Elastic लोचपूर्ण, लोचदार

Elastic, highly अधिक लोचदार, अत्यंत लोचदार

Elastic, moderately मर्यादित लोच, परिमित लोच

Elastic, perfectly पूर्णतया लोचदार

Elastic, relatively सापेक्ष लोचदार

Elastic currency लचकदार मुद्रा

Elastic demand लोचपूर्ण माँग

Elastic supply लोचपूर्ण संभरण

Elasticity लोच, लचक

Elasticity, unit इकाई लोच

Elasticity, zero शून्य लोच

Elasticity of demand माँग की लोच

Elasticity of demand, arc माँग की वृत्तखंड लोच

Elasticity of demand, coefficient of माँग की
लोच का गुणांक

Elasticity of demand, cross माँग की परस्पर
लोच

Elasticity of demand, income माँग की आय
लोच

Elasticity of demand, price माँग की कीमत
लोच

Elasticity of monetary system मौद्रिक प्रणाली
की लोच

Elasticity of substitution प्रतिस्थापन-लोच

Elasticity of supply संभरण की लोच

Electric energy विद्युत शक्ति

Electric energy consumption विद्युत-शक्ति
उपभोग

Electrification plan विद्युतन योजना

Element of cost लागत-तत्त्व, लागत-अंश

Eligible bill ग्राह्य विपणन, ग्राह्य बिल

Eligible securities ग्राह्य प्रतिभूतियाँ

Eligibility certificate पात्रता प्रमाण-पत्र

Eligibility list पात्रता-सूची

Embargo व्यापार निषेध, व्यापार अवरोध, घाटबंधी

Embezzlement गबन

Emergency cash requisition आपातक धन
अधियाचन

Emigrant उत्प्रवासी

Emigrant population उत्प्रवासी जनसंख्या

Emigration प्रवास, उत्प्रवास, उत्प्रवासन

Eminent domain of monopolist एकाधिकारी
के 'सर्वोपरि अधिकार'

Emoluments कुल प्राय, परिवर्तस्थि, वेतन
 Empirical factors अनुभवजन्य कारक
 Empirical facts अनुभवदायित तथ्य, अनुभवजन्य तथ्य
 Empirical laws अनुभवदायित नियम, अनुभवजन्य नियम
 Employ नियोजित करना, नौकर रखना
 Employability नियोजनीयता, रोजगार योग्यता
 Employable नियोजनीय, नियोज्य, रोजगार क्षम
 Employable factor units प्रयोग योग्य साधन इकाइयाँ
 Employed नौकरी में लया हुआ, नियोजित
 Employee नियोजित, कर्मचारी
 Employee, permanent स्थायी कर्मचारी
 Employee, probationary परीक्षाधीन कर्मचारी
 Employee, seasonal मौसमी कर्मचारी
 Employee, temporary अस्थायी कर्मचारी
 Employee association कर्मचारी संस्था/संघ
 Employee evaluation कर्मचारी मूल्यांकन
 Employee handbook कर्मचारी पुस्तिका
 Employee magazine कर्मचारी पत्रिका
 Employee representative plan कर्मचारी-प्रतिनिधि योजना
 Employee requisition कर्मचारी मांग
 Employees' compensation कर्मचारी क्षतिपूर्ति
 Employees' contribution कर्मचारी अंशदान
 Employees' credit society कर्मचारी उधार समिति
 Employees' security कर्मचारी सुरक्षा
 Employees' skill inventory कर्मचारी-कुशलता-सूची
 Employees' state insurance corporation कर्मचारी राजकीय बीमा निगम
 Employees' stock ownership plan कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना
 Employees' stock purchase plan कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना
 Employees' thrift plan कर्मचारी बचत योजना
 Employees' union कर्मचारी संघ

Employer नियोजक, सेवा योजक, नियोजक, मालिक
 Employers' association नियोजक संस्था/संघ
 Employers' liability मालिक दायित्व
 Employers' liability insurance मालिक दायित्व बीमा
 Employers' liability laws मालिक दायित्व कानून
 Employers' register मालिकों का रजिस्टर
 Employment रोजगार, नियोजन, नौकरी, काम
 Employment, compulsory अनिवार्य नौकरी/रोजगार
 Employment, full पूर्ण रोजगार
 Employment, guaranteed गारंटीकृत रोजगार
 Employment, irregular अनियमित रोजगार
 Employment, overfull अधिकपूर्ण रोजगार
 Employment, part-time अंशकालिक रोजगार
 Employment, primary मुख्य रोजगार
 Employment, seasonal मौसमी रोजगार
 Employment, secondary गौण रोजगार
 Employment, self-employment काम/रोजगार, स्व-नियोजन, स्वरोजगार
 Employment, whole-time पूर्णकालिक रोजगार
 Employment bureau सेवा योजनालय, रोजगार भूरो
 Employment control रोजगार नियन्त्रण
 Employment co-ordination office रोजगार समन्वय कार्यालय
 Employment counselling रोजगार समन्वयी सलाह/परामर्श
 Employment exchange रोजगार-कार्यालय, रोजगार दफ्तर
 Employment exchange, mobile चलता-फिरता रोजगार कार्यालय
 Employment guarantee रोजगार गारंटी
 Employment multiplier रोजगार गुणक
 Employment policy रोजगार नीति
 Employment potential रोजगार क्षमता
 Employment prospects रोजगार संभावनाएँ
 Employment regularisation रोजगार नियमित-करण, रोजगार स्थिरीकरण, रोजगार नियमान

Employment status पद स्थिति
Employment tax रोजगार कर
Encashment भुनाना, तुडाना
Encashment credits रोकड़ देय साक्ष पत्र
Encashment of cheque चैक भुनाना/तुडाना
Enclosure movement समावृत्ति आन्दोलन
Encumbered estate भारग्रस्त संपदा
End money अारक्षित राशि, अन्तोपयोगी राशि
Endogenous factors अन्तरजात कारण
End of production उत्पादन का ध्येय
Endorse पृष्ठाकरण करना
Endorsee पृष्ठाकृति, जिसके नाम से वेचान किया जाय
Endorsement पृष्ठाकरण, वेचान
Endorsement, blank कोरी वेचान
Endorsement, general सामान्य वेचान
Endorsement, qualified नाम जोग वेचान
Endorsement, restrictive प्रतिबन्धी वेचान
Endorsement, sans recourse लाचारी वेचान
Endorsement, special नाम जोग वेचान
Endorsement on bank note बैंक नोट पर वेचान
Endorser वेचान लेखक, वेचान कर्ता, पृष्ठाकरणक
Endowment नीबीदान/सावधि/बन्दोबस्ती बीमा
Endowment assurance सावधि बीमा
Endowment assurance, single premium सावधि एकमुस्त बीमा
Endowment assurance, without profits सावधि लाभरहित बीमा
End spurt अन्त त्वरण
Enfaced paper मुखांकित पत्र
Enfacement मुखांकन
Engrossing—एकाधिकारी थोक क्रय—किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की भारी मात्रा में थोक खरीद ताकि बाद में उस वस्तु की कीमत को बढ़ाया जा सके। मध्य युग में इस व्यवहार की भर्त्सना की जाती थी क्योंकि यह व्यवहार न्याय्य कीमत के प्रचलित विचार का प्रतिरोध था।
Enlightened self-interest प्रबुद्ध स्वार्थ
Enterprise उद्यम

Enterprise, capitalistic पूँजीमूलक उद्यम
Enterprise, co-operative सहकारी उद्यम
Enterprise, corporate निगम संगठन/उद्यम
Enterprise, free निर्विधि उद्यम
Enterprise, private निजी उद्यम, गैर-सरकारी उद्यम
Enterprise, public राजकीय उद्यम, सरकारी उद्यम
Enterprise, small लघु उद्यम
Enterprise, state सरकारी उद्यम, राजकीय उद्यम
Enterprise and adventure उद्यम तथा उपक्रम
Enterprise revenue उद्यम आय
Enterpriser उद्यमकर्ता, उद्यमी
Entertainment revenue मनोरंजन आय/भागम
Entertainment tax मनोरंजन कर
Entire contract संपूर्ण संविदा
Entire cost of haulage कुल ढुलाई लागत
Entrepot trade मध्य पत्तन व्यापार, पुनर्निर्यात व्यापार
Entrepreneur उद्यमकर्ता, साहसी, उपक्रमी
Entrepreneur, marginal सीमान्त उद्यमकर्ता
Entrepreneurial capital उद्यमकर्ता पूँजी
Entrepreneurial class साहसी वर्ग, उपक्रमी वर्ग
Entrepreneurial investment उद्यमकर्ता विनियोग
Entrepreneurial skill उद्यमकर्ता योग्यता
Entrepreneurship उद्यमकर्तृत्व
Entry of firms फर्मों का प्रवेश
Envelope curve परिवेष्टन वक्र, आच्छादन वक्र
Environmental data परिवेशी सामग्री
Epicurean भोगवादी
Equal differences in costs लागतों में समानान्तर
Equal pay for equal work समान कार्य-समान वेतन—इस सिद्धांत के अनुसार एक ही कार्य करने वालों को समान वेतन मिलना चाहिए। अतः वेतन कार्य से सम्बन्धित होना चाहिए, न कि श्रमिक से। इस प्रकार स्त्रियों को पुरुषों के समान वेतन मिलना चाहिए एक मोटे धीरे काले रंग के भाषार पर एक ही कार्य करने वाली में वेतन में अन्तर नहीं होने चाहिए।

- Equal product curve समोत्पाद वक्र
 Equal sacrifice समान त्याग
 Equalisation grant समकारी धनुदान
 Equalisation of assessment निर्धारण समकरण
 Equalitarian समतावादी
 Equality समानता
 Equality, economic आर्थिक समता/समानता
 Equality of opportunity अवसर-समता/समानता
 Equality of wealth धन की समानता
 Equation of exchange विनिमय-समीकरण/
 समीकरण
 Equilibrium संतुलन, साम्य
 Equilibrium, competitive रणनीति संतुलन
 Equilibrium, determinate निश्चयात्मक संतुलन
 Equilibrium, ecological पारिस्थितिक संतुलन
 Equilibrium, full पूर्ण संतुलन
 Equilibrium, general सामान्य संतुलन
 Equilibrium, general analysis सामान्य संतुलन
 विश्लेषण
 Equilibrium, group समूह-संतुलन
 Equilibrium, long-period दीर्घकालीन संतुलन
 Equilibrium, market बाजार संतुलन
 Equilibrium, monopoly एकाधिकार संतुलन
 Equilibrium, multiple बहुगुण संतुलन
 Equilibrium, partial आंशिक संतुलन
 Equilibrium, partial or particular analysis
 आंशिक या विशिष्ट संतुलन विश्लेषण
 Equilibrium, perfect पूर्ण संतुलन
 Equilibrium, secular चिरकालीन/सुदीर्घकालीन
 संतुलन
 Equilibrium, short-period अल्पकालीन संतुलन
 Equilibrium, stable स्थिर संतुलन
 Equilibrium, unstable अस्थिर संतुलन
 Equilibrium analysis समतोल/संतुलन विश्लेषण
 Equilibrium at a point of time किसी समय-
 विशेष पर संतुलन, क्षण संस्थिति
 Equilibrium combination संतुलित मिश्रण
 Equilibrium of demand and supply माँग और
 सभरण संतुलन
 Equilibrium output साम्य उत्पादन
 Equilibrium over a period of time काल-विशेष
 संबंधी संतुलन
 Equilibrium point संतुलन बिन्दु, साम्य बिन्दु
 Equilibrium price समतोल कीमत, साम्य कीमत
 Equilibrium rate of interest ब्याज की साम्य-
 दर
 Equilibrium wage संतुलन मजदूरी
 Equi-marginal सम-सीमांत
 Equi-marginal principle सम-सीमांत सिद्धांत
 Equi-marginal return सम-सीमांत प्रत्याय
 Equi-marginal sacrifice सम-सीमान्त त्याग
 Equi-marginal utility सम-सीमांत उपयोगिता
 Equipment, stand-by आपातकालीन सामान/
 साज-सज्जा
 Equity न्याय संगति, न्याय साम्य
 Equity capital हिस्सा पूँजी
 Equity in taxation कर में न्यायशीलता, न्याय-
 कर
 Equity principle समता-सिद्धांत
 Equity share सामान्य हिस्से, इक्विटी शेयर
 Escape clause बचाव खंड, मोचन धारा
 Escape period सोपन अवधि
 Establishment प्रतिष्ठान, स्थापना
 Establishment, business व्यापारिक प्रतिष्ठान
 Estate, industrial औद्योगिक सम्पदा
 Estate, real वास्तविक (स्वावर) सम्पदा
 Estate department सम्पदा विभाग
 Estate duty सम्पदा शुल्क, सम्पत्ति शुल्क
 Estate farming सम्पदा कृषि, महाजन खेती
 Estate management सम्पदा प्रबंध
 Estate tax सम्पदा कर
 Euro-dollar market यूरो डालर बाजार, अन्त-
 राष्ट्रीय डालर बाजार—संगुलत राज्य अमेरिका के
 बाहर बैंकों तथा अन्य व्यापारिक फर्मों के पास
 अमेरिकी डालरों के दावों को यूरो डालर (Euro-
 dollar) कहते हैं। इनका बाजार 1957 में प्रारम्भ
 हुआ जबकि यूरोप में डालरों का प्राथम्य हो
 गया था। अमेरिका द्वारा विदेशों में बड़े पैमाने
 पर विनिमय और विदेशी सहायता देने के कारण

- अमेरिकी भुगतान-शेष प्रतिकूल हो गया और परिणामतः 1960-67 के दौरान यूरो डालर के व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई। यूरो डालर बाजार मरुत्पादों के लिए सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार बन गया है। इसमें अब डालर के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं का भी क्रय-विक्रय होता है।
- European Common Market यूरोपीय साम्राज्य बाजार
- European Economic Community यूरोपीय आर्थिक सम्प्रदाय/समुदाय
- European Free Trade Area (EFTA) यूरोपीय निर्वाह व्यापार क्षेत्र
- European Monetary Agreement यूरोपीय मौद्रिक संधि
- European Payment Union यूरोपीय भुगतान संघ
- European Recovery Programme यूरोपीय पुनरुत्थान प्रोग्राम/कार्यक्रम
- Euthanasia of the rentier रान्तिये वर्ग की सुख मृत्यु, लगान उपजीवी की सुख मृत्यु
- Evasion of tax कर अपवचन, कर टालना
- Evicted tenant वेदखस्त मजदूर/कास्तकार
- Ex-ante भावी, सम्भावी, प्रत्याशित, निधोजित, अग्रिमप्रेरित—एक लातीनी पद जिसका अर्थ 'भावी काल' से है। इस धारणा का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में गुन्नार मिरडल ने किया। प्रोफेसर मरसीक ने इसके स्थान पर भावी अथवा सम्भावी (Prospective) शब्द का प्रयोग किया है। मिरडल के अनुसार भावी (Exante) और पूर्वव्याप्त या अनुदर्शी (Retrospective) आर्थिक मात्रा के परिकलन के तरीके में एक महत्वपूर्ण भेद रहता है। भावी या निधोजित पद्धति का आधार वृद्ध-वृत्त प्रत्याक्षाएँ या प्रत्याशित लाभकारिता के पूर्वानुमान होते हैं जोकि व्यापारिक निर्णयों में एक निर्णायक स्थान रखते हैं।
- Ex-ante investment घटना-पूर्व विनियोग, प्रत्याशित विनियोग
- Ex-ante saving घटना-पूर्व बचत, प्रत्याशित बचत
- Exceptional grant अल्पवादानुदान विशेष अनुदान
- Excess baggage अतिरिक्त सामान
- Excess capacity अतिरिक्त सामर्थ्य/क्षमता
- Excess charge अतिरिक्त प्रभार
- Excess duty अधिक शुल्क
- Excess fare-ticket अतिरिक्त किराया-टिकट
- Excess grant अतिरिक्त अनुदान
- Excess liquidity अधिकतरलता
- Excess payment अधिक भ्रदायगी
- Excess profit अतिरिक्त लाभ
- Excess profits tax अति लाभ कर, अतिरिक्त लाभ-कर
- Excess receipts अधिकप्राप्तिवाँ
- Excess remittance अतिरिक्त प्रेषण
- Excess reserve अधिक रिजर्व, अतिरिक्त प्रारक्षण
- Excess supply अधिकसंभरण
- Excessive birth rate अति जन्म-दर
- Excessive death rate अति मृत्यु-दर
- Exchange विनिमय, विदेशी मुद्रा
- Exchange, basis of विनिमय के आधार
- Exchange, blocked निरुद्ध मुद्रा
- Exchange, bullion सराफा बाजार
- Exchange, cross rate in विनिमय क्रॉस-दर
- Exchange, direct प्रत्यक्ष विनिमय
- Exchange, equation of विनिमय समीकरण
- Exchange, favourable अनुकूल विनिमय
- Exchange, foreign विदेशी मुद्रा, विदेशी विनिमय
- Exchange, forward अग्र विनिमय
- Exchange, indirect अप्रत्यक्ष विनिमय
- Exchange, medium of विनिमय माध्यम
- Exchange, mutual पारस्परिक विनिमय
- Exchange, organised संगठित विनिमय
- Exchange, process of विनिमय प्रक्रिया
- Exchange, produce फसल बाजार, उपज मंडी
- Exchange, protracted विलंबित विनिमय, सुदीर्घ विनिमय
- Exchange, stable स्थिर विनिमय-दर
- Exchange, stock शेयर बाजार, क्राटका, स्टॉक एक्सचेंज
- Exchange, unfavourable प्रतिकूल विनिमय
- Exchange, unstable अस्थिर विनिमय दर

Exchange above par अधिमूल्य विनिमय	Exchangeable विलिमेय, विनिमय-योग्य
Exchange at a discount बट्टे पर विनिमय	Exchangeable base विनिमेय प्राञ्चार
Exchange at a par सम मूल्य विनिमय	Exchangeism विनिमयवाद
Exchange at a premium बढ़ोती पर विनिमय	Exchequer राजकोष
Exchange-ban विनिमय निषेध	Exchequer, Chancellor of वित्त मंत्री
Exchange bank विनिमय बैंक, विदेशी मुद्रा बैंक	Excise duty उत्पादन कर, उत्पाद शुल्क, उत्पादन शुल्क
Exchange below par अवमूल्य विनिमय	Excise revenue उत्पादन-शुल्क/प्राप्त
Exchange clearing विदेशी मुद्रा समायोजन	Excise stamp उत्पादन-शुल्क स्टाम्प
Exchange control विदेशी मुद्रा नियंत्रण	Excise tax उत्पादन कर
Exchange control authority विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्राधिकार	Exclusive bargaining agency अनन्य सौदाकार एजेंसी
Exchange conversion विदेशी मुद्रा बदली	Exclusive dealing contracts ऐकान्तिक व्यापार सधि/करार
Exchange equalisation fund विनिमय समीकारी निधि	Exercments उत्सृजित पदार्थ
Exchange intervention विदेशी विनिमय हस्तक्षेप	Exemption from tax कर-मुक्ति
Exchange management विदेशी मुद्रा प्रबंध	Exemption limit छूट की सीमा
Exchange media विनिमय माध्यम	Exercises in economic arithmetic प्रार्थिक गणित के अभ्यास
Exchange of population छांबादी की बदला-बदली	Ex-factory price फॅक्ट्री कीमत, निर्माणशाला-द्वारा-कीमत
Exchange oriented विनिमय प्रधान, विनिमयोन्मुख	Ex-farm price फार्म कीमतें
Exchange quota विदेशी मुद्रा कोटा, विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष	Exhaustion of the soil भूमि का नि.शेष होना
Exchange rate विनिमय दर/मर्ह	Exhaustive expenditure निःशेषी व्यय
Exchange rate, equilibrium संतुलन विनिमय-दर	Ex-mill price फॅक्ट्री बाह्य मूल्य/कीमत
Exchange rate, fixed नियत विनिमय-दर	Exogenous forces बाह्यनात शक्तियाँ
Exchange rate, fluctuating अस्थिर विनिमय-दर	Expansion विस्तार, प्रसार
Exchange rate, free मुक्त विनिमय-दर	Expansion of credit उधार-प्रसार, साख-प्रसार
Exchange rate, multiple अनेक/बहु विनिमय-दर	Expansion of currency चलान-प्रसार
Exchange rate, stable स्थिर विनिमय-दर	Expansion of demand माँग का प्रसार, माँग-विस्तार
Exchange ratio विनिमय अनुपात	Expansion of market मंडी का विस्तार
Exchange restriction विनिमय प्रतिबंध	Expansion of occupation व्यवसाय-विस्तार
Exchange slip विनिमय पर्ची	Expansionism प्रसारवाद, विस्तारवाद
Exchange stabilization fund विनिमय स्थिरी-करण निधि	Expansionist policy विस्तारवादी नीति
Exchange stability विनिमय स्थायित्व	Ex-parte injunction एक-पक्षीय निषेधाज्ञा
Exchange transactions विनिमय व्यवहार	Expectation, long run/term दीर्घकालीन प्रत्याशा
Exchangeability विनिमेयता, विनिमय-योग्यता	Expectation, short run/term अल्पकालीन प्रत्याशा

Expectation of life जीवन प्रत्याशा, जीवन आशांसा	Expenditure, transfer हस्ततरित-व्यय
Expected profit प्रत्याशित लाभ	Expenditure, unproductive अनुत्पादक-व्यय
Expected return प्रत्याशित प्रदाय	Expenditure control खर्च नियन्त्रण
Expected value प्रत्याशित मूल्य	Expenditure stream व्यय-धारा
Expenditure, anticipated प्रत्याशित खर्च/व्यय	Expenditure tax व्यय कर
Expenditure, beneficent हितलामार्थ व्यय	Expenses of production उत्पादन-व्यय
Expenditure, canon of सार्वजनिक व्यय के प्रनियम	Explicit cost गुप्ततत् सागत
Expenditure, capital पूंजीगत खर्च/व्यय	Explicit interest सुव्यक्त व्याज
Expenditure, compensating प्रतिपूरक व्यय	Explicit rent सुव्यक्त किराया
Expenditure, consumption उपभोग व्यय	Exploitation शोषण, विदोहन
Expenditure, current चालू व्यय	Exploitation, economic आर्थिक शोषण
Expenditure, defence सुरक्षा व्यय	Exploitation of labour धम का शोषण, धम-विदोहन
Expenditure, extraordinary असाधारण खर्च/व्यय	Exploitation of natural resources प्राकृतिक संसाधनो का विदोहन
Expenditure, investment विनियोग व्यय	Exploitation of resources संसाधन-विदोहन
Expenditure, irregular अनियमित व्यय	Exploitation of success सफलता से लाभ उठाना
Expenditure, money भौतिक व्यय	Exploited class शोषित वर्ग
Expenditure, nominal नाममात्र खर्च	Exploiter शोषक
Expenditure, non-recurring अनावर्ती खर्च	Export निर्यात
Expenditure, non-transfer अहस्ततरित व्यय, वास्तविक व्यय	Export, invisible अदृश्य निर्यात
Expenditure, normal सामान्य व्यय	Export, premium on निर्यात पर बढ़ती
Expenditure, ordinary साधारण खर्च	Export, visible दृश्य निर्यात
Expenditure, ostentatious आडम्बरी व्यय, आडम्बरपूर्ण व्यय	Export bank निर्यात बैंक
Expenditure, productive उत्पादक व्यय	Export bill credit scheme निर्यात बिल साख योजना
Expenditure, progressive आरोही व्यय	Export bounties निर्यात व्याजि, निर्यात-प्रमिदान
Expenditure, proportional अनुपाती खर्च, अनुपातिक व्यय	Export consciousness निर्यात चेतना
Expenditure, public सार्वजनिक व्यय, सरकारी खर्च	Export control निर्यात नियंत्रण
Expenditure, real (or exhaustive or non-transfer) वास्तविक व्यय	Export credit निर्यात उधार
Expenditure, recurring आवर्ती खर्च/व्यय	Export credit guarantee scheme निर्यात साख गारंटी योजना
Expenditure, regressive अवरोही खर्च	Export division निर्यात-प्रभाग
Expenditure, social सामाजिक व्यय	Export duty निर्यात शुल्क
Expenditure, successive rounds of क्रमिक व्यय-चक्र	Export-import bank निर्यात-आयात बैंक
	Export industry निर्यात उद्योग
	Export licence fee निर्यात लाइसेंस फीस
	Export licence permit निर्यात लाइसेंस परमिट
	Export market निर्यात बाजार

Export of capital पूँजी-निर्यात
 Export policy निर्यात नीति
 Export potential निर्यात क्षमता
 Export priority निर्यात-पूर्वता/प्राथमिकता
 Export promotion council निर्यात वर्धन परिषद्
 Export promotion scheme निर्यात वर्धन योजना
 Export promotion through import entitlement आयात अधिकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहित
 Export quality control निर्यात कोटि (प्रकार) नियंत्रण
 Export quota निर्यात प्रमंश/कोटा
 Export rebate निर्यात प्रवहार
 Export statistics निर्यात आँकड़े
 Export subsidy निर्यात साहाय्य
 Export tax निर्यात कर
 Exportable commodities निर्यात्य वस्तुएँ, निर्यात योग्य वस्तुएँ
 Exportable surplus निर्यात्य अतिरिक्त, निर्यात योग्य अतिरिक्त
 Exporter निर्यातक
Ex-post पूर्वस्थान्त, अनुदर्शी, वास्तविक, सिद्ध, यथार्थ—एक लातीनी पद जिसका अर्थ 'पूर्वकाल' से है। इस धारणा का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में गुनार मिरडल ने किया। प्रोफेसर भरशक ने इसके स्थान पर पूर्वस्थान्त या अनुदर्शी (Retrospective) शब्द का प्रयोग किया है। प्रोफेसर मिरडल के अनुसार अनुदर्शी पद्धति वास्तविक लेखांकन परिणामों पर आधारित होती है और भ्रमकाल के अनुभव को व्यवहृत करती है। इसमें वास्तविक या पूर्वकालीन लाभकारिता को अप्रत्यक्ष रूप में भावी लाभकारिता की संभावना का प्रमाण मान लिया जाता है।
 Ex-post investment घटतीतर विनियोग, यथार्थ विनियोग
 Ex-post saving घटतीतर बचत, यथार्थ बचत
 Expropriation of property सम्पत्ति का स्वामित्व हरण
 Extended bond प्रवर्धित बॉन्ड, मियाद बढ़ा बॉन्ड

Extension of demand माँग का विस्तार/विस्तरण
 Extensive agriculture विस्तीर्ण कृषि, विस्तृत कृषि
 Extensive and intensive cultivation विस्तीर्ण तथा गहन कृषि
 Extensive and intensive investment विस्तीर्ण तथा गहन विनियोग
 Extensive cultivation भू-प्रधान कृषि, विस्तृत खेती
 External convertibility विदेशी परिवर्तनीयता
 External economies बाह्य मितव्ययिताएँ
 External loan बाहरी/बाह्य उधार
 External resources विदेशी ससाधन
 External saving बाहरी/बाह्य बचत
 Externality बहिर्कारक, बहिर्भाव, बाहरीपन, ऊपरीपन
 Extractive industries निस्तारक उद्योग, प्राकृतिक उपज सम्बन्धी उद्योग
 Extra cost अतिरिक्त लागत
 Extra-marginal परा-सीमांत
 Extra-marginal purchase परा-सीमांत क्रय
 Extrapolation बाह्यकलन, बाह्य गणना
 Extra risks अतिरिक्त जोखिम

F

Fabian socialism फेबियन समाजवाद—यह मार्क्सवादी इंग्लैण्ड में आरम्भ हुआ। इसमें फेबियन सोसाइटी के कुछ सुप्रसिद्ध विचारक भी थे, जिनमें एच० जो० बेन्ड, बर्नार्ड शॉ, मिडनी तथा बीट्रिस वेब उल्लेखनीय हैं। इन लोगों का विचार था कि यदि जनता को समाजवादी उद्देश्यों से ठीक ढंग से परिचित कराया जाए, तो संसदीय प्रणाली द्वारा ही समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। इन लोगों ने अपनी समिति का नाम फेबियन सोसाइटी रखा। फेबियन उस रोमन सेनापति का नाम है जिसने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए नैतिक लड़ाईयाँ करने की अपेक्षा उस समय की प्रतीक्षा की जबकि समय परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हो जाएँ। मतः

विजय प्राप्त करने के लिए, फेब्रियन ने अबसर-वादी नीति अपनायी। ठीक इसी प्रकार इन लोगों ने सोचा कि समाजवाद के प्रचार के लिए अब बड़ा अच्छा अबसर है। इन लोगों का इंग्लैण्ड के राजनैतिक तथा बौद्धिक जीवन पर भारी प्रभाव पड़ा और फलतः इंग्लैण्ड में सन् 1900 में ब्रिटिश श्रम-दल (Labour party) की स्थापना हुई।	Factory wastes फैक्टरी क्षेप्य
Face value प्रत्यक्ष मूल्य	Fair and just compensation उचित एवं न्याय-पूर्ण क्षतिपूर्ति
Face value of money मुद्रा का अंकित मूल्य, मुद्रा की अंकित ग्रही	Fair competition उचित स्पर्धा
Factorialism गुटबंदी	Fair day's pay उचित वेतन
Factor साधन, उत्पादन, कारक	Fair day's work एक दिन का उचित काम
Factor, economic आर्थिक साधन, आर्थिक कारण	Fair price उचित मूल्य/कीमत
Factor, homogeneous समरूप साधन	Fair price shop उचित-मूल्य की दुकान
Factor, non-economic आर्थिकेतर साधन, अर्थ-व्यतिक कारण	Fair rent उचित किराया
Factor comparison method साधन तुलना विधि/पद्धति	Fair selling price उचित विक्रय मूल्य
Factor cost साधन लागत	Fair trade उचित व्यापार
Factor endowments साधन सम्पन्नता	Fair wages उचित मजदूरी
Factor market साधन बाजार	Fair wages act उचित मजदूरी कानून/अधिनियम
Factor mobility साधन गतिशीलता	Fair wage legislation उचित मजदूरी विधान
Factor of production उत्पादन का साधन/कारक	Fallacy सत्याभास, भ्रम
Factor payments total साधन मुगतान योग, साधन प्रतिकूल योग	Fall in demand माँग में कमी
Factor pricing साधन प्रतिकूल निर्धारण, साधन मूल्यन	Fall in price कीमत में कमी
Factor services साधन सेवाएँ	Fall in supply पूर्ति/संभरण में कमी
Factors of production, competitive स्पर्धी/प्रतियोगितात्मक उत्पादन कारक	Falling rate of profit theory लाभदर की ह्रासमान प्रवृत्ति का सिद्धांत
Factory कारखाना, फैक्टरी, निर्माणी	Fallow land परती भूमि
Factory, perennial वारहमासी कारखाना	Family allowance परिवार भत्ता, परिवार अधिदेय
Factory, seasonal मौसमी कारखाना, सामयिक कारखाना	Family budget पारिवारिक बजट
Factory act फैक्टरी अधिनियम, फैक्टरी ऐक्ट	Family budget enquiry परिवार बजट जाँच
Factory cost फैक्टरी लागत, निर्माणी लागत	Family debt पारिवारिक ऋण
Factory system फैक्टरी पद्धति, निर्माणी पद्धति	Family employment पारिवारिक रोजगार
Factory wages फैक्टरी मजदूरी	Family expenditure पारिवारिक व्यय
	Family farm पारिवारिक फार्म, गृह फार्म
	Family farming पारिवारिक कृषि/क्षेती
	Family head बर्ता, परिवार का मुखिया
	Family holding पारिवारिक जोत
	Family income पारिवारिक आय
	Family limitation परिवार परिसीमन
	Family of interest rates ब्याज-दरों का समूह, ब्याज-दरों का सोपान
	Family occupation पारिवारिक व्यवसाय
	Family planning परिवार नियोजन
	Family wage पारिवारिक मजदूरी
	Family wage, absolute निरपेक्ष पारिवारिक मजदूर

Family wage, relative सापेक्ष पारिवारिक मजदूरी	Farm mortgage फार्म बंधक
Famine अकाल, दुर्भिक्ष	Farm operating cost फार्म संचालन लागत, फार्म परिवर्ती लागत
Famine Enquiry Commission अकाल जांच आयोग	Farm operations फार्म क्रियाएँ
Famine insurance fund दुर्भिक्ष बीमा निधि	Farm organisation फार्म व्यवस्था, फार्म-संगठन
Famine insurance grant दुर्भिक्ष बीमा अनुदान	Farm price फार्म-कीमत
Famine programme दुर्भिक्ष कार्यक्रम	Farm price support फार्म कीमत प्रालम्ब
Famine relief दुर्भिक्ष/अकाल सहायता	Farm subsidy फार्म अर्थ-साहाय्य
Famine relief fund दुर्भिक्ष/अकाल सहायता निधि/कोष	Farm superintendent फार्म अधीक्षक
Famine relief fund act दुर्भिक्ष सहायता निधि अधिनियम	Farm surplus फार्म प्रतिरेक
Famine relief measures दुर्भिक्ष सहायता उपाय	Farm tenancy फार्म कास्तकारी
Famine relief policy दुर्भिक्ष सहायता नीति	Farm tool फार्म औजार
Farm, diversified (or mixed) मिश्र फार्म	Farm unit फार्म एकक, फार्म-इकाई
Farm, factory फैक्टरी फार्म, कारखाना रूप फार्म	Farm yard manure गोबर की खाद
Farm, home गृह फार्म, घरेलू फार्म, खुदकास्त फार्म	Farming खेती करना
Farm, industrial औद्योगिक फार्म	Farming, capitalist पूँजीवादी खेती
Farm, owned स्वामिक फार्म	Farming, collective सामूहिक खेती
Farm, private निजी फार्म	Farming, co-operative सहकारी खेती/कृषि
Farm, rented लगान पर प्राप्त फार्म	Farming, co-operative better सहकारी उन्नत खेती
Farm, specialised विशेषित फार्म	Farming, co-operative collective सहकारी सामूहिक खेती
Farm, state राजकीय फार्म, सरकारी फार्म	Farming, co-operative joint सहकारी संयुक्त खेती
Farm buildings फार्म भवन	Farming, co-operative tenant सहकारी कास्तकारी खेती
Farm business फार्म व्यवसाय	Farming, dairy डेरी/दुग्ध उद्योग
Farm costings फार्म लागत-गणन	Farming, development विनयसंघीत खेती
Farm economy फार्म अर्थव्यवस्था	Farming, exhaustive (robber's cultivation) उर्वरताहारी खेती
Farm equipment फार्म साधन/उपकरण	Farming, extensive भूप्रधान कृषि, विस्तृत खेती
Farm hand फार्म श्रमिक/मजदूर	Farming, intensive धम-प्रधान कृषि, गहन कृषि/खेती
Farm implements कृषि औजार/उपकरण	Farming, joint संयुक्त खेती
Farm income फार्म आय	Farming, joint stock संयुक्त पूँजी खेती
Farm location फार्म स्थान	Farming, mixed मिश्रित खेती
Farm machinery कृषि कर्ने, खेती की मशीनें	Farming, pastoral चरागाही खेती
Farm management फार्म प्रबन्ध	Farming, peasant भूमिस्वामीय खेती
Farm management survey फार्म प्रबन्ध सर्वेक्षण	Farming, restorative उर्वरतापूरक खेती
Farm manager फार्म प्रबंधक	
Farm marketings cost फार्म विपणन लागत	
Farm mortgage company फार्म बंधक कम्पनी	

Farming, tenant कास्तकारी खेती
 Farming, subsistence निर्वाह खेती
 Farming of taxes करो का ठेका देना, कर वसूली का ठेका
 Fatal accident घातक दुर्घटना
 Fatalism भाग्यवाद
 Fatigue, economics of थ्रांति-अर्थशास्त्र, थ्रांति अर्थ सिद्धांत, थ्रम-थकान-अर्थशास्त्र
 Fatigue costs थ्रम-थकान लागत, थ्रांति लागत
 Fatigue study थ्रम-थकान अध्ययन, थ्रांति अध्ययन
 Favourable balance of payments अनुकूल भुगतान-शेष
 Favourable balance of trade अनुकूल व्यापार शेष, अनुकूल व्यापारान्तर
 Favourable exchange अनुकूल विनिमय
 Favourable rate of exchange अनुकूल विनिमय दर
 Favourable state of the exchange विनिमय की अनुकूल स्थिति
 Featherbedding सहज थ्रम नियुक्ति—इस पद का प्रयोग थ्रम-सम्बन्धों में किया जाता है जिसके अनुसार थ्रम-संध नियम इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि थ्रमिकों को आसानी से कार्य मिल सके या किसी एक कार्य पर अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति हो सके। इसका उद्देश्य नियुक्त थ्रमिकों की मात्रा को कृत्रिम रूप से बढ़ाना होता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी मशीन को चलाने के लिए एक थ्रमिक चाहिए, तो वहाँ दो की नियुक्ति करवाने का प्रयास किया जाता है।
 Federal finance संघीय वित्त
 Federal government संघ प्रशासन, संघीय सरकार
 Federal legislation संघीय विधान
 Federal Reserve Bank System संघीय रिजर्व बैंक प्रणाली
 Federal reserve board संघीय रिजर्व बोर्ड
 Federal revenues संघीय आय/भागम
 Federal states संघीय राज्य
 Federalism संघवाद
 Federation संघ

Fee फीस, शुल्क
 Fee, capitation प्रति व्यक्ति फीस, प्रति व्यक्ति शुल्क
 Fee, equalisation समकारी फीस
 Fee, permit परमिट फीस
 Feed back प्रतिपुष्टि, प्रतिसंभरण, पुनःपोषण
 Feeder industry पोषक उद्योग
 Fertiliser, chemical रासायनिक उर्वरक
 Fertiliser and manures उर्वरक एवं खाद
 Fertiliser application उर्वरक प्रयोग
 Fertiliser factory उर्वरक कारखाना, उर्वरक फैक्टरी
 Fertility उपजाऊपन, उर्वरता, प्रसवन-शक्ति, जनन-क्षमता
 Fertility control प्रसवन-शक्ति नियंत्रण, उर्वरता नियंत्रण
 Feudal system सामन्त प्रथा/तंत्र
 Feudalism सामन्तवाद
 Feudalistic elements सामन्तवादी तत्व, सामन्ती तत्व
 Fiat money प्रादिष्ट मुद्रा—इस प्रकार की मुद्रा का अभिप्राय परिवर्तनशील कागजी मुद्रा से है जिसके समर्थन के लिए कोई धात्विक समर्थन नहीं रखा जाता। इस मुद्रा के कानूनी ग्राह्य होने के कारण जनता को इसे स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि सरकार इसे मुद्रा घोषित कर देती है। पूर्णकाय मुद्रा की भांति इस मुद्रा की जारी राशि देश में उपलब्ध धातु की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। यदि सरकार इस मुद्रा की भारी मात्रा जारी कर दे और जनता इसमें विश्वास खो बैठे, तो प्रादिष्ट मुद्रा अपना बहुत-सा मूल्य खो बैठती है।
 Fibre crop रेशे वाली फसल, तन्तु फसल
 Fictitious account भ्रवास्तविक लेखा, झूठा लेखा
 Fictitious asset भ्रवास्तविक परिसम्पत्, झूठी परिसम्पत्
 Fidelity guarantee policy निष्ठा गारंटी बीमा
 Fiduciary विश्वासाश्रित
 Fiduciary issue विश्वासाश्रित मुद्रा/करेसी

Fiduciary issue of notes कागजी मुद्रा का विश्वासाधित निर्गम	Finance company वित्त समवाय, वित्त कम्पनी
Fiduciary note issue विश्वासाधित नोट जारी करना	Finance corporation वित्त निगम
Fiduciary notes विश्वासाधित नोट	Finance demand for money मुद्रा की वित्त मांग
Fiduciary paper money विश्वासाधित पत्र-मुद्रा, प्रत्ययी नोट	Finance department वित्त विभाग
Fiduciary reserve विश्वासाधित संचित, प्रत्ययी रक्षित निधि	Finance market वित्त बाजार
Fiduciary standard विश्वासाधित मुद्रा-मान, प्रत्ययी मुद्रा मान	Finance member वित्त सदस्य
Fiduciary system, fixed स्थिर प्रत्ययी नोट प्रणाली	Finance ministry वित्त मंत्रालय
Field of trade व्यापार क्षेत्र	Finance officer वित्त अधिकारी
Field work कृषि कार्य, क्षेत्र-कार्य	Finance secretary वित्त सचिव
Final consumers' goods अन्तिम उपभोक्ता वस्तुएँ, तैयार उपभोक्ता वस्तुएँ	Finance section वित्त अनुभाग
Final degree of utility सीमान्त उपयोगिता	Financier वित्त दक्ष, रुपया लगाने वाला, पूँजीपति
Final goods अन्तिम वस्तुएँ	Financial वित्तीय, वित्त संबंधी
Final product अन्तिम उत्पाद	Financial accommodation वित्त निभान, वित्तीय अनुग्रहण, वित्तीय विभाव
Final utility अन्तिम उपयोगिता	Financial advice वित्तीय सलाह/परामर्श
Finance वित्त	Financial adviser वित्त सलाहकार/परामर्शदाता
Finance, compensatory प्रतिपूरक वित्त प्रबंध	Financial aid वित्त सहायता, वित्तीय सहायता
Finance, federal संघीय वित्त	Financial assets वित्तीय परिसम्पत्
Finance, international अन्तर्राष्ट्रीय वित्त	Financial bankruptcy वित्तीय दिवालियापन
Finance, local स्थानीय वित्त	Financial budget वित्तीय बजट
Finance, paucity of वित्त का अभाव, वित्त की कमी	Financial capacity वित्तीय क्षमता
Finance, private गैर-सरकारी वित्त, निजी वित्त	Financial capital वित्तीय पूँजी
Finance, public सरकारी वित्त, लोक वित्त, राज वित्त	Financial certificate वित्तीय प्रमाण-पत्र
Finance, rehabilitation पुनर्वास वित्त	Financial commitment वित्तीय दायित्ववद्धता
Finance, state राज्यीय वित्त, राज वित्त, सरकारी वित्त	Financial concurrence वित्तीय सहमति
Finance, union संघीय वित्त, संघ वित्त	Financial conservatism वित्तीय रूढ़िवाद
Finance act वित्त अधिनियम	Financial control वित्तीय नियंत्रण
Finance bill वित्त विधेयक	Financial crisis वित्त संकट
Finance Commission वित्त आयोग	Financial donors वित्त दाता
	Financial house वित्त गृह
	Financial incentive वित्तीय प्रेरणा
	Financial institution वित्तीय संस्था
	Financial intermediary वित्तीय विचालिका/मध्यस्थ
	Financial investment वित्तीय विनियोग, वित्त विनियोग
	Financial irregularity वित्तीय अनियमितता
	Financial legislation वित्त विधान

Financial liability वित्तीय दायित्वा, वित्तीय देयता	Firm, optimum अनुकूलतम फर्म
Financial management वित्तीय प्रबंध	Firm, perfectly competitive पूर्ण स्पर्धी फर्म
Financial memorandum वित्तीय ज्ञापन	Firm, representative प्रतिनिधि फर्म
Financial obligation वित्त भ्रामार	Firm, subsidiary सहाय फर्म, अनुपंगी फर्म
Financial oligarchy वित्तीय अल्पतंत्र	Firm, class paper वरिष्ठ हण्डी/पत्र
Financial penalty वित्तीय दण्ड	First five-year plan प्रथम पञ्चवर्षीय योजना
Financial penetration वित्तीय प्रवेश	First of exchange विनिमय-पत्र प्रथम दृष्टि में
Financial planning वित्तीय आयोजन	First order goods प्रथम वर्ग की वस्तुएँ, प्रथम श्रेणी का माल
Financial policy वित्तीय नीति	Fiscal राजकोपीय
Financial powers वित्तीय अधिकार	Fiscal agent राजकोपीय एजेंट
Financial procedure वित्तीय व्यवहार/विधि	Fiscal Commission राजकोपीय आयोग, राजवित्त आयोग
Financial proceedings वित्तीय कार्यवाही	Fiscal measures राजकोपीय उपाय
Financial propriety वित्तीय औचित्य	Fiscal monopoly राजस्व निमित्त एकाधिकार
Financial relations between Centre and States केन्द्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध	Fiscal operations राजकोपीय क्रियाएँ
Financial reporting वित्तीय रिपोर्ट देना	Fiscal policy राजकोपीय नीति, उद्योग रक्षा नीति
Financial resources वित्तीय संसाधन	Fiscal policy, discretionary विवेकशील राजकोपीय नीति
Financial risk वित्तीय जोखिम	Fiscal policy, unconventional रूढ़िमुक्त राजकोपीय नीति
Financial standing वित्तीय हैसियत	Fiscal relations, inter-local अन्तःस्थानिक वित्त सम्बन्ध
Financial status वित्तीय स्थिति	Fiscal relations, inter-state अन्तरराज्यीय वित्त सम्बन्ध
Financial system वित्तीय पद्धति/प्रणाली	Fiscal relations, state-local राज्य-स्थानिक वित्त सम्बन्ध
Financial transactions वित्तीय सौदे	Fiscal system राजकोपीय पद्धति/प्रणाली
Financial year वित्तीय वर्ष	Fiscal year राजकोपीय वर्ष
Financing वित्त प्रबन्धन	Fish farm मत्स्य पालन फार्म
Financing, backdoor प्रच्छन्न वित्त प्रबन्ध	Fish farming मत्स्य पालन
Financing, corporate निगम वित्त प्रबन्ध	Fisher's equation फिशर का समीकरण
Financing, deficit न्यून/हानि वित्त प्रबन्धन	Fishery मत्स्य-पालन, मत्स्य क्षेत्र
Financing bank वित्तदाता बैंक	Fishery supply मत्स्य-संभरण
Fineness of coins सिक्कों की शुद्धता	Fixation of compensation क्षतिपूर्ति-निश्चयन
Finished goods निर्मित वस्तुएँ, तैयार माल	Fixed asset अचल परिसम्पत्
Finished goods account तैयार माल लेखा	Fixed capital अचल पूंजी, स्थिर पूंजी, स्थायी पूंजी
Finished product निर्मित पदार्थ, तैयार माल	Fixed costs स्थिर लागतें
Firm फर्म	Fixed deposit निश्चित जमा, सावधि जमा
Firm, competitive स्पर्धी फर्म, प्रतियोगी फर्म	
Firm, inter-marginal अन्तः सीमान्त फर्म	
Firm, intra-marginal आन्तर सीमान्त फर्म	
Firm, leading अग्र फर्म	
Firm, marginal सीमान्त फर्म	
Firm, monopoly एकाधिकारी फर्म	

Fixed deposit account सार्वधि निक्षेप लेखा,
निश्चित अवधि जमा-लेखा

Fixed exchange rate स्थिर विनिमय दर

Fixed factors स्थिर साधन

Fixed fiduciary issue नियत विश्वासाश्रित निर्गम

Fixed fiduciary reserve स्थिर विश्वासाश्रित
संचिति

Fixed fiduciary system स्थिर विश्वासाश्रित पद्धति

Fixed hours of work काम के नियत घटे

Fixed instalment method नियत किस्त पद्धति

Fixed money income नियत मौद्रिक आय

Fixed monthly allowance नियत मासिक भत्ता

Fixed pay नियत वेतन

Fixed preference shares नियत अग्रिमान-हिस्से

Fixed price नियत/निश्चित कीमत

Fixed production coefficient स्थिर उत्पादन-
गुणक

Fixed rate नियत दर, निश्चित दर

Fixed term policy निश्चित अवधि बीमा

Fixed trust निश्चित स्थात

Fixity of tenure पट्टा-स्थिरता

Flat rate सपाट-दर, समान-दर, सामान्य-दर

Flat rate system सामान्य-दर प्रणाली

Flexible rate of exchange लोचनीय विनिमय-दर

Flexible rate of interest व्याज की लोचनीय दर

Flexible tariff लोचनीय टैरिफ, लोचदार प्रत्युत्क दर

Flexible wage rate लोचनीय मजदूरी-दर

Flight from currency क्रेन्सी से पलायन

Flight from dollar डालर से पलायन

Flight of capital पूँजी का पलायन—प्रतिकूल
व्यापक, राजनैतिक या सैनिक परिस्थिति के कारण
किसी देश की पूँजी का भारी मात्रा में एक देश
से दूसरे देश में बहिर्गमन। इसका उद्देश्य प्रत्याशित
भय से संरक्षण प्राप्त करना होता है। युद्ध के
भय के कारण 1930 और बाद के वर्षों में यूरोप
के बहुत से देशों से पूँजी का पलायन स्विटजरलैंड
में हुआ। इसका उद्देश्य तटस्थ देशों में अपने मुदा
रूपी धन को सुरक्षित करना था।

Floitation of bonds बॉन्ड निर्गमन

Floitation of loans ऋण जारी करना, ऋण
निर्गमन

Floitation of shares हिस्से जारी करना, हिस्सा
निर्गमन

Floating assets चल परिसम्पत्, अस्थायी परिसम्पत्,
अल्पकालीन परिसम्पत्

Floating capital चल पूँजी, अस्थायी पूँजी

Floating debt अल्पकाल ऋण

Floating dollar अल्पकाल डालर, स्वतन्त्र डालर

Floating exchange rate अस्थिर विनिमय दर,
परिवर्तनीय विनिमय दर

Floating population अस्थिरवासी जनसंख्या,
अस्थायी जनसंख्या

Floating Pound अल्पकाल पाउण्ड, स्वतन्त्र पाउण्ड

Floating security चल प्रतिभूति

Flood control बाढ़ नियंत्रण

Flood control board बाढ़ नियंत्रण बोर्ड/मंडल

Floor price निम्नतम मूल्य, तल मूल्य, कम से कम
कीमत

Flow of capital पूँजी-प्रवाह

Flow of funds analysis निधि-प्रवाह विश्लेषण—
सामाजिक लेखांकन (Social Accounting)
की वह प्रणाली जो न केवल वस्तुओं और सेवाओं
के लिए प्राप्त संसाधनों और उनके प्रयोग के लिए
उपलब्ध निधियों पर अपना विश्लेषण आधारित
करती है, बल्कि इसमें स्वामित्व और ऋण के
स्रोतों का भी समावेश करती है। चूँकि किसी
एक उत्पादन-इकाई का मध्य दूसरी की आय अथवा
प्राप्ति होता है, और प्रत्येक वित्तीय दायित्व किसी
दूसरे की परिसम्पत् होता है, इसलिए निधि-प्रवाह
विश्लेषण का प्रयोग धर्मव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों
के आपसी वित्तीय सम्बन्धों का सम्पूर्ण चित्र बनाने
के लिए किया जाता है। निधि-प्रवाह विश्लेषण
राष्ट्रीय उत्पादन लेखांकन विश्लेषण की तुलना
में अधिक व्यापक प्रणाली है क्योंकि इसमें वर्तमान
पूँजी परिसम्पत्, उधार धादि की मदें भी शामिल
की जाती हैं। इसमें यह भी बताया जाता है कि
किस प्रकार एक क्षेत्र की वचत का प्रयोग दूसरे
क्षेत्र के विनियोग के लिए वित्त जुटाने के लिए

- किया जाता है। अतः निधि-प्रवाह प्रणाली अर्थव्यवस्था की सामान्य कार्यविधि पर विभिन्न मौद्रिक नीतियों के होने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक लाभदायक और उत्तम विधि है।
- Flow of money मुद्रा-प्रवाह**
- Flow through time (of economic quantities)** (आर्थिक मात्राओं का) समय के मध्यात् प्रवाह
- Fluctuating exchange rates** घटती-बढ़ती विनिमय-दरें
- Fluctuating land revenue परिवर्ती भू-राजस्व**
- Fluctuating prices** घटती-बढ़ती कीमतें
- Fluctuation, accidental** आकस्मिक उच्चावचन
- Fluctuation, anti-cyclical** प्रतिचक्रिक उच्चावचन
- Fluctuation, cyclical** चक्रिक उच्चावचन
- Fluctuation, price** कीमत उच्चावचन, कीमत में उतार-चढ़ाव
- Fluctuation, random** सम-संभावित उच्चावचन
- Fluctuation, seasonal** मौसमी उच्चावचन
- Fluctuation, wage** मजदूरी में उतार-चढ़ाव
- Fluctuation in prices** कीमतों में उच्चावचन, कीमतों में घट-बढ़
- Fluid resources** तरल संसाधन, नकद साधन
- Fluid savings** तरल बचत, नकद बचत—ऐसी बचत जो व्यय या विनियोग में इस्तेमाल न की गयी हो।
- F.O.B. (free on board)** जहाज तक निःशुल्क
- F.O.B price** ज० त० नि० कीमत
- F.O.B. value** ज० त० नि० मूल्य
- Follow-up cultivation** अनुवर्ती कृषि
- Food and Agricultural Organisation (F.A.O.)** खाद्य एवं कृषि संगठन (खा० कृ० सं०)
- Food crisis** खाद्य/अन्न संकट
- Food cropped area** खाद्य-शास्य-क्षेत्रफल, खाद्य फसल क्षेत्र
- Food crops** खाद्य फसलें, खाद्य शास्य
- Food famine** खाद्य-अकाल
- Food imports** खाद्य-आयात
- Food minister** खाद्य मंत्री
- Food ministry** खाद्य मंत्रालय
- Food policy** खाद्य नीति
- Food problem** खाद्य समस्या
- Food product** खाद्य उत्पाद, खाद्य वस्तु, खाद्य पदार्थ
- Food production target** खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य
- Food rationing** खाद्य-राशन
- Food statistics** खाद्य आँकड़े
- Food subsidy** खाद्यान्न साहाय्य
- Food supply** खाद्य पूर्ति, खाद्य संभरण
- Food surplus** खाद्य अतिरिक्त
- Food value** खाद्य मूल्य, खाद्यमान, अन्न मूल्य
- Food zone** खाद्य क्षेत्र
- Foodgrains** खाद्यान्न
- Foot-loose industries** स्थान-स्वतन्त्र उद्योग, स्वच्छन्द उद्योग
- Forced labour** बाध्य श्रम, बेगार
- Forced procurement** बलात् वसूली
- Forced sale** जबरी बिक्री, बाध्य विक्रय
- Forced saving** बलात् संचिति, बाध्य बचत—
- इस शब्द की दो प्रकार से व्याख्या की जाती है। प्रथम, इसका अर्थ अर्थव्यवस्था की उस परिस्थिति से है जिसमें कीमतें आय से अधिक बढ़ती हैं और निश्चित या सापेक्षतः निश्चित आय वाले व्यक्ति अपने उपभोग को कम कर देते हैं। उपभोग की इस प्रकार की कमी के फलस्वरूप होने वाली बचत बाध्य बचत कहलाती है। यह परिस्थिति पूर्ण रोजगार प्राप्त अर्थव्यवस्था में स्फीति के दौरान व्यक्त हो सकती है।
- द्वितीय अर्थ में, बाध्य बचत का अभिप्राय लोगों द्वारा की गयी अनैच्छिक बचत से है। उदाहरणार्थ, जब कोई निगम या औद्योगिक फर्म अपनी कुल आय का अधिक भाग प्रतिष्ठित आय (Retained Income) के रूप में रखने का निर्णय करती है, तो वह अपने हिस्सेदारों को बचत करने के लिए बाध्य कर देती है। इसी प्रकार जब कोई सरकार अपने करों की मात्रा बढ़ा देती है और इस प्रकार उपलब्ध अतिरिक्त राशि को विनियोग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है, तो वह भी अपने नागरिकों को बाध्य बचत के लिए मजबूर कर रही है। सोवियत संघ और कुछ अन्य विकासशील देशों में उपभोग को बाध्य रूप में कम करके बचत बढ़ाने

- का प्रयास किया गया । इस प्रकार बाध्य बचत
 आर्थिक विकास का माध्यम बन जाती है ।
- Forces of competition प्रतिस्पर्धा की शक्तियाँ
- Forecasting पूर्वानुमान
- Forecasting, economic आर्थिक पूर्वानुमान
- Forecasting, population जनसंख्या-पूर्वानुमान
- Forecasting technique पूर्वानुमान तकनीक
- Foreclose अग्र रोक
- Foreclose a license लाइसेंस की अग्र रोक
- Foreclose a mortgage बंधक-विमोचन-निषेध
- Foreign aid programme विदेशी सहायता प्रोग्राम
- Foreign assets विदेशी परिसम्पत्
- Foreign bank notes विदेशी बैंक नोट
- Foreign bill विदेशी विनिमय-पत्र, विदेशी विपत्र
- Foreign borrowing विदेशी ऋण
- Foreign capital विदेशी पूँजी
- Foreign collaboration विदेशी सहयोग
- Foreign collaborator विदेशी सहयोगी
- Foreign enterprise विदेशी उद्यम
- Foreign exchange विदेशी मुद्रा
- Foreign exchange assets विदेशी मुद्रा परिसम्पत्
- Foreign exchange budget विदेशी मुद्रा बजट
- Foreign exchange control विदेशी विनिमय
 नियंत्रण
- Foreign exchange crisis विदेशी मुद्रा संकट
- Foreign exchange earner विदेशी मुद्रा अर्जक
- Foreign exchange liabilities विदेशी मुद्रा दायित्व
- Foreign exchange market विदेशी विनिमय बाजार
- Foreign exchange rate विदेशी विनिमय दर
- Foreign exchange regulation विदेशी मुद्रा
 विनिमयन
- Foreign exchange reserve विदेशी विनिमय निधि,
 विदेशी मुद्रा निधि
- Foreign exchange stabilisation विदेशी विनिमय-
 दर स्थिरकरण
- Foreign investment विदेशी विनियोग, विदेशों में
 सभी पूँजी, विदेशगत पूँजी
- Foreign lending विदेशी उधार
- Foreign loans विदेशी ऋण
- Foreign market विदेशी बाजार, विदेशी मंडी
- Foreign public debt office विदेशी सरकारी ऋण
 कार्यालय
- Foreign reserve विदेशी प्रारक्षण
- Foreign security विदेशी प्रतिभूति
- Foreign trade विदेशी व्यापार
- Foreign trade multiplier विदेशी व्यापार गुणक
- Foreign trade policy विदेशी व्यापार नीति
- Foreign trade statistics विदेशी व्यापार के आँकड़े
- Foreign value of currency मुद्रा का विदेशी मूल्य
- Forestalling पैदावन्दी
- Forest conservation वन संरक्षण
- Forest economy वन अर्थव्यवस्था
- Forest finance वन-वित्त व्यवस्था
- Forest land वन-भूमि
- Forest research institute वन अनुसंधान संस्था
- Forestry वन विज्ञान
- Forest statistics वन सम्बन्धी आँकड़े
- Forest tax वन कर, जंगल कर
- Forest utilisation वन उपयोग
- Form utility रूप उपयोगिता
- Forward balancing अग्रें संतुलन
- Forward exchange rate अग्रें विनिमय-दर
- Forward integration अग्रवामी एकीकरण
- Forward linkage अग्रवामी सम्बन्ध
- Forward marketing अग्रें विपणन
- Forward price अग्रें कीमत
- Forward purchase अग्रें क्रय
- Forward sale अग्रें विक्रय
- Forward trade अग्रें व्यापार
- Forward trading अग्रें व्यापार
- Forward transactions अग्रें सीदे, अग्रें व्यवहार
- Forwarding and receiving agent श्रेयसु अग्रें
 प्राप्त प्रभिकर्ता
- Fraction of a rupee रुपये का प्रभाग
- Fractional currency प्राभागिक करेंसी
- Fragmentation of holding जोत का वित्खण्डन
- Fraudulent claim छलपूर्व दावा
- Free capitalist economy निर्वाध पूँजीवादी अर्थ-
 व्यवस्था

Free competition निर्वाध प्रतिस्पर्धा, प्रवाध प्रतिस्पर्धा

Free economy निर्वाध अर्थव्यवस्था

Free enterprise मुक्त उद्यम, अन्नद्य उद्यम

Free exchange market अन्वाध विनिमय बाजार

Free exchange rate अन्वाध विनिमय-दर

Free gift of nature प्रकृति की सहज देन, प्रकृति द्वारा निशुल्क उपहार

Free goods नैसर्गिक वस्तुएँ, नैसर्गिक वसाधें

Free market area निर्वाध बाजार क्षेत्र

Free mintage नि.शुल्क टंकन

Free of charge नि.शुल्क, मुफ्त

Free of revenue राजस्व-मुक्त

Free of tax कर-मुक्त

Free on board (F.O.B.) जहाज तक नि.शुल्क

Free on rail (F.O.R.) रेल-भाड़ा-मुक्त

Free paid-up policy शुल्क चुकती पालिसी

Free ration निःशुल्क राशन

Free replacement नि.शुल्क प्रतिस्थापन

Free trade अन्वाध व्यापार, मुक्त व्यापार

Free trade area अन्वाध-व्यापार-क्षेत्र

Free trade vrs. protectionism अन्वाध-व्यापार बनाम संरक्षणवाद

Freedom of choice चयन की स्वतन्त्रता

Freedom of consumption उपभोग की स्वतन्त्रता

Freedom of contract अनुबध की स्वतन्त्रता

Freedom of enterprise उद्योग की स्वतन्त्रता

Freedom of occupation व्यवसाय की स्वतन्त्रता

Freedom under planning आर्थीजन मे स्वतन्त्रता

Freeze जड़ीकरण

Freeze, income आय जड़ीकरण, आय बन्धन

Freeze, price कीमत जड़ीकरण, कीमत बन्धन

Freeze, wage मजदूरी जड़ीकरण, मजदूरी बन्धन

Freezing of assets परिसम्पत् का निश्चलीकरण/जड़ीकरण

Freezing of property rights सम्पत्ति अधिकारों का निश्चलीकरण

Freezing of stock बन्ध निश्चलीकरण

Freight भाड़ा, माल-भाड़ा

Freight charges भाटक-प्रभार, भाड़ा-प्रभार

Freight-prepaid दिया हुआ भाड़ा

Freight-to pay देय भाटक/भाड़ा

Frequency, statistical सांख्यिकीय बारंबारता

Frequency curve बारंबारता-वक्र

Frequency distribution बारंबारता-वंटन

Frequency table बारंबारता सारणी

Fresh deposit नयी जमा, नव निक्षेप, नया निक्षेप

Fresher नौसिखिया

Frictional unemployment संघर्षी बेरोजगारी, प्रतिरोधी बेरोजगारी

Friendly society हितकारी समिति, मित्र संस्था

From generation to generation पीढ़ी-दर-पीढ़ी

From son to grandson पुत्र से पीत्र तक

Frontier trade सीमान्त व्यापार

Frozen assets जदीकृत परिसम्पत्, निश्चलीकृत परिसम्पत्

Fruit-bearing science फलपरक विज्ञान, फलप्रद शास्त्र

Full-bodied money पूर्ण-काय मुद्रा

Full-cost pricing पूर्ण लागत पर कीमत निर्धारण

Full employment पूर्ण रोजगार

Full finance सर्व उद्देशीय वित्त-व्यवस्था

Full pay पूर्ण वेतन

Full protection policy पूर्ण संरक्षण नीति

Full time occupation पूर्ण काल उपजीविका/व्यवसाय

Fully assessed to land revenue भू-राजस्व हेतु पूर्णतया निर्धारित

Fully developed पूर्णतया विकसित

Fully negotiable credit-instrument पूर्णतया परक्राम्य साध-पत्र

Fully paid-up shares पूर्णतः परिदत्त हिस्से

Function कार्य, श्रित, कृत्य

Function, complementary पूरक कार्य

Function, consumption उपभोग श्रित

Function, employment रोजगार श्रित

Function, investment विनियोग श्रित

Function, probability संभाव्यता श्रित

Function, production उत्पादन श्रित

Function of money मुद्रा-कार्य
 Functions of money मुद्रा के कार्य
 Functional distribution कृत्यात्मक वितरण,
 कार्यात्मक वितरण
 Functional finance प्रयोजी वित्त
 Functional inequalities कृत्याधार असमानताएँ
 Functional organisation कार्यमूलक संस्था
 Functional relationship श्रित-सम्बन्ध
 Functional specialisation कार्यात्मक विशिष्टी-
 करण
 Functionalisation कर्मशः विभाजन
 Functionalism कृत्यवाद, कार्यात्मकता, कार्य
 फलवाद—वह दर्शन जो व्यावहारिक उपयोगिता
 या कृत्यों पर बल देता है
 Functionless investment निष्कार्य विनियोग
 Fund, contingency reserve सांयोगिक आरक्षित
 निधि
 Fund, depreciation मूल्यह्रास निधि, अवक्षयण
 कोष
 Fund, employees' provident कर्मचारी भविष्य
 निधि
 Fund, general provident सामान्य भविष्य निधि
 Fund, loanable उधारार्थ निधि/राशि
 Fund, provident भविष्य निधि
 Fund, replacement प्रतिस्थापन निधि
 Fund, reserve संचित निधि, आरक्षित निधि
 Fund, revolving परिक्रामी निधि
 Fund, sinking श्रृणु निर्वाण निधि
 Fundamental disequilibrium मूलभूत असंतुलन
 Fundamental equation of Keynes केन्ड्र का
 मूलभूत समीकार
 Fundamental theory of value मूल्य के मूलभूत
 सिद्धान्त
 Funded debt निधिबद्ध श्रृणु, अनिश्चितकाल
 श्रृणु
 Funded pension plan निधिबद्ध पेंशन योजना
 Funding of national debt सार्वजनिक श्रृणु के
 लिए कोष-निर्माण
 Funds from outside 'बाह्य राशि', विदेश से
 प्राप्त राशि

Fungible goods समरूप वस्तुएँ
 Funk money नीत राशि
 Further demands for grants अनुदानों के लिए
 और माँग
 Further increment भावी वृद्धि
 Future crop भावी दृश्य
 Future delivery भावी प्रदान
 Future estate भावी संपदा
 Future goods भावी वस्तुएँ
 Future increments भावी वृद्धि
 Future market भावी विपणन, भावी बाजार
 Future market regulation भावी विपणन विनि-
 यम
 Future prices भावी कीमतें
 Future rent भावी लगान, भावी किराया, भावी
 भाटक
 Futures भावी क्रय-विक्रय—भावी प्रारित या भुगतान
 के लिए वस्तुओं का परिकल्पी क्रय या विक्रम।
 F. Y. P. (Five-year plan) पंच वं. योजना
 (पंच वर्षीय योजना)

G

Gadgets यांत्रिक "जुगतें"
 Gain लाभ
 Gain and loss लाभ और हानि, लाभ-प्रलाभ
 Gainful employment लाभकारी रोजगार
 Gainful occupation लाभकारी वृत्त्या, लाभदायक
 व्यवसाय
 Galloping inflation सवेग स्फीति, सरपट स्फीति
 Games, theory of खेल सिद्धान्त—इस सिद्धान्त
 के अनुसार विभिन्न प्राथमिकताओं वाले व्यक्तियों
 के व्यवहार की व्याख्या की जाती है। इस सिद्धान्त
 के मधीन वे प्रतिपक्ष प्रतिपादित किये जाते हैं जो
 विवेकशील कार्य के लिए मार्गदर्शन करते हैं।
 खेल-सिद्धान्त सामाजिक विज्ञानों में गणितीय
 पद्धति के सखिरदार प्रयोग का प्रथम उदाहरण
 है। इसकी परिकल्पनाएँ श्रमोक्तिक समस्याओं
 अर्थात् निश्चित बाजार परिस्थितियों में कर्मों एवं
 व्यक्तियों के व्यवहार पर आधारित होती हैं।
 सिद्धान्त में वर्तमान गणितीय विकास का सहारा

लिया जाता है और जब वर्तमान गणितीय तकनीक उपयुक्त न हो, तो नयी तकनीक का निर्माण किया जाता है।

Gandhian Economics गांधीवादी अर्थशास्त्र

Gandhian Plan गांधीवादी योजना—स्वतन्त्रतापूर्व काल में आचार्य श्रीमन्नारायण द्वारा यह योजना तैयार की गयी। इसका उद्देश्य 10 वर्षों में एक न्यूनतम जीवन-स्तर उपलब्ध कराना था। इस उद्देश्य के लिए कृषि एवं उद्योग के सन्तुलित एवं एक साथ विकास का सुझाव दिया गया। कृषि-क्षेत्र में, जमींदारी और रैपतवारी प्रणाली का प्रतिस्थापन मौज्जादारी प्रणाली अर्थात् ग्राम-बन्दोबस्त से करने का सुझाव था। इसमें ग्राम-पंचायतों को खेती के लिए भूमि-आवण्टन के अधिकार सौंपने का प्रोग्राम था। इस योजना में कुटीर एवं लघु-उद्योगों पर विशेष बल दिया गया क्योंकि भारत का कल्याण इनके विकास में ही निहित है।

Garbled coin धोखा सिक्का, विचित्र सिक्का

Garnishment प्रतुष्टापीकरण, वेतन-रोक—(i) ऋणदाता की तरफ से न्यायालय का आदेश जिसके अनुसार किसी तीसरे व्यक्ति के पास पड़ी ऐसी राशि को न्यायालय अपने आधीन कर लेता है जिसका भुगतान उसे ऋणी को करना हो। अतः न्यायालय तीसरे व्यक्ति को यह चेतावनी दे देता है कि न्यायालय के निर्देश के बिना इस राशि का भुगतान ऋणी को न किया जाए।

(ii) न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश जिसके अनुसार किसी नियोजक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह किसी ऋणी-कर्मचारी की समग्र मजदूरी या इसका एक अंश न्यायालय में जमा करवा दे। इस राशि का भुगतान न्यायालय के आदेश के अनुसार ऋणदाता के हित में किया जाता है।

Gearing ऋणपत्र हिस्सा अनुपात—इस शब्द का प्रयोग कम्पनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के हिस्सों और ऋणपत्रों के अनुपात के लिए किया जाता है। यदि यह अनुपात अधिक हो, तो कम्पनी के

लाभ का अधिक भाग ऋणपत्रों एवं अधिमान हिस्सों के प्रतिफल के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। इस अनुपात के कम होने की हालत में यह अधिमान-प्रभार (Priority charge) कम होगा।

General acceptability सामान्य स्वीकार्यता, सर्व-स्वीकार्यता

General Agreements on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) प्रत्युत्क और व्यापार का सामान्य समझौता, टैरिफ और व्यापार का सामान्य करार (प्र० व्या० सा० सं०)

General average सामान्य औसत हानि—यह शब्द सामान्यतया समुद्री बीमा में इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र में किसी दुर्घटना के कारण जहाज में लदा माल पूर्णतया या कुछ हद तक नष्ट हो सकता है। यदि समस्त माल की हानि हो जाय, तो इसे सामान्य औसत हानि (General average) कहते हैं और यदि कुछ माल की हानि हो, तो इसे विशेष औसत (Particular Average) या आंशिक हानि कहते हैं।

General average bond सामान्य औसत बांड

General average loss सामान्य औसत हानि

General bargaining agent सामान्य सौदा एजेंट/अभिवक्ता

General budget सामान्य बजट

General Equilibrium सामान्य सन्तुलन—सन्तुलन की स्थिति तब वर्तमान होती है जब विश्वमान परिस्थितियों में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति न हो। उदाहरण के लिए, सन्तुलन की स्थिति में मांगी गयी मात्रा पूर्णतः मात्रा के समान होती है और परिणामतः कीमत में परिवर्तन की कोई गंजाइश नहीं होती। यदि कीमतों का अद्वयमान-संबंध एक वस्तु के बारे में किया जाए, तो यह सन्तुलन कीमत विशेष सन्तुलन (Particular Equilibrium) या आंशिक सन्तुलन (Partial Equilibrium) का उदाहरण है। इसके विरुद्ध सामान्य सन्तुलन (General Equilibrium) का अर्थ समग्र अर्थव्यवस्था के सभी विभिन्न बाजारों में कीमतों और उत्पादन में एक साथ सन्तुलन की स्थिति से है।

General equilibrium analysis सामान्य सन्तुलन विश्लेषण
 General glut व्यापक प्रतिसंभरण, व्यापक प्रत्यूत्पादन
 General property tax सामान्य सम्पत्ति कर
 General sales tax सामान्य विक्री कर
 General specification सामान्य विशेष-विवरण
 General strike सम्पूर्ण हड़ताल, ग्राम हड़ताल
 General supervision सामान्य पर्यवेक्षण
 General theory सामान्य सिद्धान्त
 General trend सामान्य प्रवृत्ति
 General velocity of circulation मुद्रा की सामान्य परिवहन गति
 General wages सामान्य मजदूरी
 General welfare सामान्य कल्याण
 Generalisation सामान्य सिद्धान्त, सामान्यीकरण
 Generating capacity जनन-क्षमता
 Gentleman farmer भद्र किसान, नव कृषक
 Gentlemen's agreement भद्रजनीय समझौता, भद्र करार
 Geographical distribution भौगोलिक वटन, भौगोलिक वितरण
 Geographical factor भौगोलिक कारण
 Geographical mobilisation भौगोलिक गति-मत्ता/गतिशीलता
 Geographical mobility भौगोलिक गतिशीलता
 Geographical specialisation भौगोलिक विशिष्टीकरण
 Geological survey भूगर्भ सर्वेक्षण
 Geometric progression गुणोत्तर वृद्धि, गुणोत्तर श्रेणी
 Gestation period गर्भावधि, परिपाक अवधि, निष्पादन अवधि
 Gestation period of investment विनियोग की गर्भावधि, परिपाक अवधि
 Ghost town उजाड़ नगर
 Gibson paradox दिवसन-विरोधाभास—दस विरोधाभास के अनुसार दीर्घकाल के दौरान समय के अनेक अन्तरालों पर कीमतों का स्तर भीर व्याज-

दरों का स्तर एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं। केन्थ ने यह सिद्ध किया कि यह 1791-1939 के काल के लिए सही है, परन्तु 1936-46 के काल की विशेषता इस बात में थी कि कीमतों और व्याज दरें विरोधी दिशाओं में चले।

Giffen goods गिफन वस्तुएँ, घटिया वस्तुएँ
 Giffen's paradox गिफन का विरोधाभास
 Gift coupon उपहार कूपन
 Gift of nature प्रकृति की देन, प्राकृतिक उपहार
 Gift tax उपहार कर
 Gifts and relief payments उपहार एवं सहायता राशियाँ
 Gifts Inter Vivos जीवन-काल के उपहार—इनसे अभिप्राय स्वामी के जीवन-काल में दिए गए उपहारों से है। ये बड़ी जायदाद या परिसम्पत्त पर सम्पदा शुल्क से बचने का उपाय है। ये उपहार ग्राम तोर पर उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्हें वसीयत में सम्पत्ति छोड़ने का किसी व्यक्ति का इरादा हो।
 Gifts of nature प्रकृति से प्रसाद स्वरूप
 Gilt-edged bill परम-विषय, उत्कृष्ट बिल
 Gilt-edged market परम प्रतिभूति बाजार
 Gilt-edged security परम प्रतिभूति
 Give out by contract ठेके पर देना
 Glamour of spectacular modernity प्रदर्शनीय आधुनिकता का आकर्षण
 Global estimate विश्व अनुमान
 Global national income विश्व राष्ट्रीय आय
 Global quota विश्व अर्थमंडल, सार्वभौम कोटा
 Glut प्रति संभरण, भरमार, अतिपूर्ति
 Glut in the market बाजार में अति संभरण, बाजार में भरमार
 Glut of capital पूँजी-भरमार, पूँजी का अति-संभरण
 Going concern चालू फर्म, चलता व्यापार
 Going economy चालू अर्थव्यवस्था
 Going price चालू कीमत
 Going wage चालू मजदूरी
 Go into liquidation अन्तस्थान होना

Gold backing स्वर्ण आधार, स्वर्ण समर्थन	Goods, durable producers' चिरस्थायी उत्पादक वस्तुएँ
Gold bond स्वर्ण बाँड	Goods, dutiable शुल्क देय माल
Gold bullion standard स्वर्ण धातुमान, स्वर्ण पिंडमान	Goods, economic वार्षिक वस्तुएँ
Gold clause स्वर्ण-खंड	Goods, exempted छूट प्राप्त वस्तुएँ
Gold coin स्वर्ण सिक्का	Goods, exported निर्यातित माल/वस्तुएँ
Gold crisis स्वर्ण संकट	Goods, external बाह्य पदार्थ/वस्तुएँ
Gold currency standard स्वर्ण मुद्रामान	Goods, final अंतिम वस्तुएँ, तैयार माल
Gold exchange standard स्वर्ण विनिमय मान	Goods, finished निर्मित वस्तुएँ, तैयार माल
Gold export point स्वर्ण निर्यात बिन्दु, स्वर्ण निर्यात अंक	Goods, free नैसर्गिक पदार्थ/वस्तुएँ
Gold holdings of member countries सदस्य-देशों के स्वर्ण निधि-पत्र	Goods, fungible समरूप वस्तुएँ
Gold import point स्वर्ण आयात बिन्दु/अंक	Goods, graded वर्गीकृत वस्तुएँ, श्रेणीबद्ध वस्तुएँ
Gold points स्वर्ण बिन्दु, स्वर्ण अंक	Goods, gratuitous निःशुल्क पदार्थ, निःशुल्क देन
Gold point of exchange विनिमय स्वर्ण अंक	Goods, home स्वदेशी माल/वस्तुएँ
Gold premium स्वर्ण प्रथमानि	Goods, imported आयातित माल, आयातित वस्तुएँ
Gold reserve स्वर्ण-प्रारक्षण, स्वर्ण संचिति	Goods, inferior घटिया वस्तुएँ
Gold reserve fund स्वर्ण प्रारक्षण निधि, स्वर्ण संचिति निधि	Goods, intermediate अन्तर्वर्ती वस्तुएँ
Gold settlement fund स्वर्ण परिशोधन निधि	Goods, internal आन्तरिक वस्तुएँ
Gold standard स्वर्ण मान, स्वर्ण प्रमाण	Goods, investment विनियोग वस्तुएँ
Gold standard, breakdown of स्वर्णमान का पतन	Goods, luxury विलास वस्तुएँ
Gold standard, restoration of स्वर्णमान का पुन स्थापन	Goods, man-made मनुष्यकृत वस्तुएँ
Gold standard reserve स्वर्णमान प्रारक्षण	Goods, material भौतिक पदार्थ/वस्तुएँ
Gold-using country स्वर्ण-प्रयोगी देश	Goods, nature-made प्रकृतिकृत वस्तुएँ
Goods वस्तुएँ, माल, पदार्थ, सामग्री	Goods, non-material अभौतिक पदार्थ
Goods, appropriable धार्य पदार्थ, अंतरमहात् वस्तुएँ	Goods, non-transferable अन्तरस्थायी पदार्थ, अहस्तांतरणीय वस्तुएँ
Goods, appropriated विनियोजित वस्तुएँ	Goods, onerous दुर्बल पदार्थ
Goods, capital पूँजी वस्तुएँ	Goods, permanent स्थायी वस्तुएँ
Goods, coastal तट-स्थापार माल/वस्तुएँ	Goods, personal वैयक्तिक वस्तुएँ
Goods, collective सामुदायिक वस्तुएँ, समूहित वस्तुएँ	Goods, present वर्तमान माल/पदार्थ
Goods, competitive प्रतियोगी वस्तुएँ	Goods, prestige प्रतिष्ठा वस्तुएँ
Goods, complementary पूरक वस्तुएँ	Goods, producers' उत्पादक वस्तुएँ
Goods, consumers' उपभोक्ता वस्तुएँ	Goods, quality उच्चकोटि वस्तुएँ
Goods, contraband निषिद्ध माल	Goods, semi-finished अर्ध-निर्मित वस्तुएँ
Goods, durable चिरस्थायी वस्तुएँ	Goods, substitute स्थापान्य वस्तुएँ
Goods, durable consumers' चिरस्थायी उपभोक्ता वस्तुएँ	Goods, temporary अस्थायी वस्तुएँ
	Goods, transferable अन्तरस्थायी पदार्थ, हस्तांतर-स्थायी वस्तुएँ
	Goods, transient अस्थायी पदार्थ

Goods, unappropriable अर्थात् वस्तुएं
 Goods account वस्तु लेखा
 Goodwill (स्ववसाय की) हयाति
 Go slow tactics कार्यमदन युक्तियाँ, धीमे काम के
 उपाय
 Government bill राजकीय श्रृण-पत्र, सरकारी
 श्रृण-पत्र
 Government bond सरकारी बाँड
 Government enterprise सरकारी उद्यम
 Government expenditure राजकीय व्यय
 Government finances सरकारी वित्त
 Government promissory note सरकारी प्रोमोट,
 सरकारी प्रतिज्ञापत्र
 Government provident fund सरकारी भविष्य
 निधि
 Government sector राजकीय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र
 Government securities सरकारी प्रतिभूतियाँ
 Government to government account अन्तः
 राजकीय लेखा
 Government treasury सरकारी कोष, राजकीय
 कोषागार
 Graded taxes श्रेणीबद्ध कर
 Grading श्रेणीकरण, श्रेणी-निर्धारण
 Gradual recovery क्रमिक पुनर्हायान
 Gradual tax उत्तरोत्तर कर
 Gradualism, the theory of अनुक्रमवाद/क्रमिता-
 वाद का सिद्धान्त
 Graduated pension scheme प्रगामी पेंशन
 योजना
 Graduated taxation प्रगामी कराधान
 Graduated wage प्रगामी मजदूरी
 Grant अनुदान
 Grant, block ब्लाक अनुदान, एक-मुश्त अनुदान
 Grant, charitable पुण्यार्थ अनुदान
 Grant, direct प्रत्यक्ष अनुदान
 Grant, extra अतिरिक्त अनुदान
 Grant, fixed निश्चय अनुदान
 Grant, indirect परोक्ष अनुदान
 Grant, interim अंतरिम अनुदान

Grant, non-recurring अनावर्ती अनुदान
 Grant, preliminary प्रारम्भिक अनुदान
 Grant, progressive आरोही अनुदान
 Grant, recurring आवर्ती अनुदान
 Grant, regressive अवरोही अनुदान
 Grant, special विशेष अनुदान
 Grant, specific विशिष्ट अनुदान
 Grant, supplementary अनुपूरक अनुदान
 Grant, token प्रतीक अनुदान
 Grants-in-aid सहायक अनुदान
 Gratuitous goods निःशुल्क पदार्थ, निःशुल्क वस्तुएं
 Gratuity उपदान
 Great depression महामंदी, घोर मंदी
 Green backs हरे प्रत्ययी मोट—संयुक्त राज्य अमे-
 रिका के राजकोष द्वारा हरी स्याही में प्रकाशित
 प्रत्ययी नोट जो सबसे पहले 1862 में जारी किए
 गए।
 Green revolution हरी क्रांति, हरित क्रांति
 GresLam's law प्रेशम का नियम (निकृष्ट मुद्रा-
 परिचलन-नियम)
 Grievance committee निकायत समिति
 Grievance procedure निकायत विधि
 Gross capital formation कुल पूंजी निर्माण
 Gross cost सकल परिव्यय, कुल लागत
 Gross cultivable area सकल कृष्य क्षेत्र
 Gross domestic capital formation कुल
 राष्ट्रीय पूंजी निर्माण
 Gross domestic product कुल राष्ट्रीय उत्पाद
 Gross expenditure सकल व्यय
 Gross fixed investment कुल अचल विनियोग
 Gross income कुल आय, कुल आमदनी
 Gross interest सकल वृद्धि/व्याज
 Gross national debt कुल राष्ट्रीय श्रृण
 Gross national expenditure कुल राष्ट्रीय व्यय
 Gross national product कुल राष्ट्रीय उत्पाद,
 सकल राष्ट्रीय उत्पाद
 Gross private investment कुल निजी विनियोग
 Gross profit सकल लाभ, कुल लाभ
 Gross profit ratio कुल लाभ अनुपात

Gross retained product कुल प्रतिष्ठित उत्पाद
 Gross revenue सकल आय, कुल आय
 Gross turnover सकल क्रय-विक्रय, सकल व्यापार-वर्त
 Gross utilitarianism घोर उपयोगितावाद, स्थूल उपयोगितावाद
 Gross yield कुल उपज, सकल प्राप्ति
 Ground rent जमीन का भाड़ा, किराया जमीन, तहजमीनी
 Group समूह
 Group, consumer उपभोक्ता समूह
 Group, high income उच्च आय वर्ग
 Group, income प्राय वर्ग
 Group, low income निम्न आय वर्ग
 Group, middle income मध्यम आय वर्ग
 Group, selling विक्रय-गुट
 Group, trade व्यापार-गुट
Group Banking समूह बैंक-व्यवस्था—इसका अर्थ किसी एक बैंक या संस्था द्वारा बैंकों के एक समूह की नीतियों और क्रियाओं का निर्देशन करना है। बैंक-समूह पर नियंत्रण प्राप्त करने के मुख्य उपाय हैं : हिस्सा पूंजी के अधिकतर भाग का स्वामित्व अपने अधीन करना, अन्तर्प्रयित संचालक मंडली (Interlocking Directorates) का गठन आदि।
 Group bonus plan सामूहिक बोनस योजना
 Group disability insurance सामूहिक अश्वनता-बीमा
 Group equilibrium समूह सतुलन
 Group housing scheme समूह आवास-व्यवस्था कार्यक्रम/योजना
 Group indices समूह सूचकांक
 Group insurance सामूहिक बीमा, समूह बीमा
 Group interest वर्ग-हित
 Group secretary वह समिति सचिव
 Group school-fee policy सामूहिक स्कूल फीस बीमा
 Group trading सामूहिक व्यापार
 Group wage समूह मजदूरी

Group wage system सामूहिक मजदूरी पद्धति
 Grow more food campaign अधिक प्रन्न उपजाओ आन्दोलन
 Growing economy बढ़मान अर्थव्यवस्था
Growth सृद्धि—सामान्यतः आर्थिक विकास (Economic Development) और आर्थिक सृद्धि (Economic Growth) का प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है, परन्तु अर्थशास्त्री इसमें भेद करते हैं। श्री किङ्गलबर्गर के अनुसार, “आर्थिक सृद्धि का अर्थ अधिक उत्पादन से है परन्तु आर्थिक विकास में अधिक उत्पादन के प्रतिरिक्त तकनीकी एवं सस्थानात्मक व्यवस्था में होने वाले वे सभी परिवर्तन भी शामिल हैं, जो इस उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं।”
 Growth, balanced संतुलित संवृद्धि, संतुलित विकास
 Growth, cyclical चक्रीय सृद्धि, चक्रीय विकास
 Growth, economic आर्थिक संवृद्धि
 Growth, economics of सृद्धि अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र
 Growth, self-sustained स्वयं स्फूर्त विकास/संवृद्धि
 Growth, sustained सतत विकास, अविरत संवृद्धि
 Growth, unbalanced असंतुलित संवृद्धि, असंतुलित विकास
 Growth constants संवृद्धि स्थिरांक, विवास स्थिरांक
 Growth curve वृद्धि-वक्र
 Growth Economics संवृद्धि-अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र
Growth Industry वृद्धि/विकास उद्यम—बोलिंडग द्वारा विकास क्रम की गतिकी (Dynamics of development sequence) के संदर्भ में प्रयुक्त धारणा। विकास उद्यम मानव-क्रियाओं का वह भाग है जिसमें प्रतिस्थापन से बेशी उत्पादन होता है (तभी वृद्धि/विकास संभव होता है)।
 Growth model संवृद्धि-मॉडल, संवृद्धि प्रतिमान
 Growth of economy अर्थव्यवस्था की संवृद्धि

Growth oriented tariff policy **संवृद्धि-निष्ठ टैरिफ नीति**

Growth potential **संवृद्धि संभावना**

Growth promoting factors **संवृद्धिकारी-कारक, विकास-प्रेरक कारक**

Growth rate **संवृद्धि-गति, विकास-दर**

Growth retarding factors **विकास-प्रतिकूल कारण/कारक**

Growth variables **संवृद्धि चर**

Guaranteed, oral **जबानी गारंटी, मौखिक गारंटी**

Guaranteed, written **लिखित गारंटी**

Guaranteed annual wage **गारंटीकृत वार्षिक मजदूरी**

Guaranteed annuity **गारंटीकृत वार्षिकी**

Guaranteed base rate **गारंटी की हुई मूल-दर**

Guaranteed bond **गारंटी बॉन्ड**

Guaranteed bonus policy **गारंटीकृत बोनस पॉलिसी**

Guaranteed employment **गारंटीकृत रोजगार**

Guaranteed income policy **गारंटीकृत आय पालिसी**

Guaranteed option policy **गारंटीकृत विकल्प पालिसी**

Guaranteed stock **गारंटीकृत स्टॉक**

Guaranteed wage **गारंटीकृत मजदूरी**

Guaranteed wage plan **गारंटीकृत मजदूरी योजना**

Guarantism **गारंटीवाद**

Guarantor **गारंटीकर्ता**

Guardian of the poor **निर्धनों का अभिभावक**

Guild **श्रेणी, गिल्ड**

Guild economy **श्रेणी प्रबंधव्यवस्था**

Guild socialism **श्रेणी समाजवाद, गिल्ड समाजवाद**—श्रेणी समाजवाद का प्रादुर्भाव इंग्लैण्ड में पहले और दूसरे विश्वयुद्ध के मध्यकाल में हुआ। इन समाजवादियों ने श्रमिक का परिकल्पन उत्पादक और उपभोक्ता—दोनों के रूप में किया। इनकी धारणा के अनुसार द्वैध (Dual) आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। राज्य के दो

अंग होने चाहिए—औद्योगिक विधान सभा (Industrial Legislature) और उपभोक्ता-विधान सभा (Consumers' Legislature)। पूर्वोक्त में औद्योगिक श्रेणियों (Industrial Guilds) के प्रतिनिधि होने चाहिए और उत्तरोक्त में उपभोक्ता-श्रेणियों (Consumers' Guilds) के। प्रत्येक नागरिक के दो वोट होंगे—एक श्रमिक होने के नाते और दूसरा उपभोक्ता होने के नाते। दो विधान सभाओं के निर्माण का यह आशय था कि वे एक दूसरे के अधिकारों पर नियंत्रण रहें। इन विचारों का प्रचार अधिक प्रभावी न हुआ और यह आन्दोलन लोकप्रिय न बन सकने के कारण समाप्त ही गया।

Guinea-pig directors (or **shareholder company directors**) **गिनी-पिग संचालक—गिनी-पिग संचालक नाम मात्र के संचालक होते हैं, वे कुछ भी नहीं करते।**

H

Habitation **वास, वास-स्थान**

Habitual indebtedness **आन्तरिक ऋणप्रवृत्ति**

Haggling of price **कीमत की सोईबाजी, मोलतोल करना, भावताव करना**

Half premium policy (without debt) **आधी बीमा-किस्त पालिसी (ऋण रहित)**

Half time system **अर्ध समय प्रणाली**

Hall marking **प्रमाणार्जन**

Hand trades **हस्त शिल्प उद्योग**

Handicraft **हस्तशिल्प, दस्तकारी**

Handicraft economy **हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था**

Handicraft industries **हस्तशिल्प उद्योग**

Handicraftsman **हस्तशिल्पी**

Handicraft stage **हस्तशिल्प अवस्था, दस्तकारी अवस्था**

Handling and transhipment **हस्तन एवं गान परिवहन**

Handloom **करपा, हाथ करपा**

Handloom industry **हाथ करपा उद्योग**

Hard cash नकदी, नकद रुपया
 Hard currency दुर्लभ करेंसी, दुर्लभ मुद्रा
 Hard currency area दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र
 Hard currency countries दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र
 Hard goods टिकाऊ उपभोग वस्तुएँ
 Hard labour कठोर श्रम
 Hard money घातु मुद्रा, सिक्के
 Hardening of interest व्याज का दृढीकरण
Harmonies in Economics अर्थशास्त्र में सामंजस्य/तात्सम्य—यह सिद्धान्त अर्थशास्त्र की आरम्भिक अवस्था का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के समर्थक यह विश्वास करते थे कि आर्थिक शक्तियाँ स्वयं सन्तुलनशील होती हैं और इनके फलस्वरूप अनिर्धारित सामाजिक हित प्रोत्सहित होता है। इस सिद्धान्त में अन्तर्निहित आस्था यह है कि चाहे व्यक्ति अपने-अपने हित के लिए कार्य करते हैं, वे अन्ततः रूप में सामान्य कल्याण की बढ़ाते हैं। यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाए, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ श्रद्धा लगाने आवश्यक हो जाते हैं ताकि वह सामाजिक अहित न कर सके। इस सिद्धान्त को प्राकृतिक व्यवस्था (Natural Order) के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है परन्तु इस सिद्धान्त को, जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया, कड़ी आलोचना हुई और इन अर्थशास्त्रियों ने भी यह स्वीकार किया कि कुछ हद तक राजकीय हस्तक्षेप अनिवार्य है।

Harvest prices रास्य मूल्य, फसल कीमतें
 Harvest theory of trade cycle व्यापार चक्र का फसल सिद्धान्त
 Harvesting expenses फसल काटने का व्यय
 Harvesting operation फसल-काटाई क्रिया
 Harvesting season फसल काटाई का समय
Hat money (primage) सावधानी प्रभार—जहाज पर माल लादने या उतारने में सावधानी के लिए दिया गया भुगतान
 Haulage charge डुलाई
 Haves and havenots सम्पन्न और विपन्न, धत्तिमान् और नात्तिमान्
 Have share in the profits लाभ में हिस्सा होना

Head of account लेखा शीर्ष
 Head tax व्यक्ति कर
 Heads of revenue आगम शीर्ष
 Health co-operative सहकारी स्वास्थ्य समिति
 Health insurance scheme स्वास्थ्य बीमा योजना
Hearth money चूल्हा कर—सत्रहवीं शताब्दी में घरी पर लगाया गया कर। इस कर का आधा प्रत्येक घर में कायम चूल्हों की संख्या थी। कर का उद्देश्य बड़े घर पर अधिक कर लगाना था।
 Heavy and basic industries भारी तथा आधारभूत उद्योग
 Heavy industries भारी उद्योग
 Heavy manual worker भारी श्रम करने वाला
Hedging हानि बचाव सट्टा, पेश बन्दी—कीमतों में अचवावचन को कम करने के लिए की गयी कार्यवाही। इसका सबसे उत्तम उदाहरण भावी बाजार है जहाँ भावी क्रय-विक्रय द्वारा कीमत में परिवर्तन के कारण सम्भावित हानि को कम किया जाता है। अर्थशास्त्र में इसका अर्थ भावी भुगतान के लिए विक्रय की तकनीक से है। उदाहरणार्थ, कोई निमाता जो अपने उत्पादन के लिए कच्चे माल की एक मात्रा क्रय करता है, कच्चे माल की उतनी ही मात्रा (जो अभी उसके पास नहीं है) उतनी ही या लगभग उतनी ही कीमत पर बेचेगा। वह इस मात्रा के भुगतान की जिम्मेदारी तब लेगा जब उसका उत्पादन विक्रय के लिए तैयार हो जाएगा। यदि उस समय, कच्चे माल एवं वस्तु/वस्तुओं दोनों की कीमतें गिर जाती हैं, तो उसे अपने उत्पादन के विक्रय पर हानि की सम्भावना है, किन्तु वह उस समय वर्तमान कम कीमत पर कच्चा माल खरीद सकता है और पिछले सोदे के आधार पर इसे ऊँची कीमत पर बेच सकता है। इसके विरुद्ध यदि कीमतें बढ़नी हैं, तो वह अपने उत्पादन को बेच कर अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार वह पिछले सोदे के आधार पर ऊँची कीमत से होने वाली हानि से बच सकता है। दोनों हालतों में हानि बचाव सट्टा (Hedging) द्वारा भावी हानि से बचा जा सकता है।
 Hedging operation पेशबन्दी क्रिया

Hedonism सुखवाद—इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति अपने सुख की प्राप्ति की इच्छा के लिए कार्य करते हुए अपने जीवन-स्तर को उन्नत करने का प्रयास करते हैं। वैन्यम ने इस सिद्धान्त को इस प्रकार प्रतिपादित किया: "प्रकृति ने मानव जाति को दो प्रधान स्वामियों के अधीन रखा है—वे हैं: दुःख और सुख। यह केवल इन ही पर निर्भर है कि हमें क्या करना उचित है और यही निर्धारित करेगी कि हमें क्या करना चाहिए। अर्थशास्त्रियों ने इसके आधार पर "उपयोगिता" सिद्धान्त प्रतिपादित किया। मूल रूप में इस धारणा का सार इस बात में है कि सुख मुख्य वस्तु है और व्यक्ति अपना कल्याण एवं समृद्धि चाहता है। चाहे प्रयास करना अपने आप में सुख नहीं है किन्तु स्व-हित की भावना से मानव इसमें भी सुख का आभास पाता है।

Hereditary right वंशगत अधिकार, मौसूरी हक
Hereditary right to cultivate खेती का पैतृक अधिकार

Hereditary succession पैतृक उत्तराधिकार
Hereditary tenure पैतृक भू-धारण अधिकार

Heritable security दाययोग्य प्रतिभूति

Heterogenous data विचन सामग्री

Heterogenous manufacture पंचमेल निर्माण

Hidden inflation प्रच्छन्न स्फीति

Hidden subsistence fund छिपा निवोह कोष

Hidden unemployment गुप्त बेरोजगारी

Hierarchical society सौपानिक समाज

Hierarchy of labour श्रमिक सौपान

Higgling सोल-तोल करना, भाद-भाव करना

High duty area अति-शुल्क क्षेत्र

High exchange अति-विनिगद दर

High population growth potential अधिक जनवृद्धि की संभावना

High priority उच्च प्राथमिकता

High survival rate उच्च जीवित शेष दर

High wages, economy of उच्च मजदूरी की मित-व्ययता

Higher standard of efficiency दक्षता की उच्चतर स्तर

Highest bid सबसे ऊँची बोली

Highest degree of care and diligence सावधानी एवं परिश्रम की उच्चतम मात्रा

Highly concentrated अति सकेन्द्रित

Highly liquid assets बहुत ही तरल परिसम्पत्

Highly paid job उच्च वेतन प्राप्त पद

Highly skilled अति दक्ष

Highly specialised बहुत ही विशेषित

Hill of pleasure (Pareto) सुख समुच्चय

Hinterland पश्च प्रदेश, भीतरी प्रदेश

Hire charges भाड़ा

Hire price per unit प्रति इकाई किराया/भाड़ा

Hire-purchase भाटक क्रय, किराये द्वारा खरीद, किराया-खरीद

Hire-purchase system किराया खरीद प्रणाली

Hired labour नियुक्त श्रम, भाड़े पर मजदूर

Hiring नियुक्ति

Hiring age नियुक्ति आयु

Historical analysis ऐतिहासिक विश्लेषण

Historical development ऐतिहासिक विकास

Historical prices ऐतिहासिक कीमतें

Historical school ऐतिहासिक विचारधारा, इतिहासवादी सम्प्रदाय

Historical sequence ऐतिहासिक अनुक्रम

Historicism इतिहासवाद—इस सिद्धान्त के अनुसार वैज्ञानिक अर्थशास्त्र का आधार ऐतिहासिक अनुसन्धान होना चाहिए और ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर अर्थशास्त्र में सिद्धान्त प्रतिपादित करने चाहिए। इस विचारधारा के समर्थकों का मत है कि एक अनुसन्धानकर्ता के रूप में अर्थशास्त्री को प्रथमतः एक आर्थिक इतिहासकार होना चाहिए। इतिहासवाद की हीमल और मार्क्स ने विकसित किया। कार्ल० पॉपर० (Karl B. Popper) ने इस सिद्धान्त को चुनौती दी है। उनके अनुसार किसी भी वैज्ञानिक अथवा विवेकपूर्ण तरीके से मानवीय इतिहास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

Hoarded wealth प्राप्तचित धन, संगृहीत धन

Hoarding प्राप्तचयन, निवचय, गुप्त संग्रहण, माल-संग्रहण

Hoarding demand for money मुद्रा की मासंचय मांग
 Hoarding trap निसंचय पाश/फंदा
 Hoards मासंचय
 Holdback pay रोका हुआ वेतन
 Hold-up unionism लुटेरा संघवाद
 Holder धारक
 Holder, joint संयुक्त धारक
 Holder, wrongful अवैध धारक
 Holder in due course यथानियम धारक, हकदार धारक
 Holding जोत, क्षेत्र, चक्र, धारण
 Holding, ceiling on जोत की अधिकतम सीमा
 Holding, economic लाभकर जोत
 Holding, size of जोत का अकार
 Holding, uneconomic अलाभकर जोत, अमित-व्ययी जोत
 Holding company नियंत्रक कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, हिस्से खरीदने वाली कंपनी
 Holding the price line सामान्य कीमत वृद्धि की रोकना
 Holdings, consolidation of जोतों की चकवन्दी
 Holdings, fragmentation of जोतों का विलडन
 Holdings, operational सकार्य जोन
 Holdings, ownership स्वामित्व जोत
 Holdings, reorganisation of operational संकार्य जोतों का पुनर्गठन
 Holdings, subdivision of जोतों का उपविभाजन
 Holdings, subdivision and fragmentation of जोतों का उपविभाजन तथा विलडन
 Hold or acquire immovable property अचल सम्पत्ति धारण या अर्वाप्त करना
 Holiday with pay सवेतन अवकाश, सवेतन छुट्टी
 Home charges गृह-दातव्य
 Home economics गृहस्थी अर्थशास्त्र
 Home farm गृह जोत, निज जोत
 Home market देसी बाजार
 Home market, protected संरक्षित राष्ट्रीय बाजार

Home rule स्वराज्य, स्वशासन, स्वामत शासन
 Home stead tax exemption वास-भूमि कर छूट
 Home trade स्वदेशी व्यापार
 Homogeneous data समांग सामग्री
 Homogeneous factors समरूप साधन
 Homogeneous product समरूप वस्तु
 Home economicus (economic man) अर्थ मानव
 Honour board घोषिता फलक, सभादर पट्ट
 Honour a bill हुंडी सकारना, विपत्र सकारना
 Horizontal balancing समस्तर सतुलन
 Horizontal combination समस्तर संयोग, समस्तर संयोजन
 Horizontal distribution समस्तर वण्टन
 Horizontal fixation of prices कीमतों का समस्तर निश्चयन
 Horizontal integration समस्तर एकीकरण
 Horizontal mobility समस्तर गतिशीलता
 Horticultural development औद्योगिक विकास
 Horticultural scheme औद्योगिक योजना
 Hot money क्षुब्ध मुद्रा-पूँजी—क्षुब्ध मुद्रा-पूँजी से अधिक्राय एक देश से दूसरे देश में अल्पकालीन पूँजी के परिवर्तन से है जो कि कुछ हद तक अधिक्रिया-प्राप्ति के उद्देश्य के लिए होता है, परन्तु अधिक्रिया पूँजी की सुरक्षा के उद्देश्य से होता है जिसका अक्रिया-प्राप्ति से कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार के पूँजी-परिवर्तनों का पूँजी खाते पर देश के भुगतान-शेष पर दुष्प्रभाव पड़ता है।
 Hourly wage rate घंटेवार भ्रजदूरी दर
 Hours of business कार्य-काल, कार्य-समय
 Hours of sale विक्रय-समय, विक्रय के घंटे
 Hours of work कार्य के घंटे
 House building society गृह निर्माण समिति
 House money अक्रिया-पर राशि—अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं तथा बड़ी निश्चित पूँजी कंपनियों द्वारा मुद्रा बाजार को दी गई राशि।
 House tax गृह कर
 Household गृहस्थी, गृहस्थी, परिवार

Household consumption पारिवारिक उपभोग
 Household economics गृहस्थ अर्थशास्त्र
 Household enterprises घरेलू उत्पादन इकाइयाँ
 Housing boom गृह-निर्माण में तेजी
 Housing problem भक्तियों की समस्या, आवास की समस्या
 Housing society गृह-निर्माण समिति
 Housing subsidy गृह-निर्माण साहाय्य
 Housing trust आवास न्याय, गृह-निर्माण न्याय
 Houseless population बेघर जनसंख्या
 House rent allowance मकान किराया भत्ता
 House to house enquiry गृहांतुगृह जाँच
 Human capital मानव पूँजी
 Human consumption मानव उपभोग, मनुष्यों द्वारा उपभोग
 Human relations in industry उद्योग में मानवीय सम्बन्ध
 Human welfare मानव कल्याण
 Hundi हण्डी
 Hungor भूख
 Hungry भूखा
 Hungry bellies and empty lands भूखे पेट और खाली जमीनें
 Hunting stage शिकार अवस्था
 Husbandry खेती, कृषिकर्म, मितस्वपिता, सुमबंध
 Hush money मुँह बराने, सूँधी राशि—चुप रखने के लिए दी गई रिकवत या घूस।
 Hutting money कुटी-निर्माण राशि
 Hyper employment (overfull employment) अतिपूरण रोजगार
 Hyper inflation घोर स्फीति, अति स्फीति—इसका दूसरा नाम सरपट स्फीति (Galloping Inflation) भी है। इस स्थिति में मुद्रा का परिमाण इतना बढ़ जाता है कि मुद्रा लगभग प्रयोगहीन बन जाती है और एक नई करेन्सी बाधू करनी पड़ती है। जब राजनीतिक स्फीति के खतरों की बात करते हैं, तो उनका भाव यह होता है कि यदि स्फीति को न रोका गया तो एक ऐसी स्थिति आ जायेगी जब इसे रोकना संभव नहीं होगा। यह स्थिति अतिस्फीति कही

जाती है। अतिस्फीति की स्थिति में जिन चीजों की बचत बैंक जमा, सरकारी प्रतिभूतियों आदि के रूप में होती है, वे ऐसा अनुभव करते हैं कि इतना कोई मूल्य नहीं रह गया। इस कारण स्फीति की आरम्भिक अवस्था में मुद्रा की वास्तविक वस्तुओं के रूप में बदलने की इच्छा तीव्र हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप स्फीति पहले से भी तेज हो जाती है। इसी कारण अतिस्फीति की उत्तरोत्तर अवस्था में, मुद्रा की चलन शक्ति मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ने लगती है। अतिस्फीति प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् जर्मनी, आस्ट्रिया और रूस में व्यक्त हुई और द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् हंगरी, रूमानिया, ग्रीस और चीन में।

Hypothesis and verification उपकल्पना एवं सत्यापन

Hypothesis in economics अर्थशास्त्र में उपकल्पना

Hypothetical par of exchange श्रौपकाल्पनिक विनिमय-समापं

Hypothetic economic law श्रौपकाल्पनिक प्राथिक नियम

I

I.C.A.R. (Indian Council of Agricultural Research) आ० कृ० श० परि० (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

Ideal distribution आदर्श वितरण

Ideal index number आदर्श देवनांक/पूषकांक

Ideal money आदर्श मुद्रा

Ideal par of exchange आदर्श विनिमय समापं

Ideal tax आदर्श कर

Identical cost curve समरूप लागत वक्र

Identical goods समरूप वस्तुएँ

Identical scale of pay एकरूप वेतनमान

Identical time scale of pay वेतन का समान समय मात्र

Identifiable property अभिज्ञेय सम्पत्ति

Identities and Equations एकरूप और समीकरण—प्रतिमान (Models) दो प्रकार के

होते हैं : एकरूप व व्यवहार-समीकरण (Behaviour equations) । एकरूप में हम एक ही समष्टि (Aggregate) के दो विभिन्न जोड़ों का साम्य (Equality) दर्शा सकते हैं, अथवा उनका परस्पर साम्य दर्शा सकते हैं । साम्य दर्शाने का चिह्न \equiv है ।

जैसे $ज \equiv क + न$

$ख \equiv ग + प$

$क + न \equiv ग + प$

एकरूप कारण प्रभाव का सम्बन्ध भी दर्शाते हैं ।

Idle balance निष्प्रयोज्य अधिशेष

Idle capacity अग्रयुक्त क्षमता, निष्प्रयोज्य क्षमता

Idle cash निष्कार्य नकदी

Idle cash balances निष्प्रयोज्य रोक अधिशेष

Idle deposit निष्प्रयोज्य जमा

Idle money निष्क्रिय मुद्रा

Idle productive capacity निष्प्रयोज्य उत्पादी क्षमता

Idle resources निष्प्रयोज्य संसाधन

Idle saving निष्प्रयोज्य बचत

I.E.P.A. (Intra-European Payment Agreement) यू० शो० स० (यूरोपामन्तर शोधन संधि)

Illegal emigration अवैध उत्प्रवास

Illegal gratification अवैध परितोषण

Illegal strike अवैध हड़ताल, गैर-कानूनी हड़ताल

Illegitimate income अवैध आय

Illicit cultivation अवैध कृषि

Illicit export अवैध निर्यात

Illicit import अवैध आयात

Illicit asset अवैध परिसम्पत्

Illiquidity अवतरलता

Ill-timed decontrol असामयिक विनियंत्रण

Illth हानिकर पदार्थ

Immaterial goods अभौतिक वस्तुएँ

Immediate annuity अस्थगित वापिकी

Immediate payments तत्काल शोधन, तत्काल भुगतान, तुरन्त भुक्ताना

Immigrant आप्रवासी

Immigration population आप्रवासी जनसंख्या

Immigration आप्रवास

Immigration-emigration आवास-प्रवास

Immobility गतिहीनता

Immobility of factors of production उत्पादन के साधनों की गतिहीनता

Immovable property गतिहीन सम्पत्ति

Impact Effect प्रतिक्रमण प्रभाव—इस शब्द का प्रयोग माँग में परिवर्तन के उस तुरत प्रभाव के लिए किया जाता है जिसके अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन संभव न हो सके । अतः जब पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है, तो माँग में परिवर्तन कीमतों को अल्पकाल में नये सन्तुलन की स्थापना की अपेक्षा ऊँचे स्तर पर उठा देगा ।

Impact of tax करायात, करदेयता

Imperfect competition असंपूर्ण स्पर्धा, अपूर्ण प्रतियोगिता

Imperfections of the market बाजार की अपूर्णताएँ

Imperfect moneyness अपूर्ण मुद्रापान

Imperfect substitute अपूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु

Imperialism साम्राजिकता, साम्राज्यवाद

Imperial preference साम्राज्य अधिमान— ब्रिटिश साम्राज्य के आधीन देशों और विदेशों के बीच विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति साम्राज्य अधिमान नीति कही गयी । इसके आधीन ब्रिटिश साम्राज्य के देश एक दूसरे से आयातित या निर्यातित माल पर शुल्क नहीं लगाते थे परन्तु अन्य देशों से मन्वाए गए या भेजे गए माल पर कर लगाये जाते थे । यह नीति 1903 में जेम्स फेल्डरसेन द्वारा चालू की गयी परन्तु इसका अन्त 1932 में हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने निर्वाह व्यापार नीति का परित्याग कर दिया ।

Impersonal account अवैयक्तिक लेखा

Implementation and pre-emption कार्यान्वयन और पूर्वाधिकार ग्रहण करना

Implicit cost अव्यक्त लागत

Implicit price deflator अव्यक्त सममूल्य कारक

Implicit rent अव्यक्त किराया

Import आयात

Import, consumable उपभोग्य आयात
 Import and export आयात एवं निर्यात
 Import and export trade control आयात एवं
 निर्यात व्यापार का नियंत्रण
 Import bank आयात बैंक
 Import consumption function आयात उपयोग
 क्रिया, आयात उपभोग श्रित
 Import duty आयात शुल्क
 Import duty, ad valorem यथामूल्य आयात शुल्क
 Import entitlement schemes आयात अधिकार
 प्राप्ति योजना
 Imported goods आयातित वस्तुएँ
 Importing country आयातक देश
 Import price आयात-मूल्य
 Import prohibition आयात प्रतिबन्ध
 Import quota आयात अमर्याद, आयात कोटा
 Import restrictions आयात निबन्ध, आयात
 नियंत्रण
 Import substitution आयात प्रतिस्थापन
 Import substitution industries आयात प्रति-
 स्थापक उद्योग
 Import supply schedule आयात वृत्ति तादिक
 Import surplus आयात अतिरिक्त
 Import tariff आयात-प्रशुल्क
 Import trade आयात-व्यापार
 Import trade control आयात व्यापार नियंत्रण
 Imports, free मुफ्त/मुक्त आयात
 Imports, induced उत्प्रेरित आयात
 Imports, invisible अदृश्य आयात
 Imports, rush for आयात के लिए दौड़
 Imports, visible दृश्य आयात
 Importance, economic आर्थिक महत्त्व
 Impost महसूल
 Impost, unique (single tax on land) एक-
 मान भूमिकर
 Imprest money अग्रिम धन
 Improved implements सुधरी हुए उपकरण, उन्नत
 उपकरण
 Improved land सुधरी हुई भूमि, उन्नत भूमि

Improved method सुधरी हुई रीति, उन्नत विधि
 Improved seed उन्नत बीज, सुधारे हुए बीज
 Improved variety उन्नत किस्म, सुधारा हुआ
 विभेद
 Improvement trust सुधार प्रयास
 Improver उन्नतिकारक, उन्नतक
 Improvised housing काम चलाऊ मकान
 Impulsive purchase आवेगपूर्वक क्रय
 Imputation, theory of आरोपण सिद्धांत
 Imputed cost आरोपित लागत
Imputed Income आरोपित आय—इसका अर्थ
 उस आय से है जो मुद्रा के रूप में प्राप्त
 नहीं की जाती अर्थात् किसी नौकर को प्राप्त
 होने वाला मुफ्त खादा, या किसी कर्मचारी को
 बिना किराये मिला हुआ रिहायशी मकान।
 संयुक्त राज्य अमेरिका में आरोपित आय का अनु-
 मान बाजार मूल्य के आधार पर लगाया जाता है
 और फिर इसे राष्ट्रीय लेखे में शामिल किया जाता
 है। कुछ देशों में गृहस्थियों की आय भी इस
 कल्पना के आधार पर अंकी जाती है जैसे यह
 कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से मजदूरी पर कराय
 जाए।
Imputed Interest आरोपित ब्याज—इसका
 अर्थ उस ब्याज से है जिसे एक लागत तो समझा
 जाता है चाहे इसके लिए नकद रूप में कोई भुग-
 तान नहीं किया जाता। इस ब्याज से फर्म के
 वित्तीय लेखे में कमी ध्यक्त नहीं होती। किसी फर्म
 में पूँजी के विनियोग से यह प्रश्न उठता है कि क्या
 पूँजी पर ब्याज को उपरिच्यय के रूप में शामिल
 करना चाहिए। विश्वास यह है कि पूँजी की एक
 विकल्प लागत होती है जिसे आरोपित लागत या
 अव्यक्त लागत कहते हैं, अर्थात् यदि पूँजी का
 विनियोग फर्म में न किया गया होता, तो इससे
 फर्म को आय प्राप्त हो सकती थी। यह विकल्प
 आय ही आरोपित ब्याज है।
 Imputed value आरोपित मूल्य
 Imputed wage आरोपित मजदूरी
 Inability to pay दे न सकना, शोधन असमर्थता
 Inactive balance निष्क्रिय अधिशेष

Inactive market निष्क्रिय बाजार	Income, divisible विभाजनीय आय, विभाज्य आय
Inactive stock निष्क्रिय स्टॉक	Income, earned अर्जित आय
Inadequacy of price कीमत की अपर्याप्तता	Income, fixed नियत आय, बंधी आय
In a thorough-going stationary state सर्वथा अपरिवर्तनशील स्थिति	Income, funded निधिबद्ध आय
In-bond आबन्धन	Income, global विश्व आय, सार्वभौम आय
Inborn population अन्तर्जात जनसंख्या	Income, gross कुल आय
Incapacitation benefit policy असामर्थ्य लाभ पालिसी	Income, imputed आरोपित आय
Incentive प्रोत्साहन, उद्दीपक, प्रोत्साहक	Income, money मौद्रिक आय
Incentive prices प्रोत्साहक कीमतें	Income, national राष्ट्रीय आय
Incentive taxation प्रोत्साहक कराधान, प्रेरणादायी कराधान	Income, per capita प्रति व्यक्ति आय
Incentive to production उत्पादन-प्रेरणा	Income, permanent स्थायी आय
Incentive wage system प्रोत्साहक मजदूरी प्रणाली	Income, personal वैयक्तिक आय
Incidence आपात	Income, real वास्तविक आय
Incidence of assessment कर निर्धारण आपात	Income, residual अवशिष्ट आय
Incidence of duty शुल्क आपात	Income, taxable कर योग्य आय
Incidence of expenditure व्यय-आपात	Income, unearned अनर्जित आय
Incidence of income आय-आपात	Income, unfunded अनिविबद्ध आय, अनिधिक आय
Incidence of land tax भू-कर आपात	Income and expenditure account आय-व्यय लेखा
Incidence of taxation करापात, कराधान आपात	Income bond आय बॉन्ड
Incidental costs प्रासंगिक लागतें	Income bracket आय वर्ग
Incidental expenses प्रासंगिक व्यय	Income creating finance आय जनन वित्त
Income आय	Income consumption curve आय उपभोग वक्र
Income, accrued उपाार्जित आय, प्रोद्भूत आय	Income deficit आय घाटा
Income, aggregate money समस्त मौद्रिक आय	Income demand आय माँग
Income, agricultural कृषि आय	Income determination theory आय-निर्धारण सिद्धांत
Income, average औसत आय	Income distribution effect आय वितरण प्रभाव
Income, capitalisation of आय का पूँजीकरण	Income economics आयमूलक अर्थशास्त्र, आय-विषयक अर्थशास्त्र
Income, cash नकद आय	Income effect आय प्रभाव
Income, casual अनियत आय	Income effect, negative ऋणात्मक आय प्रभाव
Income, consumption उपभोग आय	Income effect, positive धनात्मक आय प्रभाव
Income, contractual सविदाबद्ध आय	Income elasticity आय-लौच
Income, deferred आस्वगित आय	Income elasticity of demand माँग की आय लौच
Income, discretionary यादृच्छिक आय	
Income, disposable निर्वर्त्य आय, प्रयोग्य आय	

Income expenditure approach आय-व्यय पद्धति

Income flow आय प्रवाह

Income from other sources आय स्रोतों से आय

Income from property सम्पत्ति से प्राप्त आय

Income generation आय उत्पत्ति, आय-जनन

Income group आय वर्ग

Income inelasticity आय की लोचहीनता

Income in kind वस्तुरूप में आय, बिना आमदनी

Income multiplier आय गुणक

Income pattern आय का ढाँचा, आय प्रारूप

Income payments आय भुगतान

Income price line आय-कीमत रेखा

Income propagation आय-वर्धन

Income range आय-श्रेणी

Income resources आर्थिक संसाधन, आय-साधन

Income return आय विवरण

Income slab आय-पट्टी, आय-खंड

Incomes policy आय नीति

Income stream आय-प्रवाह

Income tax आय-कर

Income tax practitioner आय कर वकील

Income tax return आय कर विवरण

Income tax year आय कर वर्ष

Income velocity of money मुद्रा की आय-चलन गति

Income yielding asset आय अर्जनकारी परिसम्पत्

Inconvertible currency अपरिवर्त्य करेन्सी

Inconvertible note-issue अपरिवर्त्य पत्र-मुद्रा निर्गम, अपरिवर्तनीय नोट निर्गम

Inconvertible paper currency अपरिवर्त्य पत्र-मुद्रा

Increase of demand माँग में वृद्धि

Increase of supply संभरण में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि

Increasing cost वर्षों परिक्रम, वर्द्धमान लागत

Increasing demand वर्षों माँग, वर्द्धमान माँग

Increasing returns वर्षों प्रत्याय, वर्द्धमान आय

Increasing returns to scale पाना सर्वथो वर्द्धमान प्रत्याय

Increasing term policy बढ़ती अवधि की पालिसी

Increasing utility वर्षों उपयोगिता/गुणित

Increment, annual वृद्धि, वार्षिक वृद्धि

Incremental saving-ratio वर्द्धमान वार्षिक बचत अनुपात

Incur debts ऋण लेना

Incur expenditure व्यय करना

Incur loss हानि उठाना

Indebtedness ऋणप्रस्तता

Indebtedness of agriculturists कृषकों की ऋण-प्रस्तता

In default of payment शोषनाभाव में, न देने में

Indemnity bill क्षतिपूर्ति बिपत्र, क्षतिपूर्ति बिल

Indemnity bond क्षतिपूर्ति बाँड

Indentured apprenticeship करारबद्ध शार्मिंद

Indentured labour करारबद्ध श्रमिक/धर्म

Indentured servant करारबद्ध कर्मचारी

Independence, linear एकघात स्वातन्त्र्य

Independent, linearly एकघाततः स्वतंत्र

Independent union स्वतंत्र संघ

Independent variable/variable स्वतंत्र चर

Index सूचक

Index number सूचकांक

Index number, simple सरल सूचकांक

Index number, weighted महत्व प्रदत्त सूचकांक, भारित सूचकांक

Index number of price level कीमत-स्तर सूचकांक

Index number of production उत्पादन सूचकांक

Index number of wholesale prices धोक कीमतों का सूचकांक

Index of earnings आमदनी सूचकांक, अर्जन सूचकांक

Index of prices of basic materials प्राथमिक वस्तुओं की कीमत का सूचकांक

- Index of profits लाभ-सूचकांक
 Index of quantity मात्रा सूचकांक
 Index to register of charges प्रभार रजिस्टर सूचक
 Indian income tax भारतीय आय कर
 Indianisation भारतीयकरण
 Indifference, law of समभाव नियम
 Indifference, point of समभाव बिन्दु
 Indifference analysis समभाव विस्लेषण
 Indifference approach समभाव दृष्टिकोण
 Indifference curve समभाव वक्र, अनधिमान वक्र
 Indifference map समभाव चित्र
 Indifference margin समभाव सीमा
 Indifference technique समभाव तकनीक/विधि
 Indigenous bank देशी बैंक, स्वदेशी बैंक
 Indigenous banker महाजन, देशी बैंकर
 Indigenous banking system देशी बैंकिंग प्रणाली
 Indigenous capital स्वदेशी पूँजी, देशी पूँजी
 Indigenous commercial capital देशी व्यापारिक पूँजी
 Indigenous demand देशी माँग
 Indigenous production देशी उत्पादन
 Indirect arbitrage अप्रत्यक्ष अन्तरपणन
 Indirect burden of taxation कराधान का अप्रत्यक्ष भार
 Indirect grant अप्रत्यक्ष अनुदान
 Indirect taxes अप्रत्यक्ष/परोक्ष कर
 Indirect utility परोक्ष उपयोगिता
 Indirect wages परोक्ष मजदूरी
 Individual bargaining व्यक्तिगत सौदाकारी
 Individual capitalism व्यक्तिगत पूँजीवाद
 Individual demand schedule वैयक्तिक माँग की सूची
 Individual preferences वैयक्तिक अधिमान/प्राथमिकताएँ/पूर्वनाएँ
 Individual proprietorship एक-व्यक्ति/वैयक्तिक स्वामित्व
 Individualism व्यक्तिवाद
 Individualist exchange economy व्यक्ति-निष्ठ विनिमय अर्थव्यवस्था
 Indivisible factors अविभाज्य साधन
 Indivisibility अविभाज्यता, अविभाजनीयता
 Indorsement, full पूर्ण वेषान
 Induced consumption प्रेरित उपभोग, प्रोत्साहित उपभोग
 Induced Income प्रोत्साहित आय
 Induced investment प्रोत्साहित विनियोग—
 इसका अर्थ उस विनियोग से है जो वास्तविक या प्रत्याशित व्यय-वृद्धि के फलस्वरूप करना पड़ता है। प्रोत्साहित विनियोग के कारणों में आय-वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि हैं जिनके परिणामस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग बढ़ जाती है। अतः प्रोत्साहित विनियोग का अर्थ ग्राम तौर पर उस अतिरिक्त पूँजी व्यय से है जो किसी दी हुई वस्तु या सेवा की आर्थिक इकाईयाँ उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके विरुद्ध स्वतंत्र विनियोग (Autonomous Investment) बढ़ती हुई आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा अन्य स्वतंत्र कारण से उत्पन्न होता है, उदाहरणार्थ, नयी वस्तुओं या नयी उत्पादन प्रक्रिया का विकास आदि। यह सत्य है कि स्वतंत्र विनियोग आर्थिक क्रिया को बढ़ाता है और उसके फलस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में सामान्यतया प्रोत्साहित विनियोग करना पड़ता है।
 Inducement to invest विनियोग प्रोत्साहन
 Inductive inference आगमिक अनुमान
 Inductive method उद्गमन रीति, आगमन रीति
 Inductive science आगमन विज्ञान
 Industrial औद्योगिक, उद्योग संबंधी
 Industrial accident उद्योग दुर्घटना
 Industrial activity औद्योगिक क्रियाशीलता
 Industrial area उद्योग क्षेत्र
 Industrial assurance उद्योग बीमा
 Industrial banking औद्योगिक बैंकिंग
 Industrial capitalism औद्योगिक पूँजीवाद
 Industrial centre उद्योग-केन्द्र

- Industrial classification औद्योगिक वर्गीकरण
 Industrial commission औद्योगिक आयोग
 Industrial co-operation औद्योगिक सहकारिता
 Industrial co-operatives उद्योग सहकारी समितियाँ
 Industrial corporation औद्योगिक निगम
 Industrial credit and finance corporation औद्योगिक साख तथा वित्त निगम
 Industrial credit and investment corporation औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम
 Industrial council औद्योगिक परिषद्
 Industrial court औद्योगिक न्यायालय
 Industrial crisis औद्योगिक संकट
 Industrial democracy औद्योगिक लोकतंत्र—
 औद्योगिक लोकतंत्र का अर्थ यह है कि श्रमिकों को औद्योगिक विद्युत करने में भागी सम्मिलना चाहिए। औद्योगिक लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धान्त हैं जिनका प्रथम रूप पूँजीवाद को समाप्त करके उसका श्रमिकों की सरकार द्वारा प्रतिस्थापन करना है। हाल ही में इसका अर्थ प्रदत्तवर्ग के परम अधिकारों को सीमित करना है और इसके फलस्वरूप कुछ नयी परम्पराएँ स्वीकार की गयी हैं, जैसे सामूहिक सौदाशक्ति, लाभसहभाग्य, श्रमिकों का प्रबन्ध समितियों में प्रतिनिधित्व। मोटे तौर पर इसका अर्थ समाजोत्तरण का एक सीमित रूप है।
 Industrial depression औद्योगिक मंदी, औद्योगिक अवनत
 Industrial development औद्योगिक विकास
 Industrial development bank औद्योगिक विकास बैंक
 Industrial discipline उद्योग अनुशासन
 Industrial disease उद्योग संबंधी बीमारी
 Industrial dispute औद्योगिक झगड़ा/विवाद
 Industrial economy औद्योगिक अर्थव्यवस्था
 Industrial efficiency औद्योगिक कुशलता/दक्षता
 Industrial employment औद्योगिक रोजगार
 Industrial enclave औद्योगिक परिवृत, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक परिसर
 Industrial enterprise औद्योगिक उद्यम
 Industrial espionage औद्योगिक गुप्त-चर्य
 Industrial establishment औद्योगिक संस्थापन, औद्योगिक फर्म
 Industrial estate औद्योगिक जमीनी
 Industrial evolution औद्योगिक विकास-क्रम
 Industrial expansion औद्योगिक विस्तार
 Industrial finance औद्योगिक वित्त
 Industrial finance corporation औद्योगिक वित्त निगम
 Industrial fluctuation औद्योगिक उच्चावचन/उतार-चढ़ाव
 Industrial guild औद्योगिक श्रेणी
 Industrial housing औद्योगिक आवास
 Industrial housing, subsidised सहाय्य प्राप्त औद्योगिक आवास योजना
 Industrial housing plan औद्योगिक आवास योजना
 Industrial injuries उद्योग-जनित क्षति, उद्योग-जन्य चोट
 Industrial initiative औद्योगिक पहल
 Industrial insurance औद्योगिक बीमा
 Industrial investment औद्योगिक निवेश
 Industrial jurisprudence उद्योग विधि शास्त्र
 Industrial labour औद्योगिक श्रमिक, औद्योगिक श्रम
 Industrial labour-force औद्योगिक श्रम-शक्ति
 Industrial leadership औद्योगिक नेतृत्व
 Industrial lock-out उद्योग तालाबंदी
 Industrial migration औद्योगिक प्रवासन
 Industrial monopoly औद्योगिक एकाधिकार
 Industrial occupation औद्योगिक व्यवसाय
 Industrial organisation औद्योगिक संगठन
 Industrial origin उद्योगवार, उद्योगशः
 Industrial peace औद्योगिक शांति
 Industrial policy औद्योगिक नीति
 Industrial population औद्योगिक जनसंख्या
 Industrial production औद्योगिक उत्पादन
 Industrial prosperity औद्योगिक समृद्धि
 Industrial reconstruction औद्योगिक पुनर्निर्माण

Industrial relations औद्योगिक सवध, मालिक-मजदूर संबंध	Industries, diversification of उद्योगों का विविध-करण
Industrial reserve army प्रतिरिक्त औद्योगिक श्रमिक दल	Industries, integrated एकीकृत उद्योग
Industrial revolution औद्योगिक क्रांति	Industries, light हल्के उद्योग
Industrial safety उद्योग-सुरक्षा	Industries, localisation of उद्योगों का स्थानीय-करण
Industrial society औद्योगिक समाज	Industries, nationalisation of उद्योगों का राष्ट्रीयकरण
Industrial stage उद्योग अवस्था, औद्योगिक अवस्था	Industries, primary प्राथमिक उद्योग
Industrial standardisation औद्योगिक मानकीकरण	Industries, secondary द्वितीयक उद्योग
Industrial statistics औद्योगिक आँकड़े, औद्योगिक सांख्यिकी	Industries, socialisation of उद्योगों का समाजीकरण
Industrial training institute उद्योग प्रशिक्षण संस्थान	Industries, tertiary तृतीयक उद्योग
Industrial trace औद्योगिक विराम-संघि	Industries department उद्योग विभाग
Industrial unemployment औद्योगिक बेरोजगारी	Industry, ancillary सहायक उद्योग
Industrial units औद्योगिक इकाइयाँ	Industry, centralisation of उद्योग का केन्द्रीकरण
Industrial unrest औद्योगिक अशांति	Industry, competitive प्रतियोगी उद्योग
Industrial unrest, articulate सवाक् उद्योग अशांति	Industry, constant cost स्थिर लागत उद्योग
Industrial unrest, inarticulate असवाक् उद्योग अशांति	Industry, cottage कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग
Industrial use औद्योगिक उपयोग	Industry, decreasing cost ह्रासमान लागत उद्योग, घटती लागत उद्योग
Industrial wage औद्योगिक मजदूरी	Industry, domestic देशी उद्योग, घरेलू उद्योग
Industrial worker औद्योगिक श्रमिक	Industry, essential अनिवार्य उद्योग
Industrialisation औद्योगीकरण	Industry, export-biased निर्यात-प्रधान उद्योग
Industrialism उद्योगवाद	Industry, extractive निस्सारक उद्योग
Industrialist उद्योगपति, उद्योग स्वामी	Industry, feeder पोषक उद्योग
Industries, basic मूल उद्योग, बुनियादी उद्योग	Industry, footloose स्वतंत्र उद्योग, परिभ्रामक उद्योग
Industries, centralisation of उद्योगों का केन्द्रीकरण	Industry, handicraft हस्तशिल्प उद्योग, दस्तकारी
Industries, core मान्यतरक उद्योग	Industry, infant शिशु उद्योग
Industries, decentralisation of उद्योगों का विवेन्द्रीकरण	Industry, key मूल उद्योग
Industries, dispersed विप्रेषित उद्योग, अपकीर्ण उद्योग	Industry, large scale बड़े पैमाने के उद्योग
Industries, dispersion of उद्योगों का छितराव/ फैलाव	Industry, localisation of उद्योगों का स्थानीयकरण
	Industry, location of उद्योगों का स्थिति निश्चयन/ स्थल निर्धारण
	Industry, major प्रमुख उद्योग
	Industry, manufacturing विनिर्माण उद्योग

Industry, medium-size मध्यम आकार के उद्योग
 Industry, metallurgical धातुकर्म उद्योग
 Industry, mining खनन उद्योग
 Industry, minor छोटा उद्योग
 Industry, nascent नवजात उद्योग
 Industry, perennial वारहमासी उद्योग
 Industry, plantation बागान उद्योग
 Industry, priority प्राथमिकता-प्राप्त उद्योग
 Industry, private निजी उद्योग, गैर-सरकारी उद्योग
 Industry, processing विघामन उद्योग
 Industry, public सरकारी उद्योग, राजकीय उद्योग, सार्वजनिक उद्योग
 Industry, scheduled अनुसूचित उद्योग
 Industry, seasonal मौसमी उद्योग
 Industry, small-scale छोटे पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग, लघु स्तर उद्योग
 Industry, socialised समाजीकृत उद्योग
 Industry, state राजकीय उद्योग, राज्य उद्योग
 Industry, subsidiary उपांग उद्योग, सहायक उद्योग
 Industry, textile सूती वस्त्र उद्योग
 Industry-wise concentration उद्योगानुसार संकेन्द्रण
 Inefficiency of labour श्रम-अकुशलता, श्रम-अक्षमता
 Inefficiency of production उत्पादन-अकुशलता
 Inelastic लोचहीन, वेलोच
 Inelastic demand लोचहीन माँग
 Inelastic supply लोचहीन संभरण, वेलोच पूर्ति
 Inelasticity लोचहीनता
 Inelasticity of demand माँग की लोचहीनता
 Inelasticity of supply संभरण/पूर्ति की लोचहीनता
 Inequalitarian society असम समाज, असमानता-वादी समाज
 Inequality of Income आय की असमानता
 Inequality of opportunity अवसर की असमानता

Inequality of property सम्पत्ति की असमानता
 Inequality of wealth धन की असमानता
 Inertia of large number महीन जड़ता, वृहत् संख्याओं की जड़ता
 Inescapable costs अपरिहार्य लागत
 Inexhaustible resources अनन्त साधन, असीम साधन

Infant industry argument शिशु उद्योग तर्क
 — शिशु उद्योग का अर्थ एक नवस्थापित उद्योग से होता है और यह तर्क दिया जाता है कि यदि इसे प्रारम्भिक काल में ही विदेशी प्रतिस्पर्धिता का सामना करना पड़े, तो यह अपने प्रापको कभी भी स्थायी रूप में कायम नहीं कर सकेगा। यह बात ऐसे उद्योगों पर विशेष रूप से लागू होती है जिनमें माना सम्बन्धी बढ्ढमान प्रत्याप (Increasing returns to scale) प्राप्त होता है। यह कहा जाता है कि ऐसे उद्योग को तब तक संरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि वह सुदृढ रूप में स्थापित नहीं हो जाता। संरक्षण के पक्ष में यह सब्ये बड़ा तर्क मिला जाता है। बहुत से अल्प-विकसित देशों में नये उद्योगों की स्थापना और प्रगति के लिए इसी तर्क के आधार पर संरक्षण दिया गया। इसमें सन्देह नहीं कि प्राथमिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक था, किन्तु कई हालतों में संरक्षित शिशु उद्योग सदा अपने प्रापको कमजोर बनाते चले जाते हैं ताकि उन्हें संरक्षण मिलता रहे।

Infant mortality शिशु मृत्यु-दर
 Infantile death शिशु मृत्यु
 Inferior crops घटिया फसलें
 Inferior goods घटिया वस्तुएँ, निम्न वस्तुएँ, हीन वस्तुएँ
 Inflated currency स्फीत करेंगी, स्फीत मुद्रा
 Inflation स्फीति
Inflation, bottleneck बाधा स्फीति — जब तक माँग को संतुष्ट करने के लिए उत्पादन को बढ़ाने का पर्याप्त समय नहीं मिल जाता, तब तक माँग में वृद्धि कीमतों की वृद्धि में बदल जाती है।

कीमत में इस प्रकार की वृद्धि को "बाधा-स्फीति" कहा जाता है ।

Inflation, cost-push लागत-धक्का स्फीति, लागत

जम्ब स्फीति—जब उत्पादिता में वृद्धि की तुलना में मजदूरी में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है, तो इसके कारण होने वाली कीमतों में वृद्धि लागत-धक्का-स्फीति कहलाती है । कारखानों के मालिक इसके लिए मजदूर मजदूर सघों को दोषी ठहराते हैं जो कि अधिक मजदूरी के लिए मजदूर कर देते हैं । इसके विरुद्ध मजदूर सघों के नेता बड़ी-बड़ी व्यापारिक फर्मों को इसके लिए जिम्मेदार समझते हैं जो लागत-वृद्धि की बजाय स्वतन्त्र कारणों के बल पर कीमतों को बढ़ाती हैं । शिकागो सम्प्रदाय के अर्थशास्त्री जिनमें मिल्टन फ्रीडमैन (Milton Friedman) उल्लेखनीय हैं, लागत-धक्का सिद्धान्त को सही नहीं मानते । उनके विचार में मजदूर मजदूर संघ और प्रसासित कीमतें यदि विद्यमान न भी हो, तो भी कीमतों में अन्य कारणों से वृद्धि हो सकती है । बहुत से अमेरिकी अर्थशास्त्री इस बात में विश्वास रखते हैं कि स्फीति काल के दौरान कुछ लागत-धक्का, कुछ माँग-धक्का और कुछ सरचनात्मक स्फीति साथ-साथ ही क्रियाशील रहती है ।

Inflation, creeping रेंगती स्फीति, मंदगति स्फीति

Inflation, deficit-induced घाटा-प्रेरित स्फीति

Inflation, demand-pull माँग-प्रेरित स्फीति—

जब उपभोक्ताओं और विनियोक्तार्थों की माँग में वृद्धि के परिणामस्वरूप उनकी माँग बढ़ती है, तो वे अपेक्षाकृत सीमित सभरण से अपनी-अपनी बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए स्पर्धा करते हैं । वस्तुओं का संभरण या तो इस कारण कम होता है कि भ्रम और औद्योगिक क्षमता का पूर्ण प्रयोग हो चुका होता है या इस कारण उत्पादन को अल्पकाल में बढ़ाना संभव नहीं । जब ऋण-शक्ति कुल उत्पादन के मूल्य से बढ़ जाती है, तो एक अनियमित अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ने लगती हैं । बहुत से अमेरिकी अर्थशास्त्री इस बात में

विश्वास रखते हैं कि स्फीतिकाल के दौरान कुछ लागत-धक्का, कुछ माँग-धक्का और कुछ सरचनात्मक स्फीति साथ-साथ ही क्रियाशील रहती हैं ।

Inflation, economics of स्फीति अर्थशास्त्र

Inflation, financial वित्तीय स्फीति

Inflation, full पूर्ण स्फीति

Inflation, galloping द्रुत स्फीति

Inflation, hyper अति स्फीति

Inflation, imported आयातित स्फीति

Inflation, income आय स्फीति

Inflation, jumping कूदती स्फीति

Inflation, latent or hidden निहित स्फीति

Inflation, limitless spiral of स्फीति का अनन्त कुश्तल

Inflation, long-period दीर्घावधि स्फीति

Inflation, monetary मौद्रिक स्फीति

Inflation, open खुली स्फीति

Inflation, over-investment अतिविनियोग-प्रेरित स्फीति

Inflation, partial आंशिक स्फीति

Inflation, peace-time शांतकालीन स्फीति

Inflation, planned योजनानुसार मुद्रा-प्रसार/ स्फीति

Inflation, post-war युद्धोत्तर स्फीति

Inflation, price कीमत स्फीति

Inflation, profit लाभ स्फीति

Inflation, profit-induced लाभ-प्रेरित स्फीति

Inflation, purchasing-power ऋण-शक्ति-प्रेरित स्फीति

Inflation, repressed दमित स्फीति

Inflation, runaway दौड़ती स्फीति, उच्छृंखल स्फीति

Inflation, running तेज स्फीति

Inflation, sectional क्षेत्रीय स्फीति, खड़ीय स्फीति

Inflation, secular चिरकालीन स्फीति

Inflation, short-period अल्पावधि स्फीति

Inflation, structural सरचनात्मक स्फीति—जब समग्र अर्थव्यवस्था में माँग अत्यधिक न हो, बल्कि

किसी विशिष्ट उद्योग में माँग के अधिक होने के कारण कीमतों में वृद्धि हो, तो ऐसी स्थिति को संरचनात्मक स्थिति कहते हैं। आरम्भिक अवस्था में, अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में दबाव होने के कारण कीमतें और मजदूरी बढ़ती है। इसके कारण सामान्य स्थिति व्यक्त होती है क्योंकि जिन क्षेत्रों में माँग नहीं बढ़ती, उतने मजदूरी बढ़ने के कारण कीमतें कम नहीं होती। उदाहरणार्थ, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, 1950-60 के दौरान सेवा क्षेत्रों में श्रमिकों की माँग बढ़ गई और परिणामतः श्रमिकों की मजदूरी काफी अधिक हो गयी जबकि चिरस्थायी उपभोग वस्तुओं और पूँजी वस्तुओं की माँग में अपेक्षाकृत कमी हुई। चिरस्थायी उपभोग-वस्तु और पूँजी-वस्तु उद्योगों में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ गयी जिसके कारण इन उद्योगों में भी कीमतें गिर न सकी और परिणामतः सामान्य स्थिति को बढ़ावा मिला। बहुत से अमेरिकी अर्थशास्त्री इस बात में विश्वास रखते हैं कि स्थिति काल के दौरान कुछ सामत-धन्य, कुछ माँग-धन्य और कुछ संरचनात्मक स्थिति साथ-साथ ही क्रियाशील रहती है।

Inflation, suppressed दमित स्थिति

Inflation, under-production अल्पोत्पादन-प्रेरित स्थिति

Inflation, wage-induced वेतन प्रेरित स्थिति

Inflation, wage-push मजदूरी धन्य स्थिति, मजदूरी जन्य स्थिति

Inflation, walking चलती स्थिति

Inflation, war-time युद्धकालीन स्थिति

Inflation of currency करेन्सी स्थिति

Inflation of money मुद्रा स्थिति

Inflation through foreign trade विदेशी व्यापार नियन्त्रण प्रेरित स्थिति

Inflationary restrictions स्थितिकारी प्रतिबन्ध

Inflationary financing स्थितिकारी वित्तियन

Inflationary gap स्थिति अन्तराल—स्थिति अन्तराल पद का प्रयोग पूर्ण-रोजगार वाली अर्थ-व्यवस्था में दिनियोग की वृद्धि से अधिकता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अतः स्थिति

अन्तराल का अर्थ पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पन्न की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य और इसके विरुद्ध माँगी गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का अधिकता के रूप में लिया जाता है। उदाहरणार्थ, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग 7,000 करोड़ रुपये है और पूर्ण रोजगार के स्तर पर 6,500 करोड़ रुपये की वस्तुएँ तथा सेवाएँ उत्पन्न की जाती हैं। अतः 500 करोड़ रुपये स्थिति अन्तराल है। 500 करोड़ रुपये की अत्यन्त से केवल कीमत वृद्धि ही हो सकती है क्योंकि कीमत-स्तर में वृद्धि द्वारा ही राष्ट्रीय आय पूर्ण रोजगार पर प्राप्त अधिकतम उत्पादन स्तर से बढ़ सकती है। कीमत में ऊर्ध्व प्रवृत्ति उस समय तक बनी रहेगी जब तक कि स्थिति अन्तराल विद्यमान है अर्थात् जब तक माँग संभरण से अधिक है।

Inflationary period स्थिति-काल

Inflationary potential स्थिति संभाव्य

Inflationary pressure स्थिति दबाव, स्थिति निपीड़

Inflationary spiral स्थिति कुन्तल—इस शब्द का प्रयोग लगातार स्थिति के रूप में किया जाता है जिसमें कीमत में वृद्धि के कारण अधिक मजदूरी की माँग की जाती है। अधिक मजदूरी की माँग स्वीकार करने के कारण उत्पादक पुनः अपनी कीमतों को बढ़ाते हैं और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि मजदूरी में वृद्धि द्वारा कीमतों में और वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार बढ़ती हुई कीमतों को रोकना बहुत ही कठिन हो जाता है।

Inflationary tendency स्थितिकारी प्रवृत्ति

Inflationist स्थितिवादी

Inflow of saving बचत का प्रवाह/अन्तर्वाह

Informative advertisement सूचनात्मक विज्ञापन

Infrastructure अर्थ-संरचना, प्राथमिक संरचना—इसे सामाजिक उपरि पूँजी (Social Overhead Capital) भी कहा जाता है। इसमें परिवहन तथा संचार व्यवस्था, संचालन शक्ति, स्वास्थ्य

सेवाएँ और रिहायशी मकान आदि शामिल होते हैं। सरकारी क्षेत्र की दृष्टि से सड़कें, रेलें, पुल, मकान, स्कूल, जलाशय आदि सभी आधारिक संरचना का अंग हैं। आधारिक संरचना को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद समझा जाता है जिसके ऊपर देश की आर्थिक क्रिया अर्थात् उद्योग एवं व्यापार आधारित हैं। जितनी अधिक श्रेष्ठ किसी अर्थव्यवस्था में आधारिक संरचना होगी, उतना ही अधिक कुशल रूप से आर्थिक क्रियाओं को चलाया जा सकेगा। किसी देश की आधारिक संरचना का निर्माण करने के लिए बहुत सी ऐसी परियोजनाएँ स्थापित करनी पड़ती हैं जिनकी आरम्भिक लागत अत्यधिक होती है, चाहे यह भी सच है कि इनसे दीर्घकाल तक लाभ प्राप्त होता रहता है। अर्थसंरचना की स्थापना के लिए गैर-सरकारी विनियोग से उचित मात्रा में वित्त उपलब्ध नहीं कराया जा सकता और इसी कारण सामाजिक उपरि पूंजी की स्थापना का दायित्व सरकारी क्षेत्र पर ही माना जाता है। बहुत से अर्थशास्त्री इस बात में विश्वास रखते हैं कि अधिकतर अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास को गतिमान करने से पहले यह जरूरी है कि उचित अर्थसंरचना की स्थापना की जाए। ऐसा होने पर ही विनियोग निधि को उत्पादक क्रियाओं में श्रेष्ठ ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है।

Inheritance tax दायकर, उत्तराधिकार कर
 Initial allowance आरम्भिक छूट
 Initial investment आरम्भिक विनियोग
 Initial par of exchange आरम्भिक सम-मूल्य
 Initial pay आरम्भिक वेतन
 Initial spurt आरम्भिक त्वरण
 Initiation fee दीक्षा शुल्क
 Inland bill अन्तर्देशीय विनिमय पत्र, देशीय विपत्र, देशी बिल
 Inland trade देशीय व्यापार
 In lieu tax अन्याधार कर, एवजी कर
 Innate quality अन्तर्ज गुण, सहजगुण, नैसर्गिक गुण

Innovation नवीन क्रिया, नव प्रवर्तन, नवीकरण
 Innovational investment नव प्रवर्तन विनियोग
 Innovational profit नव प्रवर्तन लाभ
 Innovator नव प्रवर्तक
 In order of priority पूर्वता क्रम से, प्राथमिकता क्रम से
 Input प्रादान
 Input-output analysis प्रादान-प्रदान विश्लेषण, प्रदा-प्रदा विश्लेषण—इसे अन्त उद्योग विश्लेषण (Inter-industry Analysis) भी कहा जाता है। इस विश्लेषण में एक विशिष्ट ढंग से किसी उद्योग या अर्थव्यवस्था की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और इस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा के परस्पर सम्बन्ध का सविस्तार अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, इस्पात उद्योग में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोयला, कच्चा लोहा, बिगली तथा अन्य कई प्रादानों (Inputs) की आवश्यकता होती है। कोयला आदि प्राप्त करने के लिए खानों तथा खानों सम्बन्धी मशीनरी की आवश्यकता होगी। प्रादान-प्रदान विश्लेषण में सख्यात्मक ग्रिड (Numerical Grid) की सहायता से विभिन्न उद्योगों के परस्पर सम्बन्ध को समझने और लम्बरूप अक्षों के साथ सविस्तार व्यक्त किया जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि प्रादान-प्रदान विश्लेषण से अर्थव्यवस्था के कार्यकलापों की जानकारी में बहुत सहायता मिली है परन्तु कुछ अन्य अर्थशास्त्री इस प्रणाली की लाभदायकता में सन्देह व्यक्त करते हैं और उनके अनुसार इसकी सहायता से विभिन्न उद्योगों की आपसी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना संभव नहीं।
 Input-output matrix प्रादान-प्रदान व्यूह
 Input-output table प्रादान-प्रदान तालिका
 Inputs, agricultural कृषि प्रादान
 Inputs, capital पूंजी प्रादान
 Inputs, fixed निश्चित प्रादान, स्थिर प्रादान
 Inputs, labour श्रम प्रादान
 Inputs, variable परिवर्तनीय प्रादान

Insatiable wants अतृप्त्य आवश्यकताएँ
Insolvency दिवालिया
Insolvent दिवालिया
Inspector's report निरीक्षक की रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट
Instability of investment विनियोग की अस्थिरता
Installed capacity स्थापित क्षमता
Instalment bond किस्त बाँड
Instalment credit किस्त ऋण
Instalment credit system किस्त-साख प्रणाली
Instalment payment किस्त भ्रदापरी/सुगतान
Instalment premium life policy किस्त प्रीमियम जीवन बीमा पालिसी
Institutional advertising संस्थानात्मक विज्ञापन
Institutional bottlenecks संस्थानात्मक अड़चनें
Institutional capital सांस्थानिक पूँजी
Institutional economics संस्थानात्मक अर्थ-शास्त्र—यह अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवहार पर सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव पर अधिक बल देता है। विवाह एवं निजी पूँजी जैसे संस्थान निश्चय ही मानवीय व्यवहार को परिवर्तित करते हैं; विवाह और गिरुत्व से भ्रम की गतिशीलता कम हो जाती है और निजी पूँजी के कारण मानव में सम्पत्ति एकत्र करने की भावना, धोपण की भावना आदि उत्पन्न होती हैं। सम्पत्ति के लिए मनुष्य का संघर्ष कई प्रकार की बुराइयों की जन्म दे सकता है, उदाहरणार्थ, एकाधिकार या एकाधिकारी प्रवृत्तियों का विकास भी संस्थानात्मक अर्थशास्त्र का विषय है।
Institutional investor संस्थानात्मक विनियोजकता—इससे अभिप्राय किसी व्यक्ति की अपेक्षा संस्थान से है जो विनियोग करता है। बैंक, बीमा कम्पनियाँ, ट्रस्ट, औद्योगिक वित्त निगम, कृषि-वित्त निगम आदि संस्थानात्मक विनियोग के उदाहरण हैं।
Institutionalised credit संस्थानात्मक उधार, सारथानिक साख

Institutionalism संस्थावाद—इससे हमारा अभिप्राय आर्थिक विश्लेषण की उस पद्धति से है जिसमें संस्थाओं अर्थात् कर्मों, कार्टेल, गजबूर संघों, राज्य आदि की सरचना नियमों और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण की यह पद्धति बाजार पद्धति विश्लेषण के विरोध में प्रारम्भ की गयी जिसमें माँग और सगरण की शक्तियों पर बल दिया जाता था और यह कहा जाता था कि अर्थव्यवस्था कीमतों और लाभ के प्रभावशील अपने-आप ही संतुलन को स्थिति स्थापित कर लेती है। आधुनिक संस्थावादी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और अपने विश्लेषण में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के प्रभाव को व्यक्त करते हैं। जैसा कि आमतौर पर होता है, कई बार एक गलती को दूर करते हुए हम विश्लेषण की दूसरी चरम सीमा पर पहुँच जाते हैं। अतः संस्थावादी जहाँ सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के आर्थिक विश्लेषण के प्रभाव पर अधिक बल देते हैं, वहाँ वे कई बार कुछ आर्थिक शक्तियों को कम करके आँकते हैं।

Institutionalist संस्थावादी

Institutional population संस्थागत जनसंख्या

Institutional saving सांस्थानिक बचत

Instructor प्रशिक्षक

Instrument, negotiable वेचनीय उधार प्रपत्र

Instrument, non-negotiable अवेचनीय उधार प्रपत्र

Instrumental asset साधक परिसंपत्ति

Instrumental capital साधक पूँजी

Instrumental services साधक सेवाएँ

Instruments of destruction विनाश के उपकरण

Instruments of production उत्पादन-यंत्र, उत्पादन के साधन

Insurance बीमा

Insurance, fire अग्नि बीमा

Insurance, group समूह बीमा

Insurance, group disability समूह अक्षयता बीमा

Insurance, life जीवन बीमा
 Insurance, livestock पशु बीमा
 Insurance, marine समुद्री बीमा
 Insurance, reciprocal पारस्परिक बीमा, दो-तरफा बीमा
 Insurance, social सामाजिक बीमा
 Insurance, unemployment बेरोजगारी बीमा, बेकारी बीमा
 Insurance agent बीमा एजेंट
 Insurance policy बीमा पालिसी
 Insurance premium बीमा-किस्त
 Insured population बीमाकृत जनसंख्या
 Intangible assets अमूर्त परिसम्पत्
 Integrated credit एकीकृत उधार
 Integrated industries एकीकृत उद्योग, सम्बद्ध उद्योग
 Intensity of competition स्पर्धा की उग्रता
 Intensity of demand माँग की तीव्रता
 Intensity of rainfall वर्षा की तीव्रता
 Intensity of supply सभरण/आपूर्ति की तीव्रता
 Intensity of wants आवश्यकताओं की तीव्रता
 Intensive agriculture गहन कृषि
 Intensive agricultural area programme गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम/प्रोग्राम
 Intensive agricultural district programme गहन कृषि जिला कार्यक्रम/प्रोग्राम
 Intensive and extensive cultivation गहन और विस्तीर्ण खेती/कृषि
 Intensive cultivation सघन खेती, गहन खेती/कृषि
 Interaction of the multiplier and the accelerator गुणक तथा त्वरक का पारस्परिक प्रभाव, गुणक तथा त्वरक की अन्त क्रिया
 Inter-bank deposits अन्त-बैंक जमा
 Inter-bank indebtedness अन्त-बैंक ऋण
 Inter-bank operations अन्त-बैंक क्रियाएँ
 Inter-class distribution अन्त-वर्गीय वितरण
 Inter-connected companies अन्त-सम्बद्ध कम्पनियाँ
 Inter-corporate dividend अन्तनिगम लाभांश

Inter-dependent sectors अन्योन्याश्रित क्षेत्र
 Inter-dominion commission on evacuee property निष्कात सम्पत्ति पर अन्तराधिराज्य आयोग
 Inter-governmental borrowing अन्तःसरकारी उधार
 Inter-governmental debt अन्तः सरकारी ऋण
 Inter-industry flows अन्तः उद्योग प्रवाह
 Inter-local trade अन्त-स्थानीय व्यापार
 Inter-locking directorates अन्त पाश संचालक मंडल, अन्तर्प्रथित संचालक मंडल—जब कुछ व्यक्ति बहुत-सी कम्पनियों के संचालक-मण्डलों पर नियुक्त हो जाते हैं, तो इस स्थिति को अन्तर्प्रथित संचालक-मण्डल कहा जाता है। कहने को तो ये कम्पनियाँ एक-दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं परन्तु वास्तव में एक साम्प्रदायिक नीति के आधारे पर चलती हैं। इस परिस्थिति में इन कम्पनियों के सम्बन्ध कम व्यक्त होते हैं और सम्मेलन या काउंसिल की भाँति इनका विलयन नहीं हो जाता। अन्तः गुप्त रूप में ये संचालक बहुत-सी कम्पनियों पर अपना नियन्त्रण बना लेते हैं। विभिन्न सरकारों इस स्थिति को सुधारने के लिए कानून बनाती हैं और एक व्यक्ति को एक सीमित मात्रा से अधिक कम्पनियों के निदेशक-मण्डलों का सदस्य बनने नहीं देती। समाजवादियों का कहना है कि अन्तर्प्रथित संचालक मण्डल एकाधिकारी पूँजीवाद को प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं।
 Internal components अन्तर्भाग
 Interest ब्याज, सूद
 Interest, abstinence theory of ब्याज का उपभोग स्वयंन सिद्धान्त, ब्याज का संयम सिद्धान्त
 Interest, accrued उपचित ब्याज, अर्जित ब्याज
 Interest, agio or the Austrian theory of ब्याज का बढ़ा बढ़ती या ऑस्ट्रियन सिद्धान्त
 Interest, classical theory of ब्याज-दर निर्धारण का क्लासिकल/प्रतिष्ठित सिद्धान्त
 Interest, compound चक्रवृद्धि ब्याज, सूद-दर-सूद
 Interest, determinate theory of निर्धारित ब्याज-दर का सिद्धान्त

- Interest, determination of rate of ब्याज-दर का निर्धारण
- Interest, gross कुल ब्याज
- Interest, (Keynes') liquidity preference theory of ब्याज का (केन्ज का) रोक अधिमान सिद्धान्त, ब्याज का (केन्ज का) तरलता अधिमान सिद्धान्त
- Interest, loanable funds theory of ब्याज का उधार देय राशि सिद्धान्त
- Interest, modern theory of ब्याज का आधुनिक सिद्धान्त
- Interest, money rate of मौद्रिक ब्याज-दर
- Interest, neo-classical theory of ब्याज का नव-संस्थापित सिद्धान्त
- Interest, neo-Keynesian theory of ब्याज का नव-रूप-केन्ज सिद्धान्त
- Interest, not शुद्ध ब्याज, निवल ब्याज
- Interest, penal दण्डिक ब्याज
- Interest, productivity theory of ब्याज का उत्पादित सिद्धान्त
- Interest, pure शुद्ध ब्याज, निवल ब्याज
- Interest, rate of ब्याज-दर
- Interest, real theory of ब्याज-दर निर्धारण का वास्तविक सिद्धान्त
- Interest, saving-investment theory of ब्याज का बचत-निवेश सिद्धान्त
- Interest, scheduled निर्धारित ब्याज
- Interest, simple सरल/साधारण ब्याज
- Interest, theory of ब्याज-सिद्धान्त
- Interest at the market rate बाजार-दर पर ब्याज
- Interest-bearing securities ब्याज देने वाली प्रतिभूतियाँ, ब्याज-प्राप्त प्रतिभूतियाँ
- Interest bond ब्याज-बाँड
- Interest-elastic ब्याज-संवेद्य
- Interest-free financing ब्याज-मुक्त वित्त-प्रबंधन
- Interest incentive ब्याज-प्रोत्साहन
- Interest on securities प्रतिभूतियों पर ब्याज
- Interest table ब्याज-सारणी
- Interested director बद्धिस्त निदेशक, स्वायंभूत संसाधक
- Interim audit अन्तरिम लेखा परीक्षण
- Interim bond अन्तरिम बाँड, अन्तरिम बंधपत्र
- Interim bonus अन्तरिम भौनस
- Interim budget अन्तरिम योजना/बजट
- Interim payment अन्तः कालीन/अन्तरिम शोधन
- Interim plan अन्तरिम योजना
- Interim relief अन्तरिम राहत, अन्तरिम सहायता
- Intermediary विचोक्तियाँ, मध्यस्थ, मध्यवर्ती
- Intermediary credit मध्यकालिक श्रृण, मध्य-कालिक उपाय
- Intermediate goods अर्धनिर्मित वस्तुएँ, अन्तर्वर्ती वस्तुएँ— इनसे हमारा अग्रिम्राय ऐसी वस्तुओं से है जो अन्त्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रवेश करती हैं। विनिर्मोण क्रिया में, वस्तुएँ तथा अन्त्य सामग्री उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में गुजरती हैं और दन्हें एक संयंत्र से दूसरे संयंत्र में डालना पड़ता है। उदाहरणार्थ, रई से पहले सूत बनता है और फिर इस सूत को करघे पर चढ़ाया जाता है ताकि इससे कपड़ा बनाया जा सके। फिर कपड़े को रंगाई की मशीन में डाला जाता है और इसके पदपातु इस पर मुहर लगाने वाली मशीन मुहर लगाती है। इस प्रकार सूत, कपड़ा आदि उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में अन्तर्वर्ती वस्तुओं का काम करते हैं। प्राइ इनमें से प्रत्येक किसी प्लान्ट या फ़र्म की दृष्टि से अन्तिम वस्तु है। सिद्धान्त की दृष्टि से अन्तर्वर्ती वस्तुओं का प्रत्यक्ष कुछ राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसमें केवल अन्तिम वस्तुएँ शामिल की जाती हैं। पूर्ण कुछ अन्तर्वर्ती वस्तुओं के बारे में यह जानना कठिन है कि क्या वे अन्तिम वस्तुएँ हैं या किसी फ़र्म के लिए कच्चा माल (उदाहरणार्थ, भाटा गृहिणी के लिए अन्तिम वस्तु है परन्तु बेकरी के लिए अन्तर्वर्ती वस्तु) इसलिए राष्ट्रीय आय के अनुमान में केवल वे अन्तर्वर्ती वस्तुएँ शामिल की जाती हैं जो कोई फ़र्म अपने उत्पादन के लिए खरीदती हैं।
- Intermediate products मध्यवर्ती वस्तुएँ, अन्तर्वर्ती वस्तुएँ

Intermediate term loans मध्यमावधि उधार	International mobility of factors साधनों की
Intermittent aid सविराम सहायता	अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता
Intermittent dumping सविराम राशिपातन, रुक-रुक कर होने वाला राशिपातन	International Monetary Fund (I.M.F.) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (अ०मु०को०)
Intermittent worker सविराम वर्मी	International pricing intelligence अन्तर्राष्ट्रीय कीमत सूचनालय
Internal consumption आन्तरिक उपभोग	International securities अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूतियाँ
Internal diseconomies आन्तरिक अमितव्ययताएँ	International trade अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
Internal economy आन्तरिक मितव्ययता, आन्तरिक अर्थव्यवस्था	International trade balance अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शेष
Internal homogeneity आन्तरिक समरूपता	International Trade Organisation (I.T.O.) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन/संस्था (अ०व्या०सं०)
Internal mobility of factors साधनों की आन्तरिक गतिशीलता	International value अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य
Internal planning division आन्तरिक योजना प्रभाग	International value, theory of अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य सिद्धान्त
Internal private saving अन्तर्देशीय निजी बचत	International wealth अन्तर्राष्ट्रीय सम्पदा/धन
Internal saving आन्तरिक/अन्तर्देशीय बचत	Inter-personal comparisons of utility उपयोगिता की अन्त वैयक्तिक तुलना
Internal stability आन्तरिक स्थिरता	Inter-price parity अन्तर कीमत समता
Internal trade आन्तरिक व्यापार	Inter-regional trade अन्तर्देशीय व्यापार, अन्त-प्रदेशीय व्यापार
Internal value of the currency मुद्रा का आन्तरिक मूल्य	Inter-sector lending अन्तर्क्षेत्रीय उधार
International Bank for Reconstruction and Development (I. B. R. D.) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (अ० पु० वि० बैं०)	Inter-state commerce अन्तरराज्य वाणिज्य
International bimetallicism अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुवाद	Inter-state settlement अन्तरराज्यीय निपटारा
International Clearing Union अन्तर्राष्ट्रीय समाशोधन सघ	Inter-state suspense account अन्तरराज्य उचती खाता
International commerce अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य	Inter-state taxation अन्तरराज्य कराधान
International division of labour अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन	Inter-state trade barriers अन्तरराज्य व्यापार अवरोधक
International Economics अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र	Interval for rest विराम अन्तराल
International economy अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था	Intervention हस्तक्षेप
International gold standard अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान	Interventionism अन्तरायणवाद, नियमनवाद
International grant अन्तर्राष्ट्रीय अनुदान	Interview, exit परित्याग समालाप
International Labour Organisation (I.L.O.) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सघ (अ०श्र०सं०)	Interview, group सामूहिक समालाप
International liquidity अन्तर्राष्ट्रीय तरलता	Interviewing blank समालाप फार्म
International loan अन्तर्राष्ट्रीय ऋण	Intra-European Payments Agreement (I.E. P.A.) यूरोपाम्यन्तर शोधन सविद (यू०शे०सं०)
	Intra-marginal firm सीमान्तगत फर्म
	Intra-marginal land सीमान्तगत भूमि

- Intra-marginal purchase हीमान्तर्गत क्रय
 Intra-plant training काम के साथ प्रशिक्षण, संय-
 न्मान्तर प्रशिक्षण
 Intrinsic value of money मुद्रा का वास्तविक
 मूल्य/व्यथार्थ मूल्य
 Inventories भाल हाशिकाएँ
 Inventory accumulation माल सचयन, माल संद-
 हार
 Inversely proportional विनोद अनुपाती, प्रति-
 लोमानुपाती
 Invested capital नियोजित पूँजी
 Investible funds विनियोज्य पूँजी, निवेश योग्य
 निधि
 Investible resources निवेश-योग्य साधन
 Investible surplus विनियोज्य प्रतिरेक, निवेश
 योग्य प्रतिरेक
 Invest in money-lending business साहकारी
 ऋधे मे विनियोग
 Investment विनियोग, नियोजन, निवेश
 Investment, autonomous स्वतन्त्र विनियोग,
 स्वायत्त विनियोग
 Investment, co-determinants of निवेश के सह-
 निर्धारक तत्व
 Investment, collective सामूहिक निवेश
 Investment, direct प्रत्यक्ष निवेश
 Investment, entrepreneurial उद्यमकर्ता निवेश
 Investment, ex-ante पूर्वानुमानित विनियोग, घट-
 नापूर्व विनियोग, प्रत्याशित विनियोग
 Investment, ex-post व्यथार्थ विनियोग, घटनोत्तर
 विनियोग, हो चुका विनियोग
 Investment, financial वित्तीय विनियोग
 Investment, fixed ऋचल विनियोग
 Investment, foreign विदेशी निवेश
 Investment, functionless निष्कार्य निवेश,
 उद्देशहीन विनियोग
 Investment, ideal आदर्श निवेश
 Investment, induced प्रोत्साहित विनियोग
 Investment, innovational नवप्रवर्तनात्मक विनि-
 योग
- Investment, long-term दीर्घकालीन निवेश
 Investment, misdirection of विनियोग का अग्र-
 निर्देशन
 Investment, negative ऋशात्मक निवेश
 Investment, net निवल निवेश
 Investment, optimal अनुकूलतम विनियोग
 Investment, permanent स्थायी विनियोग
 Investment, portfolio प्रतिभूत विनियोग समूह
 Investment, priorities of विनियोग की प्राथ-
 मिकताएँ
 Investment, private गैर-सरकारी विनियोग,
 खासगी विनियोग, निजी निवेश
 Investment, public सरकारी निवेश, राजकीय
 विनियोग, सार्वजनिक विनियोग
 Investment, real वास्तविक विनियोग
 Investment, risky जोखिमी विनियोग
 Investment, socialisation of विनियोग का
 समाजीकरण
 Investment, speculative परिकल्पी विनियोग
 Investment allocation policy विनियोग आवं-
 टन नीति
 Investment allowance निवेश छूट
 Investment banker निवेश बैंकर
 Investment control विनियोग नियन्त्रण
 Investment cost निवेश लागत
 Investment credit निवेश उधार
 Investment demand विनियोग मांग
 Investment demand schedule विनियोग मांग
 सारणी
 Investment department निवेश विभाग
 Investment-deposit ratio विनियोग-जमा अनु-
 पात
 Investment expenditure विनियोग-व्यय
 Investment function निवेश कार्य, निवेश कृत्य,
 निवेश-धित, निवेश कलन
 Investment goods विनियोग वस्तुएँ
 Investment goods industry विनियोग वस्तु
 उद्योग
 Investment house विनियोग घर/गृह

Investment incentive विनियोग प्रोत्साहन	का लीह सिद्धान्त (=मजदूरी का निर्लज्ज सिद्धान्त)
Investment income विनियोग आय	सिद्धान्त=मजदूरी का निर्वाह सिद्धान्त)
Investment-income ratio विनियोग-आय अनुपात	Irredeemable debentures अक्षोध्य ऋणपत्र
Investment in human being मनुष्य में विनियोग	Irredeemable debt अक्षोध्य ऋण
Investment input विनियोग प्रदान	Irredeemable paper currency अक्षोध्य पत्र करेन्सी
Investment multiplier विनियोग गुणक	Irregular employment अनियमित रोजगार
Investment of capital पूँजी नियोजन/विनियोग	Irregular investment अनियमित विनियोग
Investment of funds निधि नियोजन/विनियोग	Irreplaceable resources अविस्थापनीय साधन
Investment outlay निवेश-व्यय, विनियोग व्यय	Irrigated area सिंचा हुआ क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र
Investment output विनियोग उत्पाद/प्रदान	Irrigated crop सिंचित शस्य
Investment plan विनियोग योजना	Irrigated farming सिंचित कृषि
Investment policy विनियोग नीति	Irrigated land सिंची हुई भूमि, सिंचित भूमि
Investment process निवेश प्रक्रिया, विनियोग प्रक्रिया	Irrigation project सिंचाई प्रायोजना
Investment spending विनियोग व्यय	Irrigation project, major बृहद्/बड़ी सिंचाई प्रायोजना
Investment spurt निवेश स्फुरण	Irrigation project, medium मध्यम सिंचाई प्रायोजना
Investment trust विनियोग न्यास	Irrigation project, minor छोटी सिंचाई प्रायोजना
Investment turnover विनियोग घात	Iso-cost curve समान-लागत वक्र
Investor विनियोक्ता, नियोजक, निवेशक	Isometric standard देशनाक प्रमाण
Invisible exports अदृश्य निर्यात	Iso-product curve समोत्पाद वक्र
Invisible hand अदृश्य हाथ, अदृश्य दक्षिण—इस शब्द का प्रयोग एडम स्मिथ ने अपनी प्रमुख धारणा के लिए किया जिसके अनुसार जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वहित के लिए कार्य करता है, तो इससे समाज-कल्याण प्रोत्त होता है। अतः एडम स्मिथ के अनुसार समाज एक अदृश्य हाथ से प्रवासित होता है जिसके फलस्वरूप सामाजिक कल्याण सुरक्षित हो जाता है चाहे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं।	Iso-quant समोत्पाद वक्र-सममाना वक्र
Invisible imports अदृश्य आयात	Iso-quant-iso-cost समोत्पाद-समलागत, सममाना-समलागत
Invisible items अदृश्य मदें	Iso-utility curve सम-उपयोगिता वक्र
Invisible trade अदृश्य व्यापार	Issue price निर्गम मूल्य
Invoice बीजक	Issued at discount अवमूल्य पर निर्गमित/जारी
Involuntary payment अनैच्छिक शोधन	Issued at par सममूल्य पर निर्गमित/जारी
Involuntary unemployment अनैच्छिक बेरोजगारी	Issued at premium अधिमूल्य पर निर्गमित/जारी
[I. O. U. (I owe you) घांते० (धारयामि ते) देयम्]	Issued capital जारी पूँजी, निर्गमित पूँजी
Iron law of wages (=brazen law of wages =subsistence theory of wages) मजदूरी	Issued currency जारी करेन्सी
	Issuing house निर्गम कोठी, इजरा कोठी, इजरा भवन
	Item मद
	Itemised appropriation मदवार विनियोग
	Items of expenditure व्यय-मदें
	Items of trade व्यापार-मदें
	Itinerant worker भ्रमणशील कर्मों, घुमक्कड़ श्रमिक

J

- Job कार्य, काम, नौकरी
 Job, complementary (devoetailing work) पूरक काम
 Job, out-ratio कटी-घर नौकरी, श्रम वेतन नौकरी
 Job, full-time पूर्णकालिक काम
 Job, men's मरदाना काम
 Job, part-time अंशकालिक काम
 Job, soft घाराम की नौकरी, घाराम काम
 Job, white-collar सफेद योज नौकरी
 Job analysis कार्य विश्लेषण, कुरवक विश्लेषण
 Job analyst कृत्य/कार्य विश्लेषक
 Job content कार्य विषय, कार्य भन्तर्वस्तु
 Job costing कार्य-लागत निर्धारण
 Job environment कार्य परिवेश, काम का वाता-
 वरण
 Job factor कार्य-उपादान
 Job filled without referral परामर्श के बिना
 निभुवित
 Job filled with referral परामर्शयुक्त निभुवित
 Job grading कार्य-श्रेणी निर्धारण
 Job instruction कार्य प्रशिक्षण, काम शिक्षाना
 Job method training कार्य विधि प्रशिक्षण,
 कार्य-प्रणाली प्रशिक्षण
 Job opening खाली जगह, खाली-जगम, नौकरी
 अवसर
 Job questionnaire कार्य प्रश्नावली
 Job relation training कार्य सम्बन्धित प्रशिक्षण
 Job safety training कार्य-सुरक्षा प्रशिक्षण
 Job satisfaction कार्य सन्तुष्टि
 Job selling नौकरी बेचना
 Job specification कार्य विनिर्दिष्ट
 Job splitting कार्य विभाजन, कार्य-विपादन
 Job work उजरती काम, डेके का काम
 Jobber मुकद्दम, हटाक का मावृतिमा, जाँवर, कर्मकार
 योजक—एक व्यापारी बिचोलिया जो किसी
 प्रामातक या विनिर्माता या शोक विष्टता से
 माल खरीदता है और परचून विक्रता को बेचता
 है ।

सन्दन के सट्टा बाजार में हटाका अधिक परिचित
 श्रय उत व्यापारी से है जो सट्टा बाजार के सदस्यों
 से प्रतिभूतियों को खरीद कर श्रम्य सदस्यों को
 बेचता है । बहुत से जाँवर कुछ विनिष्ट प्रकार
 की प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रम में विशेषता प्राप्त
 कर खेते है ।

एक श्रौर रूप में, जाँवर का श्रय उत श्रमित से
 भी लिया जाता है जो कारखानों के लिए मजदूरों
 की व्यवस्था करता है ।

Jobber's turn जाँवर का लाभ

Jobbery स्वार्थाचार (साधननिक न्यास का संचालन
 निजी लाभ के लिए करना), हलासी, घाड़त

Joint account संयुक्त लेखा

Joint and several guarantee bond संयुक्त
 और पृथक गारंटी बांड

Joint and several liability संयुक्त और पृथक
 दायित्व

Joint and several promissory note संयुक्त
 और पृथक प्रोमोट

Joint annuity संयुक्त वार्षिकी

Joint bank account संयुक्त बैंक लेखा

Joint demand संयुक्त माँग/मिश्रित माँग

Joint demand goods संयुक्त माँग वस्तुएँ, पूरक
 वस्तुएँ

Joint estate संयुक्त सम्पदा

Joint family property संयुक्त परिवार सम्पति

Joint family system संयुक्त परिवार प्रथा

Joint fund सम्मिलित निधि

Joint holding संयुक्त जोत

Joint landlords संयुक्त भूपति, संयुक्त भूस्वामी

Joint liability संयुक्त देयता

Joint life and survivor annuity संयुक्त जीवन
 और उत्तर-जीवी वार्षिकी

Joint life annuity संयुक्त जीवन वार्षिकी

Joint life policy सम्मिलित जीवन बीमा पालिसी

Joint personal security संयुक्त वैयक्तिक प्रति-
 भूति

Joint product संयुक्त उत्पाद, संयुक्त उत्पाद

Joint production संयुक्त उत्पादन

Joint promiser संयुक्त प्रतिज्ञाकर्ता

Joint rate संयुक्त दर

Joint returns संयुक्त आय विवरण

Joint stock bank संयुक्त पूंजी बैंक, संयुक्त स्कन्ध बैंक

Joint stock basis मिश्रित पूंजी आधार

Joint stock capitalism मिश्रित स्कन्ध पूंजीवाद

Joint stock company संयुक्त पूंजी कम्पनी

Joint stock farming संयुक्त पूंजी कृषि

Joint supply संयुक्त पूर्ति/सभरण

Joint tenancy संयुक्त भू-धारण

Joint undivided estate संयुक्त अविभक्त सम्पदा

Joint village management संयुक्त ग्राम प्रबन्ध

Journeyman शिल्पी, करीगर

Juglar cycle जुगलर चक्र—इससे अग्रिप्राय मध्यम-काल के व्यापार चक्र से है। क्लेमेंट जुगलर (Clement Juglar) यह पहला व्यक्ति था जिसने इन चक्रों को मुख्य औद्योगिक चक्रों से पृथक् किया। जुगलर चक्र नौ-दस वर्षों की अवधि वाले कीमतों, उत्पादन, रोजगार आदि में होने वाले उच्चावचन है। इनका वर्गीकरण मुख्य वसन्त-समय चक्रों (Non-seasonal cycles) के रूप में किया जाता है। जुगलर चक्रों का प्रयोग जे. एं. शूमपीटर (Schumpeter) ने अपने व्यापारचक्र सम्बन्धी त्रि-चकीय विश्लेषण में किया। ये 50 से 60 वर्षों वाले काण्ड्रेटीफ चक्रों (Kondratieff cycles) पर अन्वेषणित किये जाते हैं ताकि प्रत्येक काण्ड्रेटीफ चक्र में 6 जुगलर चक्र विद्यमान समझे जाएं।

Jurisdictional agreement अधिकारक्षेत्रीय समझौता अमलदारी करार

Jurisdictional dispute अमलदारी विवाद

Just and fair terms न्याय एवं उचित शर्तें

Just and reasonable उचित एवं युक्तियुक्त

Just price उचित कीमत, न्याय्य कीमत

Just valuation उचित मूल्यांकन

Just value उचित मूल्य

Just wage न्याय्य मजदूरी, उचित मजदूरी

Just wage principle न्याय्य मजदूरी सिद्धान्त—
इस सिद्धान्त के अनुसार किसी व्यक्ति को इतनी

मजदूरी मिलनी चाहिए कि वह अपने धर्म के सदस्यों में प्रचलित जीवन-स्तर पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त मजदूरी प्राप्त कर सके। मजदूरी के निर्वाह सिद्धान्त, मजदूरी कोप सिद्धान्त अथवा सीमान्त उत्पादिता सिद्धान्त के विरुद्ध, न्याय्य मजदूरी किसी ऐसे सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं है जिसके अनुसार आर्थिक शक्तियों मजदूरी निर्धारित करती है। यह एक नैतिक धारणा है। इसी के आधार पर न्यूनतम मजदूरी और उचित मजदूरी के लिए मजदूर सघ संघर्ष करते हैं।

Justice in taxation कराधान में न्याय

Jute industry पटसन उद्योग

Juvenile delinquency किशोर उच्छृंखलता

Juvenile employment बाल-सेवायोजन, किशोर रोजगार

K

Kahn's employment multiplier काहन का रोजगार गुणक

Kameral सार्वजनिक व्यवसाय प्रबन्ध परिषद्

Kameralism (= cameralism) केमरलिज्म, वित्त-उपवस्थापना—18वीं शताब्दी के जर्मन राजकीय शासकों का एक वर्ग जो वणिक्वाद में विश्वास रखते हुए ऐसी आर्थिक नीतियों पर बल देता था जिनसे शासक की शक्ति बढे।

Kartel कार्टेल, उत्पादक संघ/उत्पादक गुट्ट

Keen work तीव्र कार्य

Keep an account open लेखा खुला रखना

Keep false books of account झूठी बहीनां रखना, लेखे की फितारें झूठी रखना

Key buyer प्रमुख क्रय, मूल विक्रेता

Key industry मूल उद्योग, आधार उद्योग

Key loan आधारभूत ऋण

Key mineral सारभूत खनिज, आधार खनिज

Keynesian केन्जवादी

Keynesian Economics केन्ज ग्रन्थशास्त्र

Keynesian revolution केन्ज-प्रतिष्ठ क्रांति

Keynesian theory of employment केन्ज का रोजगार सिद्धान्त

Keynesian theory of interest केन्ज का व्याज सिद्धान्त	Labour, agricultural कृषि श्रम
Keynes' investment multiplier केन्ज का निवेश गुणाक, केन्ज का विनियोग गुणाक	Labour, alien विदेशी मजदूर, अन्य देशीय श्रमिक
Keynes' psychological law of consumption केन्ज का उपभोग-सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक नियम	Labour, attached भू-सम्बद्ध श्रम, सम्बद्ध श्रम
Key personnel प्रमुख कार्यकर्ता, केन्द्रीय व्यक्ति	Labour, brain बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम
Key plan आधार योजना, मूल योजना	Labour, casual अनियत श्रमिक
Key variable मुख्य चर	Labour, child बाल श्रमिक
Key village centre आधार-ग्राम केन्द्र, मूल ग्राम केन्द्र	Labour, common सामान्य मजदूर, साधारण मजदूर
Key village scheme आधार ग्राम योजना, मूल ग्राम योजना	Labour, competing groups of श्रमिकों के स्पर्धी वर्ग
Kharif prices खरीफ कीमतें	Labour, compulsory अनिवार्य श्रम
Kharif procurement खरीफ वस्तुची	Labour, concrete मूर्त श्रम
Kharif sowing खरीफ बोआई	Labour, congealed घनीभूत श्रम
Kind of crop शस्य-प्रकार, फसल की किस्म	Labour, contract छातरेन्द मजदूर, गिरमिटिया, ठेका मजदूर, अनुबन्धित श्रम (किसी उपनिवेश में गया हुआ शतयुक्त हिन्दुस्तानी मजदूर)।
Kind of seed बीज-प्रकार, बीज की किस्म	Labour, convict बन्दी श्रमिक
Kinked average revenue curve विकुंचित औसत राजस्व वक्र, विकुंचित औसत आय/ग्राम वक्र	Labour, daily paid दैनिक श्रमिक, दिहाड़ीदार
Kinked demand curve विकुंचित मांग वक्र	Labour, direct प्रत्यक्ष श्रम
Kite निभाव हुण्डी, उधार हुण्डी	Labour, division of श्रम विभाजन
Kite flying निभाव हुण्डी करना	Labour, effective supply of श्रम का प्रभावी सभरण
Knight's theory of profits नाइट का लाभ सिद्धान्त	Labour, efficiency of श्रम की कार्यकुशलता
Knitting with hands and machines हाथ और मशीन से बुनाई	Labour, fluidity of श्रम की गतिशीलता
Knock-down price नीलामी कीमत	Labour, forced बेगार
Know-how तकनीकी जानकारी	Labour, functional व्यावसायिक श्रम
Kudos other than cash (=non-pecuniary amenities) अर्थरत सुविधाएँ	Labour, geographical mobility of श्रम की भौगोलिक गतिशीलता
	Labour, hard कठोर श्रम
	Labour, hierarchy of श्रमिक तोपान
	Labour, horizontal mobility of श्रम की समस्त गतिशीलता
	Labour, immobility of श्रम की गतिहीनता
	Labour, indentured करारबद्ध श्रम
	Labour, indirect परोक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम
	Labour, industrial औद्योगिक श्रम
	Labour, inefficiency of श्रमिक कुशलता
	Labour, manual हाथ की मेहनत, मेहनतकश, शारीरिक श्रम
	Labour, mental मानसिक श्रम

I.

Labour श्रम, श्रमिक, श्रमिक वर्ग, कार्मिक, मजदूर, कामगार

Labour, able-bodied तंदुल्लत श्रमिक, समर्थ श्रमिक

Labour, absorbed प्रवृत्त श्रम, सविनीन श्रम

Labour, abstract समूर्त श्रम

- Labour, migrant प्रवासी श्रमिक
- Labour, mobility of श्रम की गतिशीलता
- Labour, non-competing groups of श्रमिकों के अस्पर्धी वर्ग
- Labour, occupational mobility of श्रम की व्यावसायिक गतिशीलता
- Labour, organised संगठित श्रम
- Labour, part time अंशकालिक श्रम
- Labour, physical शारीरिक श्रम
- Labour, potential supply of सम्भाव्य श्रम-समरण/पूर्ति
- Labour, productive उत्पादक श्रम
- Labour, settled निवासित श्रम
- Labour, skilled कुशल श्रम
- Labour, supply of श्रम-समरण/पूर्ति
- Labour, sweated प्रस्वेदित श्रम, कठोर श्रम
- Labour, unproductive अनुत्पादक श्रम
- Labour, unskilled अकुशल श्रम
- Labour, vertical mobility of श्रम की उदग्र गतिशीलता/अर्ध गतिशीलता
- Labour, wholtime पूर्णकालिक श्रमिक
- Labour, woman स्त्री श्रमिक, मजदूरनी
- Labour agreement श्रमिक करार, श्रम-सधि
- Labour arbitration श्रम-विवाचन
- Labour bureau श्रम कार्यालय
- Labour camp श्रम-शिविर
- Labour-capital relation श्रम-पूँजी सम्बन्ध
- Labour caucus श्रमिक प्रसम्मिलन, श्रम-बैठक, श्रम-दल बैठक—किसी एक श्रम-वर्ग के सदस्यों की बन्द कमरे में बैठक जिसमें साधारणतया चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने की नीति निर्धारित की जाए।
- Labour clearing प्रार्षी परिष्कृत
- Labour code श्रमिक संहिता
- Labour college श्रमिक कालेज
- Labour commissioner श्रम आयुक्त
- Labour concentration camp श्रम बन्दी शिविर
- Labour-content of cost लागत का श्रमांश
- Labour contract society श्रम ठेका समिति
- Labour convention श्रम सम्मेलन
- Labour co-operative श्रम सहकारी समिति, श्रमिक सहकारी उत्पादन समिति
- Labour co-partnership श्रमिक सहभागीदार
- Labour cost श्रम-लागत
- Labour coupon श्रम कूपन, कूपन मजदूरी
- Labour demand श्रमिक माँग
- Labour department श्रम विभाग
- Labour deportation श्रमिक विपत्तन
- Labour dispute श्रम सम्बन्धी झगड़े, श्रम विवाद, श्रमिक विवाद
- Labour Economics श्रम अर्थशास्त्र
- Labour economics श्रम सम्बन्धी मितव्ययताएँ
- Labour exchanges श्रम रोजगार कार्यालय
- Labour flux श्रमिक विकास
- Labour flux rate श्रमिक विकास दर
- Labour force श्रम शक्ति
- Labour fund श्रम निधि
- Labour grade कार्य वर्ग, श्रम वर्ग
- Labour hour श्रम घण्टा
- Labour input श्रम आदान
- Labour inspection श्रमिक निरीक्षण
- Labour institute श्रमिक संस्थान
- Labour institutionalism श्रमिक संस्थावाद
- Labour intensive श्रम-प्रधान
- Labour intensive industries श्रम-प्रधान उद्योग
- Labour intensive technique श्रम-प्रधान तकनीक
- Labour Leader श्रम नेता
- Labour leadership श्रम-नेतृत्व
- Labour legislation श्रम-विधान
- Labour lobbying श्रमिक मताग्रह
- Labour market श्रम-बाजार
- Labour market, imperfect अपूर्ण श्रम-बाजार
- Labour market, perfect सम्पूर्ण श्रम बाजार
- Labour market area श्रम-बाजार क्षेत्र
- Labour market mechanism श्रम बाजार प्रक्रिया
- Labour monopoly श्रमिक एकाधिकार
- Labour motivation श्रमिक प्रोत्साहन
- Labour movement श्रम आन्दोलन

Labour Note थम नोट—1820 मे, राबर्ट ओवन (Robert Owen) ने सुझाव दिया कि थमिकों को उनके द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं के बदले थम-नोटों (Labour Notes) के रूप में मजदूरी देनी चाहिए। इन नोटों का आधार व्यक्ति द्वारा किया गया काम होना चाहिए और इन थम-नोटों का प्रयोग उपभोक्ता-वस्तु खरीदने के लिए होना चाहिए।

Labour officer थम अधिकारी

Labour organisation थमिक संगठन, थम संगठन, थम संस्था

Labour-output ratio थम-उत्पाद अनुपात

Labour pirating मजदूर तोड़ना

Labour power थम-शक्ति

Labour power, the differentia specifica of capitalism थम-शक्ति, पूँजीवाद का विशिष्ट भेदक चिन्ह

Labour-price थम-मूल्य

Labour priority थमिक प्रथता, थमिक प्राथमिकता

Labour process थम प्रक्रिया

Labour productivity थम उत्पादितता

Labour racketeer मजदूर दस्युता, थमिक यत्नाद्-ग्रहीता—ऐसा व्यक्ति जो थमिकों को बलपूर्वक थमका कर या प्रबंध रूप में परेशान करके उनसे नाजायज पैसा बसूल करता है।

Labour racketeering मजदूर बलाद्ग्रहण

Labour rent थम लगान, थम अर्थक्षेप

Labour-saving devices/techniques थम-बचाव उपाय, थम-स्वानागन् उपकरण

Labour-saving invention थम-बचाव आविष्कार

Labour-saving scheme थम-बचाव योजना

Labour sheet थम चिट्ठा

Labour spy मजदूर गुप्तचर

Labour spying मजदूर गुप्तचर्या

Labour standard थम-मान

Labour statistics थम आँकड़े

Labour surplus theory थम-अतिरिक्त सिद्धान्त

Labour theory of value मूल्य का थम सिद्धान्त

Labour time थम काल

Labour time standard थम-समय मान

Labour turnover थमिक फेर, थमिक आवर्त, थमिकावर्त

Labour turnover rate थमिक आवर्त दर

Labour union मजदूर सघ, थमिक सघ

Labour welfare थमहित, थम कल्याण

Labour welfare centre थम कल्याण केन्द्र, थम-हितकारी केन्द्र

Labour welfare fund थम कल्याण निधि

Labour welfare officer मजदूर-हित अधिकारी

Labour welfare work थम कल्याण कार्य

Labourer मजदूर, थमिक

Labourer, marginal सीमान्त थमिक

Labourer, part-time अर्धकालिक थमिक

Labourism थम मगनवाद, थमवाद

Labourite थमवादी

Lag पश्चता

Lagging indicator पश्चता सूचक

Lagging sector पिछड़ा क्षेत्र

Lag in time-series काल श्रेणी में पश्चता

Laissez faire अग्रन्प नीति, अहस्तक्षेप

Laissez faire capitalism निर्बाध पूँजीवाद

Laissez faire Economics निर्बाध-नीति अर्थशास्त्र

Laissez faire economy निर्बाध अर्थव्यवस्था

Laissez faire policy निर्बाध नीति

Laissez faire principle अग्रन्ध-नीति प्रनियम

Land, marginal सीमान्त भूमि

Land acquisition भूमि अर्वाप्ति

Land acquisition work भूमि अर्वाप्ति कार्य

Land cess लगान उपकर

Land colonisation नई बस्ती बसाना

Land control society भू-नियन्त्रण समिति

Landed aristocracy भू-सम्पन्न अभिजात वर्ग

Landed cost उतरने पर लागत

Landed estate भू-सम्पदा, स्थावर सम्पदा

Landed interest भू-हित

Landed property भू-सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति

Land for agricultural purposes कृषि (खेती) के लिए भूमि

'Land Grab' movement 'भूमि छीनों' भूमि हथियाना के आन्दोलन	Latent capital निहित पूँजी
Land improvement भूमि-सुधार	Lateral summation of individual demand curves व्यक्तियुक्त माँग वक्रों के पारिस्वक जोड़
Land jobber भू-सटोरिया	Lateral summation of the supply curves of the firms फर्मों के पूर्ति वक्रों का पारिस्वक जोड़
Land lease legislation उधार-पट्टा नियम	Law of comparative cost तुलनात्मक लागत का नियम
Landless agricultural labourer भूमि-हीन कृषि मजदूर	Law of compensatory action पूरक क्रिया नियम
Landlord भू-स्वामी, भूमिपति, जमींदार	Law of concentration सकेन्द्रण का नियम
Landlord, absentee दूरवासी जमींदार	Law of constant cost सानुपातिक प्रत्याय का नियम, स्थिरयनुपात का नियम
Landlordism भूमिपतित्व, जमींदारी	Law of constant returns स्थिरयनुपात प्रत्याय नियम
Land-man ratio भूमि-मनुष्य अनुपात	Law of decreasing utility उपभोगिता ह्रास नियम
Land mortgage भूमि-बचक, भू-बचक	Law of demand माँग का नियम
Land mortgage bank भूमि-बचक बैंक	Law of derived demand व्युत्पन्न माँग का नियम
Land ownership system भू-स्वामित्व प्रणाली	Law of diminishing marginal productivity ह्रासमान सीमांत उत्पादितता का नियम
Land policy भूमि नीति, भू-नीति	Law of diminishing marginal utility सीमांत उपभोगिता ह्रास नियम
Land productivity भू-उत्पादितता	Law of diminishing return ह्रासमान प्रतिफल नियम, नमागत प्रत्याय ह्रास नियम
Land reclamation भूमि कृष्यकरण, भू-उद्धारण	Law of economy of organisation संघटन-मित-व्यय नियम
Land record भू-अभिलेख	Law of equi-marginal returns सम-सीमांत प्रत्याय नियम
Land reform भू-सुधार	Law of equi-marginal utility सम-सीमांत उप-योगिता नियम
Land reform legislation भू-सुधार अधिनियम	Law of increasing marginal sacrifice बढ़मान सीमांत त्याग नियम
Land rent भू-लगान	Law of increasing return बढ़मान प्रतिफल नियम
Land revenue भू-राजस्व, भालगुजारी	Law of indifference समभाव नियम, अनभिमान नियम, उदासीनता नियम
Land revenue system भू-राजस्व पद्धति	Law of market बाजार का नियम
Land tax भूमि-कर	Law of maximum satisfaction अधिकतम सुष्टि सिद्धान्त
Land tenure system भू-धारण पद्धति	Law of progress प्रगति का नियम
Land to the tiller जमीन जोतने वाले की	Law of proportionality सानुपातिकता का नियम
Land utilisation भूमि-उपयोग	
Land utilisation statistics भूमि के उपयोग के आँकड़े	
Land value भूमि-मूल्य, जमीन की कीमत	
Lapsed policy यन्त्रावधि पारिस्वी	
Lapsed policy, reinstatement of यन्त्रावधि पारिस्वी का पुनःस्थापन	
Lapsed policy, renewal of यन्त्रावधि पारिस्वी का नवीकरण	
Lapsed registration रद्द रजिस्ट्री, रद्द पंजीयन	
Large-scale industry बड़े पैमाने का उद्योग	
Large-scale operation बड़े पैमाने पर कार्य	
Large-scale production बड़े पैमाने का उत्पादन	

Law of reciprocal demand परस्पर माँग का नियम

Law of relative prices सापेक्ष कीमतों का नियम

Law of substitution स्थानापन्न का नियम

Law of supply संभरण का नियम, पूर्ति का नियम

Law of value मूल्य-सिद्धान्त

Law of variable proportions परिवर्तनीय अनुपात का नियम

Lay great stress बहुत बल देना

Lay off जबरी छुट्टी

Lay off pay जबरी छुट्टी वेतन

Laxity of duty कर्तव्य-शिथिलता

Loading banks प्रभ्र बैंक

Loading firm अग्र फर्म

Leading rate निर्देशक दर

Leading sector प्रभ्र क्षेत्र

'Leads' and 'lags' अग्रता और पश्चता—इस शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के अस्थायी और प्रसामान्य प्रभावों के लिए किया जाता है जो विदेशी व्यापार के भुगतान द्वारा भुगतान-शेष को प्रभावित करते हैं। यदि कोई आयातक सामान्य काल से पहले भुगतान करता है, तो इसे अग्रता (Lead) कहते हैं। परन्तु यदि वह भुगतान में देरी कर दे, तो इसे पश्चता (Lag) कहते हैं। इसी प्रकार, यदि कोई निर्यातक अपने बंधों का मूल्य समय से पहले प्राप्त कर लेता है, तो इसे अग्रता (Lead) कहते हैं और यदि वह बाद में प्राप्त करता है, तो इसे पश्चता कहते हैं। अग्रता और पश्चता गैर-कारणनी नहीं हैं। इनका उद्देश्य विदेशी मुद्रा विनिमयों के प्राचीन विनिमय-दर में परिवर्तन से लाभ उठाना होता है।

Leakage in multiplier गुणक में रिसाव/छिद्र/धारण

Learner नौसिलिया, जिज्ञासु

Learnership जिज्ञासा

Lease for agricultural purposes खेती के लिए पट्टा

Lease-in उधार पट्टा लेना

Lease-lend उधार-पट्टा

Lease-out उधार पट्टा देना

Lease period पट्टे की अवधि

Least aggregate sacrifice, principle of न्यूनतम समस्त त्याग का सिद्धान्त

Least-cost combination न्यूनतम लागत सम्मिश्रण

Least dissatisfaction न्यूनतम असंतुष्टि

Left-wing socialism वामपक्षीय समाजवाद

Legacy duty रिक्थ कर

Legal tender कानूनी प्राह्य

Legal tender, limited सीमित कानूनी प्राह्य

Legal tender, unlimited असीमित कानूनी प्राह्य

Legal tender currency कानूनी प्राह्य करेंसी

Legal tender money कानूनी प्राह्य मुद्रा

Leisure श्रवकाश, फुरसत

Lender श्रुदादाता

Lender of last resort अन्तिम श्रुदादाता

Lending country श्रुदादाता देश

Lending limit उधार सीमा

Lending rate उधार-दर

Lend-lease उधार पट्टा

Lend money on goods वस्तुओं पर उधार देना

Less privileged class अल्प विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग

Letter of credit साक्ष-पत्र

Level of consumption उपभोग-स्तर

Level of employment रोजगार-स्तर

Level of literacy साक्षरता-स्तर

Level of living जीवन-स्तर

Level of nutrition पोषण-स्तर

Level of prices कीमत-स्तर, मूल्य-स्तर

Level of production उत्पादन-स्तर

Level of productivity उत्पादित-स्तर

Level of taxation कराधान-स्तर

Level of technical training तकनीकी प्रशिक्षण स्तर

Level of unemployment बेरोजगारी-स्तरी

Levy a tax करारोपण, कर लगाना

Liability दायित्व, देयता

Liability, capital पूँजीगत देयता

Liability, contingent अनिश्चित देयता
 Liability, demand माँग देयता
 Liability, deposit जमा देयता
 Liability, joint and several सम्मिलित तथा पृथक देयता
 Liability, limited सीमित देयता
 Liability, time सावधि देयता
 Liability, unlimited असीमित देयता
 Liberalisation of trade व्यापार में उदारता, व्यापार उदारीकरण
 Liberalism उदारतावाद
 Liberalist उदारतावादी
 Licensing policy लाइसेंस नीति
 Life expectancy प्रत्याशित आयु
 Life insurance annuity जीवन-बीमा धारिणी
 Life insurance policy जीवन-बीमा पालिसी
 Life insurance premium जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन-बीमा प्रव्यजि
 Light-bearing science ज्ञानपरक विज्ञान
 Light components हल्के सघटक
 Light engineering goods इंजीनियरिंग के हल्के सामान
 Lightning strike तत्काल हड़ताल
 Light industry उपभोक्ता उद्योग, हल्के उद्योग
 Limit of safety बचाव की सीमा, रक्षा की सीमा
 Limitation of estates सम्पदाओं का परिसीमन
 Limited absorptive capacity सीमित प्रचूषण क्षमता, खपाने की सीमित क्षमता
 Limited coinage सीमित टकन
 Limited demand सीमित माँग
 Limited legal tender सीमित कानूनी ग्राह्य
 Limited liability सीमित दायित्व
 Limited liability company सीमित देयता-कम्पनी/सम्बन्ध
 Limited liability society सीमित देयता समिति
 Limited market सीमित बाजार, सीमित विपणन
 Limited option सीमित विकल्प
 Limited payment सीमित भुगतान
 Limited payments policy सीमित भुगतान नीति

Limited supply सीमित पूर्ति, सीमित संभरण
 Limiting case परिसीमा दशा
 Limping gold standard पंगु स्वर्णमान
 Lumping standard पंगु मान
 Linear homogeneous सम एकघात, रेखीय समरूप
Linear programming रेखीय प्रोग्रामिंग, रेखीय कार्यक्रमीकरण—इससे हमारा अभिप्राय उस गणितीय तकनीक से है जिसमें से किसी इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्प कार्यक्रमों में से सबसे उत्तम कार्यवाही का चुनाव किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ वस्तुओं या वस्तु-समूहों में से निम्नतम सम्भव लागत पर उत्पादन कैसे किया जा सकता है। इसका प्रयोग विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ, किसी देश में दिये गये संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जाये कि उससे अधिकतम विकास-दर प्राप्त हो सके। इसी प्रकार विभिन्न फर्म अपने उत्पाद की विभिन्न कीमतों का निश्चयन करते समय विभिन्न विकल्पों की तुलना कर उस सर्वोत्तम मिश्रण का चयन कर सकती है जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।
 Line of attainable combinations प्राप्य संयोगों की रेखा
 Line segment रेखाखण्ड
 Linkage सम्बन्ध
 Linkage, backward प्रतिगामी सम्बन्ध
 Linkage, forward अग्रगामी सम्बन्ध
Linkage effect संबन्ध प्रभाव—इससे हमारा अभिप्राय किसी एक उद्योग की, अन्य उद्योगों को स्थापित करने तथा/या उन्हें प्रोत्साहित करने की क्षमता से है। इसका मूल कारण प्रादानों (Inputs) अर्थात् कच्चे मालों तथा प्रदानों (Outputs) अर्थात् अर्द्धनिर्मित और निर्मित वस्तुओं की अन्तःनिर्भरता से है। कोई उद्योग अन्तर्देशीय उद्योगों से अपनी प्रावश्यकता के प्रादान खरीदता है और इनका प्रायात नहीं करता। इसके फलस्वरूप उन अन्तर्देशीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है जो इसे प्रादान की पूर्ति करते हैं। इसे प्रतिगामी सम्बन्ध

(Backward linkage) कहते हैं। इसी प्रकार यह उद्योग अपने माल का निर्यात करते या इसे निर्यात वस्तु के रूप में बेचने की अपेक्षा इसे अन्य अन्तर्देशीय उद्योगों को बेच सकता है। इसे अप्र-गामी सम्बन्ध (Forward linkage) कहते हैं। सम्बन्ध प्रभाज का सबसे अच्छा उदाहरण लोह तथा इस्पात उद्योग है जो देश में कच्चे लोहे और कोयले के बाजार का विस्तार करता है और बाव में गश्ती उद्योग और संचालन शक्ति उद्योग के लिए प्रादान उपलब्ध कराता है। इस प्रकार प्रतिगामी एवं अप्रगामी दोनों सम्बन्धों के परिणामस्वरूप यह अर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

Liquid assets तरल परिसम्पत्

Liquid fund तरल निधि

Liquid money तरल मुद्रा

Liquid resources तरल साधन

Liquid security तरल प्रतिभूति

Liquidation परिसमापन

Liquidation, compulsory अनिवार्य परिसमापन

Liquidation, voluntary ऐच्छिक परिसमापन

Liquidation of company कम्पनी का समापन

Liquidation of debt ऋण परिशोधन

Liquidation of a firm फर्म का परिसमापन

Liquidation of loan उधार-परिशोधन

Liquidator परिसमापक

Liquidity, control of तरलता नियन्त्रण—
रेडक्लिफ रिपोर्ट (Radcliffe report) के अनु-सार मौद्रिक नीति वित्तीय एवं अन्य संस्थाओं की तरलता को प्रभावित करके समस्त माँग को प्रभावित करती है और तरलता को ब्याज-दरों के ढाँचे में परिवर्तन द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, न कि मुद्रा के संभरण में परिवर्तन द्वारा।

Liquidity crisis तरलता संकट

Liquidity incentive तरलता प्रलोभन

Liquidity pre-emption तरलता पूर्वाधिकार

Liquidity preference तरलता अधिमान, नकदी तरजीह, रोक अधिमान

Liquidity preference curve तरलता अधिमान वक्र

Liquidity preference function तरलता अधि-मान फलन/धित

Liquidity preference schedule नकदी/तरलता अधिमान अनुसूची

Liquidity preference theory of interest ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धान्त

Liquidity ratio तरलता अनुपात

Liquidity trap तरलता जाल—ब्याज की वह दर जिस पर मुद्रा की माँग असीमित हो जाती है।

Livelihood जीविका

Livelihood, sources of जीविका के साधन

Livelihood pattern जीविका प्रतिरूप, जीविका ढाँचा

Live order register (= live register) रिक्वि-रजिस्टर, चालू रजिस्टर

Livestock पशुधन

Livestock census पशुधन गणना

Livestock development officer पशुधन विकास अधिकारी

Livestock statistics पशुधन सम्बन्धी आँकड़े

Living wage निर्वाह मजदूरी

Living wage, minimum न्यूनतम निर्वाह मजदूरी

Load factor भार-अनुपात

Loading charges लदाई-सर्ज, लदाई-प्रभार

Loan ऋण

Loan, amortised प्रतिशोधित ऋण, किस्त सामयिक ऋण

Loan, benami बेनामी ऋण

Loan, call अविलम्ब ऋण

Loan, consumption उपभोग ऋण

Loan, forced लाचारी ऋण, जबरी कर्जा

Loan, hard दुर्लभ ऋण, अधिक ब्याज वाला ऋण

Loan, long-term दीर्घकालीन ऋण

Loan, medium-term मध्यकालीन ऋण

Loan, participation सहभागी ऋण

Loan, private गैर-सरकारी ऋण, निजी ऋण

- Loan, productive उत्पादक ऋण
- Loan, public सार्वजनिक ऋण, सरकारी ऋण
- Loan, secured प्रतिभूत ऋण, प्रतिभूति सहित ऋण
- Loan, short-term अल्पकालीन ऋण
- Loan, soft मुलभ ऋण, कम ब्याज ऋण
- Loan, term सावधि ऋण
- Loan, tied सशर्त ऋण, बंध ऋण
- Loan, undisbursed अवितरित ऋण
- Loan, unsecured प्रतिभूति रहित ऋण
- Loan, untied बंधन मुक्त/बंधन रहित ऋण
- Loan accommodation ऋण निभाव
- Loanable capital उधारदेय पूंजी
- Loanable funds theory अविदेय पूंजी सिद्धांत
- Loans and advances ऋण तथा अग्रिम
- Loans and advances bearing interest ब्याज वाले उधार और अग्रिम
- Loans and discounts ऋण और बट्टा
- Loans at call and short notice तत्काल और अल्प सूचना देय उधार
- Loans for specific projects विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण
- Local auditor स्थानीय लेखा परीक्षक
- Local authority स्थानीय प्राधिकरण
- Local consumption स्थानीय उपभोग
- Local finance स्थानीय वित्त
- Local market स्थानीय बाजार
- Local population स्थानीय जनसंख्या
- Local rates स्थानीय कर
- Local rates and cesses स्थानीय कर एवं उपकर
- Local taxation स्थानीय कराधान
- Local value स्थानीय मूल्य, स्थानीय कीमत
- Localisation of industries उद्योगों का स्थानीयकरण
- Localised industry स्थान सीमित उद्योग, स्थानीकृत उद्योग
- Location of industries उद्योगों का स्थिति निश्चयन, उद्योगों का स्थान-निर्धारण
- Location theory स्थिति निश्चयन सिद्धांत, स्थिति निर्धारण सिद्धांत
- Locked-in capital रूढ़ पूंजी, बंध पूंजी
- Lock out लालाबन्दी
- Lodging house आवास-गृह
- Loco Price गोदाम कीमत—एक व्यापारिक शब्द जिसका प्रयोग विदेशी व्यापार में किया जाता है। इसका अभिप्राय विदेशी व्यापार में निर्यातक के गोदाम पर निश्चित कीमत से है। इसे स्थानीय कीमत भी कहते हैं। इसी कारण जब कोई आयातक माल खरीदता है, तो उसे दोनों स्थानों के बीच भाड़ा और बीमा देना होगा। अतः आयातक की कीमत में गोदाम कीमत के प्रतिरिक्त माल पहुंचाने की लागत भी शामिल करनी होगी।
- Long bill दीर्घकालिक टूट्टी, दीर्घावधि बिल
- Long-period equilibrium दीर्घावधि संतुलन
- Long-period market दीर्घावधि बाजार
- Long-run average cost curve दीर्घकालीन औसत लागत वक्र
- Long-run constant ratio दीर्घकालीन स्थिर अनुपात
- Long term capital दीर्घावधि पूंजी
- Long term capital movements दीर्घावधि पूंजी गतिविधियाँ
- Long term credit दीर्घावधि उधार/साह
- Long term finance दीर्घावधि वित्त
- Long term fluctuations दीर्घकालिक उच्चा-बचन
- Long term investment दीर्घकालिक विनियोग
- Long term loan दीर्घावधि उधार
- Long term rates of interest ब्याज की दीर्घकालिक दरें
- Long term securities दीर्घावधि प्रतिभूतियाँ
- Loopholes in the import control policy आयात-निर्बंधन नीति की दुर्बलताएँ
- Loss, assessment of हानि-प्रनुमान, हानि-निर्धारण
- Loss, gross कुल हानि
- Loss, net निवल हानि
- Loss minimisation हानि न्यूनतमकरण

Loss of office पद-हानि
 Loss ratio हानि अनुपात
 Lost time नष्ट समय
 Lost time accident कार्य-समय नाशक दुर्घटना
 Low equilibrium point निम्न संतुलन बिन्दु
 Low income groups निम्न-श्रेणी वर्ग
 Low level equilibrium trap निम्न-स्तरीय संतु-
 लन जाल
 Low paid work कम मजदूरी वाला काम, श्रमपात्रक
 काम
 Low-priced commodity कम कीमत वाली वस्तु
 Low optimum point निम्न अनुकूलतम बिन्दु
 Low profit margin कम लाभ दर
 Low saving-income ratio निम्न बचत-श्रेणी
 अनुपात
 Lower turning point घटो घटते बिन्दु
 Lowest price निम्नतम मूल्य
 Lumpiness of investment विनियोग का
 गठीलापन
Lump-sum appropriation एक-मुद्दत विनि-
 योग—इसका अभिप्राय बजट में विनियोग की
 उस व्यवस्था से है जिसके अनुसार किसी विशेष
 विभाग के लिए एक निश्चित राशि पृथक् कर दी
 जाती है। एक-मुद्दत विनियोग में उस विधि का
 अधिकार बर्णन नहीं किया जाता जिसके अनुसार
 विशेष विभाग इसका विभिन्न उद्देश्यों के लिए
 प्रयोग करेगा। एक-मुद्दत विनियोग में सबसे प्रबल
 तर्क यह है कि यह प्रशासक को स्वतन्त्रता देता
 है कि वह इस राशि का अपनी इच्छानुसार उचित
 प्रयोग करे। चूंकि एक-मुद्दत विनियोग प्रशासक
 को एक सीमा तक एक वैधानिक अधिकार प्रदान
 कर देता है, इसलिए विधायक प्रायः विशिष्ट
 विनियोग को प्राथमिकता देते हैं। कई बार एक-
 मुद्दत विनियोग निष्पादन बजट (Performance
 Budget) के लिए किए जाते हैं।
 Lump-sum payment एक-मुद्दत भुगतान
 Lump-sum tax एक-मुद्दत कर
 Luxuries विलास वस्तुएं, विलासिताएँ
 Luxury consumption विलासोपभोग

Luxury goods विलास वस्तुएं
 Luxury import विलास-वस्तु आयात

M

Machine-hour मशीन-घंटा
 Machine-hour rate मशीन-घंटा दर
 Macro-dynamics समष्टिगत प्रवृत्तियों
 Macro-economics समष्टिगत अर्थशास्त्र
 Macro-economic paradoxes समष्टिगत आर्थिक
 विरोधाभास
 Macro-economic problems समष्टिगत आर्थिक
 समस्याएँ
 Macro-survey बृहद् सर्वेक्षण/समष्टि सर्वेक्षण
 Man head मुख्य शीर्ष
 Main price list मुख्य भाव सूची
 Maintain with the bank बैंक में रखना
 Maintainable demand समर्थनीय मांग/वाजवी
 मांग
 Maintainable demand, deficiency of समर्थनीय
 मांग की कमी
 Maintained mark-up स्थिर कीमत-लागत अन्तर
 Maintaining capital intact पूँजी अक्षत रखना
 Maintenance allowance निर्वाह भत्ता
 Maintenance and repairs अनुरक्षण एवं मरम्मत
 Maintenance charges अनुरक्षण प्रभार
 Maintenance cost अनुरक्षण व्यय/लागत
 Maintenance expenditure अनुरक्षण व्यय
 Maintenance imports परिपोषक आयात, अनु-
 रक्षण आयात
 Maintenance level भरण-पोषण स्तर
 Maintenance reserve fund अनुरक्षण आरक्षित
 निधि
 Major and minor cycles मुख्य एवं लघु चक्र
 Major foodgrain प्रधान/मुख्य खाद्यान्न
 Major innovations महान नव-प्रवर्तन
 Make-up wages पूरक मजदूरी
 Make-up work पूरक काम
 Maladjustment कुसमंजन, कुसमायोजन
 Maladjustment, degree of कुसमायोजन का अंश

Malafide transfer नाजायज हस्तांतरण, असद्भाव हस्तांतरण

Mal-distribution कुविनरण

Mal-practices and misappropriations अनाचार एव कुविनयोग

Malthus' theory of population माल्थस का जनसंख्या का सिद्धान्त

Mammonism धन सर्वस्ववाद, धन लोलुपता, कुबेरवाद

Managed currency प्रबंधित करेंसी, प्रबंधित मुद्रा

Managed monetary system नियंत्रित मुद्रा प्रणाली

Managed money प्रबंधित मुद्रा

Management, exchange विनिमय-प्रबंध

Management, layers of प्रबंध स्तर

Management, office कार्यालय प्रबंध

Management, personnel कर्मचारी प्रबंध, कार्मिक प्रबंधन

Management, production उत्पादन-प्रबंधन

Management, professional व्यावसायिक प्रबंधन

Management, scientific वैज्ञानिक प्रबंधन

Management accounting प्रबंध लेखांकन

Management cost प्रबंधन-अर्थ

Management of resources ससाधनों का प्रबंध

Management prerogative प्रबंधक विशेषाधिकार

Management technique प्रबंध तकनीक

Management wage प्रबंधक वेतन, प्रबंध मजदूरी

Managerial corporatism प्रबंधक सत्तावाद

Managerial personnel प्रबंध कर्मचारी

Managerial remuneration प्रबंधकीय प्रतिफल, प्रबंधकीय पारित्यक्त

Managerial Revolution प्रबंधकीय क्रांति—

जेम्स बर्नहम (James Burnham) ने 1911 में अपनी पुस्तक 'Managerial Revolution' में यह विचार प्रस्तुत किया कि आधुनिक औद्योगिक निगम (Modern Industrial Corporation) का आकार इतना बड़ गया है कि अब किसी एक समूह या कुछ व्यक्तियों के हाथ में स्वामित्व केन्द्रित नहीं रहा। परिणामतः प्रबंधकीय साम्राजिक

वर्ग पूंजीपतियों की प्रपेक्षा अधिक और राजनीतिक जीवन में अधिक प्रभावशाली बनता जा रहा है। अतः औद्योगिक निगम में प्रबंधक ही निर्णायक महत्त्व रखते हैं।

बर्नहम का यह भी कहना है कि औद्योगिक निगमों का आकार बढ़ने के कारण हिस्सों पर किसी छोटे व्यक्ति-समूह का आधिपत्य नहीं रह सकता। न ही इसके लिए यह आवश्यक है कि निगम पर नियंत्रण रखने के लिए 51 प्रतिशत हिस्सों का स्वामित्व अपने अधीन हो। अतः व्यावसायिक प्रबंधक उद्योग तथा वाणिज्य में केन्द्रीय स्थान प्राप्त कर गया है। बर्नहम ने यह भी कहा है कि जैसे-जैसे 'उत्पादन के ससाधनों' का स्वामित्व राज्याधीन लाया जाएगा, प्रबंधकों का राज्य पर भी नियंत्रण बढ जाएगा। एक स्थिति यह आ जाएगी कि प्रबंधक स्वयं शासक वर्ग बन जाएंगे।

बर्नहम के इस विचार को अतिरूप में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त नहीं हुई। इसमें सन्देह नहीं कि आज यह बात तो मानी जा रही है कि उद्योग का नियंत्रण और राजनीतिक प्रभाव पूंजीपति के हाथ से निकल कर प्रबंधक के पास चला गया है, परन्तु पूंजीपति के कार्यभाग को नगण्य या कम करके आंकना बहुत से अर्थशास्त्री ठीक नहीं मानते। अतः प्रबंधकीय क्रांति का प्रयोग औद्योगिक पुनर्गठन के इस थोड़े से परिवर्तन के लिए किया जाता है।

Managerial skill प्रबंध कौशल

Managerial staff प्रबंधकीय भ्रमला, प्रबंध-स्टाफ

Managing agency system प्रबंधाभिन्तर्ता प्रणाली

Managing agent प्रबंधाभिकर्ता

Managing director प्रबंध सचालक, प्रबंध निदेशक

Manchesterism मान्चेस्टरवाद, मान्चेस्टर संप्रदाय

Manchester School मान्चेस्टर विचारधारा—

इस विचारधारा में वे राज्यार्थशास्त्री शामिल थे, जो एडम स्मिथ के विचारों का अनुसरण करते हुए निर्वाह-व्यापार एव स्रवाह नीति (laissez-faire) का समर्थन करते थे और उद्योग एवं वाणिज्य में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करते थे।

- Mandatory appropriation अधिवेशी विनियोग
 Man-days मानवदिन, धर्म-दिन
 Man's equal capacity for satisfaction मानव की सन्तुष्टि की समान क्षमता
 Man-hour धर्म-घंटा
 Man hour rate धर्म-घंटा दर
 Man-land ratio मनुष्य-भूमि अनुपात
 Man-made appliances मनुष्यकृत उपकरण
 Man-made fibre cloth मानव-निर्मित/मनुष्यकृत तन्तु के कपड़े
 Man-made goods मनुष्यकृत वस्तुएँ
 Manipulation of accounts लेखे का छल-प्रबन्ध
 Manipulation of bank rate बैंक दर का प्रहस्तन, बैंक-दर का चातुर्य प्रबन्ध
 Manipulation of prices कीमतों का चातुर्य-प्रबंध/प्रहस्तन
 Manipulative advertisement प्रभावदात्मक विज्ञापन
 Manor स्वामि-भू
 Manorial System स्वामि-भू पद्धति, जमींदारी-प्रथा—इस प्रथा के द्वाधीन, जो कि मध्यकाल (Medieval Period) में प्रचलित थी, ग्राम की अधिकतर भूमि किसी सामन्त (Fodal Lord) के स्वामित्वाधीन होती थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जागीर की भूमि में से कुछ भाग कृषि के लिए मिल सकता था। भू-स्वामि (Land Tenure) की शर्त सामन्ती प्रभार और दायित्वों की प्रदायगी होती थी। भू-स्वामी अपने कान्तकार से साधारणतया जिन्स के रूप में लगान वसूल करता था।
 Man power धर्म-शक्ति, जन-शक्ति
 Manual labour शारीरिक परिश्रम
 Manual occupation शारीरिक व्यवसाय
 Manual work शारीरिक काम
 Manufactory निर्माणशाला
 Manufacture विनिर्माण
 Manufactured goods निर्मित वस्तुएँ
 Manufactured on a large scale बड़े पैमाने पर निर्मित
 Manufactured products विनिर्मित मास
 Manufacturer विनिर्माता
 Manufacturing firm विनिर्माण फर्म
 Manufacturing industry विनिर्माण उद्योग, निर्माणकारी उद्योग
 Manumission दास मुक्ति
 Man-year धर्म-वर्ष
 Margin सीमा, उपार-प्रतिभूति अन्तर, लाभ, पड़ता, सीमान्त
 Margin, distributive वितरण सीमान्त
 Margin, gross सकल लाभ-लागत अन्तर, सकल लाभ
 Margin, price कीमत गुंजाइश
 Margin, profit लाभ गुंजाइश
 Margin of cultivation काश्त की सीमा
 Margin of indifference समभाव-सीमा
 Margin of profit लाभ-मात्रा
 Margin of profitableness लाभकारिता की गुंजाइश
 Margin of safety सुरक्षा की सीमा
 Margin of transfer/transference अन्तरण सीमा
 Margin regulation उद्योग-प्रतिभूति अन्तर नियंत्रण
 Marginal सीमान्त
 Marginal, extra परासीमान्त
 Marginal, extra unit परासीमान्त इकाई
 Marginal, intra unit सीमान्त पूर्व इकाई
 Marginal, sub अर्धसीमान्त
 Marginal analysis सीमान्त विश्लेषण
 Marginal benefit सीमान्त लाभ
 Marginal buyers सीमान्त क्रेता
 Marginal cost सीमान्त परिष्पय
 Marginal cost curve सीमान्त लागत वक्र
 Marginal costing सीमान्त लागत-आकलन
 Marginal cost pricing सीमान्त लागत कीमत-निर्धारण
 Marginal cultivation सीमान्त खेती
 Marginal demand सीमान्त माँग
 Marginal disutility सीमान्त अनुपयोगिता/सुष्टि-हीनता
 Marginal disutility of labour धर्म की सीमान्त अनुपयोगिता

- Marginal disutility of work कार्य की सीमान्त अनुपयोगिता
- Marginal dose सीमान्त मात्रा
- Marginal efficiency of capital पूंजी की सीमान्त क्षमता
- Marginal efficiency of investment विनियोग की सीमान्त कुशलता
- Marginal factor सीमान्त कारक
- Marginal farmer सीमान्त किसान/कृषक
- Marginal increment सीमान्त वृद्धि
- Marginal labour सीमान्त श्रम
- Marginal land सीमान्त भूमि
- Marginal net product सीमान्त शुद्ध उत्पादन
- Marginal price सीमान्त मूल्य, सीमान्त कीमत
- Marginal private and marginal social costs सीमान्त निजी एव सीमान्त सामाजिक लागत
- Marginal producer सीमान्त उत्पादक
- Marginal product सीमान्त उत्पाद, सीमान्त उत्पत्ति
- Marginal product, combined संयुक्त सीमान्त उत्पाद
- Marginal product of labour श्रम का सीमान्त उत्पादन
- Marginal production सीमान्त उत्पादन
- Marginal productivity सीमान्त उत्पादितता
- Marginal productivity, physical सीमान्त भौतिक उत्पादितता
- Marginal productivity, revenue सीमान्त आयम उत्पादितता
- Marginal productivity, value सीमान्त मूल्य उत्पादितता
- Marginal productivity theory सीमान्त उत्पादितता सिद्धान्त
- Marginal productivity theory of distribution वितरण का सीमान्त उत्पादितता सिद्धान्त
- Marginal productivity theory of wages मजदूरी का सीमान्त उत्पादितता सिद्धान्त
- Marginal profit सीमान्त लाभ
- Marginal propensity to consume सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति
- Marginal propensity to consume and multiplier सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति और गुणक
- Marginal propensity to import सीमान्त आयात प्रवृत्ति
- Marginal propensity to save सीमान्त बचत प्रवृत्ति
- Marginal proportionalities सीमान्त आनुपातिकताएँ
- Marginal purchase सीमान्त-क्रय
- Marginal rate of substitution सीमान्त स्थानापत्ति-दर
- Marginal rates, very high अत्यधिक ऊँची सीमान्त दरें
- Marginal ratio सीमान्त अनुपात
- Marginal relief सीमान्त राहत, सीमान्त सहायता
- Marginal return सीमान्त प्रत्याय, सीमान्त प्रतिफल
- Marginal revenue सीमान्त आयम, सीमान्त आय
- Marginal revenue product सीमान्त आयम उत्पाद, सीमान्त आय उत्पत्ति
- Marginal sacrifice सीमान्त त्याग
- Marginal satisfaction सीमान्त तुष्टि
- Marginal saving-income ratio सीमान्त बचत-आय अनुपात
- Marginal schemes सीमान्त योजनाएँ
- Marginal significance सीमान्त महत्व, सीमान्त अविमान मात्रा
- Marginal social net product सीमान्त सामाजिक शुद्ध उत्पाद
- Marginal social utility सीमान्त सामाजिक उप-योगिता
- Marginal solutions सीमान्त समाधान
- Marginal tax rates कर की सीमान्त दरें
- Marginal taxation सीमान्त कराधान
- Marginal tool सीमान्त प्रसाधन
- Marginal unit सीमान्त एकक, सीमान्त इकाई
- Marginal utility सीमान्त उपयोगिता
- Marginal utility, weighted भारित सीमान्त उपयोगिता

- Marginal utility analysis सीमान्त उपयोगिता विश्लेषण
- Marginal utility of income आय की सीमान्त उपयोगिता
- Marginal utility of money मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता
- Marginal utility school सीमान्त उपयोगिता सम्प्रदाय
- Marginal utility theory सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त
- Marginal value product सीमान्त मूल्य उत्पाद, सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य
- Marginal yield सीमान्त उपज, सीमान्त उत्पाद
- Marginalism सीमान्तवाद
- Mark-down (कीमत में) रिमायत/कमी
- Marked price अंकित कीमत
- Market बाजार, मंडी
- Market, buyer's क्रेता बाजार
- Market, continuous निरन्तर बाजार
- Market, daily दैनिक बाजार
- Market, demanding अग्रपक्ष बाजार
- Market, discount छुट्टी बाजार
- Market, distributive वितरण बाजार
- Market, easy मुलम बाजार
- Market, established प्रतिष्ठित बाजार
- Market, firm मजबूत बाजार, सुदृढ बाजार
- Market, foreign exchange विदेशी मुद्रा बाजार
- Market, forward अग्र बाजार, बायदा बाजार
- Market, free निर्वीच बाजार
- Market, futures भावी पन्थ बाजार, चायदा बाजार
- Market, general सामान्य बाजार
- Market, home देशी बाजार
- Market, imperfect अपूर्ण बाजार
- Market, integrated एकीकृत बाजार
- Market, international अन्तर्राष्ट्रीय बाजार
- Market, law of बाजार-नियम
- Market, local स्थानीय बाजार
- Market, long-period दीर्घकालीन बाजार
- Market, manipulated जोड़-तोड़ बाजार
- Market, mixed मिश्रित बाजार
- Market, monopolistic एकाधिकारी बाजार
- Market, narrow सीमित बाजार
- Market, national राष्ट्रीय बाजार
- Market, open खुला बाजार
- Market, organised produce संगठित उत्पाद बाजार
- Market, perfect पूर्ण बाजार
- Market, perfectly competitive पुरंततया प्रतिस्पर्धी बाजार
- Market, primary पहला बाजार, प्राथमिक बाजार
- Market, provincial प्रान्तीय बाजार
- Market, regulated विनियमित मंडी/बाजार
- Market, retail खुदरा बाजार, परचून बाजार
- Market, Say's law of 'दे' का बाजार नियम
- Market, secondary द्वितीयक मंडी/बाजार
- Market, seller's विक्रेता बाजार
- Market, sensitive संवेदनशील बाजार
- Market, share हिस्सा बाजार
- Market, short-period अल्पकालीन बाजार
- Market, specialised विशिष्ट बाजार
- Market, speculative शट्टा बाजार
- Market, spot तत्काल बाजार
- Market, stock and share स्टॉक एवं शेयर बाजार
- Market, super सुपर बाजार—विशेष बाजार जहाँ दैनिक आवश्यकता की सभी वस्तुएँ उचित मूल्य पर बेचने का प्रयत्न हो।
- Market, terminal अन्तिम बाजार
- Market, tone of the बाजार रस
- Market, wholesale थोक बाजार
- Market anticipation बाजार पूर्वानुमान
- Market arrival बाजार आगम
- Market behaviour बाजार व्यवहार
- Market being cleared बाजार का सारा माल बिक जाना
- Market borrowing बाजार उधार
- Market-chain बाजार शृंखला
- Market day बाजार दिवस
- Market demand curve बाजार माँग वक्र

Market demand schedule बाजार की माँग सारणी/सूची	Marketability पण्यता, पण्य-योग्यता
Market density बाजार का घनत्व	Marketing विपणन
Market directed economy बाजार निर्देशित अर्थव्यवस्था	Marketing, agricultural कृषि विपणन
Market discrimination बाजार-भेद	Marketing, direct सीधा बाजार
Market economy बाजार अर्थव्यवस्था	Marketing, indirect आहत बाजार
Market equilibrium बाजार सतुलन	Marketing, orderly व्यवस्थित बाजार
Market exchange rate बाजार विनिमय-दर	Marketing agency विपणन एजेंसी
Market fluctuations बाजार उच्चावचन, मंडी का उतार-चढ़ाव	Marketing agreement विपणन संधि, विपणन करार, विपणन समझौता
Market forces बाजार शक्तियाँ	Marketing and processing society विपणन एवं विधायन समिति
Market imperfections बाजार अपूर्णताएँ	Marketing chain शृंखलाबद्ध विपणन
Market information बाजार सूचना	Marketing channel विपणन प्रणाली
Market mechanism बाजार तंत्र, बाजार-व्यवस्था	Marketing control विपणन नियंत्रण
Market period बाजार अवधि	Marketing co operative society विपणन सहकारी समिति
Market policy बाजार नीति	Marketing economies विपणन मितव्ययताएँ
Market price बाजार कीमत	Marketing function विपणन कार्य
Market price mechanism बाजार कीमत व्यवस्था/प्रक्रिया	Marketing margin विपणन लाभ-सीमा
Market price, ruling प्रचलित बाजार कीमत	Marketing mechanism विपणन तंत्र
Market process बाजार प्रक्रिया	Marketing method विपणन रीति, विपणन प्रणाली
Market rate बाजार भाव, बाजार दर	Marketing officer विपणन अधिकारी
Market rate of interest ब्याज की बाजार दर	Marketing of produce उपज का विपणन
Market relationship बाजार संबंध	Marketing practice बाजार-व्यवहार
Market report बाजार रिपोर्ट, बाजार सूचना	Marketing process बाजार प्रक्रिया
Market research बाजार अनुसंधान	Marketing quota विपणन निर्धारित कोटा, विपणन निर्धारित अद्य
Market section अनुविभागीय मंडी	Marketing quotations बाजार-भाव
Market sentiment बाजार भावना	Marketing services बाजार सेवाएँ
Market sharing cartel बाजार सहभागी कार्टेल	Marketing system बाजार पद्धति
Market situations बाजार परिस्थितियाँ	Mark system मार्का प्रणाली
Market supply बाजार सभरण, बाजार ग्रामद	Mark-up कीमत लागत अन्तर—इसका अर्थ किसी विक्रेता को वस्तु पर प्राप्त सकल लाभ से है। कोई विक्रेता अपनी खरीद-कीमत में जितना अन्तर रखकर अपनी विक्रय-कीमत निर्धारित करता है, वह अन्तर 'Mark-up' कहलाता है। विक्रय कीमत निर्धारित करते समय फर्म अपनी उत्पादन-लागत, बाजार-परिस्थितियों और
Market transactions बाजार सौदे	
Market value बाजार मूल्य	
Marketable विक्रय, विक्रय योग्य, पण्य	
Marketable goods विक्रय वस्तुएँ	
Marketable size विक्रय परिमाण/माप	
Marketable surplus विक्रय अतिरिक्त, विपण्य अतिरिक्त	

अपनी विक्रय-क्षमता को ध्यान में रखती हैं। इसी लिए विभिन्न देशों में लाख लाख घीर परीद-कीमत का अन्तर निम्न-भिन्न है। किन्तु देश में 50 प्रतिशत और किन्तु अन्त में 60 प्रतिशत। इसी प्रकार कीमत-लागत अन्तर उद्योग के स्वरूप पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए क्लियम-वस्तुओं में कीमत-लागत अन्तर बहुत अधिक रखा जाता है परन्तु यह अनिवार्य वस्तुओं में इतना अधिक नहीं रखा जा सकता।

Mark-up percentage कीमत-लागत अन्तर-प्रतिशत

Marshall aid plan मार्शल सहायता योजना—

इस योजना के आधीन समुच्च राज्य अमेरिका की सरकार के सचिव जॉर्ज मी० मार्शल ने पश्चिम यूरोप के उन देशों को, जिनकी अर्थव्यवस्थाएँ द्वितीय विश्वयुद्ध में काफी बर्बाद हो चुकी थी, सहायता देने का कार्यक्रम बनाया। इस योजना का उद्देश्य पश्चिम यूरोप को आर्थिक एवं प्रति-रक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ बनाना था। इसी कारण यूरोपीय पुनरुत्थान प्रोग्राम (European Recovery Program) 1945 में चालू किया गया। यूरोप के 16 देशों ने यूरोपीय आर्थिक सहकारिता संगठन (Organisation for European Economic Co-operation) स्थापित किया। इस योजना के प्रभावधीन पश्चिम यूरोप में पुनरुत्थान कार्यक्रम स्वरित हो गया। इसमें समझ नहीं कि यूरोप का पुनरुत्थान अमेरिका के भी हित में था परन्तु इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जब किसी एक देश ने अन्य देशों की सहायता के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम तैयार किया हो।

Marxian economics मार्क्सवादी अर्थशास्त्र

Marxian law of capital accumulation

मावर्स का पूँजी संग्रहण सिद्धांत—मावर्स मावर्स द्वारा पूँजीवाद के विकास के विद्वेषण में पूँजी संग्रहण का सिद्धांत केन्द्रीय महत्त्व रखता है। पूँजी-वादी समाज में मूल प्रक्रिया पूँजी एकत्रीकरण ही है। जिस पूँजी का प्रयोग अतिरिक्त मूल्य (Surplus value) प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसे

फिर पूँजी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य पूँजी का रूप धारण करता है और उत्पादन और निर्वाह का प्रतिरिक्त साधन बन जाता है। इस प्रकार पूँजी एवं श्रमिकों के पुनरुत्पादन का कुन्तल कायम हो जाता है क्योंकि श्रमिकों की मजदूरी ऊँची होती है। मावर्स ने स्वयं स्वीकार किया कि इन अवस्था में श्रम-वर्ग को कुछ लाभ होता है परन्तु उसका विश्वास था कि यह लाभ स्थायी रूप में विद्यमान नहीं रहता।

पूँजी के पुनरुत्पादन के परिणामस्वरूप श्रम की उत्पादित और पूँजी का सकेन्द्रण बढ़ता है। प्रतिभोगिता द्वारा छोटे पूँजीपतियों का साक्षात् क्रिया जाता है और उत्पादन की प्रधिकारिक गारंटी वगैरे पूँजीपतियों के हाथ में आ जाती हैं। इस प्रकार श्रम की माँग गिर जाती है और औद्योगिक रिजर्व सेना (Industrial Reserve Army) की संख्या बढ़ती है। जैम-जैमे पूँजीवाद का विकास होता है, बँते-बँते बेकार श्रम सेना की संख्या बढ़ती जाती है, और इस प्रकार चूँकि श्रमिकों को कम माँग की स्थिति बनी रहती है, मजदूरी बढ नहीं पाती। इसके परिणामस्वरूप पूँजीपतियों द्वारा पूँजी संग्रहण को बढ़ावा मिलता है और यह पूँजी कुछ ही श्रमिकों के हाथ में संकेन्द्रित हो जाती है। अतः एक ओर तो एकाधिकारी पूँजीवाद की स्थिति कायम हो जाती है परन्तु दूसरी ओर परीलतारी वर्ग में दीनता की अवस्था और भी बढ़ जाती है।

Marxian socialism मार्क्सवादी समाजवाद

Marxism मार्क्सवाद

Mass consumption बृहद् उपभोग

Mass de manoeuvre सकल योजना संचालन-यन्त्रि

Mass illiteracy व्यापक निरक्षरता

Mass poverty व्यापक निर्धनता

Mass production बृहद् उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन

Mass unemployment व्यापक बेरोजगारी

Master agreement मानक करार

- Master craftsman उस्ताद कारीगर, दस्त शिल्पी
- Master of partial analysis आंशिक विश्लेषण का परम विशेषज्ञ (मार्शल को कहा जाता है)
- Master plan महा योजना, मास्टर प्लान
- Material collection सामग्री-संग्रह
- Material gam भौतिक साधन
- Material goods भौतिक वस्तुएँ
- Materialism भौतिकवाद
- Materialistic भौतिकवादी
- Material means of production उत्पादन/उत्पादन के भौतिक साधन
- Material objects भौतिक पदार्थ
- Material welfare भौतिक कल्याण
- Maternity benefit मातृत्वकालीन लाभ
- Mathematical economics गणितीय अर्थशास्त्र
- Mathematical models गणितीय मॉडल/प्रतिमान
- Mathematical relationship between elasticities विभिन्न प्रकार की लची में गणितीय संबंध
- Mathematical school गणितीय सम्प्रदाय, गणितीय विचारधारा
- Mature creditor country परिपक्व ऋणदाता देश
- Mature debtor country परिपक्व ऋणी देश
- Mature economy परिपक्व अर्थव्यवस्था—**
 परिपक्व अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो विकास की अन्तिम अवस्था में पहुँच गयी है। ऐसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की वृद्धि-दर कम हो जाती है, राष्ट्रीय आय का औसत से अधिक भाग उपभोग-व्यय पर इस्तेमाल होने लगता है और सापेक्षतः कम भाग विनियोग पर। परिपक्वता की शुरुआत बड़े-बड़े अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो उसमें सील मूल परिवर्तन आते हैं। (1) अल्पशक्ति के ढाँचे में परिवर्तन हो जाता है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में राष्ट्र की कुल जनसंख्या का 70-80 प्रतिशत कृषि से आजीविका प्राप्त करता है परन्तु परिपक्वता की अवस्था में यह अनुपलब्ध कम होकर 20 प्रतिशत रह जाता है। (ii) देश में एक कुशल प्रबन्धकीय वर्ग और
- प्रशासन-तंत्र का विकास हो जाता है और (iii) देश में औद्योगिक प्रगति प्राप्त करने के लिए विज्ञान तथा तकनीक के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ जाती है।
- Maturity of a security प्रतिभूति की परिपक्वता
- Maturity period of a bill हज़ुडी की परिपाक अवधि
- Maximisation principle अधिकतम प्राप्ति सिद्धान्त
- Maximisation problems अधिकतमकरण की समस्याएँ
- Maximum aggregate satisfaction अधिकतम समग्र तुष्टि
- Maximum aggregate welfare अधिकतम समस्त कल्याण
- Maximum income per head अधिकतम प्रति-व्यक्ति आय
- Maximum price अधिकतम कीमत
- Maximum private gain अधिकतम निजी लाभ
- Maximum profit अधिकतम लाभ
- Maximum public gain अधिकतम सार्वजनिक लाभ
- Maximum rate अधिकतम दर
- Maximum satisfaction अधिकतम तुष्टि
- Maximum social advantage अधिकतम सामाजिक लाभ
- Maximum utility अधिकतम उपभोगिता
- Maximum wage अधिकतम मजदूरी
- Maximum welfare principle अधिकतम कल्याण सिद्धान्त
- Mean capital at charge औसत व्याज-देय पूँजी
- Means of livelihood जीविका-साधन
- Means of production उत्पादन/उत्पत्ति के साधन
- Means of subsistence निर्वाह साधन
- Means of transport and communication यातायात एवं संचार के साधन
- Means Test जीविका-साधन जाँच—** वहुत से गरीब या जरूरतमन्द व्यक्ति सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि उन लोगों को यह प्रमाण देना चाहिए कि

वे वस्तुतः गरीब या अखरतमन्द हैं। अतः वे अपनी श्रम का प्रमाखुपन या अपने परिवार के व्ययियों की संख्या या परिवार में कमाने वाले व्ययियों की संख्या आदि के बारे में पूर्ण सूचना दें जिसके आधार पर यह जांच की जा सके कि उन्हें सहायता देनी उचित है। इस प्रक्रिया को जिसके द्वारा व्ययित के जीविका साधनों के परीक्षण के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि उसे राशकीय सहायता मिलनी चाहिए, जीविका-साधन परीक्षण कहते हैं।

Measurable motives माय्य प्रयोजन

Measurable risk मापनीय जोखिम

Measured day's labour मापित एक दिन का श्रम

Measurement of consumer's surplus उपभोक्ता की श्रवत का मापन

Measurement of price elasticity कीमत लोच का माप

Measurement of taxable capacity करदेय सामर्थ्य का माप

Measurement of utility उपयोगिता का माप

Measuring rod of money मुद्रा का माप-दंड

Measure of value मूल्य का माप

Measures for economy मितव्ययता के उपाय

Measures to stimulate private investment निजी निवेश के प्रोत्साहन के उपाय

Mechanics of the industry उद्योग की प्रक्रिया

Mechanics of the market बाजार की प्रक्रिया

Mechanisation यंत्रोकरण, यन्त्रीकरण

Mechanisation of agriculture कृषि का यंत्रोकरण

Mechanised farming यंत्रोक्त खेती

Mechanised industries यंत्रोक्त उद्योग

Mechanised technique यंत्रोक्त तकनीक

Mechanism क्रिया, प्रक्रिया, क्रिया-विधि, विन्यास

Mechanism of adjustment समायोजन प्रक्रिया

Medieval economics मध्ययुगीन अर्थशास्त्र

Median माध्यिका

Mediation board मध्यस्थता बोर्ड, मध्यस्थता मंडल

Medical and public health services चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सन्न्धी सुविधाएँ

Medical benefit चिकित्सा सुविधा

Medical expenses चिकित्सा भय्य

Medieval economics मध्ययुगीन अर्थशास्त्र

Medium currency area मध्यम-करेसी क्षेत्र

Medium financing मध्यवर्ती वित्त प्रवन्ध

Medium of exchange विनिमय माध्यम

Medium scale industry मध्यम स्तर का उद्योग

Medium scale production मध्यम स्तर का उत्पादन

Medium term loan मध्यवर्षि ऋण

Meeting of creditors लेनदारों की बैठक

Memorandum of association आपन-पत्र, विधान-पत्र

Mental labour मानसिक श्रम

Mercantile school वाणिज्य सम्प्रदाय

Mercantilism वाणिज्यवाद, वाणिज्यता

Mercantile policy वाणिज्यवादी नीति

Mercantilists वाणिज्यवादी

Merchandise goods वाणिज्य वस्तुएँ

Merchant सौदागर, व्यापारी, बखिक

Merchant, export निर्यात व्यापारी

Merchant, import आयात व्यापारी

Merchant banker श्रेष्ठी बँकर

Merchant's capital व्यापारी पूंजी

Merchant firms व्यापारिक फर्म

Merchant house व्यापारी कोठी

Merchant middleman व्यापारी-मध्य-व्ययित, व्यापारी विचोतिय

Merchant's profit व्यापारी लाभ

Merchantable goods विक्रय वस्तुएँ

Merger विलयन

Merger of banks बैंकों का विलयन

Merger of companies कम्पनियों का विलयन

Merit increase गुणधारित वृद्धि

Merit rating गुणमापन, गुणकन

Merit system गुण पद्धति

Metallic content of currency करेन्सी की धातु-मात्रा

Metallic currency धातुक करेन्सी, धात्विक करेन्सी

Metallie money धातु मुद्रा, धात्विक मुद्रा	Minerals and Metals Trading Corporation खनिज एवं धातु व्यापार निगम
Metallic reserve धातु प्रारक्षण, धातु रिजर्व	Mining खनन
Metallic standard धात्विक प्रमाण/स्टैंडर्ड	Minimisation न्यूनतमकरण
Metayage बटाई	Minimum, fixation of न्यूनतम का निश्चयन/निर्धारण
Method, deductive निगमन पद्धति	Minimum, national राष्ट्रीय न्यूनतम
Method, inductive आगमन पद्धति	Minimum level of subsistence निर्वाह का न्यूनतम स्तर
Method of averaging माध्यम रीति	Minimum price न्यूनतम कीमत
Method of credit control साख नियन्त्रण के उपाय	Minimum price control न्यूनतम कीमत नियन्त्रण
Method of financing वित्त-प्रवन्ध का ढंग	Minimum reserve arrangement न्यूनतम प्रारक्षण प्रवन्ध
Method of price control मूल्य नियन्त्रण की विधि	Minimum reserve system न्यूनतम प्रारक्षण प्रणाली
Method of pure mathematics विशुद्ध गणितीय विधि	Minimum standard of living न्यूनतम जीवन-स्तर
Method study कार्यपद्धति का अध्ययन	Minimum subsistence wage न्यूनतम निर्वाह मजदूरी
Methodism पद्धतिवाद, रीतिवाद	Minimum wages न्यूनतम मजदूरी
Methodology कार्यपद्धति	Minimum wage, fixation of न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण
Metropolitan area राजधानी क्षेत्र, नगर क्षेत्र	Minimum wage legislation न्यूनतम-मजदूरी विधान
Metropolitan clearing house केन्द्रीय समाशोधन गृह	Minimum wages act न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
Metropolitan country उपनिवेशवादी देश	Ministry of finance वित्त मंत्रालय
Micro-analysis व्यष्टिगत विश्लेषण	Minor coin छोटा सिक्का
Micro-economics व्यष्टिगत अर्थशास्त्र	Minor industry छोटा उद्योग
Middleman विचोनिया, आड़तिया, दलाल	Mint par and gold points टंकन समार्य और स्वर्णंक
Middle price दरभियानी कीमत	Mint par of exchange विनिमय की टकसाल दर
Mid-term appraisal of plan योजना की मध्य-कालीन/मध्यावधि समीक्षा	Mint price of gold सोने/स्वर्ण की टकसाल कीमत
Mid-wifery facilities प्रसूति सुविधाएँ	Mint ratio टकसाल अनुपात
Migration प्रवासन	Misallocation of resources संसाधनों का अय-वंटन
Migration of labour मजदूरों का प्रवासन, मजदूरों का आवास-प्रवास	Miscellaneous taxes विविध कर
Migratory character of labour श्रम का प्रवासिता स्वभाव	Misdirected demand अपनिर्देशित माँग
Milk marketing board दुग्ध विपणन बोर्ड/मंडल	Misdirection of investment विनियोग का अय-निर्देशन
Mill owner मिल मालिक, कारखानादार	
Mill worker कारखाना श्रमिक	
Mineral deposit खनिज निक्षेप	
Mineral resources खनिज संसाधन	
Miner खनिज, खान मजदूर	

- Misdirection of resources संसाधनों का अ-
निर्देशन
- Mismanagement कुप्रबन्ध
- Misutilisation of saving बचत का दुरुपयोग
- Mixed capitalist economy मिश्रित पूँजीवादी
अर्थव्यवस्था
- Mixed cropping मिश्रित फ़सली
- Mixed currency मिश्रित करेंसी
- Mixed economy मिश्रित अर्थव्यवस्था
- Mixed enterprise मिश्रित उद्यम
- Mixed farming मिश्रित कृषि/खेती
- Mobile food unit चलता-फिरता भोजन डेला
- Mobile labour गतिशील श्रमिक
- Mobile labour location statement गतिशील
श्रम-क्षेत्र विवरण
- Mobile labour return गतिशील श्रम विवरणी
- Mobile surplus labour गतिशील बेरोज़ी श्रमिक
- Mobile worker गतिशील श्रमिक
- Mobilisation, economic आर्थिक गतिमत्ता,
आर्थिक जुटाव
- Mobilisation, geographical भौगोलिक गति-
मत्ता, भौगोलिक जुटाव
- Mobilisation, manpower जनशक्ति गतिमत्ता/
जुटाव
- Mobilisation of resources साधनों की गतिमत्ता
- Mobilisation of savings बचतों की गतिमत्ता,
बचत जुटाव
- Mobility गतिशीलता
- Mobility, imperfect अपूर्ण गतिशीलता
- Mobility, occupational व्यावसायिक गतिशीलता
- Mobility, perfect पूर्ण गतिशीलता
- Mobility, social सामाजिक गतिशीलता
- Mobility, upward ऊर्ध्व गतिशीलता
- Mobility of capital पूँजी की गतिशीलता
- Mobility of factors of production उत्पादन के
साधनों की गतिशीलता
- Mobility of labour श्रम की गतिशीलता
- Mobility of labour, geographical श्रम की
भौगोलिक गतिशीलता
- Mobility of labour, horizontal श्रम की सम-
स्तर गतिशीलता
- Mobility of labour, vertical श्रम की उदप्र
गतिशीलता
- Mode of assessment कर-निर्धारण विधि
- Mode of operation कार्य-प्रणाली
- Mode of production उत्पादन-पद्धति, उत्पादन का
ढंग
- Model analysis मॉडल विश्लेषण, प्रतिरूप परक
विश्लेषण
- Model building मॉडल-निर्माण
- Moderate demand संयत माँग, सममित माँग
- Moderate plan सममित योजना, समत योजना
- Moderately developed साधारणतया विकसित
- Moderately underemployed सामान्य रूप में
अल्परोज़गार
- Modern method आधुनिक रीति
- Modern theory of rent लगान का आधुनिक
सिद्धान्त
- Modern utility theory आधुनिक उपयोगिता
सिद्धान्त
- Modernisation आधुनिकीकरण
- Modernisation of equipment उपकरणों का
आधुनिकीकरण
- Momentary dynamic analysis क्षणिक गत्या-
त्मक विश्लेषण
- Momentary equilibrium क्षणिक संतुलन
- Monetary aggregates मौद्रिक योग, मौद्रिक समूह
- Monetary approach मौद्रिक रीति
- Monetary approach to balance of payments
मुगताम-शेष के प्रति मौद्रिक दृष्टिकोण
- Monetary area मुद्रा-क्षेत्र
- Monetary aspects of international trade
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मौद्रिक पहलू
- Monetary authority मौद्रिक अधिकार, मौद्रिक
अधिकारी
- Monetary changes मौद्रिक परिवर्तन
- Monetary contraction मुद्रा संकुचन
- Monetary control मौद्रिक नियंत्रण
- Monetary co-operation मौद्रिक सहयोग

Monetary co-operation, international अन्त- राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग	Monetary system मुद्रा प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक पद्धति
Monetary crisis मौद्रिक संकट, मुद्रा संकट	Monetary theory मौद्रिक सिद्धांत, मुद्रा सिद्धांत
Monetary crisis, world विश्व मुद्रा संकट	Monetary transactions मौद्रिक सौदे, मौद्रिक व्यवहार
Monetary demand मौद्रिक मांग	Monetary unit मुद्रा इकाई/एकक
Monetary disequilibrium मौद्रिक असंतुलन	Monetary values मुद्रा मूल्य
Monetary economics मुद्रा/मौद्रिक अर्थशास्त्र	Monetisation of debt ऋण का मुद्रीकरण
Monetary equilibrium मौद्रिक संतुलन	Monetise मुद्रीकरण
Monetary expansion मौद्रिक विस्तार	Monetised economy मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था
Monetary factors मौद्रिक कारण, मौद्रिक तत्त्व	Monetised sector मुद्रीकृत क्षेत्र
Monetary gold stock मौद्रिक स्वर्ण भंडार	Money मुद्रा, धन्य
Monetary grant मौद्रिक अनुदान	Money, appreciation of मुद्रा की मूल्य-वृद्धि
Monetary heretics मुद्रा सिद्धान्त के विरोधी	Money, bad निकृष्ट मुद्रा
Monetary inflation मौद्रिक स्फीति	Money, bank बैंक मुद्रा
Monetary limit मौद्रिक सीमा	Money, bargains नकद सौदे, मौद्रिक सौदे
Monetary measures मौद्रिक उपाय	Money, caution अवधान मुद्रा
Monetary mechanism मुद्रा-संज्ञ, मौद्रिक प्रक्रिया	Money, characteristics of मुद्रा के लक्षण
Monetary phenomenon मौद्रिक घटना	Money, cheap सस्ती मुद्रा, कम-ब्याज मुद्रा
Monetary policy मौद्रिक नीति	Money, chest तिजोरी, रोकड़
Monetary policy, neutral तटस्थ मुद्रा नीति	Money, commodity वस्तु मुद्रा, पदार्थ मुद्रा
Monetary policy, objectives of मौद्रिक नीति के उद्देश्य	Money, compensation principle of मुद्रा का प्रतिपूरक सिद्धान्त
Monetary policy, revival of मौद्रिक नीति का पुनरुद्धार/पुनरुत्थान	Money, conscience ईमानो मुद्रा
Monetary policy, weapons of मौद्रिक नीति के अस्त्र	Money, convertible परिवर्तनीय मुद्रा
Monetary problems मौद्रिक समस्याएँ	Money, credit साख-मुद्रा
Monetary purge मौद्रिक मार्जन	Money, dear महंगी मुद्रा, अधिक ब्याज पर प्राप्त मुद्रा
Monetary reforms मौद्रिक सुधार	Money, depreciation of मुद्रा का मूल्यह्रास
Monetary reserves मुद्रा रिजर्व, मौद्रिक प्रारक्षण	Money, dynamic function of मुद्रा का गत्यात्मक कार्य
Monetary resources मौद्रिक साधन	Money, fiat साख मुद्रा, बागजी मुद्रा
Monetary reward मौद्रिक पुरस्कार/प्रतिफल/ पारिधमिक	Money, fiduciary विश्वासायित मुद्रा
Monetary school मुद्रावादी सम्प्रदाय, मुद्रावादी विचारधारा, मौद्रिक सम्प्रदाय	Money, floating चल मुद्रा
Monetary sector मौद्रिक क्षेत्र	Money, functions of मुद्रा के कार्य
Monetary stability मौद्रिक स्थायित्व	Money, good अच्छी मुद्रा
Monetary standard मौद्रिक प्रमाण, मुद्रा-मान	Money, hat सावधानी प्रभार
Monetary stringency मुद्रा की तंगी	Money, hearth चूल्हा बर
	Money, hot क्षुब्ध मुद्रा, उत्प्रवाही मुद्रा—क्षुब्ध

मुद्रा से अभिप्राय एक देश से दूसरे देश की ग्रीर प्रवाहित अल्पकालीन पूंजी गतिविधियों से है, जो या तो प्रथिक व्याज-प्राप्ति के लिए प्रेरित होती है, या प्रायः पूंजी की सुरक्षा के लिए होती है। इन पूंजी-गतिविधियों का सुगतान-रोप पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

- Money, ideal आदर्श मुद्रा
 Money, idle निष्क्रिय मुद्रा
 Money, inactive निष्क्रिय मुद्रा
 Money, international अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा
 Money, legal tender वैध मुद्रा, कानूनी ग्राह्य मुद्रा
 Money, limited legal tender सीमित वैध मुद्रा
 Money, managed प्रबन्धित मुद्रा
 Money, metallic धातु मुद्रा
 Money, near लगभग मुद्रा
 Money, neutral तटस्थ मुद्रा
 Money, non-legal tender अवैध मुद्रा, गैर-कानूनी ग्राह्य मुद्रा
 Money, occupation आधिपत्य मुद्रा
 Money, optional ऐच्छिक मुद्रा
 Money, proper शुद्ध मुद्रा
 Money, purchasing power of मुद्रा की क्रय-शक्ति
 Money, quantity of मुद्रा का परिमाण/मात्रा
 Money, quantity theory of मुद्रा का परिमाण सिद्धांत
 Money, quantity theory of, the Fisherian version मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का फिशर द्वारा विवरण
 Money, quantity theory of, Cambridge version मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज विवरण
 Money, representative प्रतिनिधि मुद्रा
 Money, shadow धायासी मुद्रा
 Money, sitting बैठे मुद्रा, निबंध मुद्रा—मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के नकद-क्षेप समीकरण का संबंध इससे है।
 Money, spearhead आधिपत्य मुद्रा
 Money, stamped मुद्रांकित मुद्रा/द्रव्य

- Money, standard प्रामाणिक मुद्रा
 Money, state राजकीय मुद्रा
 Money, supply of मुद्रा का संभरण
 Money, tight महंगी मुद्रा, अधिक व्याज प्राप्ता मुद्रा
 Money, till तिजोरी, रोकड़
 Money, token प्रतीक मुद्रा
 Money, unlimited legal tender असीमित वैध मुद्रा
 Money, veil of मुद्रा-आवरण—यदि आर्थिक समस्याओं के केवल मौद्रिक पक्ष पर प्रत्यक्ष बल दिया जाए, तो इसके कारण वास्तविक आर्थिक शक्तियों के महत्व पर एक परदा पड़ जाता है। उदाहरणार्थ, पूर्ण रोजगार के काल में, प्रस्तावित सरकारी परियोजना की मौद्रिक लागत ही सबसे अधिक महत्व नहीं रखती, बल्कि इसकी वास्तविक लागत अर्थात् इसके लिए भ्रम ग्रीर उत्पादन के अन्य साधनों को उनके वर्तमान प्रयोग से हटाकर उन्हें सरकारी परियोजना में लगाना होगा। केवल मौद्रिक पक्षों पर बल देने से अन्य आर्थिक शक्तियों पर एक आवरण पड़ जाता है जिसे मौद्रिक आवरण कहा जाता है।
 Money, velocity of circulation of मुद्रा का प्रचलन प्रवेग, मुद्रा की भ्रमण/परिचलन गति
 Money, volume of मुद्रा की मात्रा
 Money, wild cat अस्थिर बैक मुद्रा
 Money and saving मुद्रा और बचत
 Money assets मौद्रिक परिसम्पत्
 Money at call याचना पर देय मुद्रा
 Money at call and short-notice याचना एवं अल्पकाल सूचना पर देय राशि
 Money bargains नकद सौदे, मौद्रिक सौदे
 Money burden मौद्रिक भार
 Money burden, direct प्रत्यक्ष मौद्रिक भार
 Money burden, indirect परोक्ष/अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार
 Money burden of tax कर का मौद्रिक भार
 Money capital मुद्रा पूंजी
 Money costs मौद्रिक लागत, मुद्रा परिव्यय
 Money creation मुद्रा निर्माण/सृजन

Money deflation मुद्रा ऋवसफीत
 Money demand मुद्रा माँग
 Money earnings मुद्रा रूपी आय, मौद्रिक आय
 Money economy मौद्रिक अर्थव्यवस्था
 Money exchange मुद्रा-विनिमय
 Money flow analysis मुद्रा प्रवाह विश्लेषण
 Money flows मुद्रा-प्रवाह
 Money hoards मौद्रिक आसक्त्य
Money illusion मौद्रिक भ्रम—करेन्सी की क्रय-
 शक्ति का ध्यान न रखते हुए इसका मनोवैज्ञानिक
 मूल्यांकन । मौद्रिक भ्रम तब उत्पन्न होता है जब
 व्यक्ति मुद्रा के मूल्य को उस पर अंकित मूल्य के
 साथ जोड़ लेता है और इस बात की परवाह
 नहीं करता कि इसका वास्तविक मूल्य क्या है ।
 अतः इस भ्रम के प्रभावधीन एक व्यक्ति जब
 उसकी मजदूरी दुगुनी होती है, तो वह अधिक
 तुष्टि महसूस करता है चाहे कीमतें भी दुगुनी ही
 हो गयी हों । कुछ अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि
 मौद्रिक भ्रम वा श्रमिकों पर भारी प्रभाव पड़ता है
 क्योंकि श्रमिक अपने व्यवहार में बहुत हद तक
 मौद्रिक मजदूरी से प्रेरित होते हैं, न कि वास्तविक
 मजदूरी से । अतः कीमतों के गिरने पर यदि
 श्रमिकों की मजदूरी कम कर दी जाए, तो बहुत
 से श्रमिक काम करने से इन्कार कर देंगे चाहे
 उनकी वास्तविक मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं
 हुआ । इसी प्रकार यदि मौद्रिक मजदूरी को थोड़ा
 बड़ा दिया जाए, चाहे कीमतें अपेक्षाकृत अधिक
 बढ़ गयी हों और वास्तविक मजदूरी मौद्रिक
 मजदूरी बढ़ाने के पश्चात् भी कम हो, तब भी
 श्रमिक काम करना बन्द नहीं करेंगे ।

Money in circulation परिचलन में मुद्रा
 Money income मौद्रिक आय
 Money lender साहूकार, ऋणदाता
 Money lender, agriculturist कृषक साहूकार
 Money lender, professional व्यावसायिक साहूकार
 Moneyless economy मुद्रारहित अर्थव्यवस्था
 Money market मुद्रा-बाजार
 Money measure of income आय का मुद्रा-माप

Money measure of value मूल्य का मुद्रा-माप
 Money national income मौद्रिक राष्ट्रीय आय
 Money of account लेखा मुद्रा
Money on the wings उड़ती अथवा संचलन
 मुद्रा, अतिवेगवान मुद्रा—मुद्रा के परिमाण सिद्धांत
 के व्यवहार समीकरण का संघर्ष इससे है ।
 Money panic मुद्रा सत्रास
 Money prices मुद्रा रूपी कीमतें, मौद्रिक मूल्य
 Money profit मौद्रिक लाभ
 Money rate मौद्रिक दर
 Money supply with the public जनता के पास
 मुद्रा की मात्रा
 Money transactions मुद्रा व्यवहार, मौद्रिक सोदे
 Money use मौद्रिक प्रयोग
 Money value मौद्रिक मूल्य
 Money wage मौद्रिक मजदूरी, नकद मजदूरी
 Money wage and employment मौद्रिक मजदूरी
 तथा रोजगार
 Money wage level मौद्रिक/नकद मजदूरी-स्तर
 Money work मुद्रा/मौद्रिक कार्य
 Mono-metallic standard एक धातुमान
 Mono-metallism एन-धातुवाद, एक-धातु मान
 Monopolies, dissolution एकाधिकारों का विघटन
 Monopolies and restrictive trade practices
 act एकाधिकार एवं निबंधनकारी/प्रतिबंधात्मक
 व्यापार व्यवहार अधिनियम
 Monopolies and Restrictive Trade Practices
 Commission एकाधिकार एवं निबंधनकारी/
 प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग
 Monopolisation एकाधिकरण, एकाधिकार करना
 Monopolisation, increasing degree of निरन्तर
 बढ़ता हुआ एकाधिकरण
 Monopolised एकाधिकृत
 Monopolist एकाधिकारी
 Monopolistic association एकाधिकारी संगठन
 Monopolistic behaviour एकाधिकारी/एकाधि-
 कारात्मक व्यवहार
 Monopolistic combination एकाधिकारी संघ

- Monopolistic competition एकाधिकारी प्रति-
योगिता
- Monopolistic control एकाधिकारी नियंत्रण
- Monopolistic exploitation एकाधिकारारत्मक
शोषण
- Monopolistic firm एकाधिकारी फर्म
- Monopolistic gains एकाधिकारी लाभ
- Monopolist-monopsonist एक-विक्रेता-एक-क्रेता
- Monopolist-monopsonist firm एक विक्रेता-
एक-क्रेता फर्म
- Monopolistic organisation एकाधिकारी संगठन
- Monopolistic proclivities एकाधिकारारत्मक
प्रवृत्तियाँ
- Monopolistic tendencies एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ,
एकाधिकारवादी प्रवृत्तियाँ
- Monopoloid एकाधिकार सदृश
- Monopoly एकाधिकार
- Monopoly, absolute परम एकाधिकार
- Monopoly, abuses of एकाधिकार के बुराप्रयोग
- Monopoly, artificial कृत्रिम एकाधिकार
- Monopoly, bilateral द्विपक्षीय एकाधिकार
- Monopoly, control and regulation of एका-
धिकार नियंत्रण एवं विनियमन
- Monopoly, degrees of एकाधिकार की श्रेणियाँ
- Monopoly, discriminating भेदमूलक एकाधिकार
- Monopoly, discriminatory भेदमूलक एकाधिकार
- Monopoly, fiscal राजकीय एकाधिकार
- Monopoly, full पूर्ण एकाधिकार
- Monopoly, growth एकाधिकार की अभिवृद्धि
- Monopoly, institutional संस्थानारत्मक एका-
धिकार
- Monopoly, international अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार
- Monopoly, legal कानूनी एकाधिकार
- Monopoly, limited सीमित एकाधिकार
- Monopoly, local स्थानीय एकाधिकार
- Monopoly, merits of एकाधिकार के गुण
- Monopoly, natural स्वाभाविक/प्राकृतिक एकाधिकार
- Monopoly, near लगभग एकाधिकार, एकाधिकारवत्
- Monopoly, perfect संपूर्ण/पूर्ण एकाधिकार
- Monopoly, private निजी एकाधिकार
- Monopoly, public सार्वजनिक एकाधिकार
- Monopoly, public utility जनोपयोगी एकाधिकार
- Monopoly, qualified सशर्त एकाधिकार, सीमित
एकाधिकार
- Monopoly, quasi आभास एकाधिकार
- Monopoly, semi अर्द्ध एकाधिकार
- Monopoly, simple साधारण एकाधिकार
- Monopoly, social सामाजिक एकाधिकार
- Monopoly, state राजकीय एकाधिकार, सरकारी
एकाधिकार
- Monopoly, strong प्रबल एकाधिकार
- Monopoly, voluntary ऐच्छिक एकाधिकार
- Monopoly and exploitation एकाधिकार तथा
शोषण
- Monopoly Capital एकाधिकार पूँजी—एका-
धिकार पूँजी से अभिप्राय कितनी देस में वर्तमान
उस आर्थिक स्थिति से है जिसमें उत्पादन की कुछ
इकाइयाँ—चाहे बड़े औद्योगिक निगम या बड़े
औद्योगिक घराने—औद्योगिक पूँजी के नियंत्रण
पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेते हैं। एकाधिकार
पूँजी की विद्यमानता एवं विकास का राज्य के
स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ता है, परिणामतः
सामाजिक एवं आर्थिक विधान भी इस परिस्थिति
का प्रतिबिम्ब होता है।
- Monopoly Control Commission एकाधिकार
नियंत्रण आयोग
- Monopoly control policies एकाधिकार नियंत्रण
की नीतियाँ
- Monopoly element एकाधिकारारत्मक तत्त्व/अंश
- Monopoly equilibrium एकाधिकारारत्मक संतुलन
- Monopoly firm एकाधिकारी फर्म
- Monopoly level एकाधिकारारत्मक स्तर
- Monopoly-monopsonist situation एक
विक्रेता-एक-क्रेता स्थिति
- Monopoly net revenue एकाधिकार शुद्ध आय
- Monopoly on the sources of raw material
कच्चे माल के स्रोतों पर एकाधिकार
- Monopoly output एकाधिकारारत्मक उत्पादन

Monopoly power एकाधिकार शक्ति	More productive uses अधिक उत्पादक उपयोग
Monopoly price एकाधिकार मूल्य/कीमत	Mortality मृत्यु-दर
Monopoly pricing एकाधिकारात्मक कीमत-निर्धारण	Mortality, child बाल मृत्यु-दर
Monopoly privileges एकाधिकार सम्बन्धी विशेषाधिकार	Mortality, female स्त्री मृत्यु-दर
Monopoly procurement वसूली एकाधिकार	Mortality, infant शिशु मृत्यु-दर
Monopoly producer एकाधिकारी उत्पादक	Mortality rate मृत्यु-दर
Monopoly profit एकाधिकारी लाभ	Mortgage बन्धक, रेहन, गिरवी
Monopoly return एकाधिकार-प्रत्याय	Mortgage, amortized परिशोधित बन्धक
Monopoly revenue एकाधिकार आय	Mortgage, blanket व्यापक बन्धक
Monopoly ridden economy एकाधिकार ग्रस्त प्रथमवस्था	Mortgage, chattel चल सम्पत्ति बन्धक
Monopoly solution एकाधिकारी हल	Mortgage, closed छवरेड बन्धक
Monopoly surplus एकाधिकारी अतिरिक्त	Mortgage, closed end एक्स ऋण बन्धक
Monopoly through combination समामेलन एकाधिकार	Mortgage, consolidated समेकित बन्धक
Monopoly value एकाधिकारी मूल्य	Mortgage, equitable साम्बन्धक बन्धक
Monopoly wages एकाधिकारी मजदूरी	Mortgage, leasehold पट्टेदारी बन्धक
Monopsonist firm एक-क्रेता फर्म	Mortgage, open-end बहुलऋण बन्धक
Monopsonistic competition एक-क्रेताधिकार प्रतिस्पर्धा	Mortgage, ordinary साधारण बन्धक
Monopsonistic labour market एक-क्रेताधिकार श्रम बाजार	Mortgage, overlying अधिदायी बन्धक, पश्चता प्राप्त बन्धक
Monopsonistic net profit क्रेता-एकाधिकार विशुद्ध लाभ	Mortgage, refunding वापसी बन्धक
Monopsony एक-क्रयण, क्रेताधिकार, क्रेता एकाधिकार	Mortgage, straight मितो व्याज बन्धक
Monopsony power एक-क्रयण शक्ति	Mortgage, underlying पूर्वता प्राप्त बन्धक, पूर्वाधिकार बन्धक
Monotonous work नीरस कार्य	Mortgage bank बन्धक बैंक
Monthly income मासिक आय	Mortgage bond बन्धक बाँड
Monthly payment मासिक भुगतान	Mortgage debenture बन्धक ऋण-पत्र
Moral concept नैतिक धारणा	Mortgage encumbrance बन्धक भार
Morale survey मनोबल सर्वेक्षण	Mortgage holder बन्धक ग्राही
Moral pressure नैतिक दबाव	Mortgage indebtedness बन्धक ऋणग्रस्तता
Moral restraint सत्यम	Mortgage land बन्धक भूमि
Moral suasion नैतिक अनुरोध	Mortgage market बन्धक बाजार
Moratorium ऋण स्थगन काल	Mortgage money बन्धक राशि
More or less न्यूनाधिक	Mortgage payments गिरवी भुगतान
	Mortgage property बन्धक सम्पत्ति
	Mortgage security company बन्धक प्रतिभूति कम्पनी
	Mortgagee बन्धक-ग्राही
	Mortgager/mortgagor बन्धक दाता
	Mosaic law मुसा नियम

Most equitable सबसे अधिक/सर्वाधिक न्यायपूर्ण

Most-favoured nation clause परमानुगृहीत

राष्ट्र कण्डिका—परमानुगृहीत राष्ट्र कण्डिका का प्रयोग ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सन्धियों में किया जाता है जिनके आधीन जो टैरिफ रियायतें कोई देश किसी अन्य देश को देता है, वे उन सभी देशों को देने का भी वचन देता है जिनसे वह व्यापारिक समझौते करता है। उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन ने सभी राष्ट्र मण्डल देशों (Commonwealth countries) को परमानुगृहीत राष्ट्र व्यवहार प्रदान किया। ये टैरिफ रियायतें बिना किसी शर्त के प्रदान की जा सकती हैं और ऐसी अवस्था में टैरिफ घटाने वाले देश के साथ जो राष्ट्र भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करेगा, उसे अपने आप ही वे सभी टैरिफ रियायतें मिलनी आरम्भ हो जायेंगी जो परमानुगृहीत राष्ट्रों को प्राप्त हैं। इसके विरुद्ध, शर्त परमानुगृहीत राष्ट्र व्यवहार के आधीन टैरिफ-रियायतें उसी हालत में प्रदान की जाती हैं, यदि इन्हें प्राप्त करने वाला देश बदले में ऐसी ही रियायतें देने के लिए तैयार हो।

1914 तक शर्त-रहित परमानुगृहीत राष्ट्र व्यवहार दिया जाता था और इसके पक्ष में तर्क यह दिया जाता था कि इससे निर्वाह व्यापार प्रोन्नत होता है। ग्रेट ब्रिटेन इसका सबसे बड़ा समर्थक था। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान कोटा तथा व्यापार पर अन्य कई प्रकार के प्रतिबन्धों के कारण शर्त-रहित परमानुगृहीत राष्ट्र व्यवहार पड़ति कमजोर पड़ गयी। जब सभी द्विपक्षीय सन्धि के आधीन टैरिफ घटाने से दोनों देशों के समझौते के कारण अन्य देशों को प्राप्त लाभ उनसे प्राप्त होने वाले लाभ से बढ़ जाते हैं, तो शर्त-रहित कण्डिका टैरिफ घटाने के मार्ग में बाधा बन जाती है। द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया गया और टैरिफ एवं व्यापार की सामान्य सन्धि (General Agreement on Tariff and Trade) कायम की गयी। इस सन्धि पर 42 देशों ने हस्ताक्षर किए जो कुल विश्व व्यापार के 80 प्रतिशत से अधिक के लिए

उत्तरदायी हैं। परिणामतः टैरिफ-भेद की समस्या जो एक समय अन्तर्राष्ट्रीय विवाद का मुख्य विषय थी, अब काफी हद तक समाप्त हो गयी है। GATT के आधीन द्विपक्षीय टैरिफ सन्धियों को परमानु-गृहीत राष्ट्र कण्डिका के प्रयोग द्वारा सामान्य रूप दे कर बहु-पक्षीय सन्धियों में परिवर्तन किया गया।

Motive forces प्रेरक शक्तियाँ

Motives for nationalisation राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य/प्रयोजन

Motor transport मोटर-परिवहन

Movable property चल सम्पत्ति

Movement in prices कीमत में उतार-चढ़ान

Movement of factors of production उत्पादन-कारकों की गतिशीलता

Movement of historical forces ऐतिहासिक शक्तियों की गतिविधि

Movement of population जनसंख्या की गति-विधि

Moving par चल समता

Mucker रेखा

Mulet श्रम्य दण्ड, वित्तदण्ड

Mulcted श्रम्य दण्डित

Multi-dimensional बहु-प्रायामी

Multi-employer bargaining बहु-मालिक सौदा-कारी

Multi-employer unit बहु-मालिक इकाई

Multilateral convertibility बहुमुखी परिवर्तन-शीलता

Multilateral trade बहु-पक्षीय व्यापार

Multilateral trading system बहु-पक्षीय व्यापार प्रणाली

Multilateral treaty बहुपक्षीय संधि

Multilateralism बहु-पक्षीय मान

Multiple budget बहु-विभागी बजट

Multiple correlation बहुविध सह-सम्बन्ध

Multiple cost बहुविध लागत

Multiple counting बहुविध गणना

Multiple currency arrangements or system बहुविध करेंसी प्रणाली

Multiple currency practice बहुमुखी करेन्सी व्यवस्था

Multiple currency unit बहुविध करेन्सी इकाई

Multiple ends बहुविध उद्देश्य, अनेक उद्देश्य

Multiple equilibrium बहुविध संतुलन

Multiple exchange rate बहुविध विनिमय दर

Multiple expansion बहुविध विस्तार, गुणक विस्तार

Multiple legal tender बहुविध-ग्राह्य

Multiple note issue बहुविध नोट प्रचालन

Multiple products बहुविध वस्तुएँ

Multiple tariff system बहुविध टैरिफ प्रणाली

Multiple tax system बहुविध कर प्रणाली

Multiplication of products उत्पादों का गुणन

Multiplication of services सेवाओं का गुणन

Multiplier गुणक— गुणक की धारणा केन्ज द्वारा और

भी विशेषरूप से विकसित की गई। विनियोग-व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय की वृद्धि के अनुपात को गुणक कहते हैं। सामान्यतया गुणक इकाई से अधिक होता है। इसका महत्त्व इस बात में है कि इच्छित राष्ट्रीय आय या रोजगार की वृद्धि के लिए अपेक्षाकृत कम मात्रा में विनियोग व्यय करना पड़ता है। गणितीय रूप में

$$\text{गुणक (K)} = \frac{1}{1-C}$$

जहाँ I का अर्थ विनियोग-व्यय से है और C सीमान्त उपभोग-प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Consume) है।

गुणक के क्रियाशील होने का मुख्य कारण यह है कि किसी एक उद्योग या क्षेत्र में विनियोग व्यय बढ़ाने से उस उद्योग या क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की आय बढ़ जाती है। वे इस आय-वृद्धि द्वारा अन्य उद्योगों की वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग करते हैं। इस प्रकार आरम्भिक विनियोग-व्यय के कारण जो आय बढ़ती है, वह अन्य उद्योगों में विनियोग को प्रोत्साहित करती है और यह क्रम चलता रहता है। परिणामतः आय वृद्धि विनियोग वृद्धि से गुणक गुना बढ़ जाती है।

Multiplier, calculation of गुणक का परिवर्तन

Multiplier, dynamic गत्यात्मक गुणक

Multiplier, employment रोजगार गुणक

Multiplier, foreign trade विदेशी व्यापार गुणक

Multiplier, income आय गुणक

Multiplier, investment विनियोग गुणक

Multiplier, leakages of गुणक के च्चाव, गुणक का गिन सरण

Multiplier, reverse working of गुणक की विपरीत क्रिया

Multiplier, static स्थैतिक गुणक

Multiplier, working of गुणक-क्रिया

Multiplier-accelerator interaction गुणक-त्वरक की परस्पर क्रिया

Multiplier-accelerator mechanism गुणक-त्वरक यंत्रावली/प्रक्रिया

Multiplier and public investment गुणक और सरकारी निवेश

Multiplier effect गुणक प्रभाव

Multiplier period गुणक अवधि

Multiplier process गुणक-प्रक्रिया

Multi-point system बहु-स्तर पद्धति

Multi-point tax बहु-स्तर कर

Multi-product firm बहु-वस्तु फर्म—यह एक ऐसी फर्म है जो बहुत-सी वस्तुओं का उत्पादन करती है। इसका उद्देश्य एक और ती विपणन सम्बन्धी मितव्ययताएँ प्राप्त करना है और दूसरी ओर कुछ वस्तुओं की माँग में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि को कम करना है। आधुनिक फर्म अधिकतर बहु-वस्तु फर्म ही होती हैं।

Multi-purpose commodity बहु प्रयोजन वस्तु

Multi-purpose co-operative society बहुमुखी सहकारी समिति

Multi-purpose projects बहु-उद्देशीय परियोजनाएँ

Multi-purpose river valley projects बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ

Multi-shift system बहु-पारी पद्धति

Multi-tax बहु-कर

Multi-union bargaining बहु-संघीय सौदाकारी

Multi-unit commodity बहु-इकाई वस्तु

Multi-year planning बहु-वर्षीय आयोजना

Municipal bonds नगरपालिका बाँड, म्युनिसिपल बाँड	National consumption राष्ट्रीय उपभोग
Municipal corporation नगर निगम	National Council of Applied Economic Research (NCAER) व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद्
Municipal enterprises नगरपालिका के व्यवसाय, नागर उद्यम	National debt राष्ट्रीय ऋण
Municipal finance नगरपालिका वित्त	National debt interest राष्ट्रीय ऋण का व्याज
Municipal taxes नगरपालिका कर	National defence certificate राष्ट्रीय रक्षा-पत्र
Municipality नगरपालिका	National defence tax राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कर
Muster parade हार्जिरी परेड	National Development Council राष्ट्रीय विकास परिषद्
Muster roll उपस्थित नामावली	National dividend राष्ट्रीय लाभांश
Mutual intensities of demand माँग की पारस्परिक तीव्रताएँ	National economy राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था
Mutual interdependence theory परस्पर अन्वयान्वाधित सिद्धान्त —सामान्य सतुलन सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है।	National employment service राष्ट्रीय रोजगार सेवा
Mutual savings bank आपसी/परस्पर बचत बैंक	National expenditure राष्ट्रीय व्यय
Mutualism परस्पर सहयोगवाद	National extension service राष्ट्रीय प्रसार सेवा
Mutuality of advantages पारस्परिक लाभ	National finance राष्ट्रीय वित्त
Mutually exclusive परस्पर-अपवर्जक	National fund राष्ट्रीय निधि, राष्ट्र निधि
Mutually related prices परस्पर-सम्बन्धित कीमतें	National income राष्ट्रीय आय
N	National income, gross सकल/कुल राष्ट्रीय आय
Naked debenture अनावृत ऋण-पत्र, अप्रतिभूत ऋण-पत्र	National income, methods of calculating राष्ट्रीय आय गणना की विधियाँ
Nascent industry नवजात उद्योग, नवोदित उद्योग	National income, net शुद्ध राष्ट्रीय आय
National accounts राष्ट्रीय लेखा	National income accounts राष्ट्रीय आय संबंधी लेखा
National advertising देशव्यापी विज्ञापन	National income and economic progress राष्ट्रीय आय और आर्थिक प्रगति
National agricultural income राष्ट्रीय कृषि आय	National income at factor cost साधन लागत के अनुसार राष्ट्रीय आय
National aspiration राष्ट्रीय आकांक्षा	National income at market prices बाजार मूल्यानुसार राष्ट्रीय आय
National average density राष्ट्रीय औसत जन-घनत्व/घनत्व	National income before transfer हस्तांतरण से पूर्व राष्ट्रीय आय
National balance sheet राष्ट्रीय तुलन-पत्र, राष्ट्रीय विट्टा	National Income Committee राष्ट्रीय आय समिति
National budget राष्ट्रीय बजट	National income in money terms मुद्रा रूप में राष्ट्रीय आय
National capital राष्ट्रीय पूँजी	National income in real terms वास्तविक रूप में राष्ट्रीय आय
National capital account राष्ट्रीय पूँजी लेखा	
National Coal Development Corporation (NCDC) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	
National Commission on Labour राष्ट्रीय श्रम आयोग	

- National income total राष्ट्रीय आय का योगफल
 National insurance scheme राष्ट्रीय बीमा योजना
 National investment board राष्ट्रीय निवेश मंडल
 National Labour Commission राष्ट्रीय श्रम आयोग
 National market राष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय मंडी
 National minimum राष्ट्रीय न्यूनतम
 National output राष्ट्रीय उत्पादन
 National plan loan certificate राष्ट्रीय योजना ऋण-पत्र
 National plan saving certificate राष्ट्रीय योजना बचत-पत्र
 National Planning Committee राष्ट्रीय आयोजन समिति
 National policy राष्ट्रीय नीति
 National product (= National output) राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पादन
 National product, gross कुल राष्ट्रीय उत्पाद
 National product, net शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
 National prosperity राष्ट्रीय समृद्धि
 National revenue राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय राजस्व
 National Sample Survey राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
 National saving certificate राष्ट्रीय बचत-पत्र
 National security tax राष्ट्रीय सुरक्षा कर
 National Seeds Corporation राष्ट्रीय बीज निगम
 National thrift policy राष्ट्रीय मितव्ययता नीति
 National wealth राष्ट्रीय धन, राष्ट्रीय सम्पत्ति
 National welfare राष्ट्रीय कल्याण
 Nationalisation राष्ट्रीयकरण
 Nationalisation of banks बैंकों का राष्ट्रीयकरण
 Nationalisation of industries उद्योगों का राष्ट्रीयकरण
 Nationalisation of land भूमि का राष्ट्रीयकरण
 Nationalise राष्ट्रीयकरण करना, राष्ट्रीय बनाना
 Nationalised industries राष्ट्रीयकृत उद्योग
 Nationalised undertaking राष्ट्रीयकृत उद्यम
- Nationalism, aggressive आक्रामक राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद
 Nationalism, economic आर्थिक राष्ट्रवाद
 Natural capital प्राकृत पूंजी
 Natural checks नैसर्गिक रोक
 Natural economic order प्राकृतिक प्राथिक व्यवस्था
 Natural economy नैसर्गिक अर्थव्यवस्था, विनिमय-हीन अर्थव्यवस्था
 Natural endowment प्राकृतिक सम्पदा
 Natural goods प्राकृतिक वस्तुएं
 Natural growth rate स्वाभाविक वृद्धि-दर, स्वाभाविक विवास दर
 Natural material resources प्राकृतिक भौतिक ससाधन
 Natural money प्राकृत मुद्रा
 Natural monopoly प्राकृतिक/नैसर्गिक/स्वाभाविक एकाधिकार
 Natural order प्राकृतिक विधान—प्राकृतिक विधान की धारणा 18वीं शताब्दी में फिजियोक्रैट सम्प्रदाय (Physiocrats) द्वारा प्रतिपादित की गई। इस धारणा के अनुसार आर्थिक जीवन ऐसे नियमों से प्रभावित है जो सर्वव्यापक रूप में लागू हैं। इस कारण अधिकतर क्षेत्रों में सरकार की मानवीय ध्वंसकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निर्वाण अर्थव्यवस्था (Laissez faire Economy) का सिद्धान्त इसी धारणा से विकसित किया गया। फिजियोक्रैट सम्प्रदाय से प्रभावित होकर एडम स्मिथ भी यह विचार रखता था कि प्राकृतिक विधान, मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए विधान के विरुद्ध, प्रकृति की स्थिति है। अतः प्राकृतिक विधान का सार इसमें है कि व्यक्ति का विशिष्ट हित और सामाजिक हित एक दूसरे से समन्वित हैं। चूंकि निजी हित के लिए प्रयास करना मानव जीवन का एक अंग मात्र है, प्रति-बन्धों को हटाना और बन्धनों को दूर करना सभी मनुष्यों के हित में है।
 Natural price स्वाभाविक मूल्य/कीमत
 Natural rate of interest स्वाभाविक व्याज-दर
 Natural rate of profit स्वाभाविक लाभ-दर

Natural resources प्राकृतिक संसाधन
 Natural selection प्राकृतिक चरणा/चयन
 Natural wage स्वाभाविक मजदूरी
 Natural wastage सामान्य ह्रीज/अपव्यय/धति
 "Natura non facit saltum" 'प्रकृति कभी नी
 शून्यता सहन नहीं करती' (लैटिन कहावत)—
 मार्शल ने अपने मुद्रसिद्ध ग्रन्थ में लिखा, "प्रकृति
 दीर्घकाल और अल्पकाल के बीच कोई परम भेद
 नहीं करती, परन्तु ये दोनों अव्ययन क्रम द्वारा एक
 दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, और जो एक समस्या
 के लिए अल्पकाल है, वही दूसरे के लिए दीर्घकाल
 है।" मार्शल ने अपने समग्र अर्थशास्त्र सम्बन्धी
 विश्लेषण में इस दर्शन को आधार बनाया।
 Nature-made goods प्रकृतिकृत वस्तुएँ
 Nature of competition प्रतियोगिता की प्रकृति,
 स्पर्धा का स्वरूप
 Nature of the crops शस्य स्वरूप
 Near full capacity लगभग पूर्ण क्षमता
 Near full employment लगभग पूर्ण रोजगार
 Near money निकट मुद्रा, आनाता मुद्रा—इस शब्द
 का प्रयोग उन वस्तु(ओं) से है जिन्हें पारिभाषिक
 दृष्टि से मुद्रा नहीं कहा जा सकता किन्तु
 वे मुद्रा के कुछ कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ,
 विनिमय पत्र, सरकारी बॉन्ड आदि 'निकट मुद्रा'
 समझे जाते हैं। कुछ लोग बैंक-जमा को भी निकट
 मुद्रा मानते हैं परन्तु चूँकि बैंक जमा जितका
 प्रयोग बैंक द्वारा भुगतान के लिए किया जाता है,
 कुछ देशों में भुगतान का मुख्य साधन है और न्य
 का प्रयोग माध्यम है, इसलिए इसे मुद्रा के विकास
 की अन्तिम अवस्था मानना चाहिए।
 निकट मुद्रा प्रायः लोगों की उपभोग आदतों
 पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जितनी अधिक
 मुद्रा लोग निकट मुद्रा के रूप में रखेंगे, उतनी ही
 अधिक प्रवल उनकी इच्छा अपनी मौद्रिक आय से
 उपभोग करने की होगी। इसके प्रतिरिक्त अत्य-
 थिक तरल निकट मुद्रा को वास्तविक मुद्रा में
 परिवर्तित किया जा सकता है इससे मुद्रा का
 संभरण महत्वपूर्ण रूप में बढ़ जाता है। इस
 प्रकार यह स्फीति काल में गम्भीर समस्याएँ
 उत्पन्न कर सकती है।

Near substitutes निकट स्थानापन्न वस्तुएँ
 Necessaries अनिवार्यताएँ, आवश्यक वस्तुएँ
 Necessaries, absolute प्रत्यावश्यक वस्तुएँ, अनि-
 वार्यताएँ
 Necessaries, conventional रूढ़ आवश्यकताएँ,
 रिवाजी/परम्परागत आवश्यकताएँ
 Necessaries for efficiency कार्यक्षमता रक्षक
 अनिवार्यताएँ
 Necessaries for existence जीवन-निर्वाह संबंधी
 आवश्यकताएँ
 Necessary business cost आवश्यक व्यावसायिक
 लागत
 Necessitous man दरिद्र, आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति
 Necessity of financial planning वित्तीय
 आयोजन की आवश्यकता
 Need, income according to आवश्यकतानुसार
 आय
 Negative benefit नकारात्मक/शून्यात्मक लाभ/हित
 Negative foreign balance शून्यात्मक विदेशी
 व्यापार-क्षेप
 Negative income effect शून्यात्मक आय प्रभाव
 Negative investment शून्यात्मक निवेश
 Negative rent शून्यात्मक लगान
 Negative reserve शून्यात्मक आरक्षण/रिजर्व
 Negative slope of demand curve माँग वक्र
 की शून्यात्मक ढलान
 Negative substitution effect नकारात्मक प्रति-
 स्थापन प्रभाव
 Negative taxes नकारात्मक कर
 Negative utility शून्यात्मक उपयोगिता
 Negatively inclined demand curve of mono-
 polist एकाधिकारी माँग वक्र की शून्यात्मक
 प्रवृत्ति
 Negotiable instrument परक्राम्य पत्र, वेचनीय
 पत्र
 Negotiability परक्राम्यता, वेचनीयता
 Negotiated price तय कीमत
 Negotiated sale तय विक्रय, तय बिक्री
 Negotiated range चार्ज सीमाएँ
 Neighbouring land पड़ोस की भूमि

Neo classical theory नव प्रतिष्ठित सिद्धान्त, नव-
संस्थापकवाद सिद्धान्त
Neo-classicism नव-संस्थापकवाद
Neo-Keynesianism नव-केन्जवाद
Neo-liberalism नव-उदारतावाद
Neo-Malthusianism नव-माल्थसवाद
Neo-Marxism नव-मार्क्सवाद
Neo-mercantilism नव-वणिक्वाद
Neo-syndicalism नव-संघाधिपत्यवाद
Net accretion निवल उपचय, शुद्ध अभिवृद्धि
Net additions शुद्ध अभिवृद्धि
Net addition to capital पूंजी में शुद्ध अभिवृद्धि
Net advantage निवल लाभ, शुद्ध लाभ
Net aggregate शुद्ध योग
Net amount शुद्ध राशि
Net amount payable शुद्ध देय राशि
Net annual income शुद्ध वार्षिक आय
Net area sown बोया हुआ शुद्ध क्षेत्रफल
Net assets शुद्ध परिसम्पत्, शुद्ध सम्पत्ति
Net barter terms of trade व्यापार की शुद्ध
वस्तु-विनिमय संबंधी शर्तें
Net capital formation शुद्ध पूंजी निर्माण
Net cash flow शुद्ध रोक-प्रवाह
Net circulation शुद्ध परिचलन
Net cost शुद्ध परिष्पय, शुद्ध लागत
Net cropped area शुद्ध सस्यगत क्षेत्र
Net demand शुद्ध माँग
Net disposable income निवल निर्वर्त्य आय
Net domestic product at factor cost साधन
लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
Net draft on savings बचत से शुद्ध विकास
Net earnings शुद्ध कमाई, शुद्ध अर्जन
Net estate शुद्ध जायदाद
Net expenditure शुद्ध व्यय
Net gains शुद्ध लाभ
Net income निवल आय, शुद्ध आय
Net income earned from abroad विदेशों से
अर्जित शुद्ध आय
Net income from foreign assets विदेशी परि-
सम्पत् से शुद्ध आय

Net income method शुद्ध आय प्रणाली
Net increase शुद्ध वृद्धि
Net input शुद्ध अर्पण, शुद्ध इन्पुट, शुद्ध आगत
Net interest शुद्ध/विशुद्ध व्याज
Net investment निवल निवेश
Net leakage निवल रिसत/धरण/व्याप
Net liquidity ratio शुद्ध तरलता अनुपात
Net national debt निवल राष्ट्रीय ऋण
Net national product शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
Net output शुद्ध प्रदा, शुद्ध उत्पाद, शुद्ध निर्गत
Net output method शुद्ध उत्पादन प्रणाली
Net premium शुद्ध व्याज/वहोती
Net price शुद्ध मूल्य/कीमत
Net proceeds निवल बसूली/प्राप्तियाँ
Net product, marginal private सीमांत व्यक्ति-
गत निवल उत्पादन
Net product, marginal social सीमांत सामाजिक
निवल उत्पादन
Net production निवल उत्पादन
Net profit शुद्ध लाभ
Net rate of return प्रतिफल की शुद्ध दर
Net receipt निवल प्राप्ति
Net rent शुद्ध लगान
Net reproduction rate शुद्ध प्रजनन दर
Net retained income शुद्ध प्रतिधृत आय
Net return शुद्ध प्रतिफल
Net revenue शुद्ध आगम
Net sales शुद्ध विक्रय
Net savings निवल बचत
Net selling value शुद्ध विक्रय मूल्य
Net social product शुद्ध सामाजिक उत्पादन
Net surplus शुद्ध अतिरेक, शुद्ध अधिशेष
Net survival rate शुद्ध जीवित दर, शुद्ध उत्तर-
जीविता दर
Net value शुद्ध मूल्य
Net weight शुद्ध भार
Network of commodity price वस्तु कीमतों का
समूह
Net worth (=Net Assets) शुद्ध परिसम्पत्ति-
वृत्ति कर्म द्वारा अर्पण तुलन-पत्र में दायित्वों की

- तुलना में परिसम्पत्ति का अधिभोग प्रस्ताव फर्म के स्वामित्वाधीन पूँजी या शुद्ध परिसम्पत्ति ।
- Net yield शुद्ध प्राप्ति
- Neutral तटस्थ
- Neutral economic effects तटस्थ आर्थिक प्रभाव
- Neutral equilibrium तटस्थ संतुलन
- Neutral equilibrium price तटस्थ संतुलन मूल्य
- Neutral goods तटस्थ वस्तुएँ—जिनके लक्षण में प्रायः प्रभाव शून्य होते हैं ।
- Neutralisation निष्प्रभावीकरण
- Neutralising factors निष्प्रभावकारी तत्त्व
- Neutral market तटस्थ बाजार, तटस्थ मंडी
- Neutral money तटस्थ मुद्रा—तटस्थ मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो विनिमय माध्यम और लेखा इकाई के निष्क्रिय कार्यों को तो करती है परन्तु जो ऐसे मत्वात्मक कार्यों नहीं करती जो समग्र प्रत्यवस्था को प्रभावित करते हैं ।
- Neutral money economy तटस्थ मुद्रा अर्थ-व्यवस्था
- Neutral money policy तटस्थ मुद्रा नीति
- Neutral rate of interest व्याज की निष्प्रभावी दर
- Neutral taxation तटस्थ कराधान
- Neutral technological change तटस्थ तकनीकी परिवर्तन
- New conceptional scheme नवीन प्रत्यवस्थाक योजना
- New Deal न्यू डील, पुनर्व्यवस्था की आर्थिक नीतियाँ—इसका सन्दर्भ 1932-36 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ह्यूवेल्ट द्वारा चलायी गयी नीति से है जिसके अनुसार सरकार ने प्रत्यवस्था को महामंदी (Great Depression) से बाहर निकालने और पुनरुत्थान को प्रोत्साहित करने के लिए भारी मात्रा में सरकारी व्यय का प्रोग्राम बनाया ।
- New Economics नवीन अर्थशास्त्र—केज के रोनार सिद्धान्त को नवीन अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जाती है ।
- New Economic Policy (NEP) नई आर्थिक नीति
- New employment नई सेवा नियुक्ति, नया रोजगार
- New entrants to labour force भ्रम शक्ति में नय प्रवेशक
- New expenditure नवीन व्यय, नया व्यय
- New installation नया अधिष्ठापन/स्थापन
- New issue market नया हिस्सा बाजार, नये शेपरी का बाजार
- New social values and incentives नये सामाजिक मूल्य तथा प्रेरणादाहक
- New tax नया कर
- New Welfare Economics नव-कल्याण अर्थशास्त्र
- Next higher social group अगला उच्चतर सामाजिक वर्ग
- Nibbling price rate उजरत दर घटाते जाना
- Niggardliness of nature प्रकृति की कुपसता
- 'Noblesse oblige' विधेयाधिकार के साथ उत्तरदायित्व
- Nomadic activities सानावधोशी क्रियाएँ
- No measurement, no science यदि माप नहीं, तो विज्ञान कैसा
- Nominal account नाममात्र लेखा
- Nominal capital अधिकृत पूँजी
- Nominal cost अधिकृत परिष्पय
- Nominal income नाममात्र आय
- Nominal monetary value प्रकृत मुद्रा मूल्य
- Nominal partner नाममात्र साझेदार
- Nominal rates of taxation on incomes आय पर कराधान की सांकेतिक दरें
- Nominal rent मुद्रा रूपी लगान
- Nominal value अंकित मूल्य
- Nominal wage मौद्रिक मजदूरी
- Nominee नामित व्यक्ति
- Nominee account बेनामी लेखा
- Nominee shareholding बेनामी हिस्साधारण
- Non-acceptance अस्वीकृति
- Non-agricultural श्रृष्टि, कृषि-विपन्न, गैर-कृषि
- Non-agricultural classes श्रृष्टि वर्ग
- Non-agricultural co-operation श्रृष्टि सह-कारिता
- Non-agricultural gainful employment श्रृष्टि लाभकारी रोजगार

- Non-agricultural income अकृषि आय
 Non-agricultural occupations अकृषि व्यवसाय,
 कृषि-भिन्न व्यवसाय, कृषीतर व्यवसाय
 Non-agricultural population अकृषि जीवी
 जनसंख्या
 Non-agricultural rural population अकृषि
 ग्रामीण जनसंख्या
 Non-agricultural sector कृषि-भिन्न क्षेत्र
 Non-agricultural society अकृषि-समिति,
 कृषीतर समिति
 Non-agricultural uses कृषि-भिन्न प्रयोग, कृषीतर
 प्रयोग
 Non-assessable income कर-प्रतिषेध आय
 Non-banking treasury गैर-बैंकिंग राजकोष
 Non-callable debt विलंबित ऋण
 Non-cereal crops अनाज-भिन्न फसल
 Non-collusive action अकपटसहायी क्रिया, कपट-
 भिन्न क्रिया
 Non-collusive oligopoly गैर-कपट सहायी अत्या-
 विचार
Non-competing groups of labour श्रम के
 अप्रतिस्पर्धी वर्ग—इससे अभिप्राय कर्मचारियों के
 उन समूहों से है जो एक दूसरे के साथ घनिष्ठ
 रूप में प्रतिस्पर्धी नहीं करते। उदाहरणार्थ,
 इंजीनियरों के वेतन में वृद्धि के फलस्वरूप अन्य
 प्रकार के श्रमिकों से प्रत्याशा की जा सकती है
 कि वे प्रसन्न होकर इंजीनियर बन जाएं परन्तु
 अर्द्ध-कुशल श्रमिकों के कम प्रतिशत और कम योग्य
 होने के कारण वे इंजीनियरों के साथ प्रति-
 स्पर्धी नहीं कर सकते हैं। अप्रतिस्पर्धी वर्गों
 का महत्व इस बात में है कि अल्पकाल में
 इनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती और यदि
 किसी एक वर्ग में मजदूरी बढ़ जाए, तो उसके
 परिणामस्वरूप इस वर्ग में श्रम-संभरण बढ़ाने में
 कई वर्ष लग सकते हैं परन्तु अन्य प्रकार के श्रमिक
 अप्रतिस्पर्धी होने के कारण इस बढ़ी हुई माँग का
 लाभ नहीं उठा सकते।
 Non-contractual payment गैर-संबिदागत
 भुगतान
 Non-credit co-operation साख-भिन्न सहकारिता,
 असाख सहकारिता
 Non-credit society साखेतर समिति, असाख
 समिति
 Non-cumulative preference shares असांचयी
 अधिमान हिस्से
 Non-cumulative shares असांचयी हिस्से
 Non-development विकास-भिन्न, विकासेतर
 Non-development expenditure विकास-भिन्न
 व्यय, विकासेतर व्यय
 Non-differential tax सम-प्रभावी कर, अशेदी कर
 Non-disabling injury अनशक्तकारी शक्ति/चोट
 Non-discriminatory duty अशेदमूलक शुल्क,
 अशेदी शुल्क
 Non-distributional relief वितरण-भिन्न छूट
 Non-earning dependant अनर्जक आश्रित
 Non-eatable product अखाद्य उत्पाद
 Non-economic activities आर्थिकेतर क्रियाएँ
 Non-economic choices गैर-आर्थिक चयन
 Non-economic desires आर्थिकेतर इच्छाएँ
 Non-economic ends गैर-आर्थिक लक्ष्य, आर्थिक
 लक्ष्य
 Non-economic factors आर्थिकेतर कारण
 Non-economic grounds आर्थिकेतर आधार
 Non-economic incentives गैर-आर्थिक प्रोत्साहन,
 आर्थिकेतर प्रोत्साहन
 Non-economic welfare गैर-आर्थिक कल्याण
 Non-essential consumer goods अनावश्यक उप-
 भोग वस्तुएँ
 Non-essential imports अननिवार्य आयात
Non-Euclidian economics यूक्लिड-रहित
 अर्थशास्त्र—आर्थिक नियमों का वह समूह जिसका
 आर्थिक जीवन से दूर वा भी संबंध नहीं है।
 Non-exempted goods छूट रहित वस्तुएँ
 Non-exempt expenditure छूट रहित व्यय
 Non-farm entrepreneurial income फार्म-भिन्न
 उद्यमजन्य आय
 Non-farm prices फार्म-भिन्न कीमतें
 Non-fatal accidents अघातक दुर्घटना

- Non-financial aid अ-वित्तीय सहायता
 Non-fiscal measures अ-राजकीय उपाय
 Non-food expenditure खाद्य-भिन्न व्यय
 Non-food imports खाद्य-भिन्न आयात
 Non-food items खाद्योत्तर पदार्थ
 Non-homogeneous units असमान इकाइयाँ
 Non-industrial disability अ-औद्योगिक असक्षमता
 Non-industrial injury अ-औद्योगिक क्षति/घोट
 Non-inflationary situation अस्फीतिकारी स्थिति
 Non-interest bearing security दरवाजी प्रति-
 भूति
 Non-marketable debt अ-विक्रय श्रृणु
 Non-marketable resources अ-विक्रय संसाधन
 Non-material goods अमौलिक वस्तुएँ
 Non-measurable quantity अमापनीय मात्रा
 Non-member's deposit सदस्योत्तर जमा
 Non-monetary advantages अमौलिक लाभ, मुद्रा-
 भिन्न लाभ
 Non-monetary gold अमौलिक स्वर्ण
 Non-monetary methods अमौलिक उपाय
 Non-monetary sector मुद्रा-बिहीन क्षेत्र
 Non-monetised sector अनुद्रीकृत क्षेत्र
 Non-occupational injury व्यवसायोत्तर घोट/
 क्षति
 Non-official assistance असासकीय सहायता, गैर-
 सरकारी सहायता
 Non-optimum position अननुकूलतम अवस्था
 Non-payment गैर-प्रदायी, अयोग्य
 Non-pecuniary damages अर्थोत्तर हर्जा
 Non-plan expenditure गैर-योजना व्यय, योजना-
 भिन्न व्यय
 Non-preferential duties समभावी शुल्क, गैर-
 तरजीही शुल्क, अनधिमानी शुल्क
 Non-price competition मूल्योत्तर प्रतियोगिता
 Non-priority sector प्राथमिकता-भिन्न क्षेत्र
 Non-production bonus उत्पादनोत्तर धोबस
 Non-productive consumption अनुत्पादी उप-
 भोग
 Non-progressives प्रगति-विरोधी, अग्रगतिशील
 Non-psychological economics गैर-मनोवैज्ञानिक
 अर्थशास्त्र
 Non-recurrent capital tax अनावर्ती पूँजी कर
 Non-recurring expenditure अनावर्ती व्यय
 Non-recurring income अनावर्ती आय
 Non-registration अर्थजीवन
 Non-reproducible supply अनुपुनरुत्पाद्य वृत्ति
 Non-revenue receipts राजस्व-भिन्न प्राप्तियाँ
 Non-risk investment जोखिम-रहित निवेश
 Non-rotational director अनावर्ती निदेशक
 Non-scheduled bank अननुसूचित बैंक
 Non-socialised industry असमाजिकृत उद्योग
 Non-specialised equipment अविशेषीकृत उप-
 करण
 Non-specific factor अविशिष्ट कारक—उत्पा-
 दन के साधन जो प्राप्तानी से विकल्प प्रयोगों में
 इस्तेमाल न किए जा सकें।
 Non-standard commodity अप्रमाणीकृत वस्तु
 Non-Sterling area स्टर्लिंग-भिन्न क्षेत्र
 Non-tangible goods अमौलिक वस्तुएँ
 Non-tax payment करोत्तर भुगतान
 Non-tax revenue कर-इतर आय/राजस्व
 Non-tax revenue sources कर-इतर आय स्रोत
 Non-traded share अ-विक्रय शेयर
 Non-traditional occupations अपरम्परागत
 व्यवसाय
 Non-transferable goods अहस्तांतरणीय वस्तुएँ
 Non-traditional products अपरम्परिक उत्पाद/
 वस्तुएँ
 Non-unionist असंघी
 Non-voting shares महाधिकार रहित हिस्से, चोट-
 भिन्न हिस्से
 Non-wage earners मजदूरी न पाने वाले उपाजक,
 अश्रृति अर्जक
 Non-worker गैर-श्रमिक
 Non-working dependants अकार्यकारी आश्रित
 Non-working population अकार्यकारी जनसंख्या
 Non-zamindari rentier गैर-जमींदारी लगान
 उपजीवी,

Non zero price शून्येतर कीमत
 No pays, the अवैतनिक
 No-profit farmer निर्लभ किसान
 No rent land लगानहीन भूमि
 Normal, sub अवसामान्य, सामान्य से कम
 Normal, super अधिसामान्य, सामान्य से अधिक
 Normal action सामान्य क्रिया
 Normal behaviour सामान्य व्यवहार
 Normal credit system सामान्य साख प्रणाली,
 सामान्य उधार प्रणाली
 Normal equilibrium सामान्य साम्य, सामान्य
 सतुलन
 Normal exchange rate सामान्य विनिमय दर
 Normal foreign capital inflow सामान्य विदेशी
 पूँजी का अन्तःप्रवाह
 Normal obsolescence loss सामान्य अप्रचलन
 हानि
 Normal price सामान्य कीमत
 Normal price-quantity relationship कीमत-
 मात्रा का सामान्य संबंध
 Normal productivity सामान्य उत्पादिता
 Normal profit सामान्य लाभ
 Normal rate of return प्रतिफल की सामान्य दर
 Normal tax सामान्य कर
 Normal value सामान्य मूल्य
 Normal wages सामान्य मजदूरी
 Normal work area सामान्य कार्य क्षेत्र
 Normal work week सामान्य कार्य सप्ताह
 Normative currency धातु-प्रमाण चलार्थ/करेन्सी
 Normative economics आदर्शक अर्थशास्त्र
 Normative laws of Economics अर्थशास्त्र के
 आदर्शक नियम
 Normative proposition आदर्शक प्रस्थापना
 Normative science आदर्शक विज्ञान
 Normative study आदर्शक अध्ययन
 No strike clause हड़ताल वज्रंक धारा
 No-tax movement करबन्दी आन्दोलन
 No-taxation without representation बिना
 प्रतिनिधित्व के करवायन नहीं

Note, bank बैंक नोट
 Note, currency करेन्सी नोट
 Note, paper पत्र-मुद्रा
 Note in circulation परित्वलित नोट
 Note issue नोट प्रचालन
 Note issue, elasticity in नोट प्रचालन में लोच
 Note issue, monopoly of नोट प्रचालन का एका-
 धिकार
 Note issue, regulation of नोट प्रचालन का
 नियमन
 Note kept under guarantee प्रस्थाभूत नोट
 Not hoarding संचित न करना
 Notice of abandonment परित्याग सूचना
 Notice of accident दुर्घटना की सूचना
 Notice of assignement अभिहस्ताकन की सूचना,
 समनुदेशन सूचना
 Notice of demand माँग नोटिस, माँग की सूचना
 Notice of dishonour नकार सूचना
 Notice of periods of work कार्य-समय सूचना
 Notice of protest विरोध सूचना
 Notice of trust न्याय-सूचना
Notional Income कल्पित आय—किसी विनि-
 योग पर उसके स्वामी को प्राप्त होने वाली
 कल्पित आय, चाहे वास्तव में कुछ भी प्राप्त न
 हो। उदाहरणार्थ, किसी मकान में रहने वाले
 मकान मालिक को प्राप्त होने वाली आय। इस
 कल्पित आय पर कर भी लगा दिया जाता है।
 Not negotiable cheque अपरक्राम्य चैक
 Not ordinary resident साधारणतः निवासी नहीं
 Novelty goods (=novelties) अनूठी वस्तुएँ
 Numerical elasticity संख्यात्मक लोच
 Numerical measurement संख्यात्मक माप
 Numerical point elasticity of demand माँग
 की अकीय बिन्दु लोच
 Numerical strength संख्यात्मक प्रभाव/शक्ति
 Numerical value of the slope ढलान का संख्या-
 त्मक मूल्य
 Nurses of private enterprises निजी उद्यम के
 पोषक

0

Objective burden of taxation कराधान का वास्तविक भार

Objective condition व्यक्तिनिरपेक्ष शर्त/दशा

Objective data वस्तुपरक आँकड़े, वास्तविक आँकड़े

Objective faculty concept of ability सामर्थ्य की वस्तुपरक शक्ति सम्बन्धी विचारधारा

Objective method of work कार्य की व्यक्ति निरपेक्ष रीति

Objective sampling वस्तुपरक नमूना चयन, वस्तुपरक सैंपल खाना

Objective standard वस्तुपरक स्तर, यवार्पनिष्ठ प्रमाण

Objective test यवार्पनिष्ठ कसौटी

Objective value वस्तुनिष्ठ मूल्य

Obligatory expenditure अनिवार्य व्यय

Observable consumer behaviour अवलोकनीय उपभोक्ता व्यवहार

Observable data पर्यवेक्षणीय तथ्य, प्रेक्ष्य आधार-सामग्री

Observed market behaviour अवलोकित बाजार व्यवहार

Observed values प्रेक्षित मूल्य, अवलोकित मूल्य

Obsolescence अप्रयोग मूल्यह्रास, अपचलन, अप्रचलनमुलता—सकनीकी प्रगति जैसे अविष्कार, प्रक्रियाओं में उन्नति, परिवर्तित आर्थिक दशाओं या विधान में परिवर्तन के कारण किसी पूँजी परिसंपत्ति को प्रयोगहीन होने से पहले ही बदलना अप्रयोग मूल्यह्रास कहलाता है। अप्रयोग मूल्यह्रास और मूल्यह्रास (Depreciation) में भेद यह है कि मूल्यह्रास में तो पूँजी वस्तुओं के प्रयोग के कारण वास्तविक क्षति होती है, परन्तु अप्रयोग मूल्यह्रास में इन्हे अपना पूरा जीवनकाल काम करने से पहले ही अधिक कुशल और अद्यतन पूँजी द्वारा प्रतिस्थापित करना पड़ता है। इस कारण पुरानी मशीनरी चाहे अग्री प्रयोग हो सकती हो, हटानी पड़ती है।

Obsolete machinery अप्रयुक्त मशीनरी

Obsolete methods अप्रचलित तरीके/विधियाँ

Obsolete plants अप्रयुक्त प्लांट

Occasional purchase कादाचनिक खरीद, कादाचनिक क्रम

Occupancy right दखलकारी अधिकार, मौलसी हक

Occupancy tenant दखलकारी काश्तकार, स्थायी काश्तकार

Occupation, caste जातिगत व्यवसाय

Occupation, gainful लाभकारी व्यवसाय

Occupation, manual शारीरिक श्रम वाला व्यवसाय

Occupation, non-traditional अपरम्परागत व्यवसाय

Occupation, part-time अंशकालिक व्यवसाय

Occupation, seasonal मौसमी व्यवसाय

Occupation, traditional परम्परागत व्यवसाय

Occupation, unsheltered अपरिरक्षित व्यवसाय

Occupation money प्राधिपत्य मुद्रा, प्रतिधारण मुद्रा—प्राधिपत्य मुद्रा का अर्थ विहित क्षेत्र में विजयी सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा से है। अधिकतर परिस्थितियों में विहित क्षेत्र की मौद्रिक इकाई में जारी की जाती है और यह एक प्रकार की प्रादिष्ट मुद्रा (Fiat Money) है। इसका प्रयोग स्थानीय मुद्रा के लिए जो कि लोगों को स्वीकार्य होती है किया जाता है ताकि इससे स्थानीय क्रय किया जा सके, स्थानीय श्रम तथा अन्य कर्मचारियों की मजदूरी के लिए मुगतात किया जा सके।

Occupation tax व्यवसाय कर

Occupational category व्यवसाय वर्ग

Occupational distribution व्यावसायिक वितरण, व्यवसायानुसार वितरण

Occupational hazard व्यावसायिक जोखिम/क्षतरा

Occupational immobility व्यावसायिक गतिहीनता

Occupational income व्यावसायिक आय

Occupational mobility व्यावसायिक गतिशीलता

Occupational pattern व्यावसायिक ढाँचा/रूप

Occupational risk व्यावसायिक जोखिम

- स्विति हो जहाँ इसके विपक्ष विक्रेताओं की संख्या अधिक हो, तो अंतरक्रोताधिकार में विक्रेताओं का शोषण होने लगता है। उदाहरणार्थ, भारत में अनेक किसान मण्डी में फसल बेचने के लिए लाते थे और वहाँ कुछ बड़े-बड़े आदरिते उनसे फसल खरीद लेते थे। अब: इस स्विति में अंतरक्रोताधिकार के विद्यमान होने के फलस्वरूप आदरिते किसानों की उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं देते और इस प्रकार किसानों का शोषण होता है। इसी प्रकार उद्योग में भी यदि फर्म के उत्पादन के कुछ ही खरीदार हों, तो वे अपनी मजबूत सौदा-पक्षित के कारण अधिक लाभ उठा सकते हैं।
- On an average basis प्रहल क्षेत्र के आधार पर
- On an average basis औसत आधार पर
- 'Once-and-for-all' changes एकदा व सदा के लिए परिवर्तन—जो परिवर्तन एक बार होकर समाप्त हो जायें और फिर न हों।
- Once-for-all tax सदा के लिए एक बार लगाया जाने वाला कर
- On cost लागत पर
- On credit उधार पर
- On demand माँग पर
- On presentment पेश करने पर/दिलाने पर
- One-man company एक व्यक्ति की कम्पनी
- One off बंधवित्तक इच्छानुसार उत्पादन—किसी आहूक की ब्यक्तिगत इच्छानुसार वस्तु के उत्पादन की व्यवस्था करना।
- One price policy एक दाम/भाव नीति
- Onerous good दुर्बल वस्तु
- Onerous rates दुर्बल मूल्य
- Onerous tax दुर्बल कर
- One-sided transactions एक-पक्षी व्यवहार/सौदे
- On foreign investments विदेशी निवेशों पर
- On lease पट्टे पर
- On loan उधार पर
- Only alternative एकमात्र विकल्प
- On modern lines आधुनिक प्रणाली से
- On payment अदायगी पर, शोधन पर
- On probation पर्याप्त, परीक्षाधीन
- On proportionate basis अनुपातिक आधार पर
- On the demand side माँग पक्ष में
- On the margin सीमात पर
- On the supply side सभरण पक्ष में
- Open account खुला हिसाब, खुला खाना
- Open an account खेला प्रारम्भण, खाता खोलना
- Open cheque खुला चैक
- Open credit निवृत्त उधार
- Open-door policy मुक्त/खुला द्वार नीति—इस नीति के अधीन कोई राष्ट्र विदेशी व्यापार के लिए विदेशियों को समान शर्तों पर व्यापार खोलता है। अर्थ यह है कि जो शर्तें या रियायतें आंतरिक व्यापार के लिए नागरिकों को प्राप्त होती हैं, वही विदेशियों को भी जाती हैं।
- Open-door principle मुक्त-द्वार सिद्धान्त
- Open-end economy अनावृत्त/खुली अर्थव्यवस्था
- Open-end investment company विवृत निवि-योग कम्पनी
- Open-end, open stock खुला अन्वय
- Open-end trade विवृत व्यापार—यह एक अमेरिकी शब्द है, जिसका प्रयोग बैंक, विशिष्ट ग्यास की कार्ड से किया जाता है जिसमें प्रत्यक्षता को इसके अधीन विशिष्टता की माझा में परिवर्तन करने को इजाजत होती है।
- Open-end wage contract मजदूरी की खुली संविदा
- Open general licence खुला सामान्य लाइसेंस
- Open inflation खुली स्कीति
- Open market operations खुला प्रतिभूति व्यवहार, खुले बाजार की क्रियाएँ
- Open policy विवृत नीति
- Open price प्रस्तावित कीमत
- Open price agreement खुला कीमत करार, खुला कीमत समझौता
- Open stock खुला स्टॉक/भाव
- Open to buy क्रय-सीमा
- Opening price प्रारम्भण मूल्य
- Opening stock प्रारम्भण स्टॉक
- Operating agency परिचालन संस्था/एजेंसी

Operating capital चालन पूँजी
 Operating costs चालन व्यय
 Operating efficiency चालन कुशलता/दक्षता
 Operating income चालन आय
 Operating profit चालन लाभ, प्रचालन लाभ
Operating rate (= capacity utilisation rate) चालन दर, क्षमता उपयोग दर—इसका अभिप्राय भौतिक क्षमता और भौतिक उत्पाद के अनुपात से है। चालन-दर अल्पकालीन व्यापार सम्बन्धी भविष्य-घनुमान में केन्द्रीय महत्त्व रखती है, विशेषकर विस्तार के लिए विनियोग सम्बन्धी सुविधाओं का अनुमान लगाने के लिए। इसका सम्बन्ध काफी हद तक लाभ के साथ होता है और इस कारण क्षमता-प्रयोग दर के अनुमानों को मोटे तौर पर भावी लाभ-स्तर के अनुमानों का सूचक समझा जाता है। इसी प्रकार क्षमता-उपयोग दर में उतार-चढ़ाव का औद्योगिक कीमतों पर भी प्रभाव पड़ता है। क्षमता प्रयोग दर एक जटिल धारणा है और यह क्षमता की परिभाषा पर निर्भर है परन्तु क्षमता की परिभाषा एक उद्योग से दूसरे उद्योग और एक फर्म से दूसरी फर्म में अलग-अलग मानी जाती है।

Operating ratio चालन अनुपात
 Operation of bulls and bears तेजड़ियों एवं मदड़ियों की गतिविधि
 Operational agreement सकार्य करार
 Operational cost चालन लागत/व्यय
 Operational efficiency परिचालन कार्यकुशलता
 Operational holding सकार्य जोन
 Operational measure क्रियाशील माप
Operational research संकार्य अनुसंधान, संचालन अनुसंधान—सकार्य अनुसंधान में मानवीय व्यवहार की प्रभाविता का अध्ययन किया जाता है जिसमें दिये हुए उद्देश्यों के लिए दुर्लभ ससाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग की विधि खोजी जाती है। इसमें परीक्षण और प्रयोग दोनों का सहारा लिया जाता है। इसका उद्देश्य उद्योग या सार्वजनिक सेवाओं में प्रवन्धकों को निर्णय करने में सहायता देना है। सकार्य अनुसंधान का तीव्र विकास

द्वितीय विश्वयुद्ध में हुआ जब सैनिक दृष्टि से सापेक्षतः दुर्लभ ससाधनों (मानवीय एव पूँजी तथा साजसज्जा) का सबसे अधिक प्रभावी प्रयोग करने की आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई। आज इसका प्रयोग उद्योग में किया जाता है जहाँ गणित एवं गणित मॉडलों के प्रयोग से अर्थ-शास्त्रियों, लेखाकारों, गणितज्ञों, मनोवैज्ञानिकों तथा अन्य वैज्ञानिकों के सहयोग से आर्थिक समस्याओं के हल ढूँढे जाते हैं। उदाहरणार्थ, विभिन्न उत्पादन तकनीकों में सबसे लाभदायक तकनीक का पता करना, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की निष्ठा-पन तकनीकों में सबसे अधिक प्रभावी तकनीक का पता भी सकार्य अनुसंधान द्वारा किया जा सकता है।

Operational significance कार्यात्मक महत्त्व
 Opportunism अवसरवाद
 Opportunist अवसरवादी
 Opportunity cost विकल्प त्याग, विकल्प लागत, अवसर लागत
 Optimal investment श्रेष्ठतम विनियोग
 Optimal productivity श्रेष्ठतम उत्पादितता
 Optimal solution श्रेष्ठतम समाधान, अनुकूलतम हल
Optimist school आशावादी सम्प्रदाय—मध्य-उन्नीसवीं शताब्दी में एक अर्थशास्त्र सम्प्रदाय जिसने उस काल में वर्तमान निराशावादी आर्थिक सिद्धान्तों को अस्वीकार किया। माल्थस और रिकार्डों के लेखों के आधार पर आर्थिक जगत् में उन्नीसवीं शताब्दी के पहले दशकों में इस विचार ने बल पकड़ा कि कृषि में हासमान प्रत्याय धीरे बढ़ती हुई जनसंख्या के सम्मिश्रित प्रभाव के फल-स्वरूप मानव जाति जीवन-निर्वाह के स्तर पर ही रह सकती है। आशावादी अर्थशास्त्री जिनमें हेनरी सी० बेरी (Henry C. Carey) और फ्रेड्रिक बेस्टियट (Frederic Bastiat) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं इसमें विश्वास नहीं रखते थे। इन अर्थशास्त्रियों ने माल्थस के सिद्धान्त को निराधार बताया क्योंकि इतिहास ने इसे प्रमाणित नहीं किया। परन्तु आशावादी सम्प्रदाय के विचारकों

- की कृतिमा उस युग में वर्तमान आर्थिक प्रणाली के समर्थन में थी क्योंकि इनमें समाजवादी विचारों का विरोध किया गया। एक घोर आर्थिक लगान की धारणा पर संदेह प्रकट किया गया परन्तु दूसरी ओर पूँजी का समर्थन किया गया। लगान पहले विनियुक्त की गयी पूँजी पर एक प्रत्याय बताया गया परन्तु पूँजी से प्राप्त होने वाली आय को भूतकाल में संचित धन पर प्रत्याय बताया गया। अतः ये लोग वर्तमान पूँजीवादी ढंग के समर्थक थे।
- Optimum allocation of resources** ससाधनों का अनुकूलतम/श्रेष्ठतम आवंटन
- Optimum apportionment** सर्वोत्तम अभिमानन
- Optimum capacity** अनुकूलतम सामर्थ्य, श्रेष्ठतम सामर्थ्य, इष्टतम क्षमता
- Optimum combination of factors of production** उत्पादन साधनों के सर्वोत्तम संयोग/संहति/समिश्रण
- Optimum degree of specialisation** विशेषज्ञता की अनुकूलतम सीमा
- Optimum density** अनुकूलतम घनत्व
- Optimum development** अनुकूलतम विकास
- Optimum distribution** इष्टतम/सर्वोत्तम वितरण
- Optimum distribution of commodities** वस्तुओं का सर्वोत्तम वितरण
- Optimum dose** अनुकूलतम मात्रा
- Optimum efficiency** अनुकूलतम कार्यक्षमता
- Optimum equilibrium position** अनुकूलतम संतुलन स्थिति
- Optimum firm** अनुकूलतम/सर्वोत्तम फर्म
- Optimum holding** अनुकूलतम जोत
- Optimum level** अनुकूलतम स्तर
- Optimum output** अनुकूलतम/सर्वोत्तम उत्पादन
- Optimum plan** अनुकूलतम योजना
- Optimum point** श्रेष्ठतम बिन्दु, अनुकूलतम बिन्दु, आदर्श बिन्दु
- Optimum population** अनुकूलतम/सर्वोत्तम जनसंख्या
- Optimum population, theory of** अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत
- Optimum proportions** अनुकूलतम/सर्वोत्तम अनुपात
- Optimum size of plot** प्लाट का अनुकूलतम आकार
- Optimum supply of capital** पूँजी की अनुकूलतम प्राप्ति/संभरण
- Optimum supply of labour** श्रम का अनुकूलतम संभरण
- Optimum use** अनुकूलतम उपयोग
- Optimum value** अनुकूलतम मूल्य
- Optimum workday** अनुकूलतम कार्यदिन
- Option** विकल्प
- Option, call** तेजी
- Option, call and put** क्रय-विक्रय विकल्प, तेजी-मंदी विकल्प
- Option, double (=Straddle)** नजराना
- Option, put** मंदी
- Optional bond** ऐच्छिक बांड
- Optional consumption** ऐच्छिक उपभोग
- Optional dividend** ऐच्छिक लाभांश—इसका अर्थ उस लाभांश से है जो हिस्सेदारों की प्राथमिकता के आधार पर हिस्सों या नकदी में प्रदान किया जाए।
- Optional money** ऐच्छिक मुद्रा
- Optional public expenditure** ऐच्छिक सरकारी व्यय
- Order card** आर्डर कार्ड, रिक्त कार्ड
- Order cheque** नामयोग चैक, आदिष्ट चैक
- 'Order notify' bill of lading** 'आदेशित' सदान-पत्र
- 'Order not to pay'** 'भुगतान की आज्ञा नहीं'
- Ordinal measurement of utility** उपयोगिता का क्रम-संख्यात्मक माप
- Ordinal number** क्रम सूचक संख्या
- Ordinal number system** क्रम सूचक संख्या पद्धति
- Ordinal utility analysis** क्रम संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण
- Ordinary annuity** साधारण वार्षिकी
- Ordinary mortgage** साधारण बंधक
- Ordinary shares** साधारण हिस्से

- Ordinary supply and demand schedules साधारण माँग एवं पूर्ति अनुसूचियाँ
- Ordinary working expenses साधारण कार्यकारी व्यय
- Organic manure कार्बनिक खाद
- Organisation संगठन, व्यवस्था
- Organisation, business व्यवसाय संगठन
- Organisation, census जनगणना संगठन
- Organisation, credit उधार-व्यवस्था
- Organisation, functional कृत्यात्मक संगठन
- Organisation, industrial औद्योगिक संगठन
- Organisation, labour श्रम संगठन, मजदूर संगठन
- Organisation, monopolistic एकाधिकारी संगठन
- Organisation for Economic Co-operation and Development (O.E.C.D.) आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
- Organisation for European Economic Co-operation (O.E.E.C.) यूरोपीय आर्थिक सहयोग संस्था (सू० आ० सं० सं०)
- Organisation for Trade Co-operation व्यापार सहयोग संगठन
- Organisation of industries उद्योग संगठन
- Organisation of nationalised industries राष्ट्रीयकृत उद्योगों की व्यवस्था
- Organisation of production उत्पादन का संगठन, उत्पादन की व्यवस्था
- Organisational changes व्यवस्था संबंधी परिवर्तन
- Organisational classification संगठनात्मक वर्गीकरण
- Organisational measures संगठनात्मक उपाय
- Organised exchange संगठित विनिमय केन्द्र
- Organised exploitation व्यवस्थित शोषण
- Organised industry संगठित उद्योग
- Organised labour संगठित श्रम
- Organised manufacture संगठित विनिर्माण
- Organised manufacturing sector संगठित विनिर्माण क्षेत्र
- Organised money market संगठित मुद्रा बाजार
- Organised private business sector संगठित निजी व्यापार क्षेत्र
- Organised saving संगठित बचत
- Organiser व्यवस्थापक, संगठनकर्ता, संगठक
- Oriented towards consumer उपभोक्ता-उन्मुख
- Origin of capital पूँजी का उद्भव, पूँजी का उद्गम
- Original assessment मूल कर-निर्धारण
- Original cost मूल लागत
- Original customer मूल ग्राहक
- Original director प्रारम्भिक निदेशक
- Original equilibrium of the consumer उपभोक्ता का मूल संतुलन
- Original owner मूल स्वामी
- Original price मूल कीमत
- Original producer मूल उत्पादक, मूल उत्पादक
- Original ratio मूल अनुपात
- Original tax-payer मूल कर-दाता
- Originally traded export commodity प्रारम्भिक व्यापार वाली निर्यात वस्तु
- Ornamentation सजावट
- Orthodox economist परम्परानिष्ठ अर्थशास्त्री
- Orthodox school परम्परानिष्ठ संप्रदाय, कट्टर विचारधारा
- Ostensible owner प्रकट स्वामी
- Ostensible partner दर्शनार्थ हिस्सेदार
- Ostentations expenditure आडम्बरी व्यय
- Other conditions being the same अन्य परिस्थितियों के समान बने रहने पर
- Other things being equal अन्य परिस्थितियों के पूर्ववत् रहने पर
- Outborn population बहिर्जात जनसंख्या
- Outcry of vested interests निहित स्वार्थों का आक्रन्दन/विरोध
- Outer Sterling areas बाह्य स्टर्लिंग क्षेत्र
- Outflow of money मुद्रा का उत्प्रवाह
- Outgo व्यय/खर्च
- Outlay परिव्यय, खर्च
- Outlay line/curse परिव्यय रेखा/वक्र

Outlay map परिष्पय मानचित्र

Outlet कुलादा, बाजार, निकाश

Outlet store अवशेष विक्री भंडार

Out of pocket cost तुरत देय लागत, तुरत देय खर्च—इस लागत को पूर्ति के लिए नकद या लगभग नकद रूप में वर्तमान साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। इसके विरुद्ध ह्वायी लागत के लिए वर्तमान साधनों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती और इसे कुछ समय के लिए टाला भी जा सकता है। तुरत-देय लागत स्थिर लागत के रूप में भी हो सकती है, जैसे मंनेजर का वेतन या परिवर्ती लागत के रूप में भी हो सकती है, जैसे कच्चे माल या श्रम

Out of stock स्टॉक में नहीं

Out of work benefits बेकारी अनुदान

Out post investment सीमा स्थानीय विनियोग—निजी विदेशी विनियोग अधिकतर खानो तथा रोपवनो में किया जाता था एवं तेल, खनिज पदार्थ तथा रबर आदि मातृभूमि को भेजे जाते थे। विनियोक्ता देशों के लिए ये विनियोग केवल भौगोलिक दृष्टि से ही बाह्य स्थित थे, अन्यथा ये उनकी अपनी अवस्थिति का एक अंश ही थे।

Output (=Outturn) उत्पादन, प्रदा, प्रदान, उपज, निर्गत

Output, ideal आदर्श उत्पादन

Output, monopoly एकाधिकारी उत्पादन

Output, optimum सर्वोत्तम उत्पादन

Output, unit of उत्पादन-इकाई

Output capacity उत्पादन क्षमता

Output control उत्पादन नियंत्रण

Output determination उत्पादन-निर्धारण

Output mix उत्पादन-मिश्रण

Output theory उत्पादन सिद्धांत

Outright rate of exchange एक-मुदत विनिमय-दर—यह एक अग्र विनिमय दर होती है जिसमें अग्र बढ़ती (Forward Premium) या बढ़ते की राशि मलग देने की वजाय उसे ध्यान में रखते हुए एक धार ही विनिमय दर निश्चित

कर दी जाती है जिसमें अग्र बढ़ती या बढ़ता शामिल होता है।

Outstanding बकाया

Outstanding assistance बकाया सहायता

Outstanding cheque अप्राप्त चैक

Outstanding commitments बकाया वचन-बद्ध राशि

Outstanding debts बकाया ऋण

Outstanding dividends अदत्त लाभांश

Outstanding earning अप्राप्त उपार्जन, सड़ी कमाई

Outstanding expenses अदत्त व्यय

Outstanding income अप्राप्त आय

Outstanding liability अदत्त देयता

Outstanding quota बकाया कोटा

Outward payments बहिर्गामी भुगतान

Overall balance of trade समस्त व्यापार शेष

Overall view विहगम दृष्टिपट

Over-balanced प्रधिसंतुलित

Over-bought position प्रतिक्रय स्थिति

Over-building अधि-निर्माण

Over-buying अधिक्रयण

Over-capitalisation अधिपूर्णीकरण, प्रतिपूर्णीकरण—किसी फर्म में अधिपूर्णीकरण की स्थिति तब विद्यमान समझी जाती है जब उसकी वास्तविक परिसंपत् का मूल्य उसकी जारी पूंजी से कम हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। संभवतः फर्म ने मूल्यह्रास के लिए पर्याप्त राशि कृष्क न रखी हो, या कुछ परिसंपत् प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कीमत अदा कर दी हो या अवस्थिति काल के दौरान मुद्रा के मूल्य में वृद्धि का ध्यान न रखा हो।

Over-capitalised अधिपूर्णीकृत

Over-certification प्रतिप्रमाणन

Over-charge प्रति-भ्रार

Over-compensation प्रति-क्षतिपूर्ति

Over-concentration प्रति-केन्द्रण, प्रति-केन्द्रीकरण

Over consumption अति-उपभोग
 Over-development अति विकास
 Over-draft अधिक की ढुण्डी, ओवर ड्राफ्ट, अधि-
 विकर्ष

Over-draw अधिविकर्षण

Over-drawn bill अतिविकृष्ट विपत्र

Over-due account खड़ा हिसाब, पुरानी बाकी

Over-due bill दौत काल बिल, खड़ी ढुण्डी

Over-due interest दौतकालीन ब्याज, खड़ा ब्याज

Over-due investment बालातीत विनियोग

Over-estimation अत्यनुमान, अतिगणना

Over-expansion अति-प्रसार

Over-exploitation of land भूमि का अति दोहन

Over-full employment अतिपूर्णा रोजगार—

परिभाषानुसार पूर्ण रोजगार वह परिस्थिति है जिसमें किसी समाज में खाली नौकरियों की संख्या के समान बेरोजगार व्यक्ति रहते हैं। इस ह्रासन में बेरोजगारी की मात्रा संरचनात्मक कारणों से ही निर्धारित होती है। परन्तु अति-पूर्ण-रोजगार की स्थिति में बेकार व्यक्तियों की अपेक्षा खाली नौकरियाँ बड़ी अधिक होगी। परिणामतः विभिन्न उद्योगों में श्रम का अभाव अनुभव होगा। अतः अति-पूर्ण-रोजगार स्फीति-कारी स्थिति का लक्षण है जिसमें माँग में सभरण की अपेक्षा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति बनी रहती है। इस अवस्था में श्रम की कुल माँग श्रम के उपलब्ध सभरण से अधिक होगी।

Overhead capital बंधी पूँजी, उपरि पूँजी

Overhead charge उपरि प्रभार

Overhead cost उपरि व्यय, बंधी लागत

Overhead expenses उपरि व्यय/खर्च

Overhead facilities उपरि सुविधाएँ, बंधी सुविधाएँ

Overhead investment उपरि विनियोग

Over-intensive cultivation अति-सघन खेती

Over-investment theory—अति-विनियोग

सिद्धांत—कुछ लेखकों का विचार है कि व्यापारिक तेजी की अवस्था में पूँजी वस्तुओं का उत्पादन उनके द्वारा कायम की गयी उपयोग-वस्तुओं की

माँग की अपेक्षा बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले कि प्रस्तावित विनियोग पूरा हो सके, तेजी की अवस्था समाप्त हो जाती है। ऐसी ही परिस्थिति तीव्र स्फीति काल में उत्पन्न हो सकती है। सभी परिस्थितियों में अति-विनियोग अधिक परिस्थिति का अत्यंत आशावादी दृष्टिकोण है जिसमें प्रत्याशाएँ बहुत अधिक होती हैं और इसके बाद निराशा का अानत अनिवार्य सा हो जाता है।

Overlapping shifts परस्परव्यापी पारियाँ

Over-loaded economy अति-भारित अर्थ-

व्यवस्था—अतिभारित अर्थव्यवस्था किसी अर्थ-व्यवस्था में स्फीति की दबी हुई या दबाई हुई स्थिति का वर्णन है जिसमें वर्तमान कीमतों पर कुल माँग कुल सभरण से अधिक होती है परन्तु निर्वन्धनों के कारण कीमतों को बढ़ने से रोक दिया जाता है। युद्ध काल में स्फीति को सफल रूप से दबाया जा सकता है क्योंकि उपभोक्ता पत्रदात्रों (वचत प्रमाणपत्रों, युद्ध-बाँडों, या वचत बैंक खातों) के रूप में अपनी वचत को रखने के लिए तैयार होते हैं और इसे खर्च नहीं करते; परन्तु साम्यकाल के दौरान अतिरिक्त क्रयशक्ति, विनिर्माताओं एवं वितरकों को अपने स्टॉक कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस कारण निर्यात की अपेक्षा आन्तरिक उत्पादन का प्रयोग आन्तरिक माँग की क्षुद्रि के लिए किया जाता है। अतिरिक्त क्रयशक्ति अधिक आयात के लिए भी प्रेरित करती है। परिणामतः, व्यापार-शेष सम्बन्धी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था अति-भारित अर्थव्यवस्था थी। ऐसी अवस्था में जब अतिरिक्त क्रयशक्ति के कारण माँग का दबाव पड़ता है, तो अनियमित क्षेत्र में (जो कि सामान्यतया कम अनिवार्य वस्तुओं पर आधारित होता है) संसाधन जुटाए जाते हैं। नियमित क्षेत्र में, जिसमें अनिवार्य वस्तुएँ शामिल होती हैं, निर्वन्धनों द्वारा कीमतें बढ़ने नहीं दी जाती। अतः अनियमित क्षेत्र में उत्पादन बढ़ता है। इसी प्रकार कम-भावदयक सेवा-क्षेत्र का भी विस्तार होना

है। इस कारण प्रतिभारित अर्थव्यवस्था को मिल्क-बार अर्थव्यवस्था (Milk Bar Economy) भी कहते हैं क्योंकि यह सेवा क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा देती है।

Overlord अधिपति, अधिराज

Overnight money निशाय राशि, राशि भर के लिए ली गई राशि

Overpayment अधिदोषन, अधिक भुगतान

Overpopulation प्रतिजनसंख्या, जनधिक्य

Overproduction अस्त्युत्पादन—अस्त्युत्पादन शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है—(1) किसी कीमत पर उत्पादन विक्रेय मात्रा से अधिक और (2) लाभदायक कीमत पर उत्पादन विक्रेय मात्रा से अधिक। प्रथम परिभाषा के रूप में शब्द के प्रयोग से कुछ विशिष्ट वस्तुओं में तो अस्त्युत्पादन संभव है परन्तु सभी वस्तुओं में किसी समय विशेष पर नहीं। दूसरी परिभाषा के रूप में शब्द का प्रयोग करने से कुछ विशिष्ट वस्तुओं और सभी वस्तुओं में अस्त्युत्पादन संभव है।

Overproduction, general सामान्य अस्त्युत्पादन

Over-saving अधिवचत

Over-saving theory of business cycle

ध्यापार चक्र का प्रतिवचत सिद्धांत—इस सिद्धांत के अनुसार अधिवचत के परिणामस्वरूप अस्त्युत्पादन होता है। जे० ए० हॉबसन (J. A. Hobson) का विश्वास था कि व्यापार-चक्र की अप्रवृत्ति का यहो कारण है। प्रतः जब भी प्रायोजित वचत प्रायोजित विनियोग से अधिक होती है, तो उसके कारण अधिवचत की स्थिति कायम हो जाती है। अधिवचत के काल में, आय-प्रवाह से हटाया गया मुद्रा की मात्रा आय-प्रवाह में डाली गयी मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है, परिणामतः आय का गिरना अनिवार्य है। इस सिद्धांत के कारण कुछ अर्थशास्त्री यह विचार करते-थे कि अधिवचत सिद्धांत अति-विनियोग सिद्धांत का ही रूप है क्योंकि अधिवचत से ही अतिविनियोग होता है। जे० एम० केन्ज ने यह स्पष्ट किया कि प्रायोजित विनियोग-स्तर प्रायोजित वचत-स्तर पर निर्भर नहीं करता। केन्ज

ने बताया कि परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में लीग पूर्ण रोजगार स्तर पर इसलिए अधिक वचत करते हैं कि उस परिस्थिति में लाभदायक विनियोग के अवसर घट जाते हैं। केन्ज का मत था कि जब तक परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में अधिवचत को प्रतिपूरक सरकारी व्यय से हटाया नहीं जाता, तब तक काफी बेरोजगारी विद्यमान रहेगी।

Overseas investment समुद्रपार विनियोजन, विदेशी विनियोग

Overseas trade समुद्रपार व्यापार

Over-supply अतिसंभरण, अतिदाय

Over-taxation अति-कराधान, अधिकराधान

Over-the-counter market कॉण्टर-मिन्न बाजार, विक्रय-फलक-मिन्न बाजार—इससे अभिप्राय प्रतिभूतियों सम्बन्धी उस बाजार से है जिसमें प्रतिभूतियों सम्बन्धी सभी सोदे संगठित हिस्सा बाजार में नहीं किए जाते। स्टॉक एक्सचेंज के विरुद्ध, जोकि एक स्थान पर स्थित एक प्रकार की नीलामी मण्डी है, काउण्टर-मिन्न बाजार में वे हजारों व्यापारी शामिल हैं जो हिस्सों तथा बांडों का क्रय-विक्रय मुख्यतः टेलीफोन द्वारा करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के हिस्सा या बांड बाजार का बहुत अधिक विकास हुआ है। छोटे-बड़े सभी प्रकार के सोदे इस बाजार में होते हैं।

Over-time allowance समयोपरि भत्ता

Over-time charges समयोपरि प्रभार

Over-time pay समयोपरि वेतन

Over-time work अधिसमय कार्य, समयोपरि कार्य

Over-valuation अधिमूल्यन

Over-valuation of the rupee रुपये का अति-मूल्यन/अधिमूल्यन

Over-valued currency अधिमूल्यन मुद्रा/करेन्सी

Over-work अति धम, कठिन परिश्रम, अत्यधिक कार्य

Overt market विवृत विपणि, खुला बाजार

Owenism ओवनवाद—रजग सुधार के इस सम्प्रदाय का आरम्भ राबर्ट ओवन (1771—1858) द्वारा किया गया। ओवन एक विचारशील

उद्योगपति या जो इस बात में विश्वास रखता था कि व्यापारिक समृद्धि, अच्छी मजदूरी और काम की अच्छी परिस्थितियों में तालमेल बिठाया जा सकता है। उसने बच्चों की रोजगार के लिए नियुक्ति का विरोध किया, कारखानों में काम की अच्छी दशाएँ और आठ घण्टे का कार्य-दिन निश्चित करने का प्रचार किया।

1815 में उसने स्कॉटलैण्ड में एक मॉडल फैक्ट्री स्थापित की और इसमें उसे आश्चर्यजनक सफलता मिली। दस वर्षों से कम आयु के बच्चों को काम पर न लगाया गया, उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गयी, काम के घण्टे 12 प्रतिदिन निश्चित किए गए और इसमें से 1½ घण्टे खाने के लिए रखे गए। इसके पश्चात् धीरे-धीरे ने सहकारिता के सम्प्रदाय (Communities of Co-operation) स्थापित किए। धीरे-धीरे इस सम्बन्ध में सीमित सफलता प्राप्त हुई। उसके विचार का सबसे स्थायी प्रभाव विश्व में उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन की स्थापना के रूप में हुआ।

Owned capital अपनी पूँजी, स्वामित्वाधीन पूँजी
Own farming खुद काश्त, स्वयं खेती

Owner स्वामी

Owner, absolute पूर्ण स्वामी

Owner, manager प्रबन्धक स्वामी

Owner, real वास्तविक स्वामी

Owner, ostensible प्रकट स्वामी

Owner cultivation स्वामी द्वारा कृषि, मालिक द्वारा खेती

Owner cultivator मालिक-काश्तकार

Owner of land भू-स्वामी

Owner of property सम्पत्ति का स्वामी

Ownership स्वामित्व, मालिकी

Ownership, collective सामूहिक स्वामित्व

Ownership, conferment of स्वामित्वाधिकार प्रदान करना

Ownership, diffusion of स्वामित्व का प्रसारण

Ownership, private निजी स्वामित्व, गैर-सरकारी स्वामित्व

Ownership, public सार्वजनिक स्वामित्व, सरकारी स्वामित्व

Ownership, reputed ज्ञात स्वामित्व

Ownership, state राशकीय स्वामित्व

Ownership holding स्वत्व जोत, मालिकी जोत

Ownership of property सम्पत्ति का स्वामित्व

Ownership of resources ससाधनों का स्वामित्व

Own-rates निज दरें

P

Pace of urbanisation नगरीकरण की प्रगति

Pace setters अग्रणी, प्रवर्तक

Package deal एकमुश्त ध्ववहार, एकमुश्त क्रिया—

इस पद का प्रयोग रेडक्लिफ रिपोर्ट (Radcliff Report) में 1951 के पश्चात् विकसित हुए उस ध्ववहार के रूप में किया गया जिसके प्राधीन मौद्रिक नीति के पारम्परिक उपायों (अर्थात् बैंक-दर) का प्रयोग नये उपायों (अर्थात् बजट अतिरेक या घाटे, राजकीय जमा या विशेष जमा आदि) के साथ किया जाता है। यदि इन उपायों को अलग-अलग करके इस्तेमाल किया जाए, तो वे प्रभावी नहीं होते; परन्तु जब इनका एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो वे मौद्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रभावी योगदान देते हैं।

Package programme एकमुश्त प्रोग्राम/कार्यक्रम

Package proposal एकमुश्त प्रस्ताव

Paid employee वैनतिक कर्मचारी

Paid employment सवेतन नियोजन, सवेतन रोजगार

Paid job वैनतिक काम

Paid service सवेतन सेवा

Paid sick-leave plan सवेतन बीमारी छुट्टी-योजना

Paid staff वैनतिक कर्मचारी

Paid-up capital प्रदत्त पूँजी, परिदत्त पूँजी, प्राप्त पूँजी

Paid-up shares परिदत्त हिस्से

Pain economy कष्ट अर्थव्यवस्था, दुःखद अर्थव्यवस्था

Painful process of adjustment समायोजन की कष्टदायी प्रक्रिया

Panel on land reforms भूमि-सुधार का मण्डल, भूमि-सुधार की नामिका

Panic demand for money मुद्रा की प्रातंक माँग
 Paper claims पत्र दावे, कागजी दावे
 Paper currency पत्र मुद्रा, कागजी मुद्रा, नोट
 Paper currency reserve पत्र मुद्रा संचित
 Paper currency standard पत्र मुद्रा मान,
 कागजी मुद्रा मान
 Paper gold पत्र स्वर्ण
 Paper money कागजी मुद्रा, पत्र मुद्रा
 Paper money, convertible विनिमय कागजी
 मुद्रा
 Paper money, inconvertible अविनिमय कागजी
 मुद्रा
 Paper money, representative प्रतिभावी/प्रति-
 निधि पत्र मुद्रा
 Paper standard पत्र मान
 Paper titles कागजी स्वामित्वाधिकार, पत्र-मात्र
 स्वत्व—स्वामित्व का ऐसा अधिकार जो उपरि
 दृष्टि से सही जान पड़ता है, परन्तु वस्तुतः
 आधार रहित है।
 Paper union कागजी संघ
 Parable of meteor stones केतु-पत्थरों का
 दृष्टान्त—विषुद लगान तथा आभास लगान के
 घन्तर को स्पष्ट करने हेतु मार्शल द्वारा प्रस्तुत
 उदाहरण।
 Paradox of poverty and potential plenty
 निचैनता और संभाव्य समृद्धि का विरोधाभास
 Paradox of thrift क्लिफायत की विरोधीवृत्ति—
 जॉन मेगार्ड केन्थ द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित
 किया गया सिद्धान्त कि यदि समाज द्वारा अपनी
 बचत बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो इसके
 परिणाम वास्तव में बचत की मात्रा में कमी भी
 हो सकता है। इस विरोधाभास को प्रतिपादित
 करने का मूल कारण केन्थ द्वारा बचत-विनियोग
 क्रिया की सहायता से राष्ट्रीय आय का निर्धारण
 है। अधिक बचत करने से उपभोग कम हो जाता
 है और फलस्वरूप राष्ट्रीय आय भी कम हो जाती
 है। राष्ट्रीय आय में कमी के परिणामस्वरूप
 लोग पहले जितनी बचत नहीं कर सकते। यह
 विरोधाभास कि बचत एक बुराई है और व्यय

एक गुण है, प्रोत्साहन की दृष्टि से एक घन्त-
 विरोध का उदाहरण है। व्यक्ति की दृष्टि से
 क्लिफायत (Thrift) एक वांछनीय गुण माना जा
 सकता है परन्तु समाज की दृष्टि से इसके रोजगार
 और कुल उत्पादन पर विनाशकारी प्रभाव हो
 सकते हैं।

Parameter प्राचल—प्रथमशास्त्र में किसी समस्या
 का विश्लेषण आरम्भ करने से पूर्व निर्दिष्ट किए
 गए एक स्थिरांक (Constant) को प्राचल कहते
 हैं। इस स्थिरांक को एक मूल्य या मूल्य-कुलक (Set
 of Values) प्रदान किया जाता है। प्राचल और
 चर (Variable) में भिन्न है। चर को तो कोई
 भी मूल्य दिया जा सकता है परन्तु प्राचल के मूल्य
 अध्ययन-प्राधीन विशेष समस्या से प्रतिबन्धित
 होते हैं और प्राचल में परिवर्तन तभी होता है जब
 अध्ययन-प्राधीन समय व्यवस्था में परिवर्तन हो।

सांख्यिकी में प्राचल का अर्थ संक्षिप्त प्रमाण
 से ही जैसे मीसल, माध्यिका (Median) या किसी
 जनसंख्या के सदस्यों के लक्षण का अनुपात।

Parameter, arbitrary स्वेच्छ प्राचल

Parameter, invariable अचर प्राचल

Parameter, variable चर प्राचल

Parasitic पराश्रय, परजीवी

Parasitical nature of Zamindari System

जमींदारी प्रथा का परजीवी स्वरूप, किसान का
 सड़ू चुसने वाली जमींदारी प्रथा

Parent company मूल कम्पनी, जनक कम्पनी

Paretian optimum पैरेटो के अनुकूलतम—

यह सिद्धान्त कल्याण प्रथमशास्त्र से सम्ब-
 न्धित है। इसका अर्थ उस स्थिति से है जिसके
 अनुसार कोई भी व्यक्ति अपेक्षाकृत अच्छी परि-
 स्थिति में तब तक नहीं जा सकता जब तक कि
 वह किसी अन्य व्यक्ति को अपेक्षाकृत कम प्राय-
 मिकता वाली स्थिति में नहीं पहुँचा देता। दूसरे
 शब्दों में, पैरेटो या सामाजिक अनुकूलतम की
 स्थिति में यह संभव नहीं कि वस्तुओं तथा सेवाओं
 के उत्पादन या विनिमय को इस प्रकार बदला जा
 सके कि एक व्यक्ति बिना किसी दूसरे व्यक्ति की
 स्थिति को कम उन्नत किए अपनी स्थिति को

- उन्नत कर सके। चूँकि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन इटली के अर्थशास्त्री परेटो (Pareto) ने किया, इसलिए इसे Paretian Optimum कहा जाता है। चाहे जे० थार० हिवस और एन० कॉल्डर ने इस सिद्धान्त को परिशोधित करने का प्रयास किया, फिर भी परेटो का सिद्धान्त कल्याण अर्थशास्त्र का मूल सिद्धान्त माना जाता है।
- Paretian welfare economics** परेटो का कल्याणकारी अर्थशास्त्र
- Pareto's law** परेटो का नियम—परेटो (1848-1932) इटली के एक अर्थ एवं समाजशास्त्री का मत था कि भले ही भ्रमण-भ्रमण देशों में कर-प्रणालियाँ और आर्थिक एवं सामाजिक संस्थान भिन्न-भिन्न हों किन्तु उपभोक्ताओं में राष्ट्रीय आय का वितरण सर्वव्यापक रूप में एक-से अनुपात में ही होता है। इस नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्धन वर्ग की आय को उन्नत करने का एकमात्र उपाय समग्र राष्ट्र की आय को उन्नत करना है। दूसरे शब्दों में, परेटो का मत यह था कि आय का पुनर्वितरण असम्भव है। इस सिद्धान्त की सार्थकता में बहुत से अर्थशास्त्री सन्देह प्रकट करते हैं।
- Pareto's optimism** परेटो का आशावाद
- Par exchange** सम विनिमय
- Pari passu** समानत्व, समानता, समरूप—हिस्सों की एक नई जारी मात्रा के सन्दर्भ में इसका यह आशय है कि नए हिस्सों को वर्तमान हिस्सों की भाँति लाभांश का भाग प्राप्त करने में समानता प्राप्त होगी।
- Par of exchange** विनिमय सममूल्यता
- Par of exchange, hypothetical** परिकल्पित विनिमय सममूल्यता
- Par of exchange, ideal** आदर्श विनिमय सममूल्यता
- Parity, agricultural price** कृषि मूल्य-समता
- Parity, gold** स्वर्ण मूल्य-समता
- Parity, price** कीमत समता
- Parity formula** समता-फार्मूला
- Parity of exchange** विनिमय-समाहंता/सममूल्यता
- Parity price principle** समाहंता मूल्य सिद्धान्त, समता कीमत सिद्धान्त
- Parity rate** समता-दर
- Parity ratio, basic** मूल समाहंता अनुपात
- Parity ratio for current year** वर्तमान वर्ष का समता अनुपात
- Parsimony** कृपणता, मितव्ययिता, अल्पव्यय, कंजूसी—मुद्रा के बारे में सावधानी या किफायत की प्रवृत्ति। इसका उद्देश्य आर्थिक व्ययों की प्राप्ति के लिए साधनों के प्रयोग में किफायत बरतना है। एडम स्मिथ कृपणता को व्यक्ति एवं राज्य दोनों के लिए धन और पूँजी संचयन का आधार मानता था।
- Part delivery** आंशिक सुपूर्वगी, आंशिक कच्चा
- Partial analysis** आंशिक विश्लेषण
- Partial audit** आंशिक लेखा-परीक्षण
- Partial equilibrium** आंशिक संतुलन
- Partial equilibrium analysis** आंशिक संतुलन विश्लेषण
- Partial equilibrium theory** आंशिक संतुलन सिद्धान्त—इस सिद्धान्त में विभिन्न वस्तुओं एवं साधनों की कीमतों के पारस्परिक सम्बन्धों की उपेक्षा करके ब्यक्तिक क्षेत्रों में कीमतों एवं उत्पादन सम्बन्धी विश्लेषण किया जाता है। कल्पना यह है कि एक क्षेत्र का दूसरे पर इतना थोड़ा प्रभाव है कि इसे नगण्य माना जा सकता है। आंशिक संतुलन विश्लेषण का सबसे अधिक लोकप्रिय उदाहरण माँग एवं पूर्ति विश्लेषण है। चाहे इस विश्लेषण की कल्पनाएँ इसे बहुत हद तक सीमित कर देती हैं, फिर भी किसी फर्म या उद्योग में उत्पादन एवं कीमत निर्धारण के कारण तर्कों को समझने के लिए इसका काफी महत्त्व है। उदाहरणार्थ, रूई की कीमत के गिरने से सूती वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे तो आंशिक संतुलन विश्लेषण व्यक्त करता है किन्तु इसका समग्र अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा, इसके लिए यह अपर्याप्त है। समग्र अर्थव्यवस्था पर विभिन्न अथवा विशेष कीमत या उत्पादन परिवर्तनों के प्रभाव को जानने के लिए सामान्य संतुलन विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है।

- Partial glut प्रांशिक प्रति संभरण
- Partially bad debts संशतः प्रप्राप्त ऋण
- Partial monopolist प्रांशिक एकाधिकारी
- Partial over-production प्रांशिक अत्युत्पादन
- Partial repudiation of debts ऋणों का प्रांशिक प्रत्याख्यान, ऋणों का प्रांशिक अस्वीकरण
- Partial striko प्रांशिक हड़ताल
- Partial vs general or total analysis प्रांशिक बनाम सामान्य अथवा सम्पूर्ण विश्लेषण
- Participating country सहयोगी देश
- Participating firm सहयोगी फर्म
- Participating preference shares सहभागी प्राथमिक हिस्से
- Participation bond लाभ सहभागी बॉन्ड
- Participation certificate पत्ती प्रमाणपत्र, सहयोग प्रमाणपत्र
- Participation loan सहभागी ऋण—इसका अभिप्राय किसी ऐसे ऋण से है जिसमें दो या अधिक बैंक भाग लें। ऐसे सहभागी सम्झौते आम तौर पर छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले बैंकों और बड़े नागरिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले बैंकों में किए जाते हैं। इसका मूल उद्देश्य छोटे बैंक (1) द्वारा बड़े मुद्रा वाजारों में विनियोग प्रयत्नों का लाभ उठाना है। इस प्रकार छोटे बैंक अपने पास एकत्र की गयी धनकानोन राशियों को तुरन्त विनियोग में लगा सकते हैं। सहभागी ऋण पद का प्रयोग किसी ऐसे बड़े उद्योग के लिए भी किया जाता है जिसमें कई बड़े बैंक साझे के तौर पर भाग लेते हैं। ऐसे उद्योग को कई बार सिन्डिकेट ऋण (Syndicate Loan) भी कहते हैं।
- Participation ratio सहभागिता अनुपात
- Parting with liquidity तरलता का विछोड़ करना
- Partner भागीदार, साझेदार
- Partner, active सक्रिय साझेदार
- Partner, financing वित्तदायी साझेदार/भागीदार
- Partner, sleeping निष्क्रिय साझेदार
- Partnership साझेदारी, भागिता
- Partnership, articles of साझेदारी के अन्त-नियम, साझेदारी की अन्तनियमावली
- Partnership, deed of साझा-पत्र, साझानामा, भागिता प्रलेख
- Partnership, general सामान्य साझेदारी
- Partnership, limited सीमित साझेदारी
- Partnership, particular विशिष्ट साझेदारी
- Partnership, unlimited असीमित साझेदारी
- Partnership at will स्वेच्छिक भागिता, यथेच्छ साझेदारी
- Partnership fund भागिता निधि
- Partnership method साझेदारी रीति
- Part-time employment अर्धकालिक रोजगार
- Part-time labour अर्धकालिक श्रम
- Par value of currency मुद्रा सममूल्य, करेन्सी सममूल्य
- Passive balance of payments निष्क्रिय भुगतान-शेष
- Passive bond व्याजहीन बॉन्ड, अस्वामी बंध
- Passive savor निष्क्रिय बचतकर्ता
- Passive trade balance प्रतिकूल व्यापार-शेष
- Pastoral industries पशुपालन उद्योग, पशुचारण उद्योग
- Pastoral stago पशु चारण प्रवस्था
- Past saving भूतकालिक बचत, गत बचत
- Pasture land पशुचर भूमि
- Patent assignment पेटेंट प्राधिकार
- Patent rights पेटेंट प्राधिकार, एकस्वामिकार
- Paternal despotism पैतृक निरंकुशता
- Paternalism पैतृकवाद—इस पद का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। 1. सरकार द्वारा अपने नागरिकों के हित के लिए बलाशक्तकारी एवं संरक्षणात्मक सेवाओं को उपलब्ध कराना; उदाहरणार्थ, बेरोजगारों के लिए नौकरियों का प्रबन्ध करना, वृद्धावस्था सहायता उपलब्ध कराना, अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करना तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा के उपाय करना।
2. इसका प्रयोग धार्मिक पैतृकवाद के

- रूप में भी किया जाता है। इस संदर्भ में किसी नियोजक द्वारा अपने नियोजितों की सुविधा एवं कल्याण के लिए अत्यधिक रुचि लेना और अम-नल्याण सेवार्थों को उपलब्ध कराना औद्योगिक पैतृकवाद (Industrial paternalism) कहलाता है। इसका उद्देश्य अनुकूल अम-प्रबन्ध सम्बन्ध कायम करना है।
- Path breaking contribution युग प्रवर्तक योगदान
- Pattern maker नमूनाकार, नमूनासाज
- Pattern of crops फसलों का ढाँचा
- Pattern of demand माँग का स्वरूप
- Pattern of distribution वितरण का ढाँचा
- Pattern of exports निर्यात का ढाँचा/स्वरूप
- Pattern of final demand अन्तिम माँग का स्वरूप
- Pattern of financing वित्त-व्यवस्था का ढाँचा
- Pattern of imports आयात का ढाँचा
- Pattern of industrialisation औद्योगीकरण का ढाँचा/स्वरूप
- Pattern of investment विनियोग का ढाँचा/स्वरूप
- Pattern of land tenure भू-धारण का ढाँचा
- Pattern of occupation व्यवसाय का ढाँचा/स्वरूप
- Pattern of production उत्पादन का ढाँचा
- Pattern of taxation कराधान का ढाँचा
- Patrilineal पितृ वंशीय
- Paucity of finance वित्त अभाव, वित्त की कमी
- Pauperism कंगाली, कंगालापन, दरिद्रता
- Pauperisation of the masses जनता का दरिद्रीकरण
- Pawn broker गिरवी दलाल
- Pay वेतन
- Pay, back पिछला वेतन
- Pay, call हाजिरी वेतन
- Pay, call in विशेष कार्य वेतन
- Pay, fair day's उचित दैनिक वेतन
- Pay, fall back उपस्थित वेतन, हाजिरी वेतन
- Pay, hold-back रोका हुआ वेतन, अंदा वेतन रोक
- Pay, lay-off जवरी छुट्टी वेतन
- Pay, Premium बढ़ती वेतन
- Pay, retroactive पिछला वेतन
- Pay, scale of वेतन मान
- Pay, strike हड़ताल-वेतन
- Pay and allowances वेतन और भत्ता
- Pay Commission वेतन आयोग
- Pay fixation वेतन निर्धारण
- 'Pay on demand' 'माँगने पर अदा करें'
- Pay order अदायगी आदेश
- Pay roll tax चिट्ठा कर
- Pa, able देय
- Payee अदाता, पाने वाला
- Payer दाना
- Paying capacity देय सामर्थ्य, अदायगी क्षमता
- Paying banker अदानार्ता बैंकर
- Payment अदायगी, शोधन, भुगतान
- Payment, balance of भुगतान-शेष
- Payment, compensating प्रतिपूरक भुगतान
- Payment, deferred विलम्बित अदायगी
- Payment, inward आबक भुगतान
- Payment, lumpsum एकमुदत भुगतान
- Payment, non-tax कर-भिन्न अदायगी, गैर-कर अदायगी
- Payment, outward जाबक भुगतान
- Payment, provisional अनन्तिम अदायगी, अस्थायी भुगतान
- Payment, preferential अधिमानी भुगतान, तरजीही भुगतान
- Payment, transfer अंतरण अदायगी
- Payment agreement भुगतान समझौता
- Payment by results कार्यानुसार भुगतान, कार्यानुसार मजदूरी देना
- Payment deficit भुगतान-घाटा
- Payment in due course यथासमय अदायगी
- Payment in kind वस्तु शोधन, जिस में अदायगी
- Payment for inconveniences अनुसुविधा के लिए भुगतान
- Payment of wages मजदूरी-अदायगी

Payment of wages act मजदूरी भ्रदायोगी अधि-
नियम

Payoff Period (Payout Period)—पूर्ण-
शोधन काल, पूर्ण वसूली काल—इसका अर्थ उद्योग-
धर्मादि से है जिसके दौरान किसी पूँजी-विविनियोग
में लगायी गयी राशि किसी फर्म की पूर्णतया लौट
सकती है। उदाहरणार्थ, किसी गयी मशीन पर
1,00,000 रु० का पूँजी-विविनियोग हो, तो इससे
वार्षिक आय 20,000 रु० बढ़ सकती है और 5
वर्षों में यह विविनियोग-राशि फर्म की पूर्णतया लौट
आएगी अर्थात् इस विविनियोग का पूर्णशोधन काल
5 वर्ष हुआ।

Peace economy शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था

Peace-time goods शान्तिकालीन वस्तुएँ

Peaceful picketing शान्तिपूर्ण धरना

Peak demand अधिकतम माँग

Peak level परम स्तर

Peak-point of trade cycle व्यापार-चक्र का
ऊर्ध्व बिन्दु

Peak production चरमोत्पादन

Peasant किसान, कृषक

Peasant, affluent सम्पन्न किसान

Peasant, poor गरीब किसान

Peasant, rich धनी किसान

Peasant economy कृषक अर्थव्यवस्था

Peasant farming किसान-खेती, खेतिहर कृषि

Peasant proprietor किसान स्वामी, कृषक-स्वामी

Peasant proprietorship कृषक भू-स्वामित्व

Peasantry किसान वर्ग, कृषक वर्ग

Pecuniary aid आर्थिक सहायता, मौद्रिक सहायता

Pecuniary gain आर्थिक लाभ, मौद्रिक सहायता

Pecuniary interest आर्थिक हित, आर्थिक स्वार्थ

Pecuniary liability मौद्रिक दायित्व, आर्थिक
दायित्व

Pecuniary transactions मौद्रिक सौदे, अर्थ-व्यव-
हार, आर्थिक सौदे

Peddler फेरी वाला, पैकार

Pegged price कोलित कीमत

Pegging प्रधिकीलन, विनिमय दर प्रधिकीलन—

जब किसी मुद्रा को विनिमय-दर को स्थिर रखने
या किसी निरिपत स्तर के निकट सीमाओं के
बीच रखने का प्रयास किया जाता है, तो इसे
विनिमय दर प्रधिकीलन कहते हैं। इस उद्देश्य के
लिए विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय किया जा
सकता है। इस पद का प्रयोग प्रायः मौद्रिक
प्राधिकार द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप
के लिए किया जाता है।

Pegging down of exchange rate विनिमय दर
को नीचे टांकना

Pegging of exchange rate विनिमय-दर प्रधिकीलन

Pegging up of exchange rate विनिमय-दर को
ऊपर टांकना/टांकना

Peg point आधार बिन्दु, कील बिन्दु

Penal rate of interest द्याज की दण्डात्मक दर

Pension पेंशन, निवृत्तिका, निवृत्ति वेतन

Pension, old age बुढ़ापा-पेंशन, वृद्धावस्था-पेंशन

Pension plan पेंशन योजना

Peat-up demand अर्धहृद माँग

People's bank जनता बैंक

People's Capitalism जन पूँजीवाद—एम०

नेडलर (Marcelo Nadler) ने अपनी पुस्तक
'People's Capitalism' में इस पद का प्रयोग
पूँजीवाद के उस प्रकार को व्यक्त करने के लिए
किया है जिसमें उद्योग का स्वामित्व जनसंख्या के
बहुत बड़े भाग के धारिणत्व में होता है। स्वामित्व
में मध्यम तथा विम्व-मध्य वर्ग भी शामिल होते
हैं। वास्तव में इस पद का उद्देश्य मध्य वीसवीं
शताब्दी की संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थ-
व्यवस्था की तुलना उन्नीसवीं शताब्दी में अर्थ-
व्यवस्था के रूप से करना है। इस धारणा के
प्रतिपादकों का कहना है कि जब कि उन्नीसवीं
शताब्दी में बहुत से बड़े-बड़े व्यापारों अथवा फर्मों
पर कुछ समृद्ध व्यक्तियों का आधिपत्य था, बीसवीं
शताब्दी में हिस्सा स्वामित्व का फैलाव बड़े पैमाने
पर हुआ है। समाजवादी अर्थशास्त्रियों का मत है
कि जन पूँजीवाद की धारणा एक ढकोसला है
क्योंकि इसमें पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी
रूप देने का निहित प्रयास है। मतः यह धारणा

भ्रामक है। वास्तव में आज भी अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पर कुछ समृद्ध परिवारों का आधिपत्य बना हुआ है।

People's Plan जनता योजना—स्वतन्त्रता पूर्वकाल में श्री एम० एन० राय द्वारा भारत के विकास के लिए यह योजना तैयार की गयी। इस योजना की प्रेरणा रूस में आयोजन का प्रयोग था। योजना में भूमि के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया गया ताकि सामूहिक धरोहर की योजना लागू की जा सके। कृषि उत्पादितता को बढ़ाने के लिए योजना में कृषि के यंत्रीकरण पर बल दिया गया। उद्योग के क्षेत्र में, सोवियत नीति के विरुद्ध जनता योजना में उपभोग-वस्तु उद्योगों को प्राथमिकता दी गई क्योंकि केवल इन्हीं के विकास द्वारा जनता के लिए ऊँचा जीवन-स्तर प्राप्त हो सकता है। मूल उद्योगों का विकास अर्थात् संचालन-शक्ति, खनिज, मशीनरी, भारी रसायन आदि को उपभोग-वस्तु उद्योगों की आवश्यकता के अनुसंधान होना चाहिए। किन्तु, कुंजी उद्योगों को सरकारी स्वामित्व और प्रबन्ध के आधीन चलाना चाहिए। योजना में जीवन-स्तर को दस वर्षों में दुगुना करने की व्यवस्था की गई।

Per annum प्रति वर्ष, वार्षिक, सालाना

Per capita प्रति व्यक्ति

Per capita consumption प्रति व्यक्ति उपभोग

Per capita consumption expenditure प्रति व्यक्ति उपभोग-व्यय

Per capita cultivable land प्रति व्यक्ति कृषि-योग्य भूमि

Per capita income प्रति व्यक्ति आय

Per capita money income प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय

Per capita off-take प्रति व्यक्ति उठाव, प्रति-व्यक्ति खरीद/क्रय

Per capita output प्रति व्यक्ति उत्पाद

Per capita physical productivity प्रति व्यक्ति भौतिक उत्पादितता

Per capita productivity प्रति व्यक्ति उत्पादितता

Per capita real income प्रति व्यक्ति वास्तविक आय

Per contra अन्व-पाइवं, दूसरे पाइवं में—किसी गुणनपत्र में स्वयं बराबर हो जाने वाली मद।

Perennial canals बारहमासी नहरें

Perennial industry बारहमासी उद्योग

Perennial under-employment निरन्तर अल्प-रोजगार

Perfect collusion पूर्ण गठबंधन

Perfect competition पूर्ण प्रतियोगिता

Perfect complementarity पूर्ण पूरकता

Perfect elasticity पूर्ण लोच

Perfect equilibrium पूर्ण सन्तुलन

Perfect knowledge पूर्ण जानकारी

Perfectly elastic पूर्णतया लोचपूर्ण

Perfectly immobile पूर्णतः गतिरहित, पूर्णतः गतिहीन

Perfectly income elastic पूर्णतया आय लोच

Perfectly income inelastic पूर्णतया आय लोचहीन

Perfectly mobile पूर्णतः गतिशील, पूर्णतया गतिशील

Perfect market पूर्ण बाजार

Perfect mobility पूर्ण गतिशीलता

Perfect substitutes पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएँ

Perfect substitution पूर्ण प्रतिस्थानापन्न/प्रतिस्थापन

Performance Budget निष्पादन बजट—

सरकारी बजट तैयार करने की वह विधि जिसमें बजट में प्रवेश होने वाली प्रत्येक मद किसी विशेष क्रय या आर्थिक क्रिया को व्यक्त करती है जिसे कि राशि प्राप्त होते ही आरम्भ किया जाएगा। निष्पादन बजट का विशेष गुण यह है कि इसके द्वारा व्यय पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है ताकि विनियोग-व्यय या अन्य व्यय निर्देशित वार्षिक में ही हो सकें। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों को सामान्य रूप में एक-मुक्त राशि वञ्चित कर दी जाती है, किन्तु— विभाग को इन्ने विविष्ट परिचोजनाओं में बाँटने के

लिए कहा जाता है। इसका उद्देश्य बदलती हुई परिस्थितियों में पुरानी परियोजनाओं को मनचाहे ढंग से बदलने से रोकना है। हुवर आयोग (Hoover Commission) ने निष्पादन बजट बाधू करने की सिफारिश की थी। अब यह पद्धति विभिन्न देशों में स्वीकार की जा रही है।

Performance report निष्पादन रिपोर्ट

Peril Point आपदा बिन्दु—यिना देशों उत्पादकों के हितों को मुकसान पहुँचाए किसी वस्तु-विशेष पर लगाए गए आपात-शुल्क में अधिकतम कटौती करना। इसके लिए सरकारी प्राधिकारियों को टैरिफ-बटोती के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है जिसमें आपदा-बिन्दु निर्धारण का औचित्य बताया जाता है। यदि सरकार इसे स्वीकार कर ले, तो वह आपात-शुल्क उस सीमा तक घटा देती है। आपदा-बिन्दु सम्बन्धी धारा को टैरिफ-विधान में समाविष्ट करना संरक्षणवादी हितों की विजय का प्रतीक है जो अधिक उदारवादी नीति के विरुद्ध थे।

Period analysis काल विश्लेषण

Periodical audit प्रावधिक लेखा-परीक्षा

Periodic depressions सामयिक मंदियाँ

Periodic evaluations नियतकालिक मूल्यांकन

Periodicity नियतकालिकता, आवृत्ति

Periodicity of crisis संकट आवृत्ति

Period multiplier अवधि गुणक

Period of contraction संकुचन काल

Period of disablement अक्षमता अवधि

Period of gestation गर्भावधि, परिपाक अवधि

Period of grace अनुग्रहावधि

Period of production उत्पादन अवधि

Period of time समय अवधि

Period of waiting प्रतीक्षा काल

Perishable goods नश्वर वस्तुएँ, नाशवान वस्तुएँ

Permanent assets स्थायी परिसम्पत्ति

Permanent consumption स्थायी उपभोग

Permanent debt स्थायी ऋण

Permanent income स्थायी आय

Permanent monopoly revenue स्थायी एकाधिकारात्मक आय

Permanent partial disability स्थायी प्रांशिक अक्षमता

Permanent saving स्थायी बचत

Permanent settlement स्थायी बन्दोबस्त

Permanent shift of terms of trade व्यापार शर्तों का स्थायी परिवर्तन, व्यापारार्थ में स्थायी परिवर्तन

Permanent total disability स्थायी पूर्ण अक्षमता

Permanent total disability benefit स्थायी पूर्ण अक्षमता लाभ

Permissive factors आनात्मक कारणात्मक

Permissive Society आनात्मक/अनुज्ञात्मक समाज
—परम्पराओं का विरोध सहन करने वाला समाज।

Permit card परमिट कार्ड, अनुज्ञा-पत्र

Permit fee परमिट फीस, अनुज्ञा शुल्क

Perpetual bond बेमियादी बाँड, अनवरत बाँड

Perpetual debenture बेमियादी डिबेंचर, अनवरत ऋणपत्र

Perpetual debt बेमियादी ऋण, अनवरत ऋण

Perpetual series सतत श्रेणी

Per Pro स्थाने—यह लातीनी शब्द 'per procuracionem' का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है 'के लिए' या 'किसी के स्थान पर'। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के स्थान पर किसी पत्र पर हस्ताक्षर करता है, तो इसे 'स्थाने' क्रिया कहते हैं। यह दूसरे व्यक्ति से प्राप्त अधिकार के आधार पर किया जा सकता है।

Perquisites लजजमात, प्रतिरिक्त आय या सुविधाएँ, परिलब्धि—इस शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है : 1. वह सम्पत्ति जो उत्तराधिकार की अपेक्षा किसी अन्य तरीके से प्राप्त की गयी हो। 2. आम तौर पर इसका प्रयोग मजदूरी या वेतन के प्रतिरिक्त प्राप्त होने वाले अन्य लाभों एवं सुविधाओं से है, जैसे उपहार, मुक्त मकान, बोनस आदि।

Personal account वैयक्तिक लेखा

- Personal consumption expenditure वैयक्तिक उपभोग-व्यय
- Personal credit वैयक्तिक कूट, वैयक्तिक साख
- Personal cultivation स्वयं हाथ, खुद कास्ट
- Personal distribution वैयक्तिक वितरण
- Personal distribution of income आय का वैयक्तिक वितरण
- Personal element व्यक्तिगत तत्व, वैयक्तिक भंश
- Personal enrichment व्यक्ति विशेष का धनी बनना
- Personal goods वैयक्तिक वस्तुएँ
- Personal income वैयक्तिक आय
- Personal income tax वैयक्तिक आय कर
- Personal initiative व्यक्तिगत पहल
- Personal management व्यक्तिगत प्रबंध
- Personal net wealth tax वैयक्तिक शुद्ध सम्पत्ति कर
- Personal prejudices वैयक्तिक पक्षपात, वैयक्तिक पक्षग्रहण
- Personal security वैयक्तिक प्रतिभूति, निजी जमानत
- Personal supervision निजी देखभाल/निरीक्षण
- Personal tax वैयक्तिक कर, व्यक्ति कर
- Personnel audit कार्मिक नीति समीक्षा
- Personnel management कार्मिक-सम्पर्क/प्रबंध
- Personnel manager सेविवर्ग प्रबन्धक
- Personnel services कार्मिक सुविधाएँ
- Personnel unemployment कार्मिक बेरोजगारी
- Perspective Planning** दूरदर्शी योजना—दीर्घ-कालीन तत्वों व परिवर्तनों को समाविष्ट करती हुई योजना
- Perspective Planning Division दूरदर्शी योजना संभाग
- Phenomenon प्रतिभास, घटना-चक्र
- Per unit प्रति इकाई
- Physical apparatus भौतिक साज-सज्जा
- Physical assets भौतिक परिसम्पत्
- Physical commodity भौतिक वस्तु
- Physical controls भौतिक नियन्त्रण
- Physical distribution भौतिक वितरण, पदार्थीय वितरण
- Physical exchange भौतिक विनिमय, पदार्थीय विनिमय
- Physical input भौतिक आदान/प्रागत
- Physical labour शारीरिक श्रम
- Physical needs भौतिक आवश्यकताएँ
- Physical output भौतिक प्रदान/उत्पादन/निर्गत
- Physical planning भौतिक आयोजन
- Physical product भौतिक उत्पाद
- Physical productivity भौतिक उत्पादिता
- Physical productivity of labour श्रम की भौतिक उत्पादिता
- Physical stock भौतिक स्टॉक, वास्तविक स्टॉक
- Physiocracy प्रकृतिवादी ग्रथशास्त्र, निर्वाधावादी ग्रथशास्त्र, भू-ग्रथशास्त्र, कृष्यर्थशास्त्र
- Physiocrat** क्रिजियोक्रेट, निर्वाधावादी, प्रकृतिवादी, भू-ग्रथशास्त्री, कृष्यर्थशास्त्री—इस सम्प्रदाय में 18वीं शताब्दी के बहुत से फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ और दार्शनिक शामिल थे जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक घटनाओं का पहली बार एक क्रमबद्ध रूप में विश्लेषण करके ग्रथशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। धार्मिक क्रियाओं को प्रयासित करने वाले 'प्राकृतिक नियमों' प्रकृति मुद्रा का स्वरूप और निर्वाध व्यापार (Free Trade) के बारे में इनके विचार आज भी सही माने जाते हैं, परन्तु इनके द्वारा धन के स्वरूप एवं वितरण संबंधी विचार ठीक नहीं माने जाते। उनके अनुसार भूमि ही धन का एक मात्र स्रोत है और कृषि एक मात्र धन उत्पन्न करने वाला व्यवसाय। कृषि ही "वास्तविक उत्पाद" (Product Net) के रूप में प्रतिरेक पैदा करती है और इसलिए कराधान का यही एक स्रोत है। सभी विनिर्माता 'अनुत्पादक-वर्ग' में गिने जाने चाहिए क्योंकि वे धन उत्पन्न नहीं करते बल्कि उसका रूप-परिवर्तन करते हैं। अतः वे यह बात स्पष्ट रूप से अनुभव न कर सकें कि उत्पादन का प्रयत्न नयी जड़-वस्तु (matter) का निर्माण नहीं होता, अपितु उपलब्ध जड़-वस्तु को उपयोगिता प्रदान

करना होता है।

- Picket घरना, घरना देने वाला
 Picketing, cross घरना दर घरना, प्रति घरना
 Picketing, dry run थोथा घरना
 Picketing, mass व्यापक घरना, सामूहिक घरना
 Picketing, peaceful शांतिपूर्ण घरना
 Picketing, secondary समर्थक घरना, अनुपंगी घरना
 Picketing, stranger अकर्मचारी घरना
 Piecemeal planning खंडशः आयोजन
 Piece rate wage उजरत, यथाकार्य मजदूरी दर
 Piece wage यथाकार्य मजदूरी
 Piece work उजरती काम
Pigou Effect Theory पीगू प्रभाव सिद्धान्त—
 इस सिद्धान्त के अनुसार सामान्य कीमत स्तर में कमी के फलस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय की प्रोत्साहन मिलता है। इस सिद्धान्त का भावना यह है कि लोग अपनी आय का एक भाग मुद्रा-अधिशेष (Money Balances) के रूप में रखते हैं और शेष वस्तुओं तथा सेवाओं पर खर्च करते हैं, अतः मुद्रा-अधिशेष तथा वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय में एक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। कीमत स्तर में कमी के कारण मुद्रा-अधिशेष का मूल्य बढ़ जाता है क्योंकि अब इससे अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं। इस कारण लोग ये सोचने लगते हैं कि उनके पास मुद्रा-अधिशेष या तरल-परिचयत्व की अपेक्षाकृत अतिरिक्त मात्रा हो गयी है। अतः वे इस अधिक मात्रा का कुछ भाग वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय कर देते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पीगू प्रभाव वस्तुओं तथा सेवाओं पर अधिक व्यय के माध्यम से व्यक्त होता है, परन्तु इसके विरुद्ध केम्ब प्रभाव (Keynes Effect) बौद्ध बाजार के माध्यम के द्वारा कार्य करता है।
Pig philosophy घुकर-दर्शन—निकृष्ट तत्त्वों की और आर्क्षित होने वाली प्रवृत्ति या दर्शन
 Pilferage छोटी-मोटी चोरी, छुट्टुट चोरी, उठाई-चोरी

- Pilgrim tax तीर्थवाणी कर
 Pilot census मार्गदर्शी गणना
 Pilot experiment मार्गदर्शी प्रयोग
 Pilot production मार्गदर्शी उत्पादन
 Pilot project मार्गदर्शी परियोजना
 Pin money जेब खर्च, स्त्री का जेब खर्च, भत्ता
 Pioneer farmer प्रथमगामी कृषक
 Pioneering प्रथमगमन
 Place, market बाजार, हाट, मंडी
 Placement काम देना, नौकरी दिलाना
 Place of assessment कर-निर्धारण स्थान
 Place of business व्यवसाय स्थान
 Place utility स्थानमूलक उपयोगिता
 Placing नौकरी दिलाना, प्रतिभूतियाँ जारी करना
 Plain bond सादा बाँड, सादा बन्ध-पत्र
 Plan योजना
 Plan, appraisal of योजना की समीक्षा
 Plan, classification वर्गीकरण योजना
 Plan, economic प्राथिक योजना
 Plan, five-year पंच-वर्षीय योजना
 Plan, Gandhian गांधीवादी योजना
 Plan, mid-trem appraisal of योजना की मध्या-वधि/मध्यकालीन समीक्षा
 Plan, strategy of योजना की विधि
 Plan outlay योजना परिव्यय, योजना-व्यय
 Plan priorities योजना की प्राथमिकताएँ
 Planned development आयोजित विकास
 Planned economy आयोजित प्रयोज्यवस्था, योजना-बद्ध प्रयोज्यवस्था
 Planned investment आयोजित विनियोग
 Planned location of industry उद्योग का आयोजित स्थिति निश्चयन
Planned obsolescence आयोजित प्रचलनोन्मुखता—प्रत्येक वर्ष फैशन या डिजाइन में परिवर्तन के कारण उपभोक्ताओं की, इससे पहले कि पुरानी वस्तुएँ प्रयोगहीन हो गयीं हो, नयी-नयी वस्तुओं की खरीदने के लिए उत्तेजित किया जाता है। समूह देशों में इस प्रकार के व्यवहार के अनेक उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए 1972 माडल

- की कार को 1970 माडल की कार से बदलना, चाहे 1970 माडल की कार अभी कितने ही वर्ष और चल सकती हो। अविश्वित देशो मे भी समृद्ध वर्ग के लोग कपडो, फरनीचर तथा अन्य अनेक प्रकार की वस्तुओं मे पुराने डिजाइन की वस्तुओं को नए डिजाइन की वस्तुओं से बदलते रहते हैं। जब फर्म उपभोक्ताओं को पुराने डिजाइनो के घिसने से पूर्व नए डिजाइनो की वस्तुओं को खरीदने के लिए उत्तेजित करती हैं, तो यह व्यवहार प्रायोजित अप्रचलनोन्मुखता कहलाता है। बहुत से आलोचक इसे प्राकृतिक ससाधनो का व्यर्थ-उपयोग मानते है।
- Planned output योजनाबद्ध निर्गत/उत्पादन
 Planned parenthood प्रायोजित पितृत्व
 Planned saving प्रायोजित बचत
 Planned society योजनाबद्ध समाज
 Planner प्रायोजक
 Planning प्रायोजन
 Planning, aims and objects of प्रायोजन के लक्ष्य और उद्देश्य
 Planning, central केन्द्रीय प्रायोजन
 Planning, centralised system of प्रायोजन की केन्द्रीकृत पद्धति
 Planning, comprehensive व्यापक प्रायोजन
 Planning, co-operative सहकारी प्रायोजन
 Planning, developmental विकासमूलक प्रायोजन
 Planning, economic आर्थिक प्रायोजन
 Planning, family परिवार नियोजन
 Planning, financial वित्तीय प्रायोजन
 Planning, officialised शासकीयकृत प्रायोजन
 Planning, physical भौतिक प्रायोजन
 Planning, piecemeal खडखडः प्रायोजन
 Planning, rural ग्राम प्रायोजन
 Planning, state सरकारी प्रायोजन
 Planning, town शहर प्रायोजन
 Planning, urban शहरी प्रायोजन
 Planning, utopian अद्वयवहार्थ प्रायोजन
 Planning authority प्रायोजन अधिकार/प्रधिकार
 Planning by direction निर्देश द्वारा प्रायोजन
 Planning by inducement प्रोत्साहन द्वारा प्रायो-जन
 Planning Commission योजना प्रायोग
 Planning machinery योजना तंत्र, प्रायोजन मशी-नरी
 Planning mechanism प्रायोजन क्रियाविधि/प्रक्रिया
 Planning of public works सार्वजनिक निर्माण कार्यों का प्रायोजन
 Planning statistical enquiry सांख्यिकी अनु-संधान की योजना बनाना
 Plantation रोपण
 Plantation, economic आर्थिक रोपण
 Plantation crop रोपी फसलें, बागान फसलें
 Plantation industry बागान उद्योग
 Plantation labour रोपण-श्रमिक, बागानी श्रम
 Plant capacity संयंत्र-क्षमता
 Plant manager संयंत्र-प्रबन्धक
 Plant turnover ratio संयंत्र-विक्रय अनुपात
 Plant union कारखाना संघ
 Play of market बाजार का खेल, बाजार क्रीड़ा
 Pleasure economy सुखद अर्थव्यवस्था
 Pledging बन्धक
 Pledging of child labour बाल-श्रम-अनुबंधन
 Pledging of Child Labour Act बाल श्रमानुबंधन अधिनियम
 Plentiful factors प्रचुर साधन
 Ploughing back of profits लाभ का पुनर्वनि-योजन
 Plugging the leakage रिसाव बन्द करना, रिसाव रोधन
 Plural taxation अनेक कर, बहुल कर
 Plutocracy धनिकतंत्र
 Point elasticity बिन्दु लोच
 Point of ideal proportions आदर्श अनुपात बिन्दु
 Point of indifference समभाव बिन्दु, अनधिमाम बिन्दु
 Point of inflation स्फीति बिन्दु
 Point of inflection मोड़ बिन्दु

Point of purchase क्रयस्वान
 Point of purchase advertising क्रय-स्वल्प विज्ञापन
 Point of sale advertising विक्रय स्थल विज्ञापन
 Point of tangency स्पर्श बिन्दु
 Point of time समय विवेक
 Point system प्रक पद्धति
 Point-to-point adjustment बिन्दुवार समायोजन
 Point value अंक मूल्य
 Pointer for scale पैमाना निर्देशक
 Police state पुलिस राज्य
 Policy, budgetary वजटीय नीति
 Policy, economic आर्थिक नीति
 Policy, financial वित्तीय नीति
 Policy, fiscal राजकोषीय नीति
 Policy, industrial औद्योगिक नीति
 Policy, monetary मौद्रिक नीति
 Policy, price कीमत नीति
 Policy, tariff प्रचुरक नीति, टैरिफ नीति
 Policy, tax कर नीति
 Policy conclusions नीति-निष्कर्ष
 Policy of commercial agriculture वाणिज्यिक कृषि की नीति
 Policy of planned public works expenditure नियोजित सार्वजनिक निर्माण व्यय नीति
 Policy of profits लाभ नीति
 Policy of prohibition मद्य विषेय नीति
 Policy pricing नीति अनुसार कीमत निश्चयन—
 ऐसी कीमत नीति जो भाविकेतर धारणाओं से प्रभावित हो, परन्तु दत्त कीमत निश्चयन में सरकार की स्वीकृति प्राप्त होती है। जैसे, सरकारी उद्यमों की कीमत-नीति, विद्येयकर जनोपयोगी सेवाओं के संबंध में।
 Political and social structure राजनीतिक एवं सामाजिक संरचना
 Political economy राज्यार्थशास्त्र
 Political economy of taxation कराधान की राज्यार्थ-व्यवस्था

Political economy of war युद्ध की राज्यार्थ-व्यवस्था
 Poll tax मशीन, व्यक्ति कर, प्रति व्यक्ति कर, प्रति-गुण्ड-कर
 Polymetallism बहु पातुमान
 Polyposony बहुक्रेताधिकार
 Polypoly बहु विक्रेताधिकार
 Pool व्यावसायिक संघ, विक्रय-संघ, तनिधि, गुंज, पूल, विदेशी मुद्रा सग्रह
 Pooled estimate सग्रहीत अनुमान
 Pooling of produce उत्पादन का एकत्रीकरण
 Pool of economists अर्थशास्त्रियों का संघ
 Pool price पूल कीमत, समुच्चय कीमत
 Pool sales समुच्चय विक्रय
 Pool system व्यावसायिक संघ प्रणाली, पूल प्रणाली
 Poor economic organisation निर्बल आर्थिक संगठन
 Poor economy निर्धन अर्थव्यवस्था
 Poor laws निर्धन कल्याण कानून
 Poorly developed country अल्पविकसित देश, बहुत कम विकसित देश
 Poor natural resources हीन प्राकृतिक सत्ताधन
 Poor technique अवनत तकनीक
 Popular representation लोकप्रिय प्रतिनिधित्व
 Population जनसंख्या
 Population, active सक्रिय जनसंख्या
 Population, critical क्रांतिक जनसंख्या
 Population, emigrant उद्योगवासी जनसंख्या
 Population, floating यायावर जनसंख्या, अस्थायी जनसंख्या
 Population, growth of जनसंख्या की वृद्धि
 Population, homeless बेघर जनसंख्या
 Population, immigrant प्रागवासी जनसंख्या
 Population, inborn अन्तर्जात जनसंख्या
 Population, non-working अकार्यकारी जनसंख्या
 Population, normal सामान्य जनसंख्या
 Population, optimum अनुकूलतम/सर्वोत्तम जनसंख्या

Population, over जनानधिक्य, अधिक आबादी
 Population, progressive वर्धमान जनसंख्या
 Population, retrogressive ह्रासमान जनसंख्या
 Population, rural ग्रामीण जनसंख्या
 Population, stationary स्थैतिक जनसंख्या
 Population, under अल्प-जनसंख्या
 Population, urban नगरीय जनसंख्या, शहरी जन-
 संख्या
 Population, working कार्यकारी जनसंख्या, क्रिया-
 शील जनसंख्या
 Population census जनगणना
 Population Commission जनसंख्या आयोग
 Population control जनसंख्या नियन्त्रण
 Population density जनघनत्व, आबादी की सघ-
 नता
 Population equivalent जनसंख्या-समाहृत
 Population exodus जनसंख्या बहिर्गमन
Population explosion जनसंख्या विस्फोट—
 इस पद का प्रयोग जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के उस
 काल से लिया जाता है जिसमें मृत्यु-दर तेजी से
 कम हो जाए किन्तु जन्म-दर कम न हुई हो, या
 अपेक्षाकृत बहुत थोड़ी कम हुई हो। जनसंख्या
 विशेषज्ञ इसे जनान्धिक्य की दूसरी अवस्था कहते
 हैं। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति का कारण यह
 है कि मृत्यु-दर को कम करने के उपाय बाह्यजित
 होने के कारण शीघ्र लागू किये जा सकते हैं
 परन्तु जन्मदर को कम करने के उपाय अन्तर्जित
 होने के कारण अपना असर काफी देर से व्यवह
 करते हैं। अतः इस बीच जन्मदर और मृत्युदर का
 अन्तर बढ़ जाता है। जनसंख्या वृद्धि की इस
 अवस्था को 'जनसंख्या विस्फोट' कहते हैं।
 Population growth जनसंख्या में वृद्धि
 Population-optimum अनुकूलतम/सर्वोत्तम जनसंख्या
 Population policy जनसंख्या नीति
 Population problem जनसंख्या की समस्या
 Population projection जनसंख्या पूर्वानुमान
 Population pyramid जनसंख्या स्तूप, जनसंख्या
 पिरामिड
Populism जनवाद, जनसम्पत्ति का सिद्धान्त—

किसानों के रहन-सहन की दशाद्यो को उन्नत
 करने के लिए चलाया गया एक समाजवादी आदि-
 लन। इसको एलेक्सेन्डर हरजन (Aleksander
 Harzen) और निकोलाई चर्नोशिवस्की (Niko-
 lai Chernyshevski) ने मध्य-उन्नीसवीं शताब्दी
 में चालू किया। इस प्रोग्राम के अनुसार किसानों
 को अधिक भूमि और स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए
 और इसमें किसानों में भूमि के समान वितरण पर
 बल दिया गया। जनवादियों द्वारा मार्क्स के इस
 विचार को अस्वीकृत किया गया कि समाजवादी
 समाज की स्थापना से पूर्व पूँजीवाद का विकास
 अनिवार्य है। उनका विश्वास था कि किसान-
 पंचायतों (Peasant Communes) से कृषि-प्रधान
 रूप में पूँजीवाद अनावश्यक हो सकता है। बोल्शे-
 विक पार्टी के विकास के पश्चात् जनवादी आन्दो-
 लन में जनता का विश्वास कम हो गया।

Portability वहनीयता

Port development बन्दरगाह विकास

Porterage कुर्ची की मजदूरी

Portfolio प्रतिभूति सूची, पत्र सूची—किसी विनि-
 योक्ता के पास प्रतिभूतियों की सूची या किसी बैंक
 अथवा वित्तीय-गृह के पास धाणिज्य-पत्र की सूची,
 एक अथवा पोटैफोलियो में विनियोग की भारी
 विविधता होनी चाहिए।

Portfolio investment पोटैफोलियो विनियोग,
 प्रतिभूति विनियोग

Positive aspect घनात्मक पहलू

Positive changes सकारात्मक परिवर्तन

Positive checks नैसर्गिक रोकें/निरोध, प्राकृतिक
 अवरोध

Positive correlation घनात्मक सह-सम्बन्ध

Positive economics वास्तविक अर्थशास्त्र, तात्विक
 अर्थशास्त्र

Positive incentives सकारात्मक प्रोत्साहन

Positive income effect सकारात्मक आय प्रभाव

Positive laws of economics अर्थशास्त्र के
 यथार्थमूलक नियम

Positively sloping supply curve घनात्मक/
 सकारात्मक ढलान वाला पूर्ति चक्र

- Positive population policy** सकारात्मक जन-संस्था नीति
- Positive science** वास्तविक विज्ञान
- Positive slope** घनात्मक ढाल
- Positive substitution effect** सकारात्मक स्थानापत्ति प्रभाव
- Positive utility** घनात्मक उपयोगिता
- Positivism** वास्तविकता, व्यवहारवाद, वस्तु-निष्ठ-वाद, प्रत्यक्षवाद—इस सिद्धान्त के अनुसार सभी ज्ञान प्रैक्षणिय तथ्यों से सम्बन्धित है। परिणामतः सभी घटनाओं के स्वरूप को जानने के लिए उनके प्रादुर्भाव, ऐतिहासिक विकास सम्बन्धी तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है। इस सिद्धान्त को सबसे पहले फ्रांसीसी दार्शनिक कामटे (Comte) ने प्रतिपादित किया। उसका उद्देश्य ऐतिहासिक घटनाओं का प्रेक्षण कर प्राकृतिक विज्ञानों की भाँति समाज की 'गति के नियम' (Laws of Motion) प्रतिपादित करना था। इस विचारधारा के मूल में यह बात है कि सामाजिक परिवर्तन के भावी मार्ग की पूर्वघोषणा की जा सकती है। प्रोफेसर कार्ल पोपर (Karl Popper) ने हाल ही के वर्षों में अपनी कृतियों में इसकी बहुत प्रलोचना की है।
- Positivist** वास्तविकतावादी, व्यवहारवादी, वस्तु-निष्ठवादी
- Possession utility** धारण उपयोगिता
- Possible unjustifiable distortion** संभावित घन्यायपूर्ण बिगाड़
- Postal life insurance** डाक जीवन बीमा
- Postal saving certificate** डाकपर बचत-पत्र
- Post-classical economists** उत्तर-संस्थापित ग्रन्थ-शास्त्री
- Post-dated cheques** उत्तर-तिथीय चँक
- Post-employment questionnaire** नियुक्ति पश्चात् प्रश्नमाला
- Post-facto sanction** कार्योत्तर स्वीकृति
- Post-natal** जन्मोत्तर
- Post-office saving bank** डाकपर बचत बैंक
- Postponed consumption** स्थगित उपभोग
- Post-shipment credit guarantee** लदानोत्तर साक्ष गारण्टी
- Post-tax incomes** करोत्तर आय
- Postulates of economics** ग्रन्थशास्त्र के प्राधार सिद्धान्त
- Potential buyers** संभाव्य खरीदार
- Potential competition** संभाव्य प्रतियोगिता
- Potential competitor** संभावित प्रतियोगी
- Potential demand** संभाव्य माँग
- Potential economic surplus** संभावित आर्थिक अतिरिक्त
- Potentiality for development** विकास सम्भाव्यता
- Potential maximum** संभावित अधिकतम
- Potential price** संभाव्य कीमत
- Potential productivity** संभाव्य उत्पादितता
- Potential sales** संभाव्य विक्री
- Potential saving** संभाव्य बचत
- Potential spending power** संभाव्य व्यय-शक्ति
- Potential supply of labour** संभाव्य श्रम-संभरण
- Potential surplus** संभावित अतिरिक्त/प्रतिशेष
- Potential wealth** संभाव्य धन
- Poverty** निर्धनता, दरिद्रता, गरीबी
- Poverty line** निर्धनता-स्तर
- Poverty-ridden society** निर्धनता-ग्रस्त समाज
- Power-industry transport** संचालन-शक्ति उद्योग परिवहन
- Powerloom factory** बिजली करघा कारखाना
- Power of experimentation** प्रयोग करने की शक्ति
- Power of initiative** पहल करने की शक्ति
- Power of procreation** प्रजनन-शक्ति
- Power to save** बचत क्षमता, संचय क्षमता
- Precautionary motive** पूर्वावधानी उद्देश्य, सुरक्षात्मक उद्देश्य
- Preceding unit** पूर्वगामी इकाई
- Preclusive Buying** प्रतिरोधक क्रय—इसका अर्थ वस्तुओं या सेवाओं का केवल इस कारण क्रय करना है कि प्रतियोगी इन्हे इस्तेमाल न कर सके।

- युद्ध काल में तटस्थ देशों से कुछ देश इसलिए अधिक माल खरीद लेते हैं कि शत्रु देश इस माल का प्रयोग न कर सकें ।
- Pre employment training नियुक्ति-पूर्व प्रशिक्षण, रोजगार-पूर्व प्रशिक्षण
- Pre-extension phases प्राक् विस्तार अवस्था
- Pre-fabricated houses पूर्व-निर्मित मकान
- Preference approach अधिमान विश्लेषण
- Preference bond तरजीही बाँड, पूर्वाधिकार बाँड
- Preference criterion अधिमान मानदण्ड/कसौटी
- Preference schedule अधिमान सूची
- Preference schemes अधिमानी योजनाएँ, तरजीही योजनाएँ
- Preference shares अधिमान हिस्से
- Preference shareholders अधिमान हिस्सेदार
- Preference system अधिमान पद्धति
- Preferential claim अधिमान्य दावा
- Preferential duties रियायती शुल्क
- Preferential hiring तरजीही नियुक्ति
- Preferential payments तरजीही अदायगी
- Preferential restriction तरजीही पाबन्दी
- Preferential tariff अधिमान्य प्रशुल्क
- Preferential tariff treatment अधिमान्य शुल्क-व्यवहार
- Preferential trade agreement अधिमानारमक व्यापार करार
- Preferential treatment तरजीही व्यवहार
- Pre-industrialised पूर्व-उद्योगीकृत, प्राक् औद्योगीकृत
- Pre-Keynesian dissenters केन्ज-पूर्व भिन्न-मतवादी
- Preliminary estimates प्रारम्भिक अनुमान
- Premature expansion of investment विनियोग का समय-पूर्व विस्तार
- Premature obsolescence of equipment साज-सज्जा का समय-पूर्व अप्रचलन
- Premium बीमा किस्त, बढ़ती
- Premium annuity किस्त वार्षिकी
- Premium for risk जोखिम के लिए बढ़ती
- Premium pay बढ़ती
- Pre-emptive Right** पूर्वक्रयाधिकार--किसी विशेष कारण से किसी व्यक्ति, व्यक्ति-समूह या संस्था को किसी वस्तु के क्रय में प्राथमिकता देना । उदाहरण के लिए, अनाज की मण्डियों में फसल बोली लगाकर बेची जाती है । भारत में उचित कीमत को दुकानों पर माल बेचने के लिए सरकार के लिए फसल को खरीदना आवश्यक है । अतः सरकारी प्रतिनिधि मण्डि में फसल खरीदने के लिए जाता, परन्तु आड़तिये नीलामी में भाव ऊँचे करते जाते । कई राज्यों, विशेषकर पंजाब में, सरकार ने पूर्वक्रयाधिकार प्राप्त कर लिया । नीलामी समाप्त होने पर सरकार के प्रतिनिधि को यह अधिकार प्राप्त था कि वह अन्तिम बोली पर माल खरीद ले या छोड़ दे । जब आड़तिये भाव तेज करते जाते, तो सरकारी प्रतिनिधि माल न खरीदने का फैसला करता । ऐसी अवस्था में आड़तिये को अधिक कीमत पर माल खरीदना पड़ता । इस प्रकार पूर्वक्रयाधिकार के कारण फसल की कीमतों को बढ़ने से रोक गया ।
- Pre-planning पूर्वयोजन
- Prescribed procedure नियत कार्यविधि, निर्धारित क्रियाविधि
- Prescriptive economics निर्देशात्मक अर्थशास्त्र
- Presence of monopoly एकाधिकार की विद्यमानता
- Presentation of bill बिल पेश करना, हुण्डी प्रस्तुत करना
- Present goods वर्तमान वस्तुएँ
- Presentment पेश करना, प्रस्तुत करना
- Presentment for payment अदायगी के लिए प्रस्तुत करना, भुगतान के लिए पेश करना
- Present psychological-institutional complex remains constant वर्तमान मनोवैज्ञानिक-संस्थागत विविधता यथावत् रहती है
- Present system of inheritance दाय की वर्तमान व्यवस्था
- Present value वर्तमान मूल्य
- Pre-shipment credit सदान-पूर्व क्रेत
- Pressure of demand माँग का दबाव
- Pressure of population जनसंख्या का दबाव

Pressure on money market मुद्रा बाजार पर दबाव	Price, constant स्थिर कीमत
Prestige goods प्रतिष्ठा वस्तुएँ	Price, consumers' उपभोक्ता मूल्य
Presumed total loss परिकल्पित सम्पूर्ण हानि	Price, contract अनुबंध कीमत, ठेका कीमत
Pre-tax कर-पूर्व	Price, controlled नियंत्रित कीमत
Pre-tax income कर-पूर्व आय	Price, conversion बदला कीमत
Pre-trade cost ratios व्यापार-पूर्व लागत अनुपात	Price, cost लागत कीमत
Pre-trade ratio व्यापार-पूर्व अनुपात	Price, curb (=Street price) कर्ब भाव/गली भाव
Prevalent market rate चासू बाजार भाव	Price, current चासू कीमतें
Prevention of soil erosion भू-क्षरण की रोक-बाध	Price, cyclical आर्थिक चक्रिय कीमत
Preventive action निवारक कार्य	Price, demand माँग कीमत
Preventive checks प्रतिबंधक चेकें, कृत्रिम भवरोध	Price, ex-factory फैक्ट्री निकास कीमत
Pre-war gold standard युद्ध-पूर्व स्थण्डमान	Price, fair उचित दाम/मूल्य/कीमत
Pre-war parity युद्ध पूर्व समता-दर	Price, fair selling उचित विक्रय कीमत
Pre-war price level युद्ध-पूर्व मूल्य-स्तर	Price, farm फार्म कीमत
Price कीमत, मूल्य	Price, fixed नियत कीमत
Price, abnormal असाधारण कीमत	Price, flexible लचीली कीमत
Price, actual वास्तविक कीमत	Price, floor न्यूनतम कीमत/कम से कम कीमत
Price, adjusted समजित मूल्य	Price, forward वायदा कीमत
Price, administered प्राकृतिक कीमत, प्रशासित मूल्य	Price, franco, free or fend सब खर्च सहित कीमत
Price, aggregate demand संयोज्य माँग कीमत	Price, general level of कीमत का सामान्य स्तर
Price, aggregate supply समग्र संभरण कीमत	Price, knock-down बोली खतम करना (नीतामी में)
Price, anticipated प्रत्याशित कीमत	Price, list सूची कीमत
Price, arbitrary मनमानी कीमत	Price, long-period दीर्घकालीन कीमत
Price, at station स्टेशन पर्यंत कीमत	Price, making up झुग्तानी कीमत, निगटारा कीमत
Price, average औसत कीमत/मूल्य	Price(s), manipulation of कीमतों का घटाना-बढ़ाना
Price, blanket साविक कीमत—जो कीमत सभी वस्तुओं पर लागू हो	Price, marginal सीमान्त कीमत
Price, bottom कम से कम/न्यूनतम कीमत	Price, market बाजार कीमत
Price, cash नकद कीमत	Price, maximum अधिकतम मूल्य
Price, ceiling अधिकतम कीमत	Price, minimum न्यूनतम मूल्य
Price, closing बन्द नाव—वायदा बाजार बन्द होने के समय कीमत	Price, net निष्पत्त कीमत
Price(s), cluster of कीमतों का समूह	Price, non-flexible खींचहीन कीमत
Price, compensating income variation in आय में दृष्टा कीमत समकारी परिवर्तन	Price, normal सामान्य कीमत
	Price, one एक कीमत
	Price, opening खुला भाव, आरम्भिक कीमत

Price, parity मूल्य समता	Price discrimination policy कीमत विभेद नीति
Price(s), particular विशिष्ट कीमतें	Price discrepancies कीमत भ्रष्टि, कीमत असंगति
Price(s), piece खंड कीमतें	Price-earning ratio कीमत-आय अनुपात
Price, producers' उत्पादक कीमत	Price economics कीमत अर्थशास्त्र
Price, purchase क्रय कीमत	Price effect कीमत-प्रभाव
Price, re-sale पुनर्विक्रय कीमत	Price elasticity कीमत-सापेक्षता, कीमत लोच
Price, reserve (= Upset price) न्यूनतम कीमत	Price equilibrium कीमत-संतुलन
प्रारक्षित कीमत, न्यूनतम बोली, सरकारी बोली	Price equivalent income variation कीमत तुल्य आय परिवर्तन
Price, retail फुटकर कीमत, परबून कीमत	Price-exchange relationship कीमत-विनिमय संबंध
Price, rigid परिदृढ़ कीमत, हृद कीमत/मूल्य	Price fixing मूल्य-निर्धारण, मूल्य-निश्चयन
Price, sale विक्रय कीमत	Price forecasting कीमत पूर्वानुमान
Price, shadow अनुमानित कीमत, लेखा कीमत	Price fluctuations मूल्य उच्च-तलचन, मूल्य का उतार-चढ़ाव, मूल्य की घट-बढ़
Price, short-period अल्पकालीन कीमत	Price fluctuation index कीमत उतार-चढ़ाव सूचक
Price, spot हार्जिद कीमत	Price freeze कीमत जड़ीकरण
Price, Sticky हृद मूल्य, हृद कीमत—जो मूल्य उच्चावचन की प्रवृत्ति शक्य न करे।	Price gauging कीमत बढ़ाना
Price, sub-normal उप-सामान्य कीमत	Price index कीमत सूचकांक
Price, supply सभरण कीमत	Price inelasticity कीमत लोचहीनता
Price, wholesale बोक कीमत	Price inquiry कीमत की प्रेक्षापत्र, कीमत की जाँच
Price adjustment मूल्य समंजन	Price leader कीमत नेता
Price allocation कीमत आवंटन	Price leadership कीमत नेतृत्व
Price column कीमत स्तम्भ	Price level मूल्य-स्तर, कीमत-स्तर
Price consumption curve कीमत-उपभोग-वक्र	Price level, general index of सामान्य कीमत-स्तर का सूचकांक
Price control कीमत नियंत्रण	Price line कीमत रेखा
Price-cutting policy कीमत काट नीति—प्रति-योगिता में एक दूसरे से कीमत कम करते चले जाने की नीति	Price line, holding the कीमत रेखा को स्थिर रखना, सामान्य कीमत-स्तर को बनाए रखना
Price determination कीमत-निर्धारण	Price list मूल्य-सूची, कीमत-सूची
Price difference कीमत-अन्तर	Price list of rationed articles राशन-सामग्री की मूल्य सूची
Price differentials कीमत भेदक	Price loco स्थान कीमत, दुगान कीमत
Price differentiation कीमत-भेद/भिन्नता	Price maintenance कीमत अनुरक्षण
Price discrimination विभेदात्मक कीमत, कीमत विभेद	Price-maker कीमत निर्माता, कीमत-निर्धारक
Price discrimination of first degree प्रथम श्रेणी का कीमत-भेद	Price-making मूल्यन, मूल्य-निर्माण
Price discrimination of second degree द्वितीय श्रेणी का कीमत भेद	Price mechanism कीमत-प्रक्रिया
Price discrimination of third degree तृतीय श्रेणी का कीमत-भेद	

- Price mechanism, operation of the कीमत-प्रक्रिया की कार्यविधि/संचालन
- Price movement मूल्य-गति, मूल्य-परिवर्तन
- Price multiplier मूल्य-गुणक
- Price negotiations मूल्य-संबंधी बातचीत
- Price offer मूल्य प्रस्ताव, प्रस्तावित कीमत
- Price-output combination कीमत-उत्पाद संयोग
- Price-output policy कीमत-उत्पाद नीति
- Price pattern कीमत-प्रारूप, कीमत ढांचा
- Price policy कीमत-नीति
- Price policy in a developing economy विकसमान अर्थव्यवस्था में मूल्य नीति
- Price policy of public enterprises सार्वजनिक उद्यमों की मूल्य-नीति
- Price preference मूल्य-प्रथिमान
- Price-quantity combination कीमत-मात्रा संयोग
- Price quotations निवेदित-दर, निवेदित मूल्य/भाव/निर्ख
- Price range कीमत अमिच्छीमा, कीमत माला, कीमत सोपान
- Price ratio मूल्य अनुपात
- Price regulation कीमत विनियमन
- Price relatives मूल्यानुपात, कीमत-समानुपात
- Price reporting मूल्य प्रतिवेदन
- Price rigidity कीमत दृढ़ता
- Price ring कीमत धूह—एक साझी कीमत नीति परिचालित करने के लिए किसी उद्योग में फर्मों का डीलता हा गठन
- Price setting कीमत निश्चयन
- Price Spread कीमत फंलाव, कीमत-लागत अन्तर—
किसी वस्तु की कुल उत्पादन-लागत और इसकी उपभोक्ताओं के लिए विक्रय-कीमत में अन्तर को कीमत-फंलाव कहते हैं। यह अन्तर वितरण-लागत को जाहिर करता है अर्थात् वह लाभ जो विचोलीयों और परचून विक्रेताओं को प्राप्त होता है। उत्पादक द्वारा थोक विक्रेता को माल बेचने की कीमत और अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्राप्त माल की कीमत में अन्तर कीमत-फंलाव कहलाता है। इसे Mark-up भी कहते हैं। इसमें विचोलीया वह कमीशन या लाभ भी शामिल करता है जो वह इस माल पर उपभोक्ताओं से प्राप्त करना चाहता है।
- Price stabilisation कीमत स्थायीकरण/स्थिरीकरण
- Price Stabilisation Board कीमत स्थायीकरण/स्थिरीकरण मंडल
- Price stability कीमत स्थायित्व/स्थिरता
- Price statistics कीमत संबंधी आंकड़े
- Price structure कीमत ढांचा
- Price subsidy कीमत सहायता, कीमत-साहाय्य
- Price Support कीमत आलम्बन, मूल्य प्रत्यन्वयन—सरकार द्वारा किसानों को सहायता देने का उपाय। इसके अनुसार कीमत अनुवर्तन-स्तर से ऊंची निश्चित की जाती है और परिणामतः किसान अपने सभ्य उत्पादन को इतनी ऊंची कीमतों पर मंडी में बेच नहीं पाते। किसानों के पास अतिक्रम उत्पादन को सरकार आलम्बन कीमत देकर खरीद लेती है। इस नीति का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादन के लिए अच्छी कीमतें उपलब्ध कराना है ताकि उत्पादन में उनकी उत्तेजना एवं रुचि बनी रहे।
- Price support policy कीमत आलम्बन नीति
- Price support programme कीमत आलम्बन कार्यक्रम
- Price system मूल्य पद्धति, कीमत पद्धति/प्रणाली/व्यवस्था
- Price tag मूल्य पर्ची
- Price taker कीमत स्वीकारक
- Price variation clause मूल्य में उतार-चढ़ाव संबंधी धारा
- Price valorisation (सरकार द्वारा) कीमत नियतन, मूल्यस्थिरीकरण, मूल्यवर्धन
- Price war कीमत-संघर्ष, कीमत-युद्ध
- Pricing कीमत-निर्धारण
- Pricing, full cost पूर्ण लागत पर कीमत-निर्धारण
- Pricing, zone क्षेत्रानुसार कीमत-निर्धारण
- Pricing and allocation कीमत-निर्धारण तथा आवंटन

Pricing and deficiency list मूल्यांकन और ग्यूनता सूची	Primogeniture ज्येष्ठाधिकार
Pricing of factor services साधन-सेवाओं का कीमत-निर्धारण	Primum mobile धादि प्रवर्तक
Pricing of material माल की कीमत लगाना	Principal place of business व्यवसाय का मुख्य स्थान
Pricing out निरूपण, कीमत द्वारा निष्कासन	Principal appraiser प्रमुख मूल्यांकक
Pricing policy मुख्य-नीति	Principle of ability to pay भ्रदायगी शक्तता सिद्धात, भ्रदायगी सामर्थ्य सिद्धात
Pricing process कीमत प्रक्रिया	Principle of acceleration स्वरक प्रनियम
Prima facie स्पूल रूप से, प्रथम दृष्टि मे प्रतीत	Principle of automatic adjustment स्वयं समायोजन प्रनियम
Primary capital प्रधान पूंजी	Principle of bulk transaction थोक सौदा प्रनियम
Primary co-operative society प्राथमिक सहकारी समिति	Principle of comparative advantage तुलनात्मक लाभ सिद्धात/प्रनियम
Primary credit society प्राथमिक उधार समिति	Principle of comparative cost तुलनात्मक लागत सिद्धान्त
Primary deposit प्राथमिक जमा	Principle of continuity निरन्तरता-सिद्धान्त
Primary employment प्रारम्भिक रोजगार	Principle of co-operation सहकारिता प्रनियम
Primary factor प्राथमिक साधन	Principle of diminishing marginal utility सीमान्त उपयोगिता ह्रास सिद्धान्त/नियम
Primary feeder society प्राथमिक प्रदायी समिति	Principle of economy मितव्ययता सिद्धान्त
Primary functions of money मुद्रा के प्राथमिक कार्य	Principle of equi-marginal product सम-सीमान्त उत्पाद सिद्धान्त
Primary goods प्राथमिक वस्तुएँ	Principle of equi-marginal sacrifice सम-सीमान्त त्याग सिद्धात
Primary industries प्राथमिक उद्योग	Principle of equi-marginal utility सम-सीमांत उपयोगिता नियम
Primary intermediates प्राथमिक अन्तर्वर्ती वस्तुएँ	Principle of exclusion निःसारण सिद्धान्त, निषेधात्मक सिद्धान्त
Primary marketing societies प्राथमिक विपणन समितियाँ	Principle of fixation of minimum wages न्यूनतम-मजदूरी निर्धारण प्रनियम
Primary occupation प्राथमिक व्यवसाय	Principle of gradualism अनुक्रमवाद सिद्धांत
Primary producer प्राथमिक उत्पादक	Principle of "leave them as you found them" "जैसा पाओ वैसा छोडो" प्रनियम
Primary products प्राथमिक उत्पाद, कच्चे माल	Principle of marginal comparisons सीमांत तुलनाओं का सिद्धान्त
Primary sector प्राथमिक क्षेत्र	Principle of marketing विपणन का सिद्धान्त
Primary standard of measurement मूल माप-दण्ड	Principle of massed (pooled) reserves समूहित आरक्षण दिधि सिद्धान्त
Primary stores society प्राथमिक भंडार समिति	
Primary test प्रारम्भिक परीक्षण	
Prime cost प्रधान लागत, प्रधान परिव्यय, परिवर्ती लागत	
Prime movers धादि प्रवर्तक	
Primitive accumulation धादि संघय	
Primitive society धादिप्रकालीन समाज	
Primitive village organisation धादिकालीन ग्राम व्यवस्था	

Principle of maximum social advantage अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त	Private business spirit निजी-व्यवसाय प्रवृत्ति/ भाव
Principle of minimum aggregate sacrifice न्यूनतम कुल ह्यार्ग का सिद्धान्त	Private company निजी कम्पनी, गैर-सरकारी कम्पनी
Principle of multiples बहुगुणन सिद्धान्त	Private compensation निजी क्षतिपूर्ति
Principle of multiplier गुणक सिद्धान्त	Private concerns निजी संस्थाएँ, गैर-सरकारी फर्म
Principle of net aggregate welfare शुद्ध सामूहिक कल्याण सिद्धान्त	Private consumption निजी उपभोग, गैर-सरकारी उपभोग
Principle of packing credit polley एक-मुद्रत उधार नीति का सिद्धान्त	Private corporation दैयक्तिक निगम
Principle of productivity उत्पादितता-सिद्धांत	Private debt निजी ऋण सेवा
Principle of profit maximisation लाभ अधिकतम करने का सिद्धान्त	Private domestic service निजी-गृह सेवा
Principle of progression भारोहण का सिद्धान्त	Private employment निजी रोजगार, गैर-सरकारी रोजगार
Principle of public expenditure सार्वजनिक व्यय का सिद्धान्त	Private employment office गैर-सरकारी रोजगार दफ्तर
Principle of public finance सार्वजनिक वित्त का सिद्धान्त	Private employer गैर-सरकारी मानिक, निजी नियोजक
Principle of Public revenue सार्वजनिक राजस्व का सिद्धान्त	Private enterprise निजी उद्यम, दैयक्तिक उपक्रम
Principle of rotation of crops दस्य चक्र सिद्धान्त	Private enterprise economy निजी उद्यम अर्थ-व्यवस्था
Principle of sacrifice ह्यार्ग-प्रनियम/सिद्धान्त	Private entrepreneurs निजी उद्यमकर्ता
Principle of sanction स्वीकृति सिद्धान्त	Private finance निजी वित्त, गैर-सरकारी वित्त
Principle of substitution प्रतिस्थापन सिद्धान्त	Private firm निजी फर्म, गैर-सरकारी फर्म
Principle of surplus भतिरेक सिद्धान्त, शेषी सिद्धांत	Private gain निजी लाभ/उपसम्पि/हित
Principles of economics अर्थशास्त्र के सिद्धान्त	Private industrial investment निजी औद्योगिक विनियोग
Principles of taxation करार्यान सिद्धान्त	Private initiative निजी पहल
Priority buyer प्राथमिकता प्राप्त/योम्य क्रैता	Private interest groups निजी ह्यार्थार्थ पार्ग
Priority certificate प्राथमिकता प्रमाण-पत्र	Private investment दैयक्तिक नियोजन, गैर-सरकारी विनियोग, निजी विनियोग
Priority industries प्राथमिकता वाले उद्योग	Private limited company गैर-सरकारी सीमित कम्पनी
Priority investment प्राथमिकता-निवेश	Private loan निजी-ऋण, गैर-सरकारी ऋण
Priority in planning आयोजन में प्राथमिकता	Private marginal cost निजी सीमांत लागत
Prior lien bond पूर्वधिकार बाँध	Private means व्यक्तिगत साधन
Private backers निजी-पोषक	Private monopoly निजी एकाधिकार
Private business निजी व्यवसाय, गैर-सरकारी व्यवसाय	Private net product निजी शुद्ध उत्पाद—इत

पद का प्रयोग ए० सी० पीगू ने अपनी पुस्तक 'Economics of Welfare' में किया। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से हमारा अभिप्राय एक वर्ष के दौरान उत्पन्न की गयी वस्तुओं और सेवाओं से है। इसका आन्वजन करते समय मूल्यहास को राष्ट्रीय उत्पाद से कम करना पड़ता है। किन्तु उत्पादन के कुछ रूप चाहे राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं परन्तु वे कुछ कुसेवा (Disservice) भी उत्पन्न करते हैं, उदाहरण के लिए औद्योगिक फर्मों की स्थापना के फलस्वरूप वायुमण्डल दूषित भी होता है। अतः शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए निजी राष्ट्रीय उत्पाद में से, उत्पादन के दौरान जनित सभी कुसेवाओं को घटाया होगा।

Private ownership निजी स्वामित्व, गैर-सरकारी स्वामित्व

Private property निजी सम्पत्ति

Private referee's report प्राइवेट रेफरी की रिपोर्ट, निजी सम्पत्तिदाता का प्रतिवेदन

Private sale निजी बिक्री

Private saving निजी बचत

Private sector निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र, असावजनिक क्षेत्र

Private spending निजी व्यय

Private trust गैर-सरकारी न्यास

Privilege doctrine विशेषाधिकार सिद्धांत/पथ

Privilege money विशेषाधिकार

Privilege of size आकार का विशेषाधिकार

Privilege tax विशेषाधिकार कर

Privileged treatment विशेष-व्यवहार

Privy purse शाही खर्ची, प्रिवाी पर्स—भारत के भूत-पूर्व नरेशों को उनकी रियासतों के भारत-भाणराज्य में विलय के पश्चात् दी जाने वाली राशि। प्रिवाी पर्स 1972 में भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं।

Prize bond इनामी बॉन्ड

Prize bond, premium प्रीमियम/प्रब्याजि इनामी बॉन्ड

Prize money पुरस्कार राशि, इनामी रकम

Probable but remote सम्भावित किन्तु दूरस्थ

Probability, theory of संभाव्यता-सिद्धांत

Probability curve संभाव्यता-वक्र

Probability distribution संभाव्यता वितरण

Probability factor संभाव्यता कारक

Probability function संभाव्यता भ्रत/फलन

Probability sampling संभाव्यता नमूना-नयन

Probationary employee परिवीक्षाधीन कर्मचारी

Problem of adjustment समन्वय की समस्या

Problem of backward areas पिछड़े हुए क्षेत्रों की समस्या

Problem of enforcement लागू करने की समस्या

Problem of foreign exchange विदेशी विनिमय की समस्या

Problem of irregularity of income आय की अनियमितता की समस्या

Problem of production उत्पादन की समस्या

Problem of productivity उत्पादितता की समस्या

Problem(s) of public enterprises सरकारी उद्यमों की समस्याएँ

Problem(s) of rationing राशनिंग की समस्याएँ

Problem(s) of reporting of intangibles and personal property अगोचर तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की सूचना प्राप्त करने की समस्याएँ

Problem of rural indebtedness ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता की समस्या

Problem of tax administration कर-प्रशासन की समस्या

Problem of time in estimating net income शुद्ध आय का अनुमान लगाने में समय की समस्या

Problem of treatment of corporate capital निगम-पूँजी व्यवहार की समस्या

Problem of valuation मूल्यांकन की समस्या

Proceeds आय, घन-राशि

Process प्रक्रिया

Process analysis प्रक्रम-विश्लेषण, प्रक्रिया-विश्लेषण

Process of capital formation पूँजी-निर्माण की प्रक्रिया

Process of development विकास प्रक्रिया

Process of groping टटोलने की प्रक्रिया	Product, gross सकल उत्पाद, कुल उत्पाद
Process of income generation प्राप्ति-उत्पत्ति प्रक्रिया	Product, joint संयुक्त उत्पाद
Process of industrial transition in India भारत में औद्योगिक संक्रांति की प्रक्रिया	Product, marginal सीमान्त उत्पाद
Process of manufacture निर्माण-प्रक्रिया	Product, marginal physical सीमान्त भौतिक उत्पाद
Process of shifting अन्तराल प्रक्रिया	Product, marginal revenue सीमान्त प्राय/प्राप्त उत्पाद
Process of substitution प्रतिस्थापन-प्रक्रिया	Product, marginal value सीमान्त मूल्य उत्पाद
Process of subtraction विद्योजन-प्रक्रिया	Product, not शुद्ध उत्पाद
Processing प्रक्रियाकरण, विधायन	Product, primary प्राथमिक उत्पाद
Processing, cost of विधायन-लागत	Product, quantity of उत्पाद की मात्रा
Processing industry विधायन उद्योग	Product, semi-manufactured अर्ध-निर्मित उत्पाद
Processing unit विधायन इकाई	Product, specialisation by उत्पादगुणक विशेषीकरण
Procurement levy वसुली कर, अधिप्राप्ति शुल्क	Product, surplus शेषी उत्पाद, घटिरेक उत्पाद
Produce उत्पत्ति, पैदावार	Product, waste ब्यर्थ उत्पाद, क्षेप्य उत्पाद
Produce, gross कुल उत्पत्ति, कुल पैदावार, कुल माल	Product demand curve वस्तु माँग-वक्र
Produce, manufactured तैयार माल	Product differentiation वस्तु-भेद
Produce, net निवल/शुद्ध उत्पत्ति	Product market वस्तु बाजार
Produce, raw कच्चा माल	Product mix वस्तु मिश्रण
Produce exchange उत्पाद विनिमय, व्यवस्थित मंडी	Product monopoly वस्तु एकाधिकार
Produced material resources उत्पादित भौतिक संसाधन	Product multiplication उत्पाद-धनकीकरण/गुणन
Producer उत्पादक	Product price वस्तु कीमत
Producer, marginal सीमान्त उत्पादक	Product schedules उत्पत्ति अनुसूचियाँ
Producer, original मूल उत्पादक, प्रथम उत्पादक	Product variation वस्तु-प्रकार परिवर्तन, भिन्न प्रकारता
Producer, primary प्राथमिक उत्पादक	Product-wise analysis वस्तुवार विश्लेषण, वस्तु-अनुसार विश्लेषण
Producer, principal प्रधान/मुख्य उत्पादक	Product-wise concentration उत्पादानुसार संकेन्द्रण
Producers' co-operation उत्पादकों की सहकारिता	Production उत्पत्ति, उत्पादन
Producers' co-operative उत्पादक सहकारी समिति	Production, advantage of उत्पादन सुविधा/लाभ
Producer's goods उत्पादक वस्तुएँ	Production, agricultural कृषि-उत्पादन
Producer's indifference उत्पादक-समभाव	Production, capitalistic पूँजीवादी उत्पादन
Producer's monopoly उत्पादक एकाधिकार	Production, census of उत्पादन की गणना
Producer's rent उत्पादक-भाटक/लगान	Production, commodity वस्तु उत्पादन, पथ्य वस्तु उत्पादन
Producer's surplus उत्पादक अतिरेक	
Product उत्पाद, उत्पादन	
Product, allied सम्बन्ध उत्पाद	
Product, ancillary सहायक उत्पाद	
Product, final अन्तिम उत्पाद	

- Production, co-operative सहकारी उत्पादन
 Production, direct प्रत्यक्ष उत्पादन
 Production, diseconomies of उत्पादन की प्रमित-
 ब्ययताएँ
 Production, economies of उत्पादन की मित-
 ब्ययताएँ
 Production, end products of उत्पादन के लक्ष्य
 पदार्थ/उत्पाद
 Production, expenses of उत्पादन-व्यय
 Production, factors of (or Agents of) उत्पा-
 दन के उपादान/साधन/कारक
 Production, hour method of प्रति घटा उत्पादन
 प्रणाली
 Production, indigenous देशी उत्पादन
 Production, indirect, अप्रत्यक्ष उत्पादन
 Production, industrial औद्योगिक उत्पादन
 Production, instrument of उत्पादन कारक
 Production, large-scale बड़े पैमाने पर उत्पादन
 Production, means of उत्पादन के साधन
 Production, medium scale मध्य पैमाने पर
 उत्पादन
 Production, optimum अनुकूलतम/सर्वोत्तम उत्पादन
 Production, over अत्युत्पादन
 Production, small-scale छोटे पैमाने पर उत्पादन
 Production, technique of उत्पादन की तकनीक
 Production, under अल्पोत्पादन
 Production capacity उत्पादन-सामर्थ्य/क्षमता
 Production ceiling उत्पादन-सीमा, उत्पादन की
 सीमा
 Production co-efficient उत्पादन गुणांक
 Production control उत्पादन नियंत्रण
 Production cost उत्पादन-लागत
 Production deviation उत्पादन विचलन
 Production efficiency उत्पादन कुशलता
 Production for market बाजार के लिए उत्पादन
 Production function उत्पादन-धित/फलन—
 किसी विशेष उत्पादन के लिए श्रम, भूमि, पूँजी तथा
 बच्चे मारों के विभिन्न मिश्रणों की आवश्यकता
 पड़ती है। उत्पादन धित उस अधिकतम उत्पादन

को व्यक्त करता है जो विभिन्न आवश्यक आदानों (Inputs) की मात्रा द्वारा उत्पादन के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन धित में तकनीक के एक विशेष स्तर की कल्पना की जाती है। यदि तकनीकी नवप्रवर्तन (technological innovations) दाखिल कर लिए जाएँ, तो उत्पादन-धित बदल जाता है।

सभी उत्पादन-धित, जिनमें तकनीकी गुणांक (Technological Co-efficients) अपरिवर्तन-शील होते हैं प्रत्याय ह्रास नियम के अनुसार कार्य करते हैं अर्थात् यदि अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा बढ़ायी जाए, तो उस साधन की सीमांत उत्पादिता घटती जाएगी।

उत्पादन-धित का एक और लक्षण मात्रा-सम्बन्धी प्रत्याय (Returns to scale) है। यदि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि ठीक उसी अनुपात में होती है जिसमें कि आदानों की मात्रा बढ़ायी जाती है, तो उत्पादन-धित मात्रा सम्बन्धी स्थिर प्रत्याय के अनुकूल कार्य करता है अर्थात् उत्पादन रेखीय समघात धित (Linearly Homogeneous Function) कहलाता है। इसके विरुद्ध, यदि सभी आदानों में अनुपातिक वृद्धि से उत्पादन अनुपात से अधिक बढ़ता है, तो मात्रा सम्बन्धी वर्द्धमान प्रत्याय विद्यमान है। इसी प्रकार यदि उत्पादन अनुपात से कम मात्रा में बढ़ता है, तो मात्रा-सम्बन्धी ह्रासमान प्रत्याय विद्यमान समझा जाता है।

रेखीय समघात उत्पादन-धित का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कॉब-डग्लस उत्पादन-धित (Cobb Douglas Production Function) है :

$$Y = k L^a C^b N^{1-a-b}$$

जहाँ

Y = उत्पादन

L = श्रम-आदान की मात्रा

C = पूँजी-आदान की मात्रा

N = प्राकृतिक-आदानों की मात्रा

k, a और b इसमें धनारमक स्थिरांक (Positive Constants) हैं।

- Production function, continuous सतत उत्पादन-ध्रित
- Production function, discrete सीडित उत्पादन-ध्रित
- Production function with one variable input एक-परिवर्ती आदान वाला उत्पादन-ध्रित
- Production indifference curve उत्पादन समभावक
- Production loan उत्पादन ऋण
- Production management उत्पादन प्रबंध
- Production manager उत्पादन प्रबंधक
- Production of wealth धनोत्पादन
- Production possibility curve उत्पादन संभावना वक्र
- Production possibility frontier उत्पादन संभावना सीमा
- Production possibility limit उत्पादन-संभावना श्रमितीमा
- Production quota उत्पादन श्रम्यदा/कीटा
- Production relations उत्पादन संबंध
- Production stagnation उत्पादन श्वरोघन
- Production technique उत्पादन तकनीक
- Production unit उत्पादन इकाई
- Production use उत्पादन प्रयोग
- Production work उत्पादन कार्य
- Productive assets उत्पादक परिसम्पत्
- Productive capacity उत्पादन-सामर्थ्य
- Productive capacity, excess अतिरिक्त उत्पादन कार्य
- Productive capacity, unutilised अप्रयुक्त उत्पादन सामर्थ्य
- Productive combination उत्पादक संयोजन
- Productive consumption उत्पादक उपभोग
- Productive duty उत्पादी शुल्क
- Productive efficiency उत्पादक कुशलता
- Productive enterprise उत्पादक उद्यम
- Productive expenditure उत्पादक व्यय
- Productive factor उत्पादक कारक
- Productive forces उत्पादक शक्तियाँ
- Productive goods उत्पादक वस्तुएँ, उत्पादी वस्तुएँ
- Productive investment उत्पादक विनियोजन
- Productive labour उत्पादक श्रम
- Productive life श्रमक आयु, उत्पादक आयु
- Productive life of asset परिसम्पत् की श्रमक आयु
- Productive occupation उत्पादक व्यवसाय, उत्पादी व्यवसाय
- Productive potential उत्पादी क्षमता, उत्पादन सामर्थ्य
- Productive process उत्पादन-प्रक्रिया
- Productive ration उत्पादी राशन
- Productive resources उत्पादी संसाधन
- Productive units उत्पादक इकाइयाँ
- Productive use उत्पादक प्रयोग
- Productive value उत्पादक मूल्य
- Productivity उत्पादिता, उत्पादनता
- Productivity, average औसत उत्पादिता
- Productivity, diminishing ह्रासमान उत्पादिता
- Productivity, marginal सीमान्त उत्पादिता
- Productivity, optimal अनुकूलतम उत्पादिता
- Productivity, per capita प्रति व्यक्ति उत्पादिता
- Productivity, per head प्रति व्यक्ति उत्पादिता
- Productivity, physical भौतिक उत्पादिता
- Productivity, revenue आय उत्पादिता
- Productivity, total कुल उत्पादिता
- Productivity curve उत्पादिता-वक्र
- Productivity level उत्पादिता स्तर
- Productivity of the tax system कर-पद्धति की उत्पादिता
- Productivity ratio उत्पादिता अनुपात
- Productivity theory उत्पादिता सिद्धान्त
- Produit net** वास्तविक उत्पाद—इस पद का प्रयोग कृषिवादियों (Physiocrats) द्वारा किया गया। कृषिवादियों द्वारा भूमि ही धन का एक मात्र स्रोत मानी गयी क्योंकि केवल इसी से अतिरिक्त प्राप्त होता था। उत्पादन के मूल्य और इसकी उत्पादन लागत में अन्तर को इन्होंने वास्तविक उत्पाद (Produit net) कहा। उनका मत था कि

- कास्तकारों में स्वार्थ होने के कारण वे अपने वास्तविक उत्पाद का अधिकतर भाग भूमिवासी को देने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
- Profession व्यवसाय, पेशा
 Profession tax व्यवसाय-कर, पेशा कर
 Professional ability व्यावसायिक योग्यता
 Professional body व्यावसायिक संघ, व्यावसायिक निकाय
 Professional income व्यावसायिक आय, वृत्तिक आयदानी
 Professional management व्यावसायिक प्रबंध
 Professional pride व्यावसायिक गौरव
 Professional services व्यावसायिक सेवाएँ
 Professional time व्यावसायिक समय
 Profit लाभ, मुनाफा
 Profit, abnormal असामान्य लाभ
 Profit, accidental आकस्मिक लाभ, अप्रत्याशित लाभ
 Profit, average औसत लाभ
 Profit, business-tax व्यावसायिक लाभ-कर
 Profit, dynamic theory of लाभ का गत्यात्मकता सिद्धान्त
 Profit, excess भविसामान्य लाभ
 Profit, expected प्रत्याशित लाभ
 Profit, expected rate of प्रत्याशित लाभ-दर
 Profit, fair उचित लाभ
 Profit, gross कुल लाभ, शकल लाभ
 Profit, innovation theory of लाभ का नवप्रवर्जन सिद्धान्त
 Profit, margin of लागत-लाभ अन्तर, लाभ की गुंजाइश
 Profit, marginal सीमान्त लाभ
 Profit, marginal productivity theory of लाभ का सीमान्त उत्पादित सिद्धान्त
 Profit, monopoly एकाधिकार लाभ
 Profit, net निवल लाभ, शुद्ध लाभ
 Profit, normal सामान्य लाभ
 Profit, operating संचालन लाभ
- Profit, prime मूल लाभ
 Profit, promotion प्रवर्जन लाभ
 Profit, pure विमुद्ध लाभ
 Profit, rent theory of लाभ का लगान सिद्धान्त
 Profit, retained प्रतिपूत लाभ
 Profit, risk theory of लाभ का जोखिम सिद्धान्त
 Profit, scarcity दुर्लभता लाभ
 Profit, standard मानक लाभ
 Profit, super-normal अति-सामान्य लाभ
 Profit, taxable करदेय लाभ
 Profit, theory of लाभ सिद्धान्त
 Profit, trading व्यापार संबंधी लाभ
 Profit, uncertainty-bearing theory of लाभ की अनिश्चिन्ता-बहन धारणा/सिद्धान्त
 Profit, undistributed अविनरित लाभ
 Profit, unexpected अप्रत्याशित लाभ
 Profit, wage theory of लाभ का मजबूरी सिद्धान्त
 Profit, windfall आकस्मिक लाभ
 Profit and loss account लाभ-हानि खाता/लिखा
 Profit and loss adjustment account लाभ-हानि समंजन लेखा
 Profit apportionment लाभ बंटन
 Profit a prendre पर-भूमि-मोर्गाधिकार, पराई भूमि से कुछ लेने का अधिकार—किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि को हस्तेमाल करने का अधिकार, जैसे इस पर भेड़ें चराने का अधिकार।
 Profit-capitalised पूँजीकृत लाभ
 Profit-earning capacity साम्राज्य शक्ति
 Profit economy लाभनिष्ठ अर्थव्यवस्था
 Profit inflation स्फीतिकारी लाभ
 Profit margin लाभार्जन
 Profit maximisation लाभ अधिकतमकरण, अधिकतम लाभ-प्राप्ति
 Profit maximisation price अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाली कीमत
 Profit-motive लाभ-उद्देश्य, लाभ-प्रेरण
 Profit of a corporation निगम-लाभ
 Profit receivers लाभ प्राप्तकर्ता
 Profit-sharing लाभ-सहभागन

Profit-sharing bond लाभ-सहभाजन बॉन्ड
 Profit-sharing scheme लाभ-सहभाजन योजना
 Profit squeeze लाभ-सम्पीडन, लाभ अधिकचुवन, लाभ
 निष्कर्षण
 Profit yielding enterprise लाभ अर्जनकारी
 उद्यम
 Profitable return लाभप्रद प्रतिफल
 Profitability लाभप्रदता, लाभकारिता
 Profiteering मुनाफाखोरी, अनुचित लाभ कमाना
 Profiteers मुनाफाखोर
 Programme कार्यक्रम, प्रोग्राम
 Programme, crash महाभियान, द्रुत अभियान
 Programme, development विकास-प्रोग्राम,
 विकास कार्यक्रम
 Programme, foreign-aid विदेशी सहायता प्रोग्राम
 Programme, investment विनियोग-प्रोग्राम
 Programme, point-four चार-सूत्री प्रोग्राम
 Programme Evaluation Organisation प्रोग्राम
 मूल्यांकन समिति
 Progress प्रगति
 Progress, economic आर्थिक प्रगति
 Progression, arithmetic समांतर श्रेणी
 Progression, geometric गुणोत्तर श्रेणी
 Progressive equilibrium उत्तरोत्तर संतुलन,
 प्रगामी संतुलन
 Progressive grant प्रगतिशील/आरोही अनुदान
 Progressive income tax आरोही आयकर
 Progressive manner आरोही रीति
 Progressive personal expenditure tax
 आरोही वैयक्तिक व्ययकर
 Progressive personal income tax आरोही
 व्यक्तिगत आयकर
 Progressive personal taxation आरोही वैय-
 क्तिक करदान
 Progressive principle आरोहण सिद्धांत, क्रमिक
 प्रणियम
 Progressive property taxes आरोही सम्पत्तिकर
 Progressive rate of tax कर की आरोही-दर
 Progressive surcharge आरोही अतिभार

Progressive taxes आरोही कर
 Progressive taxation आरोही कराधान
 Progressive taxation in practice व्यवहार में
 आरोही कराधान
 Progressive wage आरोही मजदूरी, वर्धो मजदूरी
 Progressive wage system आरोही मजदूरी पद्धति/
 प्रणाली
 Progressively flatter price lines उत्तरोत्तर
 चपटी होने वाली कीमत रेखाएँ
 Progressively rising death tax क्रमवर्धो मृत्युकर
 Progressiveness आरोहीपद
 Progressives प्रगतिवादी
 Progressives, non प्रगति-विरोधी
 Progressivism प्रगतिवाद
 Prohibited goods निषिद्ध वस्तुएँ
 Prohibition मद्य-निषेध, निषेध
 Prohibition Act मद्य-निषेध अधिनियम
 Prohibitive duties निषेधाधिक्य गुरुकर
 Project आयोजना, परियोजना, प्रोजेक्ट
 Project, irrigation सिंचाई आयोजना, सिंचाई
 परियोजना
 Project, multi-purpose river valley बहुद्देशीय
 नदी घाटी परियोजना
 Project, river valley नदी घाटी परियोजना
 Project aid परियोजनाय सह्यता
 Project aid, non-project गैर-परियोजनाय
 सह्यता
 Proletarianism परोलतारीवाद, श्रमजीवीवाद
 Proletarian revolution परोलतारी क्रांति, श्रम-
 जीवी-क्रान्ति
 Proletarianization परोलतारीकरण
 Proletariat परोलतारी, श्रमजीवी वर्ग, मजदूर वर्ग-
 एक फ़ासीबी शब्द जिसका अर्थ मजदूरों के उस
 वर्ग से है जिसके पास उत्पादन के उपकरण नहीं
 होने और इसलिए अपनी आजीविका प्राप्त करने
 के लिए वे अपना श्रम बेचते हैं। इस शब्द का मूल
 लातीनी शब्द Proletarius से है जिसका अर्थ उन
 नागरिकों से था जिनके पास कोई सम्पत्ति न थी
 और जो राज्य को अपना दायित्व अपने बच्चों के
 माध्यम द्वारा पूरा करते थे। मार्क्सवादी साहित्य

मे, परोलतारी वर्ग का यथिप्राय उस वर्ग से है जो मेहनत से रोटी कमाता है, इसमे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, छोटा दुकानदार, श्रमिक आदि शामिल होते हैं। भावसंके अनुसार पूँजीवाद के नाश के लिए परोलतारी वर्ग की वृद्धि एक अनिवार्य शर्त है। पूँजीवादी समाज मे लाभ और मजदूरी की टक्कर मे परोलतारी वर्ग संगठित हो जाता है। अत पूँजीवादी समाज ने स्वयं ऐसी तकनीकी देनाएँ पैदा की हैं जिनमे परोलतारी वर्ग का विकास होता है और जो बाद मे समाजवादी क्रान्ति का नेतृत्व करता है।	Propensity to spend व्यय प्रवृत्ति Proper criterion of policy नीति का उचित मापदंड/कसौटी Proper money शुद्ध मुद्रा Proper pricing system समुचित मूल्य व्यवस्था Proper tax समुचित कर Property सम्पत्ति, धन Property, communal सामुदायिक सम्पत्ति, सामाजिक सम्पत्ति Property, immovable अचल सम्पत्ति Property, landed भू-सम्पत्ति Property, movable अस्वाधार सम्पत्ति, चल सम्पत्ति Property, onerous भारग्रस्त सम्पत्ति Property, personal व्यक्तिगत सम्पत्ति Property, private निजी सम्पत्ति, गैर-सरकारी सम्पत्ति Property, public सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति Property, real वास्तविक सम्पत्ति Property rights सम्पत्ति-अधिकार Property tax सम्पत्ति कर Property taxation जायदाद कराधान, सम्पत्ति कराधान Proportional basis अनुपातिक आधार Proportional grants अनुपातिक अनुदान Proportional income tax अनुपातिक आय कर Proportionality thesis समानुपातवाद Proportional rate of tax कर की अनुपातिक दर Proportional representation अनुपातिक प्रतिनिधित्व Proportional reserve system अनुपातिक प्रारक्षण प्रणाली Proportional sacrifice principle अनुपातिक त्याग-सिद्धान्त/प्रतिपक्ष Proportional system of note-issue नोट निर्गमन की अनुपाती पद्धति Proportional selling costs अनुपाती विक्रय लागतें Proportional tax अनुपातिक कर Proportional taxation अनुपाती कर-प्रणाली
Promissory note प्रोमोट, वचन-पत्र, प्रतिज्ञा-पत्र Promissory note, demand दर्शनी प्रोमोट Promissory note, time मुदती प्रोमोट, सावधि प्रोमोट Promoter प्रवर्तक Promoter's share प्रवर्तक हिस्से Promotion पदोन्नति Promotion, export निर्यात संवर्धन Promotion council संवर्धन परिषद Promotion expenses संवर्धन व्यय Promotion of economic welfare आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि Promotion of stability and growth स्थायित्व तथा सवृद्धि प्रोन्नत करना Promotion profit प्रवर्तन लाभ Promotional activities अभिवृद्धि क्रियाएँ, प्रोन्नतकारक क्रियाएँ Promotional elasticity सवर्द्धन लोच Prompt sale तुरन्त बिक्री Proof of placing नीकरी दिलाने का प्रमाण Propensity to consume उपभोग-प्रवृत्ति Propensity to consume, average औसत उपभोग-प्रवृत्ति Propensity to consume, marginal सीमान्त उपभोग-प्रवृत्ति Propensity to hoard विसर्चय-प्रवृत्ति Propensity to invest विनियोग प्रवृत्ति Propensity to save बचत प्रवृत्ति	

- Proportional versus progressive rates of taxation कराधान की अनुपाती बनाम आरोही दरें
- Proportionality, law of अनुपातिकता/समानुपातिकता नियम
- Proportionate share अनुपातिक हिस्से
- Proposal, express व्यक्त-प्रस्ताव, तुरत प्रस्ताव
- Proposal, implied निहित प्रस्ताव
- Proposal for additional taxation प्रतिरिक्त कराधान के लिए प्रस्ताव
- Proposal for exchange stability without the gold standard स्वर्णमान के बिना विनिमय-दर स्थायित्व के सुझाव
- Proposed investment प्रस्तावित विनिर्देश
- Proprietor of land भूमि का अधिकारी
- Proprietorship security स्वामित्व प्रतिभूति
- Prospective investor भावी विनियोजता/विनि-योजक
- Prospectiveness of capital पूँजी की पूर्वेक्षा
- Prospective Production सम्भावी उत्पादन, भावी उत्पादन—कास विश्लेषण के सन्दर्भ में प्रोफेसर मरचैंक द्वारा प्रयुक्त शब्द । देखिए Ex-ante ।
- Prospective yield संभाव्य प्राप्ति, अनुमानित प्राप्ति
- Prosperity समृद्धि
- Prosperity, economic आर्थिक समृद्धि
- Prosperity, industrial उद्योग-समृद्धि, औद्योगिक समृद्धि
- Prosperity, material भौतिक समृद्धि
- Prosperity, national राष्ट्रीय समृद्धि
- Prosperity and depression समृद्धि एवं अवसाद
- Protected trade रक्षित व्यापार
- Protected transaction संरक्षित लेन-देन
- Protection संरक्षण
- Protection, developmental विकासत्मक संरक्षण
- Protection, discriminating भेदभूलक संरक्षण
- Protection and indemnity club संरक्षण और क्षतिपूर्ति संगठन
- Protection of industry उद्योग संरक्षण, उद्योग रक्षण
- Protection of property सम्पत्ति-रक्षा
- Protectionism संरक्षणवाद
- Protectionist संरक्षणवादी
- Protectionist arguments संरक्षणवादी तर्क
- Protective duties संरक्षण कर/शुल्क
- Protective foods संरक्षक खाद्य पदार्थ
- Protective industries संरक्षित उद्योग
- Protective labour legislation संरक्षक श्रम विधान
- Protective tariff संरक्षण प्रशुल्क
- Provident fund भविष्य निधि, पूर्वोपायी कोष
- Provident Fund Act भविष्य निधि अधिनियम
- Providing minimum necessities to all सभी के लिए न्यूनतम अनिवार्यताओं की व्यवस्था
- Provincial settlement प्रान्तीय वन्दोवस्त
- Provisional अस्थायी, अन्तःकालीन
- Provisional Collection of Taxes Act अस्थायी कर-संग्रहण अधिनियम
- Provisional estimates अस्थायी अनुमान, अन्तिम अनुमान
- Provisional figures अस्थायी आँकड़े, अन्तिम आँकड़े
- Provisional index number अस्थायी सूचकांक, अन्तिम सूचकांक
- Provisional payment अस्थायी अदायगी, अन्तिम अदायगी
- Pseudo-science मिथ्या विज्ञान, बनाबटी विज्ञान
- Psychic income मानसिक तोपण, कल्पित आय—आर्थिक क्रिया से भौतिक तुष्टि के प्रतिरिक्त प्राप्त होने वाली तुष्टि । इस आय को मुद्रा या वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में आय से भिन्न माना जाता है । मानसिक तोपण आम तौर पर उन लोगों को प्राप्त होता है जो अपने व्यावसायिक कार्य में आनन्द और गौरव अनुभव करते हैं, जैसे कलाकार या प्राध्यापक । ये लोग समाज में बराबर आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से अपनी आय द्वारा अपेक्षाकृत अधिक तुष्टि प्राप्त करते हैं क्योंकि उनका कार्य उनकी मानसिक प्रवृत्ति एवं रूचि के अनुकूल होता है । मानसिक तोपण एक

- प्रकार की कल्पित माय है और इस कारण इसका कोई प्रामाणिक माप नहीं ।
- Psychological being, man is a मनुष्य एक मनो-वैज्ञानिक प्राणी है
- Psychological concept मनोवैज्ञानिक धारणा
- Psychological gain मनोवैज्ञानिक लाभ
- Psychological law of consumption उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम
- Psychological school मनोविज्ञानी/मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय
- Psychological status मनोवैज्ञानिक स्थिति
- Psychological valuation मनोवैज्ञानिक मूल्यंकन
- Public सरकारी, सार्वजनिक, लोक
- Public account सरकारी लेखा
- Public Accounts Committee सार्वजनिक लेखा समिति
- Public administration लोक प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन
- Public authority सार्वजनिक प्राधिकार
- Public benefit लोकहित
- Public body राजकीय निकाय, राजकीय संस्था
- Public bond सरकारी बाँड
- Public borrowing सरकारी ऋण/उधार
- Public company सार्वजनिक कम्पनी, सरकारी कम्पनी
- Public consumption सार्वजनिक उपभोग
- Public corporation लोक निगम
- Public courts लोक न्यायालय
- Public credit सरकारी साक्ष, सार्वजनिक उधार
- Public debt सार्वजनिक ऋण
- Public debt management सार्वजनिक ऋण-प्रबंध
- Public deposits लोक जमा
- Public economics राजकीय/लोक/सार्वजनिक अर्थ-शास्त्र
- Public enterprise सरकारी उद्यम, लोक उपक्रम
- Public enterprise in a developing economy विकासशील अर्थव्यवस्था में सरकारी उद्यम
- Public exchequer सरकारी खजाना, राजकोष
- Public expenditure सार्वजनिक व्यय. सरकारी व्यय
- Public expenditure, beneficial हितकर राजकीय व्यय
- Public expenditure, capital पूँजीगत राजकीय व्यय
- Public expenditure, current चालू राजकीय व्यय
- Public expenditure, non-transferable गैर-हस्तांतरणीय सरकारी व्यय
- Public expenditure, obligatory अनिवार्य राजकीय व्यय
- Public expenditure, onerous दुर्भर राजकीय व्यय, भारप्रस्त राजकीय व्यय
- Public expenditure, optional विकल्पी राजकीय व्यय
- Public expenditure real वास्तविक राजकीय व्यय
- Public expenditure, transferable अन्तरण/हस्तांतरणीय राजकीय व्यय
- Public finance सार्वजनिक/लोक वित्त, राजकीय वित्त-प्रबंधन
- Public finance, nature and role of लोकवित्त की प्रकृति एवं उसका कार्यभाग
- Public finance, socio-political theory of लोक वित्त का सामाजिक-राजनीतिक सिद्धान्त
- Public finance, sound सुदृढ़/सबल लोक वित्त
- Public finance in war युद्धकाल में लोक वित्त
- Public good सार्वजनिक हित, लोक हित
- Public goods सार्वजनिक वस्तुएँ, सरकारी वस्तुएँ
- Public health services सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ
- Public interest सार्वजनिक/लोक हित
- Public investment सार्वजनिक निवेश
- Public investment, direct प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश
- Public limited company सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी/सीमित दायित्व कम्पनी
- Public loan सार्वजनिक ऋण, राजकीय ऋण
- Public management and planning authority सार्वजनिक प्रबंध और आयोजन प्राधिकार

- Public money लोक धन
- Public monopoly सार्वजनिक एकाधिकार
- Public ownership सार्वजनिक स्वामित्व, सरकारी स्वामित्व
- Public ownership of means of production उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व
- Public ownership of monopoly एकाधिकार का सार्वजनिक स्वामित्व
- Public property सरकारी सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति
- Public receipts सार्वजनिक प्राप्तियाँ
- Public receipts, non-monetary द्रव्येतर/अमौद्रिक राजकीय प्राप्तियाँ
- Public revenue सार्वजनिक भागम/राजस्व
- Public saving सार्वजनिक बचत
- Public sector सरकारी/सार्वजनिक/लोक/राजकीय क्षेत्र
- Public sector enterprises सार्वजनिक उद्यम
- Public sector outlay सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय
- Public services सार्वजनिक सेवाएँ
- Public transport सार्वजनिक/लोक परिवहन
- Public undertakings सरकारी उद्यम
- Public utilities सार्वजनिक उपयोगिताएँ
- Public utility concerns जनोपयोगी संस्था
- Public utility price policy जनोपयोगी उद्यमों की मूल्य नीति
- Public utility services सार्वजनिक उपयोगी सेवाएँ, जनोपयोगी सेवाएँ
- Public value सामाजिक मूल्य, सार्वजनिक महत्व
- Public welfare जनकल्याण, लोक कल्याण
- Public works सार्वजनिक-निर्माण कार्य
- Public works policy सार्वजनिक निर्माण नीति
- Public works programme सार्वजनिक निर्माण प्रोग्राम
- Publication of accounts लेखा-प्रकाशन
- Publicity of accounts लेखा प्रकाशन
- Publishing society प्रकाशन समिति
- Pump priming समुत्थान उत्तेजन, समुत्थान-प्रोत्साहन—इसका अभिप्राय सार्वजनिक निर्माण एवं अन्य क्रियाओं संबंधी किसी भी ऐसे नये पैमाने पर किए गए सार्वजनिक व्यय से है जिसका उद्देश्य रोजगार और कय-शक्ति को बढ़ाकर मन्दी के दौरान आर्थिक क्रिया के स्तर को उन्नत करना है। इस शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमरीका में किया जाता है। अन्य देशों में इसके लिए पर्यायवाची शब्द 'Deficit Financing' है।
- Pump-priming expenditure समुत्थान प्रोत्साहन व्यय
- Pump-priming thesis समुत्थान प्रोत्साहन धारणा
- Purchase क्रय, खरीद
- Purchase, anticipatory प्रत्याशी क्रय
- Purchase, extra-marginal परासीमांत क्रय
- Purchase, hire किराया-खरीद
- Purchase, impulsive आवेगी क्रय
- Purchase, intra-marginal अन्तःसीमांत क्रय
- Purchase, local स्थानीय क्रय
- Purchase, risk जोखिम वाली खरीद
- Purchase, state राजकीय क्रय, सरकारी क्रय
- Purchase, super-marginal अग्रसीमांत क्रय
- Purchase agent क्रय एजेंट, क्रय अभिकर्ता
- Purchase money क्रय धन, क्रय राशि
- Purchase money mortgage** क्रय-धन बंधक, क्रय-मुद्रा बंधक—एक ऐसा बंधक जो पूर्णतया या आंशिक रूप में भौतिक सम्पत्ति के क्रय संबंधी धनराशि के लिए दिया जाता है
- Purchase officer क्रय अधिकारी
- Purchase of government bonds सरकारी बंधों का क्रय
- Purchase order क्रय प्रादेश
- Purchase price क्रय कीमत
- Purchase price, marginal सीमांत क्रय-कीमत
- Purchase tax क्रय-कर
- Purchase transaction क्रय-व्यवहार
- Purchaser क्रेता
- Purchaser's association क्रेता संस्था, क्रेता संघ
- Purchasing power क्रय-शक्ति
- Purchasing power, general सामान्य क्रय-शक्ति
- Purchasing power, real वास्तविक क्रय-शक्ति
- Purchasing power famine क्रय शक्ति भ्रंश
- Purchasing power of money मुद्रा की क्रय-शक्ति

Purchasing power of rupee रुपए की क्रय-शक्ति
 Purchasing power parity क्रय-शक्ति समता
 Purchasing power standard क्रय-शक्ति मान
 Purchasing power parity theory क्रय-शक्ति
 समता सिद्धांत

Pure capital शुद्ध पूंजी

Pure competition विशुद्ध प्रतियोगिता/प्रतिस्पर्द्धा

Pure credit system शुद्ध उधार प्रणाली

Pure economics शुद्ध अर्थशास्त्र

Pure interest शुद्ध व्याज

Pure profit शुद्ध मुनाफा/लाभ

Pure quantity theory of money विशुद्ध मुद्रा-
 मात्रा सिद्धांत

Pure rent शुद्ध लगान

Pure science विशुद्ध विज्ञान

Pure theory शुद्ध सिद्धांत

Pure theory of interest व्याज का विशुद्ध सिद्धांत

Pure theory of international trade अन्तर्रा-
 ष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धांत

Pure theory of public finance सार्वजनिक वित्त
 का विशुद्ध सिद्धांत

Pure value theory विशुद्ध मूल्य सिद्धांत

Purely monetary phenomenon विशुद्ध मौद्रिक
 क्रिया

Purely real phenomenon विशुद्ध वास्तविक
 क्रिया

Put and call option विक्रय एवं क्रय विकल्प—
 कुछ हिस्सों को एक निश्चित कीमत पर, साधारण-
 तया तीन मास में, बेचने या खरीदने के अधिकार
 को खरीद लेना ।

Put option विक्रय विकल्प—कुछ हिस्सों को एक
 स्वीकृत कीमत, साधारणतया तीन मास में, बेचने
 के अधिकार खरीद लेना ।

Putting out system घर उत्पादन पद्धति—
 उत्पादन की एक पद्धति जिसमें कोई निर्माता या
 व्यापारी उन लोगों को जो अपने घरों में उत्पादन
 करते हैं, कच्चा माल उपलब्ध कराता है ।

Pyramiding स्तूपीकरण—हिस्सा बाजार में अपने

प्राप्त हिस्सों की राशि को अपने कागजी-लाभ के
 आधार पर बढ़ाना । स्तूपीकरण उस समय संभव
 होता है जबकि स्टॉक-एक्सचेंज में कीमतें चढ़ रही
 हो चूंकि हिस्साधारी या सट्टेबाज इस विधि द्वारा
 अपने आधार को बढ़ाता है और इसके बल पर
 और क्रय करता है, इसलिए इस क्रिया को स्तूपी-
 करण कहा जाता है ।

Q

Qualification गुण, योग्यता

Qualification, with salary, प्रतिबंध के साथ

Qualification pay अर्हता-वेतन, योग्यता वेतन

Qualification for promotion पदोन्नति योग्य
 होना

Qualified monopoly सप्रतिबंध एकाधिकार

Qualified ownership सरतों स्वामित्व

Qualifying tax अर्हता कर

Qualitative analysis गुणात्मक विश्लेषण

Qualitative characters गुणात्मक लक्षण

Qualitative comparison गुणात्मक तुलना

Qualitative distribution गुणात्मक वितरण

Qualitative hedonism गुणात्मक सुखवाद

Qualitative laws गुणात्मक नियम/विधि/कानून

Qualitative methods of credit control साख
 नियंत्रण के विविध उपाय

Qualitative test गुणात्मक परीक्षण

Qualitative value गुणात्मक मूल्य/अर्हता

Qualitative variation गुणात्मक विभेदन, गुणा-
 त्मक परिवर्तन

Quality गुण

Quantity, special विवेच्य गुण

Quality bonus गुणानुसार बोनस

Quality control गुण/कोटि नियंत्रण

Quality goods उच्च कोटि की वस्तुएँ

Quality increment गुण-संवृद्धि

Quality marking कोटि चिन्ह

Quality of capital पूंजी का गुण

Quality of goods माल की गुणावस्था, वस्तु-श्रेणी

Quality product बड़िया माप
 Quality standard श्रेणी-स्तर, गुण स्तर
 Quality variable गुण-चल, गुण-चर
 Quality variation गुण-परिवर्तन
 Quantifiable factor परिमाण-निर्धारण योग्यत्व
 Quantification परिमाणीकरण
 Quantification, growing tendency of परि-
 माणीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति
 Quantification in economics अर्थशास्त्र में
 परिमाणीकरण
 Quantification of a problem समस्या का परि-
 माणीकरण
 Quantitative character मात्रात्मक लक्षण
 Quantitative comparison मात्रात्मक तुलना
 Quantitative concept of utility उपयोगिता
 की मात्रात्मक सफलता
 Quantitative considerations मात्रात्मक तर्क,
 संख्यात्मक तर्क
 Quantitative control मात्रात्मक नियंत्रण
 Quantitative control, direct प्रत्यक्ष मात्रात्मक
 नियंत्रण
 Quantitative control, indirect अप्रत्यक्ष मात्रा-
 त्मक नियंत्रण
 Quantitative data मात्रात्मक सामग्री/प्रौकड़े
 Quantitative difference मात्रात्मक भेद
 Quantitative distribution मात्रात्मक वितरण
 Quantitative Economics मात्रात्मक अर्थ-
 शास्त्र—यह शब्द समष्टि अर्थशास्त्र (Macro-
 economics) का पर्यायवाची है। इसके प्राचीन
 प्रौकड़े से प्राप्त सूचना को एकत्र करके उसका
 विश्लेषण किया जाता है। इसमें उत्पादन, रोज-
 गार, कीमतों, ब्याज आदि प्राथिक मात्राओं का
 परीक्षण किया जाता है। जहाँ पर एक और इस
 प्रकार के परीक्षण को सराहनीय माना जाता है
 क्योंकि यह ऐतिहासिक एवं वस्तु-स्थिति के
 आधार पर प्राथिक नियमों का प्रतिपादन तथा उनकी
 सहायता की जाँच करता है, वहाँ दूसरी ओर कुछ
 अर्थशास्त्री यह समझते हैं कि मात्रात्मक अर्थ-
 शास्त्री ऐसे सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्त्वों

की उल्लेख करता है, जो प्राथिक व्यवहार को
 बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। अतः उनका
 कहना है कि मात्रात्मक अर्थशास्त्र मापनीय तत्वों
 पर अत्यधिक बल देता है जो कि वांछनीय
 नहीं है।

Quantitative hedonism मात्रात्मक सुखवाद
 Quantitative indicators मात्रात्मक सूचक,
 परिमाणात्मक सूचक
 Quantitative measures परिमाणात्मक मापदंड
 Quantitative measurement of welfare
 कल्याण का परिमाणात्मक माप
 Quantitative methods of credit control
 ऋण नियंत्रण के परिमाणात्मक उपाय
 Quantitative point of view परिमाणात्मक/
 मात्रात्मक दृष्टिकोण
 Quantitative relationship मात्रात्मक सम्बन्ध
 Quantitative restrictions परिमाणात्मक/मात्रा-
 त्मक प्रतिबन्ध
 Quantitative statement मात्रात्मक विवरण
 Quantitative summary परिमाणात्मक-सारांश
 Quantitative uniformity मात्रात्मक एकरूपता
 Quantity after change परिवर्तन के उपरान्त
 नई मात्रा
 Quantity bonus मात्रानुसार बोनस
 Quantity column मात्रा स्तम्भ
 Quantity compensating variation मात्रा-
 प्रतिपूरक/समकारी परिवर्तन
 Quantity compensating variation in income
 आय में मात्रा समकारी परिवर्तन
 Quantity demanded, change in the माँग-मात्रा
 में परिवर्तन
 Quantity discount मात्रावरक रियायत/छूट
 Quantity demanded, initial or original
 प्रारम्भिक माँग-मात्रा
 Quantity equivalent variation in income
 आय में हुआ मात्रा-सुलभ परिवर्तन
 Quantity index मात्रा सूचकांक
 Quantity of produce उत्पाद-मात्रा
 Quantity rebate बौक-क्रय छूट

Quantity theory approach परिमाण सिद्धान्त
दृष्टिकोण/पद्धति

Quantity theory of money मुद्रा परिमाण
सिद्धान्त, मुद्रा-मात्रा सिद्धान्त

Quantity theory of money, pure विशुद्ध मुद्रा-
परिमाण सिद्धान्त

Quantity of money, refined परिष्कृत मुद्रा-
मात्रा सिद्धान्त

Quantum प्रमाण/मात्रा

Quantum of ration राशन की मात्रा

Quantum of trade व्यापार की मात्रा, व्यापार-
परिमाण

Quarry खदान, खनन, खान

Quarterly financial statement त्रैमासिक
वित्तीय विवरण

Quarterly statement त्रैमासिक/त्रिमाही विवरण

Quarterly total त्रैमासिक योग

Quarterly trade accounts तिमाही व्यापार लेखे

Quartile deviation चतुर्थक विचलन

Quasi-bottleneck अस्थायी गृहवरोध/मार्गवरोध

Quasi-commodity पण्यवत्, वस्तु तुल्य, वस्तु
आभास

Quasi-long period अर्द्ध-दीर्घकालीन अवधि

Quasi-luxury goods अर्द्ध-विलासी वस्तुएँ

Quasi-money मुद्रावत्, आभास-मुद्रा

Quasi-monopolistic एकाधिकारवत्, आभास एका-
धिकारीय

Quasi-monopoly एकाधिकारवत्, आभास एका-
धिकार

Quasi-negotiable instrument अर्द्ध-वेचनी
दृष्टि

Quasi-negotiable paper परञ्जाम्यवत् प्रपत्र, अर्द्ध
वेचनी दृष्टि

Quasi partner सामेदारवत्

Quasi-permanent स्थायिवत्, स्थायिकल्प

Quasi-permanent vacancy स्थायिवत्-रिक्ति

Quasi-rent अर्द्ध-लगान, आभास लगान—अल्पकाल
के दौरान किसी विशिष्ट और चिरस्थायी उत्पादन
के साधन को प्राप्त होने वाली धन्य जिसके

संभरण को बढ़ाया या घटाया न जा सके। चूँकि
भूमि का संभरण तो दीर्घकाल की दृष्टि से निश्चित
ही है, इसलिए भूमि की अपेक्षा अन्य उत्पादन के
साधनों का संभरण अल्पकाल में कम हो सकता
है। कम संभरण के कारण जो धन्य अल्पकाल में
साधन प्राप्त करता है, उसे आभास लगान कहते
हैं। चूँकि दीर्घकाल में विशिष्ट साधनों के संभरण
को भी बढ़ाया जा सकता है, इसलिए आभास
लगान धीरे-धीरे लोप हो जाता है।

चूँकि आजकल वितरण सिद्धान्त के आधीन
भूमि और अन्य उत्पादन के साधनों में भेद नहीं
किया जाता, इसलिए इस धारणा को अनावश्यक
माना जाता है। परन्तु भूमि का संभरण चूँकि
अन्य उत्पादन के साधनों की तुलना में अपेक्षाकृत
अधिक निश्चित है, इसलिए अन्य अर्थशास्त्री
आभास लगान पद का प्रयोग अर्थशास्त्र में उचित
मानते हैं।

Quasi-revenue आभास आय

Quasi-stationary equilibrium स्थिरवत् संतुलन

Questionnaire प्रश्नावली

Question of policy नीति सम्बन्धी प्रश्न

Question of priority अग्रता/पूर्वता-प्रश्न

Question of title स्वत्व का प्रश्न

Queues of buyers खरीदारों की लम्बी कतारें

Quick acting manure शीघ्रकारी खाद

Quick assets विक्रय सुलभ परिसम्पत्, तत्काल
परिसम्पत्ति—इसका प्रयोग तब या काफी हद तक
तरल परिसम्पत् से किया जाता है जिसे आसानी
से नकदी में तब्दील किया जा सकता हो।

Quick estimates शीघ्र अनुमान

Quick yielding project शीघ्र फलदायी योजना,
शीघ्र परिपाक परियोजना

Quickie stroke तुरत हड़ताल

Quid pro quo तत्-प्रति-तत्, लेने का देना, एवजी

Quid pro quo theory of taxation कर का तत्-
प्रति-तत् सिद्धान्त, कर का एवजी सिद्धान्त

Quiet market शांत बाजार/मंडी

Quinquennial पंचवर्षीय, पंचवार्षिक

Quinquennial mean पंचवर्षीय औसत

Quinquennial report पंचवर्षीय रिपोर्टें
 Quinquennial review पंचवर्षीय पुनर्विलोकन
 Quit poverty गरीबो/दरिद्रता हटानो, गरीबी
 भगानो
 Quit rate त्याग-दर
 Quit rent—मुक्ति लगान—मध्यकाल में, लगान
 मुद्रा के रूप में इतना अदा नहीं किया जाता था
 जितना कि सामन्तवादी दायित्वों के भुगतान के
 लिए, परिश्रम के रूप में। धीरे-धीरे इस भुगतान को
 मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया गया और काश्त-
 कार को मुक्त करने के लिए स्वामी द्वारा एक
 वार्षिक राशि निश्चित की गई। इस राशि को
 ही 'Quit rent' अर्थात् मुक्ति लगान कहा गया।
 Quota कोटा, अल्पंश
 Quota allocated विभाजित कोटा
 Quota, bilateral द्विपक्षीय कोटा
 Quota, global विश्वव्यापी कोटा
 Quota, mixed मिश्रित कोटा
 Quota, pro-rata समानुपात कोटा
 Quota, tariff टैरिफ कोटा, टैरिफ अल्पंश
 Quota, unilateral import एकपक्षीय आयात
 कोटा
 Quota certificate अल्पंश प्रमाण-पत्र
 Quota holder अल्पंशधारी, कोटाधारी
 Quota licensing कोटा-साइडिंग देना
 Quota sampling कोटा नमूना चयन, कोटे पर
 आधारित नमूना चयन
 Quota system कोटा प्रणाली
 Quotation भाव, दर, निष्, कथित मूल्य
 Quotation list भाव सूची
 Quote भाव बोलना, दाम बताना, दाम लगाना, निष्
 देना
 Quoted currently बाजार में उसी समय उद्धृत
 Quotient लब्धि, भागफल, भजनफल
 R
 Racing deflation द्रुतगामी अवस्फीति
 Racketeer कूट-व्यापारी, कूट-व्यवसायी, ठग
 Racketeering ठगी, कूट व्यापार, धोखापट्टी,
 क्रांतिपट्टी

Rack rent प्रत्यधिक लगान, निष्ठुर लगान
 Rack rentier निष्ठुर रान्ते वार्ग
 Rack renting अत्यधिक लगान लेना, कमर तोड़
 लगान—ऐसा लगान जो काश्तकार की देख-शमता
 को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया जाए, अर्थात्
 वह लगान जो पट्टे पर ली गयी सम्पत्ति से प्राप्त
 शुद्ध उत्पाद के कुल मूल्य के समान या लगभग
 समान हो।
 Radicals उग्रपंथी, आन्तक परिवर्तनवादी
 Radical socialist आन्तक समाजवादी, उग्र समाज-
 वादी
 Raiffeisen society रैकीसन समिति—अधिकांशतः
 ये ग्रामीण सहकारी नाइक समितियाँ होती हैं।
 Rail and river borne trade रेल और नदी
 व्यापार
 Rail-road co-ordination रेल-सड़क समन्वय
 Railway audit report रेलवे लेखा-परीक्षण
 रिपोर्टें
 Railway betterment fund रेलवे समुन्नति
 निधि
 Railway Board रेलवे बोर्ड/मंडल
 Railway Finance Committee रेलवे वित्त
 समिति
 Railway Finance Separation Convention
 रेलवे वित्त पृथक्करण सम्मेलन
 Railway freight रेल-भाड़ा
 Railway reserve fund रेलवे आरक्षित निधि
 Railway transport रेल-परिवहन
 Railway zone रेल-क्षेत्र, रेल सण्ड
 Rain, regional distribution of वर्षा का क्षेत्रीय
 वितरण
 Raise money धन इकट्ठा करना
 Random check समसम्भाविक जांच, स्थानी पुलाफ
 जांच, बेतरतीब जांच
 Random error समसम्भाविक त्रुटि
 Random fluctuations समसम्भाविक उच्चावचन
 Randomization समसम्भाविकन
 Random method समसम्भाविक रीति
 Random sample समसम्भाविक नमूना

- Random sample survey समसम्भाविक नमूना सर्वेक्षण
- Random selection समसम्भाविक चयन
- Random shock theory समसम्भाविक आघात सिद्धांत
- Range of choices चुनावों की सीमा, चयन क्षेत्र, चयन-विस्तार
- Range of prices कीमतों की विस्तार-सीमा
- Rank correlation कोटि सहसम्बन्ध, अनुस्थिति सहसम्बन्ध
- Rank differences कोटि अन्तर, श्रेणी अन्तर
- Ranked character श्रेणीबद्ध लक्षण
- Ranking क्रम-विन्यास
- Rapid capital formation तीव्र पूंजी-निर्माण
- Rapid economic development द्रुत आर्थिक विकास
- Rapid increase in income आय में तीव्र वृद्धि
- Rapid industrialisation द्रुत औद्योगीकरण
- Rapid progression तीव्र आरोहण
- Rapidity of circulation परिवहन वेग
- Rare possibility दुर्लभ संभावना
- Rarity value दुर्लभता मूल्य/महर्त्वा
- Rate दर, भाव
- Rate, absenteeism अनुपस्थिति-दर
- Rate, accession नियुक्ति दर—किसी विशिष्ट काल के दौरान नियुक्त किये गए प्रतिरिक्त श्रमिक। इन नियुक्त श्रमिकों को कुल रोजगार के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इन प्रतिरिक्त नियुक्त श्रमिकों में सभी प्रकार के श्रमिक शामिल किए जाते हैं, नये और पुनः नियुक्त श्रमिक, चाहे वे स्थायी या अस्थायी रूप में नियुक्त किये गए हों।
- Rate, accident दुर्घटना-दर
- Rate, all commodity समस्त वस्तु दर
- Rate, alternative वैकल्पिक दर
- Rate, any quantity अपरिमित परिमाण दर
- Rate, banker's call बैंक तुरत दर, बैंक की शीघ्रावधि दर
- Rate, base आधार-दर
- Rate, bill बिल दर, हण्डी दर
- Rate, birth जन्म दर
- Rate, class वर्ग-दर
- Rate, commodity वस्तु दर, पण्यवस्तु दर
- Rate, concessional रियायती दर
- Rate, conversion परिवर्तन दर
- Rate, cross प्रति दर
- Rate, death मृत्यु दर
- Rate, deposit जमा-दर
- Rate, differential विभेदक-दर
- Rate, discrimination विभेदात्मक दर
- Rate, effective प्रभावी-दर
- Rate, employment रोजगार-दर
- Rate, export निर्यात भाड़ा-दर
- Rate, fertility प्रसवन-दर
- Rate, fixed निश्चित-दर
- Rate, flat एक समान-दर
- Rate, flexible exchange लोचपूर्ण विनिमय-दर
- Rate, floating exchange प्रबन्ध विनिमय दर, स्वतन्त्र विनिमय दर
- Rate, free exchange मुक्त विनिमय-दर
- Rate, group समूह-दर
- Rate, hourly wage घण्टेवार मजदूरी-दर
- Rate, import आयात भाड़ा-दर
- Rate, joint संयुक्त भाड़ा-दर
- Rate, labour flux श्रमिक विकास दर
- Rate, labour turnover श्रमिक भावतंत दर
- Rate, lay off जबरी छुट्टी दर
- Rate, local स्थानिक दर
- Rate, long मुद्दी दर, दीर्घकालिक दर
- Rate, lowest निम्नतम दर
- Rate, market बाजार दर
- Rate, maximum अधिकतम दर
- Rate, money व्याजदर (अल्पकाल)
- Rate, mortality मृत्यु-दर
- Rate, multiple exchange बहु विनिमय-दर, एकाधिक विनिमय-दर
- Rate, natural growth सहज संवृद्धि-दर
- Rate, official अधिकृत दर
- Rate, onerous दुर्बह दर

Rate, overnight निशाकान्तिक दर/निशाकान्तिक दर	Rate of duty, preferential तरजीही कर-दर, प्रथिमानी मुल्क-दर
Rate, paper प्रकाशित दर	Rate of duty, protective सुरक्षात्मक प्रमुल्कदर
Rate, parity समता-दर	Rate of exchange विनियम-दर
Rate, proportional अनुपातिक दर	Rate of exchange between the countries on similar monetary standards समान धातु-मान वाले देशों के बीच विनियम-दर
Rate, preferential तरजीही दर, प्रथिमानी दर	Rate of growth सवृद्धि-दर
Rate, quit त्याग-दर	Rate of interest ब्याज-दर
Rate, reasonable उचित दर	Rate of investment विनियोग दर
Rate, reproduction प्रजनन-दर	Rate of obsolescence अप्रचलन-दर
Rate, special विशेष-दर	Rate of profit लाभ-दर
Rate, spot हाजिर-दर, तत्क्षण दर, तत्स्थान दर	Rate of progression आरोहण-दर
Rate, short अल्पकालिक दर	Rate of response प्रतिक्रिया दर
Rate, standard मानक दर	Rate of return प्रत्याय-दर
Rate, through सीधी-दर	Rate of return over cost लागत पर प्रत्याय-दर
Rate, unemployment बेरोजगारी-दर	Rate of substitution प्रतिस्थापन दर
Rate, zone क्षेत्र: दर	Rate of survival जीवित शेष-दर
Rateable property कर-योग्य सम्पत्ति	Rate of taxation कराधान-दर
Rateable value कर-योग्य मूल्य	Rate-payer करदाता
Rate cutting कीमत काटना	Rate regulation दर विनियमन
Rated capacity निर्धारित क्षमता	Rate schedule दर-सूची, भाव अनुसूची
Rate list दर-सूची, भाव-सूची	Rate structure दर-ढाँचा, दर-संरचना
Rate making दर-निर्धारण	Rate Tribunal दर अधिकरण
Rate making, cost of capital theory of भाड़ा-दर निर्धारण का पूँजी लागत सिद्धान्त	Rate war दर कटौती संघर्ष, दर युद्ध
Rate making, investment cost theory of भाड़ा-दर निर्धारण का निवेश लागत सिद्धान्त	Rates स्थानीय कर, पीर-कर, उपमुल्क—इंग्लैंड में, स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थानीय कार्यों के लिए प्रचल सम्पत्ति पर कर।
Rate making, original cost theory of भाड़ा-दर निर्धारण का मूल लागत सिद्धान्त	Rates and Prices Tribunal दर तथा कीमत न्यायाधिकरण
Rate making, prudent investment cost theory of भाड़ा-दर निर्धारण का सविवेक निवेश लागत सिद्धान्त	Rates and taxes दर और कर
Rate making, reproduction cost theory of भाड़ा-दर निर्धारण का पुनरुत्पादन लागत सिद्धान्त	Rates of wages मजदूरी की दरें
Rate measurer दर मापक	Rating, credit साक्ष मान, उधार पत्रता निर्धारण
Rate of capital accumulation पूँजी संचय दर	Rating, employee कर्मचारी योग्यता अंकन, कर्मचारी योग्यता क्रम-निर्धारण
Rate of change परिवर्तन-दर	Rating, merit योग्यता-क्रम-निर्धारण
Rate of change analysis परिवर्तन दर विश्लेषण	Rating, performance निष्पादन मूल्यांकन
Rate of depreciation मूल्यह्रास-दर	Rating, retrospective पूर्वव्यापी दर-निर्धारण
Rate of discount बट्टे की दर	Ratio अनुपात

- Ratio, bond बाँड अनुपात
- Ratio, capital-output पूँजी-उत्पाद अनुपात, पूँजी-निर्गत अनुपात
- Ratio, capital-turnover पूँजी आवर्त अनुपात
- Ratio, cash-position नकदी अनुपात, नकद स्थिति अनुपात
- Ratio, common सार्व अनुपात, सामान्य अनुपात
- Ratio, concentration सकेन्द्रण अनुपात
- Ratio, correlation सह-संबन्ध अनुपात
- Ratio, crop फसल अनुपात
- Ratio, current चालू अनुपात, वर्तमान अनुपात
- Ratio, debt-to-net-worth ऋण-निवल संपत्ति अनुपात
- Ratio, depreciation reserve मूल्यह्रास आरक्षित निधि अनुपात
- Ratio, direct प्रत्यक्ष अनुपात
- Ratio, efficiency दक्षता अनुपात, कुशलता अनुपात
- Ratio, financial वित्त अनुपात
- Ratio, gross-profit सकल लाभ अनुपात
- Ratio, inverse प्रतिलोमानुपात
- Ratio, labour-output श्रम-उत्पादन अनुपात
- Ratio, liquidity तरलता अनुपात, नकदी अनुपात
- Ratio, loss हानि/घाटा अनुपात
- Ratio, low saving निम्न बचत अनुपात
- Ratio, man-land मनुष्य-भूमि अनुपात
- Ratio, market बाजार अनुपात
- Ratio, merchandise turnover पण्यवर्त अनुपात
- Ratio, mint टंकाल अनुपात
- Ratio, net liquidity निवल तरलता अनुपात
- Ratio, operating प्रचालन अनुपात
- Ratio, plant turnover संयंत्र आवर्त अनुपात
- Ratio, preferred stock अग्रिमाम्य स्टोक अनुपात
- Ratio, price-earnings कीमत-आय अनुपात
- Ratio, productivity उत्पादिता अनुपात
- Ratio, raw material turnover कच्चा माल आवर्त अनुपात
- Ratio, reserve आरक्षण अनुपात
- Ratio, saving बचत-अनुपात
- Ratio, total asset turnover कुल परिसम्पत्ति आवर्त अनुपात
- Ratio, velocity of circulation of money मुद्रा वा प्रचालन-प्रवेग अनुपात
- Ratio, working capital turnover कार्यकारी पूँजी आवर्त अनुपात
- Ratio, yield प्रतिफल अनुपात, उत्पादन-अनुपात, उत्पादिता अनुपात
- Ratio analysis अनुपात विश्लेषण
- Ratio of exchange विनिमय अनुपात
- Ration राशन, रसद, समभाजन
- Ration, balanced संतुलित राशन, संतुलित सम-भाजन
- Ration, iron कठोर राशन, कठोर समभाजन, न्याय्य समभाजन
- Ration, maintenance निर्वाह राशन, निर्वाह सम-भाजन
- Ration, productive वर्धक राशन
- Ration allowance राशन भत्ता
- Rational allocation विवेकपूर्ण कष्टन
- Rational behaviour विवेकपूर्ण व्यवहार
- Rational choice विवेकपूर्ण चयन/वरण
- Rational conduct विवेकपूर्ण आचरण
- Rational consumer विवेकशील उपभोक्ता
- Rational decisions विवेकपूर्ण निर्णय
- Rational distribution युक्तिसंगत वितरण, विवेकपूर्ण वितरण
- Rational economic calculations विवेकपूर्ण परिकलन
- Rational economic decisions तर्कपूर्ण आर्थिक निर्णय
- Rational economics विवेकपूर्ण अर्थशास्त्र, युक्ति-पूर्ण अर्थशास्त्र
- Rational manner युक्तिसंगत रीति, युक्तियुक्त ढंग
- Rational selection युक्तिपूर्ण चुनाव
- Rational trade policy विवेकपूर्ण व्यापार नीति
- Rationale of economic planning आर्थिक आयोजन का औचित्य

Rationale for international exchange of goods and services वस्तुओं और सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का औचित्य

Rationalisation सुव्यवस्थाकरण, सुव्यवस्थीकरण—उत्पादन के संदर्भ में सुव्यवस्थीकरण के तीन मुख्य तत्त्व हैं : औद्योगिक व वित्तीय समूहों में सुधार, यन्त्रीकरण तथा उत्पादन की अन्य नयी विधियों का प्रयोग और वैज्ञानिक प्रवन्धन। सुव्यवस्थीकरण का ध्येय साधनों का अनुकूलतम प्रयोग है जिससे उत्पादन की क्षमता व निपुणता अपने सर्वोच्च स्तर पर रहे।

Rationalisation of industries उद्योगों का सुव्यवस्थीकरण

Rationalisation of planning techniques आयोजना तकनीकों का सुव्यवस्थीकरण

Rationalisation policy सुव्यवस्थाकरण नीति, सुव्यवस्थीकरण नीति

Rationalism मुक्तिवाद, तर्कशास्त्रवाद, बुद्धिवाद

Rationality तर्कशीलता, विचारशीलता

Rationed earnings राशन की गयी धार, प्रतिभूत कमाई

Rationing राशन प्रणाली, राशनबन्दी, समभोजन

Rationing by price कीमत द्वारा राशनबन्दी—कीमत प्रक्रिया द्वारा कार्य करते हुए वितरण या प्रावर्तन प्रणाली के निर्देशित करने को कीमत द्वारा राशनबन्दी कहते हैं। इस पद का प्रयोग हीनभाव से किया जाता है।

Rationing of credit उधार की राशनबन्दी

Rationing of foreign exchange विदेशी मुद्रा की राशनबन्दी—विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण करने की एक प्रणाली जिसके अनुसार विदेशी मुद्रा के सभी पारियों को दृष्टि देशीय कार्यों के बदले एक निश्चित दर पर समर्पित करना पड़ता है। तत्परन्तु सरकार विदेशी मुद्रा की उन आमातकों में बाँटती है जिनकी क्रियाओं को वह प्रोत्साहन देना चाहती है और अन्य आमातकों को जिनकी क्रियाएँ सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय एवं विदेशी नीतियों के अनुसार कम आवश्यक होती हैं, विदेशी मुद्रा देने से इनकार कर देती है।

Rationing over time अग्रधि-विशेष के बीच राशनबन्दी

Rationing system, universal राशन की व्यापक व्यवस्था

Raw material कच्चा माल, अर्निमित्त सामग्री

Raw material turnover ratio कच्चा माल प्रावर्त अनुपात

Raw produce अर्निमित्त/कच्चा उत्पाद

Raw product अर्निमित्त/कच्चा पदार्थ

Reactionary प्रतिक्रियावादी—इस शब्द का प्रयोग प्रगतिशील विचारों के विरोध करने वालों, जैसे पूँजीपतियों के लिए किया जाता है।

Readily available सुलभ, सुलभ्य

Readily marketable सुगमतापूर्वक निपटण योग्य

Readiness-to-serve-costs सेवातत्परता लागत, मुस्तैदी लागत

Readjustment पुन.गमायोजन

Ready cash (hard cash or ready money) नकदी, तर्त मुद्रा, रोक

Ready-made garments industry तैयार वस्त्र उद्योग, सिले-सिलाये वस्त्र उद्योग

Ready money नकद मुद्रा

Ready reckoner तर्काल गणक

Reafforestation पुनर्वनरोपण

Real assets वास्तविक परिमंपत्, स्वावर परिमंपत्

Real balance effect theory वास्तविक अग्रधि-शेष प्रभाव सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार कीमत स्तर के सर्वांगीण कमी के फलस्वरूप उपभोग और विनियोग दोनों की वृद्धि होती है। यह केवल प्रभाव और वीगु-प्रभाव दोनों को समाविष्ट करता है। वास्तविक अग्रधि-शेष प्रभाव का आधार इस तर्क पर है : (i) व्यक्ति अपने मुद्रा रूपी अग्रधि-शेष और वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय के बीच एक मांछनीय सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। (ii) कीमत-स्तर में कमी के फलस्वरूप उनके मुद्रा अग्रधि-शेष का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है अर्थात् मुद्रा की निश्चित राशि द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा बढ़ जाती है। (iii) परिणामतः लोगों के पास तर्त-परि-

सपत् का संभरण बढ जाता है । (iv) इस प्रति-
रिक्त सभरण का एक भाग वे वस्तुओं तथा
सेवाओं पर खर्च करते है । (v) इस अतिरिक्त
सभरण का कुछ भाग वे उधार देने के लिए तैयार
हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा-बाजार
में श्रृणु पूँजी का सभरण बढ जाता है और इस
कारण व्याज दर कम हो जाती है । (vi) व्याज-
दर के कम होने से अतिरिक्त विनियोग होने
लगता है । अतः वास्तविक अर्थोपेय प्रभाव से उप-
भोग और विनियोग दोनों बढते हैं ।

Real balance equation वास्तविक शेष समीकरण

Real bills doctrine वास्तविक ऋणपत्र
सिद्धान्त—बैंक-सम्प्रदाय द्वारा प्रतिपादित इस
सिद्धान्त के अनुसार वाणिज्य बैंकों के सभी श्रृणु
अल्पकालीन एवं स्वय-शोधनीय (Self-liqui-
dating) होने चाहिएँ ताकि मुद्रा का विस्तार
अथवा सकुचन मुख्यतः व्यापार की आवश्यकताओं
पर आधारित हो ।

Real burden of taxation कर का वास्तविक
भार

Real capital वास्तविक पूँजी

Real cost वास्तविक लागत/परिव्यय

Real costs of production वास्तविक उत्पादन-
व्यय

Real domestic saving वास्तविक देशीय बचत

Real earning वास्तविक कमाई/उपार्जन

Real estate वास्तविक सम्पदा—भूमि, मकान या
अन्य निर्माणकारी म्थायी सम्पत्ति । सामान्यतः,
सभी प्रकार की अचल सम्पत्ति ।

Real estate duty वास्तविक सम्पदा शुल्क

Real estate tax वास्तविक सम्पदा कर

Real exchange economy वास्तविक विनिमय
अर्थव्यवस्था, निरूपभाव मुद्रा-व्यवस्था

Real (or exchangeable) value वास्तविक अथवा
विनिमय-मूल्य

Real (or exhaustive-non-transfer) expendi-
diture वास्तविक व्यय

Real factors वास्तविक तत्त्व, वास्तविक साधन

Real income वास्तविक आय

Real increase वास्तविक वृद्धि

Real inflation वास्तविक स्फीति—ऐसी स्फीति
पूर्ण रोजगार की अवस्था के उपरान्त आती है

Real investment वास्तविक विनियोग

Real lending rate वास्तविक उधार दर

Real and monetary resources वास्तविक एवं
मौद्रिक संसाधन

Real national income शुद्ध राष्ट्रीय आय

Real per capita output वास्तविक प्रति व्यक्ति
उत्पाद

Real and personal estate वास्तविक और वैय-
क्तिक संपदा

Real price वास्तविक मूल्य

Real public expenditure वास्तविक सार्वजनिक
व्यय

Real purchasing power वास्तविक क्रय शक्ति

Real resources वास्तविक संसाधन

Real sacrifice वास्तविक त्याग

Real social cost वास्तविक सामाजिक लागत

Real social wealth वास्तविक सामाजिक सम्पत्ति

Real subsistence income वास्तविक निर्वाह
आय

Real value वास्तविक मूल्य

Real wage वास्तविक मजदूरी

Real wage bill वास्तविक मजदूरी बिल

Real wage rates यथार्थ मजदूरी-दर

Realisation बसूली, उगाहना

Realisation account नकदीकरण लेखा

Realisation basis बसूली आधार

Realised income बसूलीकृत आय

Realised investment प्राप्त विनियोग

Realised production वास्तविक उत्पादन

Realised saving प्राप्त बचत

Realised utility प्राप्त उपयोगिता

Realistic conditions यथार्थवत् स्थिति

Realistic economics यथार्थवादी अर्थशास्त्र

Reallocation पुनरावटन

Reappointment पुनर्नियुक्ति

Reappropriation पुनर्विनियोग

Reappropriation budget पुनर्विनियोजन बजट	Recidivism अपराध-व्यसन
Reappropriation of funds निधिओं का पुनर्विनियोग	Recipient पाने वाला, प्राप्तकर्ता
Rearmament पुनःशस्त्रीकरण	Recipient country प्राप्त देश
Rearmament programme पुनःशस्त्रीकरण कार्यक्रम	Reciprocal buying पारस्परिक क्रय
Rearrangement of purchases क्रय की पुनर्व्यवस्था	Reciprocal concessions पारस्परिक रिमायतें
Reasonable comfort उचित सुविधा	Reciprocal demand पारस्परिक माँग, परस्पर माँग
Reasonable opportunity उचित अवसर	Reciprocal insurance पारस्परिक बीमा
Reasonable standard of living समुचित जीवन-स्तर	Reciprocal supply परस्पर संभरण/पूर्ति
Reassessment पुनर्निर्धारण	Reciprocal trade परस्पर व्यापार
Robato छूट, कटौती, बट्टा	Reciprocal trade agreement अन्वयोन्य व्यापार सन्धि
Rebate on a bill हुज्जी पर कटौती, विपत्र-कटौती	Reciprocity clause 'प्रदान-प्रदान बाग'
Rebate of interest स्वयं पर छूट	Reckless inflation of credit दाद की अन्वयधुंध रफीति
Re-borrowing पुनःउधार	Reckonable service गणनीय सेवा
Recapitalisation पुनः पूँजीकरण	Reclamation of land भूमि-उद्धार, भूमि-उद्धारण
Recapitalisation surplus पुनःपूँजीकरण अधिशेष	Reclamation of water logged areas जलप्रस्तक्षेप को भेती-योग बनाना
Receipts प्राप्ति, रसीद	Recognised trade mark स्वीकृत व्यापार चिन्ह
Receipt, actual वास्तविक प्राप्ति	Recognised trade union स्वीकृत श्रम-संघ
Receipt, capital पूँजीगत प्राप्ति	Recognition of the socialist outlook समाजवादी विचारधारा की मान्यता
Receipt, casual आकस्मिक प्राप्ति	Recognition of targets लक्ष्य पहचान
Receipt, customs सीमा शुल्क रसीद/प्राप्ति	Recoinage दोबारा ढलाई
Receipt, earmarking of tax कर-उपयोग-निर्धारण	Recommendations of the Direct Taxes Administration Enquiry Committee प्रत्यक्ष कर प्रशासन जोष समिति की सिफारिशें
Receipt, expected अनुमानित आय, प्रत्याशित प्राप्ति	Recommendations of the Administrative Reforms Commission प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें
Receipt, gross कुल प्राप्ति	Recompense प्रतिदान, क्षतिपूर्ति
Receipt, not निवल/शुद्ध/प्राप्ति	Reconcile the discrepancy असंगति समाधान करना
Receipt and disbursements प्राप्ति और सवितरण	Reconciliation boards समझौता मंडल/समझौता बोर्ड
Receipt from public property and public enterprises सार्वजनिक सम्पत्ति और सार्वजनिक उद्यम से प्राप्त आय	Reconciliation of debt श्रृंखला का निपटारा
Receive, ability to प्राप्ति-शक्ति	Reconstruction पुनर्निर्माण
Recession प्रतिहार	Reconstruction Finance Corporation पुनर्निर्माण वित्त निगम
Recessionary pressures प्रतिहारारहक दबाव	

Reconstruction loan पुनर्निर्माण उधार
 Reconstruction of capital पूँजी का पुनर्निर्माण
 Reconstruction of war ravaged economy

युद्ध-विध्वस्त अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण

Recontract पुनः ठेका देना

Recontrol पुनर्नियन्त्रण

Record production उत्पादन रिकार्ड/कीर्तिमान
 उत्पादन

Recover बसूरत करना

Recoverable वसूली योग्य

Recovery समुत्थान, पुनरुत्थान, वसूली

Recovery of damages हर्जाना वसूली

Recovery of debt श्रृण-वसूली

Recovery of dues देयराशि की वसूली

Recovery of loan उधार वसूली

Recovery of rent लगान की वसूली

Recovery of tax कर की वसूली

Rectangular hyperbola demand-curve आयता-
 कार अधीन्द्रिय माँग-वक्र

Recurrent income आवर्ती आय

Recurrent unemployment आवर्ती बेरोजगारी

Recurring cost आवर्ती लागत

Recurring deposit आवर्ती जमा

Recurring expenditure आवर्ती व्यय

Recurring value आवर्ती मूल्य

Redeemable bond प्रतिदेय बाँड

Redeemable debentures प्रतिदेय श्रृणपत्र

Redeemable share प्रतिदेय हिस्से

Redeemable Stock प्रतिदेय स्टॉक—सरकारी
 बाँड, श्रृण-पत्र या प्राथमिक हिस्से जिनको सम-
 मूल्य पर किसी निश्चित तिथि या किसी दो
 विशिष्ट तिथियों के बीच के काल में नकदी में
 परिवर्तित कराया जा सके ।

Redemption विमोचन, शोधन, वापसी

Redemption annuities विमोचन वार्षिकी

Redemption date शोधन तिथि

Redemption fund निष्क्रयण निधि

Redemption levy परिशोध कर

Redemption of capital पूँजी विमोचन

Redemption of debt श्रृण विमोचन

Redemption of public debt लाक श्रृण का
 शोधन

Redemption price (= Call price) प्रतिदान-मूल्य,
 शोधन मूल्य

Redemption value प्रतिदेय मूल्य, शोधन मूल्य

Redemption yield प्रतिदान प्राप्ति, शोधन प्राप्ति

Redeployment of labour धम का पुनर्गठन—

विभिन्न व्यवसायों में धम की पुनर्वितरण ताकि
 धम की माँग में हुए परिवर्तन के अनुरूप धम
 प्रयोग किया जा सके ।

Rediscount पुनर्बँटा

Rediscovery of money मुद्रा की पुनः खोज }

Redistribution of holdings जोती का पुनर्वितरण

Redistribution of income आय का पुनर्वितरण

Redistribution of land भूमि का पुनर्वितरण

Redistribution of property सम्पत्ति का पुन-
 वितरण

Redistributive effects पुनर्वितरण सबकी प्रभाव

Red-tapism लाल फीताघाही

Reduced annuity प्रह्रासित वार्षिकी

Reduced coins (worn out) घिसे हुए सिक्के

Reduced price घटा मूल्य

Reduced rate घटी दर

Reduction of inequality of income आय की
 असमानता में कमी

Reduction in private consumption निजी उप-
 भोग में कमी

Reduction of the rate of interest ब्याज-दर
 में कमी

Reduction of taxation कराधान की कमी

Reduction of the wage level मजदूरी-स्तर में
 कमी

Redundancy प्रचुरता—किसी फर्म या उद्योग
 द्वारा आवश्यक धम की माँग की मात्रा में कमी
 जो कि या तो किसी वस्तु की माँग की कमी के
 फलस्वरूप उद्योग में संकुचन से पैदा होती है या
 उत्पादन की नई तकनीक अर्थात् स्वचालन (Auto-
 mation) आदि के प्रारम्भ से उत्पन्न होनी है

जिसके परिणामस्वरूप कम श्रमिकों को जरूरत पड़ती है। प्राथमिक युग में जिस रफ़्तार से तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, उनके कारण प्रचुरता की समस्या और भी गम्भीर रूप धारण करती जा रही है।

Redundancy insurance प्रचुरता-बीमा

Redundancy of a factor साधन की प्रचुरता

Redundancy payment सेवा निवृत्ति वेतन—दसका अर्थ नौकरी से छलग करने पर दिये जाने वाले वेतन से है। यह वेतन उत समय दिया जाता है जब स्वचलन या श्रम बचाव मशीनरी के प्रयोग के कारण श्रमिकों की माँग कम हो जाती है और परिणामस्वरूप कुछ श्रमिकों को नौकरी से हटाना पड़ता है।

Re-employment पुनर्निमुनित, दोबारा नौकरी देना

Re-exchange पुनः खोपन, पुनः विनिमय, पुनः प्रदत्त-बदल

Re-export पुनः निर्यात

Reference period सन्दर्भ काल

Refer to drawer 'बैंककर्ता से पूछिए'

Referral परामर्श

Referral, confirmed पुष्ट परामर्श

Referral, unconfirmed अशुद्ध परामर्श

Refinance Corporation for Industry उद्योग के लिए पुनः वित्त निगम

Refined birth rate शोधित जन्म-दर

Refined death rate शोधित मृत्यु-दर

Refined version परिष्कृत रूप, शोधित विवरण

Refineries परिष्कारण शालाएँ—कच्चे तेल से ईंधन-तेल बनाने के कारखाने

Refining capacity परिष्करण क्षमता

Relaxation of pay वेतन-गुनगियतन

Relaxation of quota कौटे या पुनः निर्धारण

Related सम्बन्धित

Reflation संस्फीति, प्रत्यवस्फीति—पहले कीमत-स्तर को पुनः प्राप्त करने के लिए स्फीति या अवस्फीति का प्रयोग ताकि मौद्रिक दबाई के भूतपूर्व स्तर को प्राप्त किया जा सके।

Reflexionary संस्फापी, प्रत्यवस्फीतिवादी

Reflation of currency करेन्सी-संस्फीति

Reforestation पुनः वनरोपण

Reformation, counter regulation प्रति-सुधार विनियमन

Reformed capitalism सशोधित पूँजीवाद

Reformist unionism सुधारक संघवाद

Reformulation of the concept of consumer's surplus उपभोगता-अधिक की धारणा का पुनः सूत्रीकरण/प्रतिपादन

Reformed plan पुनःनिर्मित योजना, पुनःरचित योजना

Refresher and training courses for tax officials कर-अधिकारियों के लिए प्रवेशन एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

Refugee capital शरणार्थी पूँजी, हाथ पूँजी—यह शब्द Hot money या पर्यायवाची है।

Refund राशि लौटाना

Refund of capital पूँजी लौटाना

Refund of deposit जमा की वापसी

Refund of excess tax प्रतिरिक्त कर लौटाना

Refunding प्रत्यर्पण, वापसी बॉन्ड—जारी किए हुए पुराने श्रृणु-पत्रों के बदले नये श्रृणु-पत्र जारी करना। इस कार्य का उद्देश्य या तो किसी वर्तमान श्रृणु की बोधन क्षमति बढ़ाना होता है, या पुराने अधिक ध्याज-दर पर लिए गये उधार को कम ध्याज-दर वाले श्रृणु में परिवर्तित करना होता है।

Refunding bond वापसी बॉन्ड

Refunding of debt श्रृणु की वापसी

Refunding mortgage वापसी संघक

Region of acceptance स्वीकृति-क्षेत्र

Regional co-operation क्षेत्रीय सहयोग

Regional Economic Commission क्षेत्रीय आर्थिक आयोग

Regional economic development क्षेत्रीय आर्थिक विकास

Regional Employment Co-ordination Office प्रादेशिक रोजगार समन्वय कार्यालय

Regional imbalances क्षेत्रीय असंतुलन

Regional Industrial Finance Corporation प्रादेशिक औद्योगिक वित्त निगम	Regular intervals नियमित समयान्तर
Regional monetary arrangement क्षेत्रीय मौद्रिक प्रबंध	Regular money lending business नियमित साहूकारी
Regional occupation प्रादेशिक व्यवसाय	Regulated market विनियमित बाजार, विनियमित मण्डी
Regional payment group क्षेत्रीय भुगतान समूह	Regulated market scheme विनियमित मण्डी योजना
Regional planning क्षेत्रीय आयोजन	Regulated price नियमित कीमत
Regional planning approach क्षेत्रीय आयोजन पद्धति	Regulating and controlling functions निय- मन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य
Regional Planning Board क्षेत्रीय आयोजन मंडल/बोर्ड	Regulation of accounts लेखों का नियमन
Regional promotional agency प्रादेशिक प्रोन्नति अभिकरण	Regulation of bank credit बैंक साख का नियमन
Regional specialisation प्रादेशिक विशिष्टीकरण, क्षेत्रीय विशिष्टीकरण	Regulation of consumer's credit उपभोक्ता उधार का नियमन
Regional trade प्रादेशिक व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार	Regulation of credit उधार का नियमन
Registered company पंजीकृत कम्पनी	Regulation of fund निधि का विनियमन
Registered establishments पंजीकृत संस्थान	Regulation of mines and mineral develop- ment खानों और खनिज-विकास का नियमन
Registered firm पंजीकृत फर्म, रजिस्टर्ड फर्म	Regulation of monopoly एकाधिकार का विनि- यमन
Registered security पंजीकृत प्रतिभूति	Regulation of paper money कागजी मुद्रा का नियमन
Registered stock exchange पंजीकृत हिस्सा बाजार	Regulation of prices and rates कीमतों एवं दरों का नियमन
Registrar of joint stock company समुक्त- स्कन्ध कम्पनी का पंजीकार/रजिस्ट्रार	Regulation of rents किराये/लगान का नियमन
Regressive expenditure प्रतिगामी व्यय	Regulation of services सेवाओं का नियमन
Regressive forces प्रतिगामी शक्तियाँ	Regulation of trade and prices व्यापार एवं कीमतों का नियमन
Regressive grant प्रतिगामी अनुदान, अवरोही अनु- दान	Regulation of the volume of currency करन्सी के परिमाण का नियमन
Regressive growth अधोगामी वृद्धि	Regulatory Commission विनियामक प्रायोग
Regressive land tax प्रतिगामी भूमि कर	Regulatory framework विनियामक ढाँचा
Regressive nature of sales tax बिक्री कर की प्रतिगामी प्रकृति	Regulatory taxation विनियामक कराधान
Regressive rate of tax कर की प्रतिगामी दर	Rehabilitation allowance or grant पुनर्वास भत्ता या अनुदान
Regressive supply प्रतिगामी संभरण	Rehabilitation of displaced persons विस्था- पित व्यक्तियों का पुनर्वासन
Regressive taxation प्रतिगामी कराधान	Rehabilitation of refugees सरणार्थी-पुनर्वासन
Regressivity प्रतिगामिता, अवरोहीपन	Reimported goods पुनरायातित माल/वस्तुएँ
Regular allowance नियमित भत्ता	
Regular assessment नियमित कर निर्धारण	
Regular income नियमित आय	

Reinforcing संबलन	Relative price(s) of commodities वस्तुओं का सापेक्ष मूल्य
Reinstatement of lapsed policy गतावधि पालिसी का पुनःस्थापन	Relative productivity सापेक्षिक उत्पादित
Reinsurance पुनर्बीमा	Relative profit सापेक्ष लाभ
Reinterpretation पुनर्निबंधन	Relative profit maxima सापेक्ष लाभ-अधिकतम
Reinvestment पुनर्निवेश, पुनर्निवेशन	Relative profitability सापेक्ष लाभदायकता
Reinvestment quotient पुनर्निवेशन गुणक	Relative proportions सापेक्ष अनुपात
Re-issue पुनर्निगमन, पुनः जारी करना	Relative scarcity सापेक्ष दुर्लभता
Re-issue of shares हिस्सों का पुनर्निगमन	Relative strength सापेक्षिक बल
Related commodities सम्बन्धित वस्तुएँ	Relative substitution, law of सापेक्ष प्रतिस्थापन का नियम
Related goods सम्बन्धित वस्तुएँ	Relative taxable capacity सापेक्ष करदेय क्षमता
Related products सम्बन्धित उत्पाद	Relative treatment सापेक्षिक व्यवहार
Relationship, contract संबंध-सम्बन्ध	Relative valuations सापेक्षिक मूल्यांकन
Relationship, degree of सम्बन्ध-मात्रा	Relative value सापेक्ष मूल्य
Relationship, status स्थिति सम्बन्ध	Relative volumes of exchange विनिमय का सापेक्ष मात्रा
Relationship, wage मजदूरी सम्बन्ध	Relatively cheaper सापेक्षतः सस्ती
Relative bargaining power सापेक्ष सौदा-शक्ति	Relatively dearer सापेक्षतः महँगी
Relative burden of taxation कराधान का सापेक्ष भार	Relaxation of time limit कालावधि में ढिलाई
Relative change सापेक्ष परिवर्तन	Release at list prices सूची कीमत पर देना
Relative cheapness सापेक्षिक सस्तापन	Released purchasing power मुक्त क्रय-शक्ति
Relative concept सापेक्ष विचार/धारणा	Release of capital पूँजी मोचन
Relative contribution of growth factors विकास-कारकों का सापेक्षिक योगदान	Release of quota प्रमथंश देना, कौटा देना
Relative demand सापेक्ष मांग	Relevant factors प्रासंगिक तत्त्व
Relative earnings सापेक्ष आय/दैनिक, सापेक्ष आय	Relevant position प्रासंगिक स्थिति
Relative economies सापेक्ष अर्थशास्त्र	Relevant price-output range सम्बन्धित कीमत-उत्पाद की सीमा
Relative equality सापेक्षिक समानता	Relevant range सम्बन्धित दायरे/अभिधीमा/विस्तार/परिक्षेत्र
Relative error सापेक्ष त्रुटि	Relevant sectors सम्बन्धित क्षेत्र
Relative family wage सापेक्ष परिवार मजदूरी	Reliability of data प्रासंगिकता की विश्वसनीयता, आधार सामग्री की विश्वसनीयता
Relative income levels सापेक्ष आय स्तर	Relief, direct प्रत्यक्ष सहायता
Relative increase सापेक्षिक वृद्धि	Relief, famine दुर्मिन्न सहायता
Relative over-valuation सापेक्ष अधिमूल्यन	Relief, home पर सहायता
Relative population सापेक्ष जनसंख्या	Relief, indirect परोक्ष सहायता
Relative position सापेक्षिक स्थिति	Relief, indoor अन्तर्गत सहायता, भीतरी सहायता, अन्तर्वासी सहायता
Relative preferences सापेक्षिक प्राथमिकताएँ	
Relative price सापेक्ष कीमत	
Relative price change—A function of tax discrimination सापेक्ष कीमत-परिवर्तन—कर-विभेद का फलन	

- Relief, interim अंतरिम सहायता
 Relief, marginal सीमांत राहत
 Relief, outdoor बहिरंग सहायता, बाहरी सहायता, बहिर्वासी सहायता
 Relief and rehabilitation सहायता और पुनर्वासि
 Relief fund सहायता निधि
 Relief home सहायता-आश्रम
 Relief of agricultural indebtedness कृषि-ऋणप्रस्तता से राहत
 Relief of Inletdness Act ऋणभार/ऋणी-सहायता अधिनियम
 Relief of the disabled and unemployable विकलांग और अनियोज्य व्यक्तियों की राहत/सहायता
 Relief of the poor निर्धन-सहायता
 Relief payments सहायता भुगतान
 Relief works सहायता कार्य
 Relief works schemes सहायता कार्यो सम्बन्धी योजनाएँ
 Religious and charitable trusts धार्मिक एवं पुण्यार्थ ट्रस्ट
 Religious beliefs and attitudes धार्मिक विश्वास एवं अभिवृत्तियाँ
 Remedial training उपचारी प्रशिक्षण
 Remedy of mortgages बन्धक-उपचार
 Remission of land revenue भू-राजस्व का परिहार, भालगुजारी की मुआफ़ी
 Remission of rent लगान-मुआफ़ी, लगान परिहार, लगान-छूट
 Remission of revenue राजस्व-छूट
 Remittance प्रेषणा/प्रेषित धन
 Remittance account प्रेषणा लेखा
 Remittance facilities प्रेषण-सुविधाएँ
 Remittance facilities, concessional रियायती प्रेषण सुविधाएँ
 Remittance service प्रेषण सेवा
 Remonctisation पुनर्मुद्रीकरण
 Removal निराकरण
 Removal of the lease पट्टा हटाना
 Removal of restrictions प्रतिबन्ध हटाना
 Remuneration पारिश्रमिक, भेहनताना
 Remuneration charges पारिश्रमिक प्रभार/व्यय
 Remunerative capital पारिश्रमिक सम्बन्धी पूँजी, वेतन-विययक पूँजी, लाभकारी/लाभकर पूँजी
 Remunerative work वेतन सम्बन्धी कार्य, पारिश्रमिक सम्बन्धी कार्य, लाभकारी/लाभकर कार्य
 Rendu price ध्रायात सुपुर्दगी कीमत
 Renewal of a bill हुण्डी नया करना, हुण्डी नवीयन
 Renewal of licence लाइसेंस नवीकरण
 Renewal of registration रजिस्ट्री नवीकरण, रजिस्ट्री की अवधि बढ़ाना
 Renewal of reserve fund आरक्षण निधि का नवीकरण
 Renovation नवीकरण, मरम्मत
 Rent लगान, किराया, भाटक, अधिशेष
 Rent, abatement of किराया में छूट
 Rent, ability योग्यता लगान/भाटक
 Rent, absolute निरपेक्ष लगान/किराया/भाटक
 Rent, actual वास्तविक लगान
 Rent, additional अतिरिक्त किराया
 Rent, àgricultural कृषि-लगान
 Rent, annual सालाना/वार्षिक किराया
 Rent, assessed निर्धारित किराया
 Rent, assumptions of Ricardian Theory of रिकार्डो के लगान सिद्धांत की मान्यताएँ
 Rent, capital पूँजी लगान
 Rent, cash नकद-लगान, रोक लगान
 Rent, ceiling अधिकतम किराया
 Rent, composite मिश्र किराया
 Rent, consumer's उपभोक्ता अधिशेष
 Rent, contract सविदा किराया/लगान
 Rent, dead मृत लगान, स्थिर लगान/किराया, बंधा किराया—स्थिर लगान, विशेषकर ऐसा लगान या किराया जो किरायेदार या पट्टेदार पर उसके द्वारा किराये पर ली गयी सम्पत्ति या भूमि

- ते होने वाली प्राप्ति को ध्यान में न रखते हुए,
 खोया जाए।
- Rent, differential विशेषक लगान
 Rent, economic आर्थिक लगान
 Rent, explicit स्पष्ट किराया, सुनिश्चित
 किराया
 Rent, fair उचित किराया/लगान
 Rent, fixed बंधा किराया/लगान
 Rent, gross शुद्ध लगान
 Rent, ground किराया जमीन, भू-भाटक, इमारत
 के लिए दी गयी भूमि का किराया
 Rent, implicit अस्पष्ट किराया, निहित किराया
 Rent, industrial औद्योगिक अधिरोप/किराया
 Rent, institutional गारंटीक अधिरोप/लगान
 Rent, labour श्रम अधिरोप/लगान
 Rent, modern theory of लगान का आधुनिक
 सिद्धान्त
 Rent, negative ऋणात्मक लगान
 Rent, net निवल लगान
 Rent, nominal नाममात्र किराया
 Rent, positive धनरमक लगान
 Rent, producer's उत्पादक अधिरोप
 Rent, pure शुद्ध किराया
 Rent, quasi आभात लगान, अधिरोपयत् लगान
 Rent, quit मुक्ति लगान, सिद्धगती करत लगान
 Rent, rack आत्यधिक लगान, निष्ठुर लगान
 Rent, Ricardian Theory of रिकार्डों का लगान
 सिद्धान्त
 Rent, scarcity दुर्लभता लगान
 Rent, service सेवा-किराया
 Rent, situation स्थिति लगान
 Rent, standard मानक किराया, मानक भाड़ा
 Rent, theory of लगान-सिद्धान्त
 Rent account किराया लेखा
 Rent control किराया-नियंत्रण
 Rent duo द्वेष लगान
 Rent free grant किराया मुक्त अनुदान
 Rent free grants लगान-मार्गीदार
 Rent free holding लगान-मुक्त भौत, मार्गी भौत
- Rent of ability theory of profit लाभ का
 योग्यता लगान सिद्धान्त
 Rent subsidy किराया साहाय्य
 Rental on capital cost basis पूंजीगत लागत
 के आधार पर किराया
 Rental value जमावन्दी मूल्य, लगानार्थ मूल्य/
 किराया सम्बन्धी मूल्य
 Rental value of land भूमि का किराया सम्बन्धी
 मूल्य
 Rentier रान्तिया-वर्ग, निश्चित वार्षिक आय
 प्राप्तकर्ता—वेता व्यक्ति या वर्ग जो अपने निनि-
 योग पर निश्चित आय प्राप्त करता है।
 Rentier aspect of capitalism पूंजीवाद का
 किराया जीवी पक्ष/अनजितोजीवी पक्ष
 Rentier capitalism रान्तिया पूंजीवाद, अनजितोप-
 जीवी पूंजीवाद
 Rentier class रान्तिया-वर्ग, किराया-जीवी वर्ग
 Rentier euthanasia रान्तिया-मुक्त-मृत्यु
 Rentierism रान्तियावाद, लगान उपजीवीवाद
 Reorganisation bond पुनर्गठन बॉन्ड
 Reorganisation of capital पूंजी का पुनर्गठन
 Reorganisation of economy सर्वव्यवस्था का
 पुनर्गठन
 Reorganisation of economic institutions
 आर्थिक संस्थानों का पुनर्गठन
 Reorganisation of operational holdings
 संकार्य जोतों का पुनर्गठन
 Reorganisation surplus पुनर्गठन अधिरोप
 Repair and maintenance मरम्मत और अनु-
 रक्षण
 Repair and replacement मरम्मत एवं प्रति-
 स्थापन
 Repair and renewal मरम्मत और नवीकरण
 Repair reserve fund मरम्मत आरक्षण निधि
 Reparations हानिपूर्ति—किसी पराजित राष्ट्र
 द्वारा युद्ध-सम्बन्धी नुकसान के लिए विजयी राष्ट्र
 को दी जाने वाली हानिपूर्ति।
 Reparations and war debts क्षति भुगतान एवं
 युद्ध-ऋण

Repatriation of capital पूँजी प्रत्यावर्तन, पूँजी स्वदेशायमन
 Repatriation of personnel कर्मचारियों का स्वदेशायमन
 Repatriation of sterling debt स्टर्लिंग ऋण का प्रत्यावर्तन
 Reparations payments क्षतिपूर्ति सम्बन्धी भुगतान
 Repayable on demand माँग-पर-देय
 Repayment at a premium बढ़ती पर अदायगी
 Repayment obligations मुनतान दायित्व
 Repeat registration अतिरिक्त रजिस्ट्री
 Replacement प्रतिस्थापन
 Replacement and renewal प्रतिस्थापन और नवीकरण
 Replacement cost प्रतिस्थापन लागत
 Replacement cost method of depreciation मूल्यह्रास की प्रतिस्थापन लागत विधि
 Replacement demand प्रतिस्थापन माँग
 Replacement investment प्रतिस्थाप्य निवेश, प्रतिस्थापन निवेश
 Replacement investment function प्रतिस्थापन निवेश फलन
 Replacement of capital पूँजी का प्रतिस्थापन
 Replacement of fixed capital घबल पूँजी का प्रतिस्थापन, नियत पूँजी का प्रतिस्थापन
 Replenishment सपूर्ति, पुनर्भरण, आपूर्ति
 Report of the Central Board of Directors केन्द्रीय सचालक बोर्ड की रिपोर्ट
 Report on Currency and Finance मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट/प्रतिवेदन
 Reported share सूचित भाग/अंश
 Reporting of vital statistics जीवन-मरण के आँकड़ों की सूचना देना
 Representative consumer प्रतिनिधि उपभोक्ता
 Representative creditor प्रतिनिधि ऋणदाता
 Representative data प्रतिनिधि आँकड़े, प्रतिनिधि सामग्री
 Representative firm प्रतिनिधि फर्म— प्रोफेसर

अल्फ्रेड मार्शल ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है : यह एक ऐसी फर्म है जिसकी काफी लंबी आयु होती है और जिसे काफी सफलता प्राप्त होती है। इस फर्म का प्रबन्ध सामान्य योग्यता से किया जाता है और इसे उत्पादन की आन्तरिक एवं बाह्य मितव्ययताएँ सामान्य रूप में प्राप्त होती हैं। ऐसी फर्म केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करती है।

Representative full-bodied money प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा
 Representative money प्रतिनिधि मुद्रा
 Representative paper money प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा
 Repressed inflation दमित स्फीति
 Repressive tax पीड़क कर, दमनकारी कर
 Reprocessing industries पुनःविधायन उद्योग
 Reproducible wealth पुनरुत्पादनीय धन/सम्पदा
 Reproduction पुनरुत्पादन, जनन
 Reproduction cost पुनरुत्पादन लागत
 Reproduction cost theory of rate-making भाड़ा दर निर्धारण का पुनरुत्पादन लागत सिद्धान्त
 Reproduction, extensive विस्तृत पुनरुत्पादन
 Reproduction, intensive गहन-पुनरुत्पादन
 Reproduction of capital पूँजी का पुनरुत्पादन
 Reproduction rate प्रजनन दर/पुनरुत्पादन दर
 Gross Reproduction rate सकल प्रजनन दर—
 एक हजार माताओं द्वारा अपने पूर्ण प्रजनन काल में कितनी कन्याओं अर्थात् भावी माताओं को जन्म देने की संभावना है। यदि एक हजार वर्तमान माताएँ एक हजार कन्याओं या भावी माताओं को जन्म देती हैं, तो सकल प्रजनन दर इकाई के समान गिनी जाती है। इन भावी माताओं में से बीमारी, दुर्घटना आदि के कारण कुछ कन्याएँ बस्तुतः माताएँ नहीं बन पाती। अतः शुद्ध रूप में भावी माताओं की सख्या जनित कन्याओं की सख्या से कम होती है। इस प्रकार शुद्ध प्रजनन दर प्राप्त करने के लिए यह जाँच करनी पड़ती है कि क्या 1000 वर्तमान माताएँ बस्तुतः एक हजार भावी माताओं का प्रतिस्थापन करती हैं। यदि

- एक हजार वर्षमान माताएँ एक हजार भावी माताओं से प्रतिस्थापित हो जाती हैं, तो शुद्ध प्रजनन दर इकाई के समान है। यदि एक हजार से अधिक भावी माताओं से प्रतिस्थापन होता है, तो शुद्ध प्रजनन दर इकाई से अधिक है और यदि एक हजार से कम भावी माताओं से प्रतिस्थापित होती हैं तो शुद्ध प्रजनन दर इकाई से कम है।
- Reproductive age** प्रजनन वय
- Reproductive instinct** प्रजनन-प्रवृत्ति
- Reproductivity, principle of** पुनरुत्पादितता का सिद्धांत
- Repudiation** अस्वीकृति
- Repudiation, partial** आंशिक अस्वीकृति, आंशिक प्रत्याख्यान
- Repudiation of debt** ऋण-अस्वीकृति, ऋण-प्रत्याख्यान
- Repurchase** पुनः क्रय, दुबारा खरीद
- Required capital** अपेक्षित पूँजी
- Required saving ratio** अपेक्षित बचत अनुपात
- Requirement approach** आवश्यकता दृष्टिकोण
- Requisition** अधिग्रहण
- Requisitioned land** अधिगृहीत भूमि
- Resale** पुनः विक्रय
- Resale price** पुनः विक्रय कीमत
- Resale price maintenance** पुनः विक्रय कीमत अनुरक्षण—किसी विनिर्माता द्वारा अपने थोक एवं परचून व्यापारियों को माल इस शर्त पर बेचना कि वे पुनः विक्रय करते समय एक ही निश्चित कीमत पर माल बेचेंगे। इसका उद्देश्य परचून एवं थोक विक्रेताओं का प्रतिव्योमितता में तुलनात्मक लाभ समान करना होता है।
- Research and training institutions** अनुसंधान/नवोपेक्षा और प्रशिक्षण संस्थाएँ
- Research methodology** अनुसंधान विधि/रीति
- Research Programme Committee** अनुसंधान कार्यक्रम समिति
- Reservation demand** आरक्षण मांग
- Reservation price** आरक्षण कीमत, न्यूनतम कीमत—वह कीमत जिससे कम पर कोई विक्रेता बेचने से इन्कार करता है। वह आरक्षण कीमत से ऊँची किसी भी कीमत पर बेच सकता है। कई बार इस शब्द का प्रयोग न्यूनतम कीमत के लिए भी किया जाता है जिस पर कोई विक्रेता वस्तु बेचेगा।
- Reserve** आरक्षण, आरक्षण, रक्षित निधि
- Reserve, bank** बैंक आरक्षित निधि, बैंक रिजर्व, बैंक संचिति
- Reserve, capitalisation of** आरक्षित निधि का पूँजीकरण
- Reserve, cash** नकद आरक्षण, नकद आरक्षित निधि
- Reserve, depreciation** मूल्यहास आरक्षित निधि
- Reserve, foreign exchange** विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि
- Reserve, gold** स्वर्ण आरक्षित निधि, स्वर्ण कोष
- Reserve, gold standard** स्वर्णमान कोष/आरक्षित निधि
- Reserve, liquid** तरल आरक्षित निधि, नकद रिजर्व
- Reserve, metallic** धातु आरक्षित निधि/रिजर्व
- Reserve, negative** ऋणात्मक आरक्षित निधि
- Reserve Bank of India** रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, भारत का रिजर्व बैंक
- Reserve capital** आरक्षित पूँजी
- Reserve currencies** रक्षित मुद्राएँ
- Reserve for bad debts** अशुद्ध ऋणों के लिए रिजर्व
- Reserve for doubtful debts** संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व
- Reserve fund** रिजर्व कोष, रक्षित निधि
- Reserve holding** आरक्षित धारण
- Reserve price** रिजर्व कीमत, न्यूनतम कीमत
- Reserve Ratio** रक्षित निधि अनुपात, आरक्षण अनुपात—बैंक की कुल जमा का वह प्रतिशत जो बैंक तरल परिसम्पत् के रूप में जमा के विरुद्ध आरक्षण के रूप में रखता है। सामान्यतः कानून द्वारा विभिन्न वर्गों के बैंकों के लिए न्यूनतम आरक्षण अनुपात स्थापित कर दिया जाता है। जितना ऊँचा आरक्षण अनुपात निर्धारित किया जाता है, उतनी ही जमा मुद्रा के विरुद्ध बैंक द्वारा

- श्रृणु निर्माण की क्षमता नम हो जाती है। इसीलिए प्रारक्षण अनुपात का प्रयोग स्फीति या अक्षरफीति को नियन्त्रित करने के लिए किया जाता है।
- Reserve ratio, variable परिवर्तनीय/परिवर्तनशील रक्षित निधि अनुपात
- Reserve repository प्रारक्षित सजाना, प्रारक्षित निधि/भण्डार
- Reserve requirements प्रारक्षण आवश्यकताएँ, रक्षित निधि आवश्यकताएँ
- Reserve requirements, variable अस्थिर प्रारक्षण आवश्यकताएँ
- Reserve, secondary अनुपगी प्रारक्षण, गौण/द्वितीयक प्रारक्षण
- Reserve system, minimum न्यूनतम प्रारक्षण प्रणाली
- Reserve system, proportional अनुपातिक प्रारक्षण प्रणाली
- Reserve treasury रक्षित कोषागार
- Reserve with Central Bank केन्द्रीय बैंक के पास रक्षित निधि
- Resettlement पुन.स्थापन
- Residential houses रिहायशी मकान
- Residual claimant theory of wages मजदूरी का अवशिष्ट अधिकार सिद्धान्त/शिपाधिकारी सिद्धान्त
- Residual errors अवशिष्ट त्रुटियाँ
- Residual income अवशिष्ट आय
- Residual profit अवशिष्ट लाभ
- Residual value अवशिष्ट मूल्य
- Residuary legatee अवशिष्ट उत्तराधिकारी—
किसी वसीयत के अनुसार सभी श्रृणु तथा भुगतान करने के पश्चात् बाकी जायदाद प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी।
- Residuary monopoly अवशेष एकाधिकार
- Residuary powers अवशिष्ट शक्तियाँ
- Resistance प्रतिरोध
- Resource allocation under monopolistic competition एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अन्तर्गत संसाधनों का आवंटन
- Resource allocation under monopoly
- एकाधिकार के अन्तर्गत संसाधनों का आवंटन
- Resource allocation under oligopoly अल्पा-
धिकार के अन्तर्गत संसाधनों का आवंटन
- Resource allocation under perfect competi-
tion पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत संसाधनों का
आवंटन
- Resource availability संसाधनों की उपलब्धि,
संसाधन प्राप्ति
- Resource-cost, marginal सीमांत संसाधन लागत
- Resource development policy and progra-
mmes संसाधन विकास नीति और कार्यक्रम
- Resource differentiation संसाधन भेद/विभेदीकरण
- Resource gap संसाधन-अन्तर, संसाधन अभाव
- Resource market संसाधन बाजार
- Resource mobilisation संसाधन गतिमान करना,
संसाधन-मंचालन, संसाधन जुटाव
- Resource mobilisation, instruments of साधनों
को गतिशील करने के उपकरण
- Resource operation संसाधन परिचालन
- Resource position संसाधन-स्थिति
- Resource specialists संसाधन विशेषज्ञ
- Resource transfer संसाधन-प्रन्तरण, संसाधन
स्वामित्वान्तरण/हस्तांतरण
- Resources संसाधन
- Resources, capital पूँजी संसाधन
- Resources, conservation of संसाधन संरक्षण
- Resources, exhaustible निश्चेष संसाधन
- Resources, external बाह्य संसाधन
- Resources, flow प्रवाह-संसाधन
- Resources, fluid तरल/सुपरिवर्ती संसाधन
- Resources, idle निष्क्रिय/अप्रयुक्त संसाधन
- Resources, internal आन्तरिक संसाधन
- Resources, investible विनियोग्य संसाधन
- Resources, management of संसाधन प्रबन्ध
- Resources, mineral खनिज संसाधन
- Resources, misallocation of संसाधन अपव्ययन
- Resources, natural प्राकृतिक संसाधन
- Resources, non-marketable अविश्रय संसाधन
- Resources, non-renewable अपूर्य संसाधन,

- अपर्य संपत्ति—तेमे संग्रहण जो समाप्त होने पर दोबारा उत्पन्न न किए जा सकें, जैसे कोयला ।
- Resources, renewable** नवीकरणीय योग्य संसाधन—ऐसे साधन जो बार-बार उत्पन्न किए जा सकें, जैसे वन, जल-शक्ति ।
- Resources, utilisation of** संसाधन उपयोग
- Resources, versatility of** साधनों की बहु-उप-योगिता
- Resources, wastage of** संसाधन-अपव्यय
- Resources for the public exchequer** राजकोष के लिए संसाधन
- Resources for war** युद्ध के लिए संसाधन
- Resources transferred to states** राज्यों को हस्तान्तरित संसाधन
- Resourceful** साधन-सम्पन्न
- Respective internal demands** क्रमिक आन्तरिक माँग
- Responsiveness** प्रत्युत्तरता
- Responsiveness of demand** माँग की प्रत्युत्तरता
- Rest shelter** विश्राम-स्थल
- Restatement of classical theory** प्रतिष्ठित सिद्धान्त का पुनः प्रतिपादन
- Restocking** पुनः संप्रहरण
- Restoration** पुनःस्थापन, प्रत्यास्थापन
- Restoration of gold standard** स्वर्णमान का पुनःस्थापन
- Restraint, wage** मजदूरी संयमन
- Restraint of population** जनसंख्या नियंत्रण
- Restraint of trade** व्यापार-संयम, व्यापार पर पाबन्दी
- Restricted agreement** प्रतिबंधित करार
- Restricted asset** प्रतिबंधित परिसंपत्ति
- Restricted base** सीमित आधार
- Restricted economy** प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था
- Restricted goods** प्रतिबंधित माल
- Restricted supply** प्रतिबंधित रसद/आपूर्ति
- Restricted trade** प्रतिबंधित व्यापार
- Restriction by the state** राज्य द्वारा प्रतिबंध
- Restriction on capital flight** पूँजी पलायन पर प्रतिबंध
- Restriction on external debt payment** बाह्य ऋण दोबान पर प्रतिबंध
- Restriction on holding of foreign currencies** विदेशी मुद्रा के धारण पर प्रतिबंध
- Restriction on import and export of specie** स्वर्ण के आयात एवं निर्यात पर प्रतिबंध
- Restriction on inheritance** उत्तराधिकार पर प्रतिबंध
- Restriction on purchase of currency by importers** आयात करने वालों पर करेन्सी के क्रय पर प्रतिबंध
- Restriction on purchase and export of securities** प्रतिभूतियों के क्रय एवं निर्यात पर प्रतिबंध
- Restriction on purchase of foreign exchange** विदेशी मुद्रा के क्रय पर प्रतिबंध
- Restriction on speculation** सट्टे पर प्रतिबंध, सट्टे पर पाबन्दी
- Restriction on the movement of capital** पूँजी की गति पर प्रतिबंध
- Restrictionism** प्रतिबंधवाद
- Restrictionist policy** प्रतिबंधात्मक नीति
- Restrictive covenant** प्रतिबंधात्मक प्रसंविदा
- Restrictive endorsement** प्रतिबंधात्मक पृच्छा-कन
- Restrictive influence** प्रतिबंधात्मक प्रभाव
- Restrictive monetary policy** प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति
- Restrictive practices** प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ/ व्यवहार
- Restrictive tendencies** प्रतिबंधात्मक प्रवृत्तियाँ
- Retrospective (production)** अनुवर्ती (उत्पादन)—काल विप्लेषण के सम्बन्ध में प्रोफेसर मरशेक द्वारा प्रयुक्त शब्द । देखिए Ex-post ।
- Resumable tenure** पुनर्ग्रहणीय पट्टेदारी
- Resumption for personal cultivation** स्वयं काश्त के लिए भूमि पुनर्ग्रहण
- Retail clientele** फुटकर प्राहक

- Retailer खुदरा व्यापारी, फुटकर विक्रेता
 Retail market खुदरा बाजार, फुटकर बाजार,
 परचून बाजार
 Retail outlet खुदरा दुकान
 Retail price फुटकर मूल्य
 Retail price index number फुटकर-मूल्य-सूचकांक
 Retail stage खुदरा स्तर, खुदरा अवस्था
 Retail trade खुदरा व्यापार
 Retail trade, productive nature of खुदरा
 व्यापार की उत्पादक प्रकृति
 Retail trader फुटकर व्यापारी
 Retail value of money मुद्रा का फुटकर मूल्य
 Retained earnings प्रतिघृत कमाई, प्रतिघृत आय
 Retained profits प्रतिधारित लाभ
 Retained savings प्रतिधारित बचत
 Retaliation प्रतिवार, प्रतिकार गुल्क
 Retaliation argument प्रतिघोष तर्क
 Retaliatory duty प्रतिघोषात्मक गुल्क — एक प्रकार
 का सीमा गुल्क जिसका प्रयोत्रण विदेशी व्यापारियों
 को व्यापार विभेद व्यवहार के लिए दण्डित करना
 होता है या उन्हे व्यापार सम्बन्धी रियायतें देने
 के लिए मजबूर करना होता है ।
 Retaliatory tariff प्रतिकार-प्रगुल्क, प्रतिकार टैरिफ
 Retarded development विमन्दित विकास
 Retarding effect विमन्दन प्रभाव
 Retention money प्रतिधारण राशि
 Retention price प्रतिधारण मूल्य/कीमत
 Retention of profits लाभ का प्रतिधारण
 Retired persons सेवानिवृत्त व्यक्ति
 Retirement age निवृत्ति आयु
 Retirement benefit निवृत्ति-लाभ
 Retirement of bill बिल का पूर्व भुगतान, बिल
 को चलन से वापिस ले लेना
 Retirement of debt श्रृणु-सोपन
 Retiring a bill under rebate छूट सहित बिल का
 पूर्व भुगतान
 Retiring-pension निवृत्ति-पेंशन
 Retrenched personnel छाँटी किये गए कर्मचारी
 Retrenchment छाँटी, छेँटनी
 Retrenchment order छेँटनी का आदेश
 Retrogressing economy पतनोन्मुख/प्रतीपगामी
 अर्थव्यवस्था
 Retrogressive population प्रतीपगामी जनसंख्या
 Retrogressive taxation प्रतीपगामी कराधान
 Retrospective rating अतीत-प्रभावी, पूर्व-व्यापी
 दर-निर्धारण
 Return प्रत्याय, प्रतिकल
 Return, average औसत प्रतिकल/प्रत्याय
 Return, cash नकद प्रत्याय
 Return, constant स्थिर प्रत्याय
 Return, diminishing ह्रासमान प्रत्याय
 Return, equi-marginal सम-सीमान्त प्रत्याय
 Return, expected प्रत्यासित प्रत्याय
 Return, gross कुल प्रतिकल, सफल प्रत्याय
 Return, income tax आयकर विवरणी
 Return, increasing वर्द्धमान प्रत्याय
 Return, investment विनियोग-प्रत्याय, निवेश प्रत्याय
 Return, joint संयुक्त विवरणी, संयुक्त प्रतिकल
 Return, marginal सीमांत प्रतिकल
 Return, net निवल प्रतिकल, शुद्ध प्रत्याय
 Return, prospective भावी-प्रत्याय
 Return of allotment नियतन विवरणी
 Return of currency मुद्रा वापसी
 Return of income आय-विवरणी
 Return on capital पूँजी पर प्रत्याय
 Return on fixed capital स्थिर पूँजी पर प्रतिकल
 Returns to outlay व्यय पर प्रतिकल
 Returns to scale मात्रा-सम्बन्धी प्रत्याय
 Returns to scale, decreasing मात्रा-सम्बन्धी
 ह्रासमान प्रत्याय
 Returns to scale, increasing मात्रा सम्बन्धी
 वर्द्धमान प्रत्याय
 Revalorisation मूल्योद्धार/मूल्य पुनःस्थापन —
 सरकार द्वारा किसी मौद्रिक इकाई के पहले अर्थान्
 पुराने मूल्य को बहाल करने का प्रयास ।
 Revaluation पुनर्मूल्यन
 Revaluation of assets परिसम्पत् का पुनर्मूल्यन
 Revealed preferences प्रगट अधिमान, व्यक्त अधिमान

- Revealed preference theorem व्यक्त अधिमान सिद्धांत
- Revenue धाय, आमग, राजस्व
- Revenue, administrative प्रशासनिक आय/आमग
- Revenue, average औसत आय/आमग
- Revenue, business व्यावसायिक आय/आमग
- Revenue, commercial व्यापारिक आमग
- Revenue, enterprise उद्यम आय/आमग
- Revenue, gross सकल राजस्व, सकल आय/आमग
- Revenue, internal आंतरिक आय, आंतरिक राजस्व
- Revenue, land भू-राजस्व, मालमुजारी
- Revenue, marginal सीमान्त आय/आमग
- Revenue, maximum अधिकतम आय/आमग
- Revenue, monopoly एकाधिकार आय/आमग
- Revenue, net निवल राजस्व, निवल आय/आमग
- Revenue, net monopoly शुद्ध एकाधिकार आय/आमग
- Revenue, public राजस्व, सरकारी आय
- Revenue, total कुल आय/आमग
- Revenue account राजस्व खाता
- Revenue administration राजस्व प्रशासन
- Revenue approach आय दृष्टिकोण, राजस्व दृष्टिकोण
- Revenue argument आय बढ़ाने का तर्क
- Revenue bond राजस्व बांड
- Revenue budget राजस्व बजट
- Revenue collection राजस्व वसूली
- Revenue contributions राजस्व योगदान
- Revenue curve आय वक्र/आमग वक्र
- Revenue department राजस्व विभाग
- Revenue deposit राजस्व जमा
- Revenue district राजस्व जिला
- Revenue effect आमग प्रभाव
- Revenue expenditure राजस्व व्यय
- Revenue expenditure, deferred आस्थगित राजस्व व्यय
- Revenue expenditure process राजस्व व्यय की प्रक्रिया
- Revenue office राजस्व कार्यालय
- Revenue officer राजस्व अधिकारी
- Revenue of state राज्य आमग
- Revenue product आमग उत्पाद
- Revenue product, net शुद्ध/निवल आमग उत्पाद
- Revenue productivity आमग/राजस्व उत्पादितता
- Revenue receipts राजस्व प्राप्ति
- Revenue records राजस्व अभिलेख
- Revenue reserve fund राजस्व आरक्षित निधि
- Revenue surplus राजस्व अतिरिक्त/अधिशेष
- Revenue system राजस्व व्यवस्था
- Revenue tariff राजस्व प्रभुत्व, राजस्व टैरिफ
- Revenue tax राजस्व कर, आमग कर
- Revenue year राजस्व वर्ष
- Revenue yield राजस्व आय, राजस्व प्राप्ति
- Reverse connect bill प्रति-परिपक्ष बिल
- Reverse lendlease aid उलट उधार-पट्टा सहायता
- Reversible instrument प्रतिवर्ती उपकरण—
आर्थिक क्रिया पर बजट सम्बन्धी नियन्त्रण एक प्रतिवर्ती उपकरण है।
- Reversionary bonus दावा प्राप्य बोनस
- Review of the co-operative movement in India भारत में सहकारी आन्दोलन की समीक्षा
- Revised budget संशोधित बजट
- Revised budget estimate संशोधित बजट अनुमान
- Revised estimate संशोधित अनुमान
- Revised excise budget संशोधित उत्पादन शुल्क बजट
- Revised series of national income राष्ट्रीय आय की संशोधित श्रृंखला
- Revisionism पुनरीक्षणवाद, संशोधनवाद—आधुनिक साम्यवादी दर्शन का बहू सम्प्रदाय जो कुछ पारम्परिक मार्क्सवादी एवं लेनिनवादी सिद्धान्तों में संशोधन करना चाहता है। पुनरीक्षणवादी पूँजीवाद से समाजवाद में सन्नति के लिए परोक्षतरी क्रान्ति की ऐतिहासिक अनिवार्यता को नहीं मानते। वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परोक्षतरी क्रान्ति के लिए साम्यवादी दल के अग्रे योगदान पर अधिक बल

नहीं देते। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लैनिन के बड़े दल-संगठन सिद्धांत और लोकतन्त्रीय केन्द्रीय शासनवाद (Democratic Centralism) के सिद्धांत को गलत मानते हैं, वे इस नाभिकीय युग में सह-अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और साम्यवादी सरकारों द्वारा सम्मत युद्ध की नीति को सर्वोत्तम नहीं मानते।

Revisionist पुनरीक्षणवादी, सशोधनवादी
 Revisionist Marxist पुनरीक्षक मार्क्सवादी
 Revisionist socialist पुनरीक्षक समाजवादी
 Revisions of convention परम्परा में सशोधन, इकरारनामे में सशोधन
 Revival पुनरुत्थान
 Revival of lapsed policy गतावधि पालिसी का पुनश्चालन/पुन.प्रचलन
 Revival of monetary policy मौद्रिक नीति का पुन प्रचलन
 Revival of trade व्यापार का पुनरुत्थान
 Revival phase of trade cycle व्यापार-चक्र की पुनरुत्थान अवस्था
 Revivalist पुनरुत्थानवादी
 Revocation मसूखी, प्रतिस्तरण, रद्द करना
 Revolution, agricultural कृषि क्रांति
 Revolution, industrial औद्योगिक क्रांति
 Revolution of rising expectations उम्मुख/बढ़ती हुई आकांक्षाओं की क्रांति
 Revolutionary change क्रांतिकारी परिवर्तन
 Revolutionary socialism क्रांतिकारी समाजवाद
 Revolutionary syndicalism क्रांतिकारी श्रमिक-संघवाद
 Revolutionary unionism क्रांतिकारी श्रम संघवाद
 Revolving basis परिक्रामी आधार
 Revolving credit परिक्रामी उधार
 Revolving fund परिक्रामी निधि—एक ऐसी निधि जो इस्तेमाल करने के साथ-साथ भरी जाती है। इसके लिए या तो और अनुदान प्राप्त किया जाता है या जिस क्रिया के लिए यह वित्त जुटाती है, उसी की आय से इसकी पूति की जाती है।

इस निधि में कुछ अधिदेय हर समय रहता है।
 Revulsion of capital पूंजी का खिचाव, पूंजी का प्रतिकर्षण
 Reward for co-ordination समन्वय का पारितोषिक
 Reward for innovation नवप्रवर्तन का पारितोषिक
 Reward for labour धर्म पुरस्कार
 Reward for risk-taking जोखिम उठाने का पुरस्कार
 Reward for uncertainty-bearing अनिश्चितता सहन करने का पुरस्कार
 Reward of the effort परिश्रम का पुरस्कार
 Rhythmic fluctuations लयबद्ध उच्चावचन
 Rich economy समृद्ध अर्थव्यवस्था
 Ridge line सीमा रेखा, परिधि रेखा
 Rigging भाव बढ़ाना
 Right, occupancy दल्लत अधिकार
 Right, proprietary स्वामित्व अधिकार
 Right amount of money for the country किसी देश के लिए मुद्रा का उपयुक्त परिमाण
 Right of association संघीय अधिकार/संगठन का अधिकार
 Right of disposal निर्वर्तन अधिकार, निपटान का अधिकार
 Right of property सम्पत्ति-अधिकार
 Right of resale पुन विक्रय-अधिकार
 Right of succession उत्तराधिकार
 Right to a fair wage उचित मजदूरी का अधिकार
 Right to a job नौकरी का अधिकार
 Right to employment रोजगार अधिकार
 Right to property सम्पत्ति का अधिकार
 Right to social security सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
 Right to strike हड़ताल-अधिकार
 Right to vote मतदान का अधिकार, मतदाताधिकार
 Right to work नौकरी का अधिकार
 Rights, buyers' क्रेता के अधिकार
 Rights, sellers' विक्रेता के अधिकार

- Rightwing socialism दक्षिणपंथीय समाजवाद
- Rigid classification कठोर वर्गीकरण, परिहृष्ट वर्गीकरण
- Rigid frame हृष्ट ढाँचा, अपरिवर्ती ढाँचा
- Rigid price अन्म्य कीमत, अपरिवर्ती कीमत
- Rigidity of economic system आधिक पद्धति की अन्म्यता/अनमनीयता
- Rignano's plan of death duty रिगर्नो की मृत्यु-शुल्क योजना
- Rig मूल्य उन्नयन, कृष्ट मूल्य उन्नयन
- Rig the market बाजार भाव को बढ़ाना, बाजार मूल्योन्मयन—बड़े-बड़े मट्टीबाजो द्वारा सट्टा बाजार पर नियन्त्रण प्राप्त करना ताकि वे कुछ समय के लिए बाजार शक्तियों को प्रभावहीन बनाकर हिस्सो के भावो को अपने हितानुकूल बढ़ा सकें ।
- Ring money घामुषण मुद्रा—इसका अभिप्राय स्वर्ण या चाँदी से बने हुए आभूषणो अर्थात् घण्टियों, बाजूबन्द, कंगन आदि के रूप में मुद्रा से है जो या तो मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है या व्यक्ति के श्रृंगार का साधन है ।
- Rings and pools गुट और ध्ववसाय घण्ट
- Ripening process परिपाक प्रक्रिया
- Ripening stage परिपाक प्रवस्था
- Rise and fall उतार-चढ़ाव
- Rise in demand माँग में वृद्धि
- Rise in exports निर्यात में वृद्धि
- Rise in home investment देशी विनियोग में वृद्धि
- Rise in non-plan expenditure गैर-योजना व्यय में वृद्धि
- Rise in price level कीमत-स्तर में वृद्धि, कीमत स्तर का चढ़ाव
- Rise in prices कीमतों में वृद्धि
- Rise in supply संभरण में वृद्धि
- Rise in the inequalities of wealth and income धन तथा आय की असमानता में वृद्धि
- Rise of inflationary pressure स्फीतिक-दबाव में वृद्धि
- Rising consumption demand within the economy अर्थव्यवस्था में वृद्धिशील उपभोग माँग
- Rising costs बढ़ती लागतें
- Rising markets उन्नतिशील बाजार, उभरते बाजार
- Rising supply curve उठता हुआ संभरण-वक्र
- Rising tendency उदीयमान प्रवृत्ति
- Risk जोखिम
- Risk, avoidable परिहार्य जोखिम
- Risk, business व्यापार सम्बन्धी जोखिम
- Risk, business-cycle व्यापार-चक्र सदयी जोखिम
- Risk, climatic जलवायु-जोखिम, जलवायु सम्बन्धी जोखिम
- Risk, competition प्रतियोगिता सम्बन्धी जोखिम
- Risk, estimable प्राक्कलन योग्य जोखिम
- Risk, financial वित्तीय जोखिम
- Risk, foreseeable पूर्वानुमानित जोखिम
- Risks, grouping of जोखिमों का समूहन
- Risks, insurable बीमा-योग्य जोखिम
- Risks, non-estimable प्राक्कलन-अयोग्य जोखिम
- Risks, non-insurable बीमा-अयोग्य जोखिम
- Risks, premium for जोखिम का बढ़ा, जोखिम का प्रतिफल
- Risks, trade व्यापार जोखिम
- Risks, unforeseeable पूर्व-अनुमानित जोखिम
- Risk allowance जोखिम सम्बन्धी छूट
- Risk avoidance जोखिम परिहार्यता, जोखिम से बचना
- Risk bearing जोखिम उठाना
- Risk capital जोखिम पूंजी
- Risk capital pooling जोखिम पूंजी संग्रहण
- Risk free capital जोखिम मुक्त पूंजी
- Riskless alternatives जोखिम-रहित विकल्प
- Riskless profit जोखिम रहित लाभ
- Risk of state intervention सरकारी हस्तक्षेप की आशंका
- Risk purchase जोखिमो खरीद
- Risk-taking जोखिम उठाना
- Risk theory of profit लाभ का जोखिम सिद्धांत

Risky enterprise जोखिम युक्त उद्यम
 Risky investment जोखिमी विनियोग, जोखिम युक्त विनियोग
 Risky investment projects जोखिम युक्त निवेश परियोजना
 Rival demand प्रतिस्पर्धी/स्पर्धी माँग
 Rival supply प्रतिस्पर्धी/स्पर्धी पूर्ति
 Rival union स्पर्धी सघ, स्पर्धी श्रम सघ
 River valley projects नदी घाटी परियोजनाएँ
 Road and water transport scheme सड़क एवं जल परिवहन योजना
 Road fund सड़क निधि
 Road transport सड़क परिवहन
 Road transport, nationalisation of सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण
 Rock-bottom price निम्नतम कीमत, घरातल कीमत
 Roeketting prices गगनचुम्बी कीमतें, तेजी से बढ़ता हुआ मूल्य
 Role of costs लागतों की भूमिका
 Role of government in capitalist economy पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका
 Role of government in socialist economy समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका
 Role of natural resources in economic development प्राकृतिक विकास में प्राकृतिक ससाधनों के योगदान की भूमिका
 Role of price changes कीमत-परिवर्तन की भूमिका
 Role of price regulation कीमत-निदमन का योगदान
 Role of private sector निजी क्षेत्र का योगदान, गैर-सरकारी क्षेत्र की भूमिका
 Role of public sector सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्र का योगदान/भूमिका
 Role of the state in balanced growth संतुलित विकास में राज्य का योगदान
 Rollback policy कीमत घबधारण नीति
 Rolled back maximum price घबधारित अधिकतम कीमत—इसका अर्थ उस सरकारी नीति से है जिसके अधीन कोई पूर्वकालीन एवं

निम्न कीमत वर्तमान ऊँची कीमत की तुलना में कानूनी कीमत घोषित कर दी जाती है। इस नीति का प्रारम्भ द्वितीय विश्वयुद्ध में हुआ ताकि उच्चतम कीमत नीति के प्रवाहनीय प्रभाव दूर किये जा सकें। इस नीति का उद्देश्य कीमत-स्फीति को कुछ हद तक कम करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार उत्पादकों एवं वितरकों की घबधारित अधिकतम कीमत (Rolled-back maximum price) और वर्तमान कीमत के बराबर साहाय्य दे देती है।
 Rolled over short term credit नवीकरण योग्य अल्पकालीन ऋण
 Rolling capital चक्रीय पूँजी
 Rolling stock चक्रीय स्टॉक, चक्रीय यान, चक्रीय इकाय—रेल के डिब्बे, गाड़ियाँ व इंजन, रेल परिवहन की भौतिक सम्पत्ति जो पहियों द्वारा रेल-मार्ग पर चलती है।
 Roots of specialisation विविधीकरण के मूल कारण
 Rotating shifts बदलती पारियाँ, परिवर्ती पारियाँ
 Rotation of crops फसलों का फेर-बदल, सत्यावर्तन
 Rough index अग्रूरा सूचक, लगभग सूचक
 Round about methods of production उत्पादन की पूँजीतन्त्रीय पद्धति/ढंग, उत्पादन का चक्करदार ढंग, उत्पादन का परोक्ष ढंग—उत्पादन का अधिक पूँजीतन्त्रीय ढंग जिसमें अधिक क्रियाएँ एवं उपक्रियाएँ हों, अधिक धम-विभाजन हो। यह तभी सम्भव हो सकता है जब बाजार का आकार बड़ा हो, उत्पादन के लिए विविधीकृत मशीनरी का प्रयोग किया जा सके। अतः उत्पादन की इस पद्धति में उत्पादन के कम प्रत्यक्ष एवं अधिक कुशल उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। प्रादिकालीन उत्पादन-प्रणाली में धम-विभाजन कम होने के कारण उत्पादन अधिक प्रत्यक्ष था अर्थात् उपभोग वस्तु उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों की सख्या अधिक थी। प्राधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन अधिक-अधिक पूँजीतन्त्रीय या चक्करदार बन गया है। उदाहरणार्थ, मयुक्त

- राज्य समरीक्षा की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग में कार्य करने वाली केवल 10 प्रतिशत श्रमशक्ति उपभोग-वस्तुओं का उत्पादन करती है और शेष पूंजी वस्तुओं का ।
- Roundsum remittance** पूर्ण रूपों में प्रेषण
- Roving officers** अग्रणीयता अधिकारी
- Royalty** स्वामित्व मुक्त, रायल्टी
- Rules of gold standard** स्वर्णमान के नियम
- Ruling class** शासक वर्ग
- Runaway inflation** चोर स्फीति, प्रति स्फीति, वेतनात्मक मुद्रास्फीति—Hyper inflation के लिए विकल्प शब्द ।
- Runaway shops** पलायक दुकान/फर्म — कोई फर्म जो अपना कार्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है । इसका मुख्य उद्देश्य अपने श्रमिकों के संघर्षात्मक से बचना या श्रम-कानून के लागू होने से बचना होता है ।
- Running costs** प्रचालन लागत, प्रचालन उत्पादन व्यय
- Running expenses** प्रचालन व्यय
- Running inflation** दौड़ती स्फीति, तीव्र स्फीति
- Running option** चल विकल्प
- Running profit** निरन्तर लाभ
- Run on a bank** बैंक पर दूढ़ पड़ना — बैंक पर ले दिवसास उठने पर जनशक्तियों का अपनी जमा-राशि निकालने के लिए दूढ़ पटना ।
- Rupee account** रुपया-लेखा
- Rupee balances** रुपया अधिकार
- Rupee coin** रुपये के सिक्के
- Rupee credit** रुपया ऋण, रुपया-उधार
- Rupee debt** रुपया-ऋण
- Rupee loan** रुपया-ऋण
- Rural banking** ग्राम बैंक-व्यवस्था
- Rural Banking Enquiry Committee** ग्रामीण बैंकिंग नीति समिति
- Rural co-operative society** ग्राम सहकारी समिति
- Rural credit** ग्राम उधार, ग्राम-ऋण
- Rural credit, integrated scheme of** ग्राम-ऋण की एकीकृत योजना
- Rural credit, sources of** ग्राम-ऋण के स्रोत
- Rural credit policies** ग्रामीण ऋण नीतियाँ
- Rural credit society** ग्रामीण उधार समिति
- Rural credit survey** ग्राम उधार सर्वेक्षण, ग्राम ऋण सर्वेक्षण
- Rural debt** ग्राम-ऋण
- Rural development** ग्राम-विकास
- Rural economics** ग्राम/ग्राम-अर्थशास्त्र
- Rural economy** ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- Rural electrification** ग्राम बिजलीकरण, ग्राम बिजलीकरण
- Rural exodus** ग्राम-अहिर्गमन
- Rural finance** ग्राम-वित्त
- Rural growth of population** ग्रामीण जनसंख्या सृष्टि
- Rural growth rate** ग्रामीण सृष्टि-दर
- Rural indebtedness** ग्रामीण ऋणभ्रमस्तदा
- Rural industries** ग्राम उद्योग
- Ruralisation** देहातीकरण, ग्रामकरण
- Rural man-power programme** ग्रामीण जन-शक्ति प्रोग्राम/कार्यक्रम
- Rural planning** ग्राम-सामाजिक
- Rural population** ग्रामीण जनसंख्या
- Rural reconstruction** ग्राम पुनर्निर्माण
- Rural survey** ग्राम सर्वेक्षण
- Rural unemployment** ग्रामीण बेरोजगारी
- Rural uplift** ग्राम-सुधार
- Rural welfare** ग्राम-कल्याण
- Rural works programme** ग्राम निर्माण-कार्यक्रम
- Rush for imports** आयातों के लिए दूढ़ पड़ना
- Ruthlessness and regimentation** निर्दयता एवं कठोर व्यवस्था (जनता पर)—सोवियत रूस की साम्राज्यिक अर्थव्यवस्था का मौलिक लक्षण माना जाता है ।

S

Sabotage तोड़-फोड़ अन्तर्घमन, युक्त तोड़फोड़—मिल-मालिकों से झगडा हो जाने पर जानबूझ कर मजदूरों द्वारा करलाने आदि की कृति । इसके लिए कई प्रकार के व्यवहार प्रयोग में लाए जाते हैं—जैसे उत्पादन की गति धीमी करना, या

उत्पादन को अलाभदायक बना देना, व्यर्थ समय नष्ट करना या कई बार मशीनरी को तोड़ देना या मशीन में कुछ ऐसा हेर-फेर करना कि कुछ समय के लिए वह प्रयोगहीन बन जाए या उसकी कुशलता कम हो जाए ।

- Sacrifice of leisure अवकाश का त्याग
 Sacrifice price घाटे की कीमत
 Sacrifice tax theory कराधान का त्याग सिद्धान्त
 Safe cash deposit ratio सुरक्षित रोक जमा अनुपात
 Safe cash ratio सुरक्षित रोक अनुपात
 Safe deposit सुरक्षित निक्षेप/जमा
 Safe investment सुरक्षित विनियोग
 Safety appliance सुरक्षा सामान, सुरक्षा उपकरण
 Safety campaign सुरक्षा अभियान
 Safety education सुरक्षा-शिक्षा
 Safety fund system सुरक्षा निधि प्रणाली
 Safety vaults सुरक्षित तिजोरियाँ
 Saint Simonians सेंट साइमनवादी
 Salaried class वैतनिक वर्ग
 Salaried office वैतनिक पद
 Salary earner वेतन उपार्जक
 Salary earning middle class वेतन उपार्जक मध्यम वर्ग
 Salary saving scheme वेतन-बचत-योजना
 Sale, auction नीलामी बिक्री
 Sale, blind अन्धा सोदा
 Sale, cash नकद बिक्री
 Sale, credit उधार बिक्री
 Sale, forced जवरी बिक्रय, बाध्य बिक्री
 Sale, negotiated बातचीत द्वारा बिक्रय
 Sale, private निजी बिक्री
 Sale, prompt तुरन्त बिक्री
 Sale, public सार्वजनिक बिक्रय
 Sale, short मन्द बिक्री
 Sale price बिक्रय-कीमत
 Sale proceeds बिक्रय प्राप्ति
 Sales Account बिक्री खाता, बिक्रय लेखा

- Sales agent बिक्रय अभिकर्ता, बिक्री एजेंट
 Sales by sample नमूने से बिक्री
 Sales curve बिक्री-वक्र
 Sales finance company बिक्रय वित्त कम्पनी
 Sales-force-composite method बिक्रय-जमान संप्रचित प्रणाली—इसका अभिप्राय बिक्रय सम्बन्धी पूर्वानुमान की उस प्रणाली से है जिसका आधार बिक्रय-संभावना के सम्बन्ध में बिक्रय-प्रतिनिधियों के अनुमान होते हैं । इस प्रणाली में प्रत्येक बिक्रय-प्रतिनिधि अपने क्षेत्र सम्बन्धी भावी बिक्रय के अनुमान कम्पनी को भेजता है । कम्पनी के उच्चाधिकारी इन अनुमानों का निरीक्षण इस दृष्टि से करते हैं कि वे वास्तविक हैं । इस प्रणाली का मुख्य गुण यह है कि इसमें उन व्यक्तियों की जानकारी का प्रयोग किया जाता है जो बाजार के सबसे निकट है । इन संप्रचित अनुमानों के कारण बिक्रय-प्रतिनिधियों के आत्मविश्वास को बल मिलता है और वे अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं । इस प्रणाली का दोष यह है कि बिक्रय-प्रतिनिधि सभ्रवतः कमजोर अनुमाता हो सकते हैं और कम्पनी से नीचा कोटा निश्चित करवाने के लिए अल्पानुमान भी कर सकते हैं ।
 Sales line बिक्रय-रेखा
 Sales man बिक्रयकार, बिक्रय-सहायक
 Sales management बिक्रय प्रबन्ध
 Sales manager बिक्रय प्रबन्धक
 Salesmanship बिक्रय कला
 Sales potential बिक्रय सभाव्यता, बिक्रय क्षमता
 Sales promotion बिक्रय-प्रोत्साहित
 Sales promotional activities बिक्री अभिवृद्धि सम्बन्धी क्रियाएँ
 Sales promotion campaign बिक्री प्रोत्साहित अभियान
 Sales quota बिक्रय कोटा/नियमाय
 Sales resistance बिक्री प्रतिरोध
 Sales schedule बिक्रय अनुसूची
 Sales tax बिक्री कर, बिक्रय-कर
 Sales tax, general सामान्य बिक्री कर

Sales tax, selective विवेचनात्मक विक्री कर
 Sales tax as an instrument of anti-inflationary fiscal policy विक्री कर—गुदा-स्कीति विरोधी राशकोपीय नीति के उपकरण के रूप में

Sales transaction विक्रय-व्यवहार, विक्रय सौदे
 Sales warrant विक्रय दायित्व
 Sales woman विक्रीत्री, विक्रीकारिका
 Sale to the highest bidder सबसे ऊँची बोली बोलने वाले को बेचना
 Sale value विक्रय मूल्य
 Salt duty नमक/सदरा शुल्क
 Salvaging process छीजन सन्तुष्योग प्रक्रिया
 Sample, random समसांख्यिक नमूना
 Sample, stratified स्तरबद्ध नमूना
 Sample, systematic नियमित नमूना, व्यवस्थित नमूना, वर्गबद्ध नमूना
 Sample area क्षेत्रीय नमूना, नमूना क्षेत्र
 Sample census प्रतिदर्श जनगणना, नमूने के तीर पर जनगणना

Sample checking नमूना निरीक्षण
 Sample survey नमूना सर्वेक्षण
Sampling नमूना चयन—कुल जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए कुल जनसंख्या के एक भाग के चयन की क्रिया। नमूना चयन किया जा उद्देश्य क्रम-क्रम समय, प्रयास और पैसा खर्च कर आवश्यक सूचना प्राप्त करना है। कई बार तो नमूना-चयन प्रणाली बहुत ही विश्वसनीय परिणाम उपलब्ध कराती है क्योंकि इसके आधीन समस्या का अध्ययन एक सीमित क्षेत्र में गहन रूप से किया जाता है। इसमें अनुभवी कर्मचारियों का प्रयोग किया जाता है। नमूना-चयन दो प्रकार से किया जाता है : (i) सम्भावना अनुसार नमूना-चयन (Probability sampling) में प्रत्येक इकाई का चयन उसके चुने जाने की ज्ञात संभावना के आधार पर किया जाता है और (ii) सम्भावना-बिना नमूना चयन (Non-probability sampling) में इकाइयों का शुद्ध सुविधा या व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर

किया जाता है। नमूना-चयन क्रिया में भय यह होता है कि कई बार नमूना समग्र जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता परन्तु संभावना नमूना-चयन प्रणाली से प्राप्त सूचना में इतना त्रुटि की स्थिति में किया जा सकता है।

Sampling, biased एकांगी/प्रतिनत नमूना-चयन
 Sampling, convenience सुविधानुसार नमूना-चयन
 Sampling, judgement स्वनिर्णय नमूना-चयन
 Sampling, objective वस्तुनिष्ठ नमूना-चयन
 Sampling, probability सम्भावनानुसार नमूना-चयन
Sampling, quota कोटा नमूना-चयन—कोटा नमूना चयन में प्रत्येक वर्ग में निश्चित संख्या में इकाइयाँ चुनी जाती हैं। प्रत्येक वर्ग से लिया गया कोटा सामान्यतया उस वर्ग की संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निश्चित किया जाता है। कई सर्वेक्षणों में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों में पुरुष एवं स्त्रियों के आधार पर कोटा निर्धारित किया जाता है।
Sampling, Simple random सरल यादृच्छिक नमूना-चयन—नमूना-चयन की इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति या नमूना-इकाई को स्वतन्त्र रूप में चुना जाता है और प्रत्येक इकाई के चयन की संभावना बराबर होती है। कुल जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति या इकाई की एक विशेष संख्या से चयन किया जाता है और नमूना-इकाइयाँ किसी डोल या हूट में लाटरी प्रणाली के आधार पर चुनी जाती हैं। सामान्यतया, सरल यादृच्छिक नमूना-चयन एक साधारण क्रिया नहीं है और यह क्रिया और भी कठिन बन जाती है जब कि कुल जनसंख्या बड़ी हो और प्रत्येक इकाई विशेष संख्या से चयन न की गयी हो।

Sampling, stratified स्तरबद्ध नमूना-चयन—नमूना-चयन की इस प्रणाली में उस जनसंख्या को पहले विभिन्न श्रेणियों या स्तरों में विभक्त किया जाता है और फिर प्रत्येक स्तर या श्रेणी से नमूना इकाइयाँ चुनी जाती हैं। स्तर में भाजन इस प्रकार से किया जाता है कि प्रत्येक स्तर में

सभी इकाइयाँ जहाँ तक संभव हो सके, एक जैसी होती हैं। नमूने में प्रत्येक स्तर की प्रतिनिधित्व दिया जाता है और नमूना-इकाइयाँ यादृच्छिक प्रणाली द्वारा चुनी जाती हैं।

Sampling, systematic नियमित/वर्षा/दृश्य-स्थित नमूना-चयन — नमूना-चयन की इस प्रणाली में एक अन्तराल ढाँचे के अनुसार जनसंख्या में से नमूने का चुनाव किया जाता है। नमूना-इकाई पहले अन्तराल से चुनी जाती है और फिर प्रत्येक सातवें, आठवें या किसी m -वें अन्तराल में से नमूना चुना जाता है। यहाँ m का अर्थ प्रत्येक अन्तराल की लम्बाई से है जो दस, बारह या कोई और निश्चित संख्या हो सकती है।

Sampling, unrestricted random अप्रतिबंधित यादृच्छिक नमूना-चयन

Sampling method प्रतिचयन विधि

Sanctity of contract सविदा की पवित्रता

Satiable तृप्त

Satiable wants तृप्त आवश्यकताएँ

Satiability तृप्तता

Satiability of particular wants विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्तता

Satiation of wants आवश्यकताओं की तृप्ति

Satiety price तृप्ति कीमत

Satisfaction तुष्टि, तृप्ति

Satisfaction, maximisation of तुष्टि का अधिकतमकरण

Satisfaction, maximum अधिकतम तुष्टि

Satisfaction, negative ऋणार्थक तुष्टि

Satisfaction, positive धनात्मक तुष्टि

Satisfaction, subjective व्यक्तिपरक तुष्टि

Satisfaction chart तुष्टि आरेख/चार्ट

Satisfaction curve संतुष्टि वक्र

Saturation point तृप्ति बिन्दु

Saver बचतकर्ता

Saver's surplus बचतकर्ता-अतिरिक्त, बचतकर्ता की वैशी, बचतकर्ता अघियोप

Saving बचत, संचय

Saving, automatic स्वतः बचत

Saving, collective सामूहिक बचत

Saving, compulsory अनिवार्य बचत

Saving, community सामुदायिक बचत

Saving, corporate निगम बचत

Saving, disposable प्रयोक्त्य/निर्वर्त्य बचत

Saving, domestic आन्तरिक बचत

Saving, ex-ante घटनापूर्व बचत

Saving, ex-post घटनाोत्तर बचत

Saving, external बाह्य बचत

Saving, forced बाध्य बचत, बलात् बचत

Saving, full capacity पूर्ण सामर्थ्य बचत

Saving, internal आन्तरिक बचत

Saving, level of बचत-स्तर

Saving, mature परिपक्व बचत

Saving, mobilisation of बचत गतिमान करना

Savings, national राष्ट्रीय बचत

Saving, over अधिक बचत

Saving, past भूतपूर्व बचत

Saving permanent स्थायी बचत

Saving, productive उत्पादक बचत

Saving, propensity for बचत-प्रवृत्ति

Saving, small अल्प/छोटी बचत

Saving, unproductive अनुत्पादक बचत

Saving, voluntary स्वैच्छिक बचत

Saving account बचत लेखा

Saving and investment theory संचय-वित्त-योग सिद्धान्त

Saving bank बचत बैंक

Saving bank account बचत-बैंक खाता

Saving bank deposits बचत बैंक जमा

Saving bond बचत बन्ध-पत्र, बचत बांड

Saving capacity बचत-सामर्थ्य

Saving deposit बचत-जमा

Saving in cash नकद-संचय, नकद-बचत

Saving gap बचत-अन्तराल

Saving in goods वस्तु रूपी बचत

Saving income ratio बचन-आय अनुपात

Saving institution बचत संस्थापन

Saving in money मुद्रा रूपी बचत

Saving potential बचत-सामर्थ्य

Saving ratio बचत अनुपात—वर्तमान बचत और वर्तमान निर्वर्त्य ध्राय के प्रतिशत को बचत-अनुपात कहते हैं। वनत-अनुपात में परिवर्तन और इसकी प्रवृत्ति ध्राय तथा ध्यय की दीर्घवाचीन प्रवृत्ति के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण कारणात्मक है। विभिन्न ध्राय-वर्गों या विभिन्न व्यवसाय-वर्गों में बचत ढाँचे सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं के बजटों की सहायता ली जाती है। उदाहरणार्थ, सामान्यतया यह पता चलता है कि निम्न ध्राय वर्गों का बचत अनुपात नगरात्मक है परन्तु ध्राय में वृद्धि के साथ यह लगातार बढ़ना जाता है। बचत अनुपात का प्रयोग विकसित तथा अल्प-विकसित देशों में आर्थिक विकास के घन्तर का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। अल्प-विकसित देशों का बचत अनुपात सामान्यतया बहुत ही कम होता है और इस कारण इनमें विनियोग स्तर नीचा रहता है जो इनके पिछड़ेपन का प्रधान कारण है।

Saving ratio, incremental बचत-वृद्धि अनुपात

Saving ratio in underdeveloped countries

अल्प-विकसित देशों में बचत अनुपात

Saving schedule बचत-अनुपूर्वी

Saving sector बचत-क्षेत्र

Saving stamps बचत टिकट

Say's law of market 'से' का बाजार नियम—

से के बाजार नियम के अनुसार, सम्भरण अपनी माँग स्वयं उत्पन्न करता है अर्थात् उत्पादन की क्रिया में उत्पन्न की गई वस्तुओं की माँग के लिए आवश्यक ध्राय भी पैदा हो जाती है। इस विचार-पारा के अनुसार न ही तो सामान्य मत्पुत्पादन सम्भव है और न ही बाजार में माँग का अभाव हो सकता है। अतः पर्यव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर कार्य करती है अर्थात् पूर्ण रोजगार समाज की सामान्य स्थिति है और राष्ट्रीय ध्राय पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप होगी। यदि से के नियम को प्रतिष्ठित धर्मशास्त्र की धन्य मान्यताओं अर्थात् मजदूरी एवं कीमत की लोचनीयता

के साथ विचारा जाए, तो से का नियम पर्यव्यवस्था का एक ऐसा मॉडल पेश करता है जिसमें एक गहरी मन्दी या बेरोजगारी की कोई सम्भावना नहीं। माल्यस पहला धर्मशास्त्री था जिसने से के नियम की बालोचना की परन्तु केन्ज ने से के सिद्धान्त को मूलतः बताया। केन्ज के अनुसार से के सिद्धान्त का मूल दोष यह था कि बचत अपने ध्राय विनियोग का रूप धारण नहीं करती और न ही कोई ऐसा तरीका है जिसके अनुसार बचत विनियोग के बराबर हो जाए। अतः बचत और विनियोग में अन्तर हो जाना अनिवार्य है और इस कारण धर्मव्यवस्था में मन्दी या तेजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार केन्ज ने यह सिद्ध किया कि धर्मव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर सामान्यतया कार्य नहीं करती।

Scale, diseconomies of मात्रा-सम्बन्धी मितव्यय-साएँ

Scale, economies of मात्रा-सम्बन्धी मितव्यय-साएँ

Scaled-up expenditure वृद्धित व्यय

Scale line पैमाना रेखा

Scale line appropriate to the relative factor price साधनों के सापेक्ष मूल्यों के अनुरूप होने वाली पैमाने की रेखा

Scale of fares किराया-मान, किराये की श्रेणी

Scale of pay वेतन-मान, वेतन-श्रेणी

Scale of plant संयंत्र का पैमाना

Scale of plant, fixed संयंत्र के स्थिर पैमाने

Scale of plant, optimum संयंत्र का अनुकूलतम पैमाना

Scale of plant adjustment संयंत्र के पैमाने का समायोजन

Scale of operations संकार्य के पैमाने

Scale of preferences अधिमान्यताओं का माप-

संकेत—धर्मशास्त्र के सिद्धान्तों की एक मूल कल्पना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकपूर्ण रूप से कार्य करता है। ऐसी परिस्थिति में यदि किसी व्यक्ति को दो वस्तुओं या दो सम्बन्धनों में से चयन करना हो, तो स्वाभाविक ही है कि वह उस वस्तु

या सम्मिश्रण को चुनेगा जो उसे अधिकतम तुष्टि दे। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में अपनी असंतुष्ट आवश्यकताओं की अधिमान्यता के आधार पर एक सूची होती है। यह विश्वास किया जाता है कि इस सूची में सबसे ऊपर की वस्तु उपभोक्ता को अपेक्षाकृत अधिक तुष्टि देगी और जैसे-जैसे सूची में नीचे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तुष्टि की मात्रा घटती चली जाएगी। वास्तविक जीवन में बहुत थोड़े लोग ही ऐसे हैं जो अपनी अधिमान्यताओं के मापदण्ड के बारे में चेतन होते हैं, चाहे सभी यह महसूस करते हैं कि कुछ आवश्यकताएँ अन्य की अपेक्षा अधिक तीव्र होती हैं। एक विवेकपूर्ण आर्थिक सिद्धान्त के लिए प्रत्येक व्यक्ति की अधिमान्यताओं के मापदण्ड की कल्पना करनी आवश्यक है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है उपभोक्ताओं की अधिमान्यताएँ तब भी विवेकपूर्ण मानी जा सकती हैं यदि वे वर्तमान नैतिक विचारों पर पूरी न उतरें। अतः अधिमान्यता का नैतिकता से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं।

Scale of regression समाधायण-मान
 Scale of reward पारितोषिक धेणी/मान
 Scale of valuation मूल्यांकन मान
 Scale of values मूल्य-मान
 Scarce दुर्लभ
 Scarce currency दुर्लभ मुद्रा
 Scarce factor दुर्लभ साधन
 Scarce goods दुर्लभ पदार्थ
 Scarce means दुर्लभ साधन
 Scarcity दुर्लभता
 Scarcity, law of दुर्लभता नियम
 Scarcity earning दुर्लभता कमाई
 Scarcity of means साधनों की दुर्लभता
 Scarcity price परिमितता/दुर्लभता कीमत
 Scarcity relationship दुर्लभता संबंध
 Scarcity rent दुर्लभता लगान
 Scarcity reward दुर्लभता पारितोषिक
 Scarcity theory of rent लगान का दुर्लभता सिद्धांत

Scarcity value दुर्लभता-मूल्य
 Scarcity wages दुर्लभता मजदूरी
 Scatteredness of holding जोतो का बिखरा होना
 Scattered producers बिखरे/बिखीरे उत्पादक
 Scattered production विकीर्ण उत्पादन, अनेक-स्थित उत्पादन
 Schedule of demand माँग अनुसूची
 Scheduled bank अनुसूचित बैंक
 Schedule of consumer's preferences उपभोक्ता अधिमान की सूची
 Scheduled industry अनुसूचित उद्योग
 Scheme of deferment आस्थगन-योजना
 Scheme of devolution अधिकारान्तरण की योजना
 Scheme of integrated rural credit एकीकृत ग्राम-श्रृण योजना
 Scheme of most favoured nation clause सर्वानुगृहीत राष्ट्र व्यवहार योजना
 Scheme of priority प्राथमिकता क्रम
 Scheme of revolving foreign exchange credit परिक्रामी विदेशी मुद्रा साख योजना
 Scholasticism चर्च प्रधानतावाद—इस शब्द का प्रयोग मध्ययुग के दौरान प्रचलित धार्मिक और दार्शनिक सिद्धान्तों से है जिनका मूलधार चर्च एवं अरस्तू की शिक्षाएँ थी। अर्थशास्त्र में इनके मुख्य समर्पक सेंट थॉमस एक्वीनास (Saint Thomas Aquinas) एवं डन्स स्कोटस (Duns Scotus) थे। इन विचारकों ने चर्च के सिद्धान्तों का विवेकपूर्ण प्रयोग किया ताकि व्यापार एवं मूदखोरी के प्रतिद्वंद्वियों को मध्ययुग के परिवर्तनों से सम्बन्धित निया जा सके। इसके फल-स्वरूप व्यापार एवं वाणिज्य व्यवहार में न्याय कीमत (Just price) की धारणा का विकास हुआ। चूंकि चर्च ने माँग एवं पूर्ति के नियमों की कार्यान्विति को स्वीकार कर लिया, इसलिए 17वीं सताब्दी के पश्चात् चर्च प्रधानतावाद का पतन हो गया।
 Schools of economics अर्थशास्त्र सम्प्रदाय
 School, Austrian प्रास्ट्रियाई सम्प्रदाय

School, banking बैंकवाद, बैंकवाद सम्प्रदाय
 School, Cambridge कैम्ब्रिज सम्प्रदाय
 School, classical क्लासिकल/संस्थापक सम्प्रदाय
 School, currency करेंसीवादी सम्प्रदाय
 School, historical ऐतिहासिक सम्प्रदाय
 School, Manchester मन्चेस्टर सम्प्रदाय
 School, mathematical गणितीय सम्प्रदाय
 School, marginal utility सीमान्त उपयोगितावादी सम्प्रदाय

School, mercantile बाणिज्यवादी सम्प्रदाय

School, monetary मौद्रिक सम्प्रदाय

School, optimist आशावादी सम्प्रदाय

School, orthodox रूढ़िवादी सम्प्रदाय

School, physioeratic प्रकृतिवादी सम्प्रदाय

School, psychological मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय

School-leaving age विद्यालय छोड़ने की आयु

Schumpeterian Entrepreneur सुम्पीटोरि-

यन उद्यमकर्ता— प्रोफेसर सुम्पीटर द्वारा कल्पित उद्यमकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो नवकृतियों (Innovations) को व्यापार में चालू करता है। इस दृष्टि से वह एक नेता है। परन्तु नैतृत्व शब्द इस सम्बन्ध में उद्यमकर्ता के व्यक्तित्व पर बल नहीं देता और इस प्रकार नेता शब्द से जो मानसिक चित्र एक राजनीतिक नेता का सामने आ जाता है, वह उद्यमकर्ता का नहीं है। वह केवल इस दृष्टि में नेता है कि वह उत्पादन के साधनों का विभिन्न दिशाओं में नैतृत्व करता है। वह इस दृष्टि से भी नेता है कि वह आरम्भिक कठिनाइयों सहन करता है जो किसी नवक्रिया के प्रचालन से सम्बन्धित होती हैं। वह एक और दृष्टि से भी नेता है। नवक्रिया के सफल होते ही अन्य व्यक्ति उसे अपनाने का प्रयास करने हैं और पूर्णिक नकल करना आसान होता है, ये उद्यमकर्ता के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिकूल को धीरे-धीरे समाप्त कर देते हैं क्योंकि नवक्रिया सामाजिक तंत्र का अंग बन जाती है। इसीलिए सुम्पीटर का कहना है कि यह नैतृत्व उसी दृष्टि के विरुद्ध है। पूर्णिक सुम्पीटर उद्यमकर्ता की एक नेता मानता है, इसलिए यह पूर्णिकवादी समाज में समग्र आर्थिक विकास के लिए उसे उत्तरदायी मानता है।

सुम्पीटर उद्यमकर्ताओं को एक सामाजिक वर्ग नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति जो उत्पादन के साधनों के एक नये सम्मिश्रण से सम्बन्धित सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों को पार कर जाता है, उद्यमकर्ता बन जाता है। अतः उद्यमकर्ता को परिवर्तन-प्रक्रिया का याहक माना गया है।

Science, fruit-bearing फलपरक शास्त्र/विज्ञान

Science, light-bearing ज्ञानपरक शास्त्र/विज्ञान

Scientific investment वैज्ञानिक निवेश

Scientific Management वैज्ञानिक प्रबन्ध—

समुक्त राज्य अमेरिका में फ० ड० टेलर द्वारा उत्पादन-क्रियाओं के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए 20वीं शताब्दी के आरम्भ में सिड्मन्तो की एक शृंखला प्रतिपादित की गयी। इसमें निम्नलिखित मुख्य सिद्धान्तों का आधार माना गया—

(i) कर्मचारियों द्वारा की गयी विभिन्न क्रियाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन होना चाहिए,

(ii) जिस काम के लिए श्रमिक योग्यता रखता हो, उसी काम पर नियुक्त होना चाहिए; और

(iii) प्रबन्ध और कर्मचारियों में सहयोग होना चाहिए।

Scientific marketing वैज्ञानिक विपणन

Scientific tariff argument वैज्ञानिक प्रशुल्क तर्क

Scissor's crisis "कैंचीनुमा संकट"

Scope of economics प्रबंधशास्त्र वा विषय-क्षेत्र

Scrap पावती-पत्र, कचरो-रसीद—यैक आदि में दिए

गए रपयों का प्रमाणपत्र या कचरो-रसीद। सामान्य रूपसे पावती पत्र का अर्थ उत प्रवेक्ष से है जिसके बाहक को कुछ प्राप्त होना हो। बहुत बार इस शब्द का प्रयोग बाहक प्रतिभूतियों के लिए भी किया जाता है।

Script सरकारी बॉट

Script money पत्र-मुद्रा

Scrutineer सर्वेक्षक

Sea-borne trade समुद्री व्यापार

Sea customs समुद्री सीमा शुल्क

Sea Customs Act समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम

Sea route जलमार्ग, समुद्री मार्ग

Seal मुहर

Seasons, Busy व्यस्त ऋतु/समय—मुद्रा संचलन में ऋतुकालीन उतार-चढ़ाव—भारत में अक्टूबर-अप्रैल की अवधि में मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है ।	Second Schedule of the Reserve Bank of India Act रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम की द्वितीय सूची
Seasons, Slack कम काम-काज वाला मौसम, मंदी ऋतु, मंदी काल, शिथिल काल—मई-सितम्बर की अवधि, आयोजित विकास के कारण अब मुद्रा में ऋतुकालीन उतार-चढ़ाव कुछ हद तक स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता ।	Second tier concerns दूसरा पक्ति की फर्म Secondary bank reserves अनुपयोगी बैंक धारित निधि
Seasonal adjustment मौसमी समायोजन	Secondary boycott अनुपयोगी बहिष्कार
Seasonal agricultural operations मौसमी कृषि-सकार्य	Secondary capital गौण पूँजी
Seasonal employee मौसमी कर्मचारी	Secondary data द्वितीयक सामग्री, द्वितीयक आँकड़े
Seasonal employment मौसमी रोजगार	Secondary deflation गौण अल्पस्फीति
Seasonal factors मौसमी कारक/कारणतत्त्व	Secondary employment गौण रोजगार
Seasonal factory मौसमी फॅक्ट्री	Secondary exploitation मध्यम शोषण
Seasonal fluctuations मौसमी उच्चावचन	Secondary functions गौण कार्य
Seasonal industry मौसमी उद्योग	Secondary industries द्वितीयक उद्योग
Seasonal loans मौसमी ऋण	Secondary multiplier effects गौण गुणक प्रभाव
Seasonal manufacturer मौसमी विनिर्माता	Secondary occupation द्वितीयक व्यवसाय
Seasonal movements मौसमी घट-बढ़/गतिविधि	Secondary picketing अनुपयोगी धरना, समर्थक धरना
Seasonal occupation मौसमी व्यवसाय	Secondary producers गौण उत्पादक
Seasonal peak मौसमी शिखर	Secondary reserve द्वितीयक रक्षित निधि
Seasonal production मौसमी उत्पादन	Secondary reserve requirements for member banks सदस्य बैंकों के लिए रक्षित निधि सम्बन्धी मामों
Seasonal stringency मौसमी तंगी	Secondary sector द्वितीयक क्षेत्र
Seasonal tolerance मौसमी सहिष्णुता	Sectional interest वर्गहित, अनुभागीय हित
Seasonal unemployment मौसमी बेरोजगारी	Sectional price levels वर्गीय कीमत स्तर, खड़ीय कीमत स्तर
Seasonal variation मौसमी/ऋतुकालीन उतार-चढ़ाव	Sectional tariff अनुभागीय प्रशुल्क
Seasonality मौसमीयता	Sector, capitalised पूँजीकृत क्षेत्र
Seasoned security परिपक्व प्रतिभूति	Sector, industrial औद्योगिक क्षेत्र
Second Agricultural Labour Enquiry द्वितीय कृषि-श्रम जांच	Sector, private निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र
Second Fiscal Commission द्वितीय उद्योग रक्षण आयोग, द्वितीय राजकोषीय आयोग	Sector, public लोक क्षेत्र, सार्वजनिक-क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र
Second five-year plan द्वितीय पंचवर्षीय योजना	Sector estimates क्षेत्रीय प्राक्कलन/अनुमान
Second injuries पुनः क्षति, दूसरी चोट	Sector(s) of saving expansion बचत-विस्तार क्षेत्र
Second of the bill (=Second of exchange) विपत्र-द्वितीयक	Sectoral development क्षेत्रीय विकास
	Sectoral distribution क्षेत्रवार वितरण, क्षेत्रानुसार वितरण
	Sectoral imbalance क्षेत्रीय असंतुलन

Sectoral price levels क्षेत्रीय कीमत-स्तर
 Sectoral priorities क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ
 Secular average सुदीर्घकालीन औसत
 Secular changes सुदीर्घकालीन परिवर्तन
 Secular equilibrium सुदीर्घकालीन संतुलन
 Secular exhilaration सुदीर्घकालीन सुख
 Secular growth दीर्घकालीन वृद्धि
 Secular inflation सुदीर्घकालीन स्फीति
 Secular instability सुदीर्घकालीन अस्थिरता
 Secular progress सुदीर्घकालीन प्रगति
 Secular stagnation सुदीर्घकालीन वृद्धिरोध/गति-रोध

Secular Stagnation Theory दीर्घकालीन वृद्धिरोध सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं प्रथम सयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने समस्त मांग की अपर्याप्तता न केवल एक वार्षिक समस्या है बल्कि इसका प्रारूपिक लक्षण भी है। 1930 और इसके बाद के दशक में दीर्घकालीन वृद्धिरोध सिद्धान्त ए० एच० हेन्सन और जे० एम० केन्थे के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका उद्देश्य मन्दी के दौरान भारी बेरोजगारी और निम्न विनियोग को व्याख्या करना था। इस सिद्धान्त में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिपक्व अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक कारणात्मक भी पूर्ण रोजगार के लिए समस्त मांग के अभाव को पैदा कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण तकनीकी परिवर्तन हैं जो पूँजी-वचक सम्बन्धी हैं। इस कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी नये विनियोग के अपर्याप्त अवसर ही विद्यमान हैं और इस कारणवश दीर्घकाल में काफी बेरोजगारी हो जायगी। 1930 के पश्चात् के आर्थिक घटना-चक्र ने यही प्रमाणित किया कि 1920-34 की मन्दी एक महान् वार्षिक प्रतिस्तर था और इसके पश्चात् अधिकतर परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धिकाल के तीन दशक अनुभव किये गए। 1960 और इसके बाद के वर्षों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की ओर दूबारा करते हुए दीर्घकालीन वृद्धिरोध सिद्धान्त को पुनर्जीवित कर दिया। वास्तव में अब भी उन्नत

देशों में प्रतिस्तर की परिस्थितियाँ बल पकड़ती हैं, वृद्धिरोधवादी अपने इस सिद्धान्त की सार्थकता की घोषण कर रहे हैं।

Secular swings दीर्घकालीन उतार-चढ़ाव
 Secular trend सुदीर्घकालिक प्रवृत्ति
 Secured debt प्रतिभूत ऋण
 Secured loans सुरक्षित उधार, प्रतिभूत उधार
 Security प्रतिभूति, जमानत
 Security, authorised अधिकृत प्रतिभूति
 Security, collateral पार्श्विक प्रतिभूति
 Security, denomination of प्रतिभूति का अंकित मूल्य
 Security, employee कर्मचारी सुरक्षा
 Security, employment of रोजगार की सुरक्षा
 Security, gilt-edged उत्तम/परम प्रतिभूति
 Security, government सरकारी प्रतिभूति
 Security, heritable दाययोग्य प्रतिभूति
 Security, impeccable निदोष प्रतिभूति
 Security, international अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूति
 Security, marketable पण्य जमानत, विपण्य प्रतिभूति
 Security, personal वैयक्तिक प्रतिभूति/जमानत
 Security, registered पंजीकृत प्रतिभूति
 Security, substantial ठोस प्रतिभूति
 Security, tangible गोचर ऋणाधार
 Security, trading व्यापार प्रतिभूति
 Security, unencumbered भाररहित प्रतिभूति/व्यवसुक्त प्रतिभूति
 Security capital सुरक्षित पूँजी, प्रतिभूति पूँजी
 Security deposit account जमानत जमा लेखा
 Security exchange प्रतिभूति बाजार
 Security held against fiduciary issue विश्वसनीय निर्गमन पुष्ट प्रतिभूतियाँ
 Security of land tenure rights भू-धारण अधिकारों की सुरक्षा
 Security of tenure पट्टे की सुरक्षा, कास्त अधिकार की सुरक्षा
 Sedentary occupation स्थावर व्यवसाय, आसनी काम

Seed multiplication centre बीज गुणन केन्द्र
Seigniorage टंकन लागत/प्रलाभ/अधिमुक्त,
 बिस्का-इलाई-मुनाफा—स्वर्ण को सिक्को में परिवर्तित करने के लाभ को टंकन-प्रलाभ या टंकन-अधिमुक्त कहते हैं। जब सरकार केवल सिक्को को बनाने की लागत-मात्र ही वसूल करती है, तो इसे बिस्का-इलाई (Brassage) कहा जाता है परन्तु जब इसमें सरकार अपना लाभ भी शामिल कर ले, अर्थात् बिस्का-इलाई से अधिक लागत वसूल करे, तो इसे टंकन-प्रलाभ या टंकन अधि-मुक्त कहते हैं।

Seizure of goods माल अविग्रहण
 Selection of base year आधार वर्ष का चुनाव
 Selection of items मदों (वस्तुओं एवं सेवाओं) का चुनाव
 Selection of prices कीमतों का चुनाव
Selective Credit Control चयनात्मक साक्ष-नियन्त्रण—विशिष्ट प्रकार के व्यापारिक सौदों पर नियन्त्रण करने के लिए चयनात्मक साक्ष नियन्त्रण का प्रयोग किया जाता है। यह सामान्य साक्ष नियन्त्रण से दो प्रकार से भिन्न है। प्रथम, चूंकि इसका सम्बन्ध विशिष्ट व्यापारिक सौदों के लिए किया जाता है, इसलिए इसका प्रभाव भी सामान्य न होकर विशिष्ट ही होगा दूसरे, चयनात्मक साक्ष नियन्त्रण से उधार के संभरण की अपेक्षा उसकी माँग कम हो जाती है। इस प्रकार के नियन्त्रणों का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में साक्ष नियन्त्रण करना है जिन पर सामान्य साक्ष नियन्त्रण के उपायों का प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा कई प्रकार के चयनात्मक साक्ष नियन्त्रण के उपाय लागू किए गए। 1970 में चयनात्मक साक्ष नियन्त्रण उपायों का प्रयोग खाद्यान्नों, तिलहन, रूई और वनस्पति तेल सम्बन्धी उधार के लिए किया गया। रिजर्व बैंक ने इन वस्तुओं के उधार के लिए उधार-प्रतिभूति-घनत्व (Margin) बढ़ा दिया और विभेदात्मक ऋण-दरें लागू कीं। इन उपायों का उद्देश्य उधार की माँग को कम करना है ताकि इनमें परिवर्तनीय प्रवृत्तियों के कारण कीमत-वृद्धि को रोका जा सके।

Selective and direct credit control विवेचनात्मक एवं प्रत्यक्ष साक्ष नियमन
 Selective export promotion विवेचनात्मक निर्यात प्रोत्साहन
 Selective sales tax विवेचनात्मक विक्री-कर
 Selective selling चयनात्मक विपणन
 Selective tariff चयनात्मक प्रशुल्क
 Self-adjusting economic system स्वतः समंजन-शील आर्थिक प्रणाली
 Self-cancelling स्वयं-नतिपूरक, स्वयं रद्द करना, स्वयं बट जाना
 Self checking system of taxation कराधान की स्वतः जाँच-प्रणाली
 Self-consumption स्वयं-उपभोग
 Self-contained आत्मनिर्भर
 Self-correcting स्वयं ठीक कर लेने वाला
 Self-cultivation खुदकास्त
 Self-defeating आत्मघाती
 Self-delusion आत्म-भ्रम
 Self-dependence स्वावलंबन
 Self-employed स्व-नियुक्त, स्वनिर्भोजित
Self-Employed Persons स्वयं-नियुक्त व्यक्ति—स्वतन्त्र रूप से काम करने वाले, खुद रोजगार कायम करने वाले।
 Self evident truth स्वयंसिद्ध सत्य
 Self-finance आन्तरिक वित्त
 Self-financing स्वयं वित्त-प्रबन्ध
 Self-generating economy स्वयं-संपूर्ण प्रयं-व्यवस्था
 Self-generating stage of economic development आर्थिक विकास की स्वतः संपूर्ण अवस्था
Self-generation Theory स्वतः उत्पत्ति का सिद्धान्त—Mitchell का व्यापार-चक्र का सिद्धान्त
 Self-governing colony स्वायत्त उपनिवेश
 Self-governing dominion स्वायत्त अधिराज्य
 Self-help स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता
 Self-interest निजी हित, आत्महित, स्वार्थ
 Self-limiting factors आत्म-सीमाकारी उत्पादन, स्वपरिसीमन कारक

- Self-limiting forces आत्म-सीमानारी शक्तियाँ
- Self-liquidating स्वयं समाप्तनीय, स्वयं शोधक—
निजी निर्माता या शोक विक्रेता द्वारा कच्चे माल के क्रय के लिए जारी किए गए विनिमय-पत्रों का यह मूल संधारण है कि विनिमय-पत्रों का आदेशक अपनी मुद्रा-रानि तब प्राप्त कर लेता है जब या तो उसकी भुगतान-तिथि उन्ही वस्तुओं के विक्रय के पश्चात् या उन कच्चे मालों से ही और वस्तुओं के पश्चात् आ जाए।
- Self-liquidating advances स्वयं समाप्तनीय प्रथिम
- Self-produced goods स्वयं उत्पादित वस्तुएँ
- Self-perpetuating स्वतः चिरस्थायीकरण, स्वतः शाश्वतीकरण
- Self-realisation of personality व्यक्तित्व की आत्मसिद्धि
- Self-regulating mechanism स्वतःनियामक प्रक्रिया
- Self-reinforcing process स्वयं प्रभावी प्रक्रिया
- Self-reliant economy आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था
- Self-restraint आत्म-संयम
- Self-rule स्वशासन
- Self-service स्वयंसेवा
- Self-starter स्व-प्रारम्भकर्ता
- Self-sufficiency आत्म-निर्भरता
- Self-sufficient स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर
- Self-sufficient nation आत्मनिर्भर राष्ट्र,
स्वावलम्बी राष्ट्र—इसका अर्थ एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण से है जो अपने उपयोग की सभी वस्तुएँ देश में ही उत्पन्न करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति का दूसरा नाम आर्थिक राष्ट्रवाद भी है। प्राथमिक आवश्यकताएँ इतनी विविध प्रकार की हैं कि कोई भी राष्ट्र परम रूप में स्वावलम्बी नहीं बन सकता। इसके प्रतिरिक्त स्वावलम्बिता का सिद्धान्त तुलनात्मक लाभों के सिद्धान्त के विपरीत है और इस प्रकार यह आर्थिक सहायता के अनुकूलतम प्रयोग पर आधारित नहीं।
- Self-sufficient village system आत्म-निर्भर ग्राम-व्यवस्था
- Self-supporting wages आत्मपोषित मजदूरी
- Self-sustaining economy आत्मनिर्भर अर्थ-व्यवस्था
- Self-sustaining growth स्वयं-रपूँ विकास, आत्मपोषित अभिवृद्धि
- Seller विक्रेता, बेचने वाला
- Seller's average revenue curve विक्रेता का औसत आयन वक्र
- Seller's lien विक्रेता का धारणाधिकार, विक्रेता का प्रहण/हक
- Seller's market विक्रेता बाजार
- Seller's surplus विक्रेता-शेरी, विक्रेता-प्रतिरेक
- Selling विक्रयण, विक्रय, बेचना
- Selling agent विक्रय प्रतिनिधि
- Selling cost विक्रय परिव्यय/लागत
- Selling on cost लागत पर बेचना
- Selling expenses विक्रय-व्यय
- Selling firms विक्रेता फर्म
- Selling group विक्रय वर्ग, विक्रय समूह
- Selling out (sell out) अग्ने-पौने बेचना, अप-विक्रय, हानिदेय विक्रयण
- Selling pressure विक्रय दबाव
- Selling price विक्रय कीमत
- Selling rate विक्रयार्थ, विक्रय-दर, विक्रय कीमत
- Selling value विक्रय-मूल्य
- Semi-automatic loom अर्द्ध-स्वचल कर्पा
- Semi-colonial अर्द्ध-प्रोपनिवेशिक
- Semi-critical points अर्द्ध-क्रांतिक बिन्दु
- Semi-durable goods अर्द्ध-टिकाऊ/अर्द्ध चिरस्थायी वस्तुएँ
- Semi-employment अर्द्ध-रोजगार
- Semi-fabricated steel अर्द्ध-तैयार इस्पात
- Semi-feudal अर्द्ध-सामन्ती
- Semi-feudal land relations अर्द्ध-सामन्ती भू-सम्बन्ध
- Semi-finished goods अर्द्ध-निर्मित वस्तुएँ
- Semi-industrialised अर्द्ध-प्रौद्योगीकृत
- Semi-inflation अर्द्ध-स्फीति
- Semi-liquid assets अर्द्ध-तरल परिसंपत्

Semi-luxuries **अर्द्ध-विलास वस्तुएं**
 Semi-manufactured goods **अर्द्ध-निमित्त वस्तुएं**
 Semi-monopoly **अर्द्ध-एकाधिकार**
 Semi-permanent instrument **अर्द्ध-स्थायी यंत्र**
 Semi public consumption **अर्द्ध-सार्वजनिक उपभोग**
 Semi-skilled **अर्द्ध-कुशल**
 Semi-skilled labour **अर्द्ध-कुशल श्रम**
 Senior master **वरिष्ठ मास्टर**
 Senior partner **वरिष्ठ भागीदार**
 Sensitive behavior **सुघाटी/संवेदनशील व्यवहार**
 Sensitive market **संवेदनशील बाजार**
 Separable process **पृथक्करणीय प्रक्रियाएं**
 Separate holding **पृथक् जोत**
 Separate legal existence **पृथक् कानूनी अस्तित्व**
 Separate sub-demands **अलग-अलग उप-मांगें**
 Separation **पृथक्करण**
 Separation allowance **वियुक्ति-भत्ता, सम्बन्ध-विच्छेद भत्ता**
 Separation of income and substitution effects of price change **कीमत-परिवर्तन के आय एवं स्थानापत्ति प्रभावों का पृथक्करण**
 Separation of ownership and control **प्रबन्ध एवं स्वामित्व का पृथक्करण—प्राधुनिक निगम में स्वामित्व तो वस्तुतः हिस्सेदारों के हाथ में होता है परन्तु हिस्सेदारों की संख्या अधिक होने के कारण वे निगम का प्रबन्ध संचालकों एवं प्रबन्धकर्ताओं को सौंप देते हैं। कई बार तो संचालक मण्डल के सदस्यों एवं प्रबन्धकर्ताओं वा कुल हिस्सों के 5 से 10 प्रतिशत तक स्वामित्व होता है। ऐसी परिस्थिति में स्वामित्व एवं नियंत्रण का पृथक्करण ही जाता है। प्राधुनिक महा-निगमों में यह अनुभव किया गया है कि प्रबन्धक अविचलित लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा अपनी स्थिति और आय को उन्नत करने में अधिक दिलचस्पी लेते हैं। यह सम्भवतः निगम के हित में नहीं। परिणामतः स्वामित्व और नियंत्रण में विच्छेद होने के कारण फर्म से सम्ब-**

न्धित विभिन्न वर्गों अलग-अलग दिशाओं में कार्य करने लगते हैं।

Separation rate (lay off rate) **वियुक्ति-दर, विच्छेद-दर—**किसी विधेय अवधि के दौरान पद-धुन, सेवानिवृत्त, छाँटी या छोड़े गए श्रमिकों की संख्या को कुल रोजगार की मात्रा के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त करने से विच्छेद-दर या वियुक्ति दर प्राप्त की जाती है। वियुक्ति-दर को समग्र व्यापार क्रिया का महत्वपूर्ण सूचक समझा जाता है। जब वियुक्ति-दर बढ़ने लगती है, तो व्यापार में प्रतिसार आरम्भ हो जाता है और जब वियुक्ति-दर कम हो जाती है, तो समुत्थान की ओर अर्थव्यवस्था अग्रसर हो जाती है।

Separatist tendencies **पृथक्तावादी प्रवृत्तियाँ**
Sequence of expansion **विस्तार का क्रम**
Serfdom **कृषिदास प्रथा, दासता**
Serial bond **क्रमिक बाँड**
Serial bond redemption **क्रमिक बाँड शोधन/श्रतिदान**

Series of equilibria **संतुलन माला**
Series of returns **प्रत्याय के अनुक्रम**
Series of static equilibria **स्थिर संतुलन माला**
Series of static models **विभिन्न स्थैतिक मॉडल**
Serious deflation **गम्भीर अपरफीति**
Servant **सेवक**
Service charge **सेवा व्यय**
Service co operatives **सेवा-सहकारी समितियाँ**
"Service flow" concept **सेवा-प्रवाह धारणा**
Service of documents **दस्तावेजों की तामील**
Service industries **सेवा उद्योग**
Service institute **सेवा संस्थान**
Service rent **सेवा किराया**
Service sector **सेवा क्षेत्र**
Service station **सेवा-केन्द्र**
Service taxes **सेवा कर**
Service trade **सेवा व्यवसाय**
Service utility **सेवामूलक उपयोगिता—ऐसी उपयोगिता जो किसी वैयक्तिक सेवा से प्राप्त की**

जाए। किसी वकील, डाक्टर, अध्यापक, संगीत-कार, नर्तकी आदि की सेवाएँ सेवा-उपयोगिता के कुछ एक उदाहरण हैं।

Services, direct प्रत्यक्ष सेवाएँ

Services, instrumental साधक सेवाएँ

Services, investment निवेश सेवाएँ

Services, multiplication of सेवाओं का गुणन, सेवाओं का बाहुल्य

Services, personnel कार्मिक सेवाएँ

Services, professional व्यावसायिक सेवाएँ

Services, union संपीय सेवाएँ

Servitude दासत्व

Setback in trade व्यापार में धक्का

Set of bills विनिमय-पत्र का सेट/कुलक

Set of values मूल्य-कुलक

Sets of data आँकड़ों के कुलक

Set-up of the Reserve Bank of India भारत के रिजर्व बैंक की व्यवस्था

Settled labour प्रावर्तित श्रम

Settled methods of agriculture कृषि के निश्चित तरीके

Settlement व्यवस्था, बन्दोबस्त, भू-व्यवस्था

Settlement, consent समत समझौता

Settlement, permanent स्थायी बन्दोबस्त

Settlement, temporary अस्थायी बन्दोबस्त

Settlement holder व्यवस्थाधारी

Settlement machinery समझौता तंत्र

Settlement of industrial disputes औद्योगिक विवादों का समाधान

Settlement records भू-व्यवस्था अभिलेख

Severable contract विच्छेदनीय सविदा

Severance Pay (=Redundancy Payment) सेवा-निवृत्ति वेतन—स्वचालकता या श्रम-धरात मशीनरी के प्रचालन या मॉग में परिवर्तन के फलस्वरूप, जो श्रमिक नौकरी से अलग कर दिए जाएँ, उनको दी जाने वाली क्षति-पूर्ति को सेवा-निवृत्ति वेतन कहा जाता है।

Sovereance tax पृथक्करण कर, विच्छेदन कर

Soverely under-employed अत्यधिक अल्परोजगार श्रम

Sex composition लिंगमूलक रचना

Sex ratio स्त्री-पुरुष अनुपात, लिंगमूलक अनुपात

Shaded area आच्छादित क्षेत्रफल

Shadow money धामासी मुद्रा

Shadow prices (=Accounting Prices) अनुमानित कीमतें, छाया कीमतें, लेखांकन कीमतें—इन कीमतों का मुकाब जे० टिन्बर्गेन (J. Tinbergen), एच० बी० चेनेरी (H. B. Chenery) और के०एस०क्रेचमर (K.S. Kretchmer) ने दिया। ये कीमतें उत्पादन के साधनों के वास्तविक मूल्य को दर्शाती हैं। इनसे अभिप्राय उन कल्पित कीमतों से है जिन पर मॉग को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त संभरण उपलब्ध होता है और जिनके अग्न्यारोपण से उत्पादन के साधनों का उचित प्रयोग सम्भव हो सकता है।

कीमत प्रक्रिया द्वारा संसाधनों का सही आवंटन नहीं होता क्योंकि यह संसाधनों की दुर्लभता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत नहीं करती। अनुमानित कीमतों की विधि इस समस्या का समाधान करती है। सन्तुष्ट राष्ट्र सभ के एक अध्यक्ष ने अनुसार, "अनुमानित कीमतें अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक सुविधाजनक अस्त्र है। पूँजी, श्रम या विदेशी मुद्रा जैसे मादानों (Inputs) की अनुमानित कीमतें उनकी 'अवसर लागत' या उनकी एक इकाई से कम पूर्ति होने पर अर्थव्यवस्था को होने वाली हानि का प्रतिनिधित्व करती है। जिस साधन की पूर्ति के अभाव की सम्भावना होगी, उसकी अनुमानित कीमत उसकी बाजार कीमत से अधिक होगी जबकि जिस साधन की बहुतायत होगी, उसकी अनुमानित कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा कम होगी।" अतः यदि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय आय को अधिकतम करना है, तो विनियोग के आयोजन में जिन कीमतों को सकेत स्वरूप माना जाएगा, वे बाजार कीमतें नहीं, बल्कि अनुमानित कीमतें होंगी।

अनुमानित कीमतों की गणना में कुछ कठिनाइयाँ हैं क्योंकि लोभ इन कीमतों को

सरलतापूर्वक समझ नहीं सकते। दूसरे, अनुमानित कीमतों के मूल्यांकन की कोई पूर्ण विधि नहीं है। बहुधा आँकड़ों के अभाव के कारण इन कीमतों का मूल्यांकन कठिन होता है। अनुमानित कीमतों पर आधाणित योजनाओं को स्वीकार करने के प्रति निजी उद्यमकर्ताओं एवं सरकारी अधिकारियों में पूर्ण अनिच्छा पायी जाती है। अतः इन कीमतों के कार्यान्वयन से वित्तीय प्रशासन से सम्बन्धित समस्याएँ उत्पन्न होंगी। इसके अतिरिक्त, विदोष परियोजनाओं से प्राप्त लाभों एवं लागतों के मूल्यांकन के लिए अनुमानित कीमतों का प्रयोग भवमाना होगा क्योंकि अनुमानित कीमतों में परिवर्तन के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है। इसी कारण प्रोफेसर गुन्नार मिडेल ने अनुमानित कीमतों की व्यावहारिकता पर विचार करते हुए लिखा : "अनुमानित कीमतों की अमूर्त एवं काल्पनिक धारणा दक्षिण-एशियाई आर्थिकों के समस्त सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक नहीं हो सकती।" इन कीमतों को लेखांकन कीमतें (Accounting Prices) भी कहते हैं।

Shadow seller's price छाया विक्रेता कीमत

Shamlat society शमलान समिति

Share हिस्सा, अंश, भाग

Share allotment हिस्सा वण्टन

Share broker हिस्से का दलाल

Share capital हिस्सा/अंश पूंजी

Share capital, deferred आस्यगित हिस्सा पूंजी

Share certificate हिस्सा-प्रमाण-पत्र

Share crop बटाई फसल

Share cropper फसल सहभाजक, बटाईदार

Share cropping बटाई, अन्न-बटाई

Share cultivation बटाई पर खेती

Share holder हिस्सेदार, अंशकारी

Share holding हिस्सा-धारण, अंशधारिता

Share in net profits शुद्ध लाभ में हिस्सा

Share market हिस्सा बाजार

Share money हिस्सा मुद्रा, हिस्सा राशि

Share of stock स्कन्ध का अंश

Share of taxes करों का भाग

Share pushing हिस्सों का दबावाधीन विक्रय, अंशों का तुच्छ व्यापारी—इस पद का अर्थ हिस्सों को अति-दबावपूर्ण विक्रय-कला के आधीन वेचना है। इस उद्देश्य के लिए हिस्सों को उनके वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने के लिए फर्में झूठे वक्तव्य जारी करती हैं। इन वक्तव्यों का प्रकाशन एक कानूनी अपराध है, यदि यह प्रमाणित कर दिया जाए कि वे वक्तव्य सत्य नहीं हैं और उनका उद्देश्य विनिमोक्तियों को बरगलाना है।

Share qualification (म्यूनतम) शेयर/हिस्सा

Share rent बटाई लगान

Share tenant बटाई कायतकार

Share transfer हिस्सा अन्तरण/हस्तांतरण

Share warrant शेयर/अंश अधिपत्र

Shared taxes सहभाजित कर

Sharer अंशभागी, हिस्सेदार

Shares, cumulative preference सबंधी अधिमान हिस्से

Shares, deferred स्थगित हिस्से

Shares, equity इक्विटी हिस्से

Shares, founder's संस्थापक हिस्से

Shares, irredeemable अप्रतिदेय हिस्से

Shares, non-cumulative preference अंसबन्धी अधिमान हिस्से

Shares non-traded निष्क्रिय हिस्से, अविश्रय हिस्से

Shares, ordinary साधारण हिस्से

Shares, preference अधिमान हिस्से

Shares, promoter's प्रवर्तक हिस्से

Shares, redeemable प्रतिदेय हिस्से

Shares, splitting अंश विभाजन, हिस्सों को बाँट

Shares, traded विक्रय हिस्से

Shares, transferable हस्तांतरण योग्य/हस्तांतरणीय हिस्से

Shares, voting मताधिकारी हिस्से

Shares and securities हिस्से एवं प्रतिभूतियाँ

Sharing हिस्सा बाँटना, विभाजन, बाँट लेना

Sharing in cultivation कृषि में अंश रखना

Sheltered industries परिरक्षित उद्योग
 Sherman Anti-trust Act शरमन ट्रस्ट-विरोधी
 अधिनियम -- सयुक्ता राज्य प्रमरीका में 1880 में
 पारित
 Shift अन्तरण, पारी, विचलन
 Shift, differential अक्षिभेदन पारी, विभेदक पारी
 Shift, fixed बँधी पारी
 Shift, graveyard अन्तिम पारी
 Shift, night रात्रि पारी
 Shift, split सविराम पारी
 Shift, swing घपर पारी
 Shift boss पारी अक्षर
 Shift in demand माँग में परिवर्तन
 Shift of occupation व्यवसायान्तरण
 Shiftable security विनिमय-साध्य प्रतिभूति
 Shiftability of securities or bonds प्रति-
 भूतियों अथवा बाँडों की विनिमेयता
 Shiftability without loss बिना किसी क्षति के
 विनिमेयता
 Shifting अन्तरण, हस्तांतरण
 Shifting, backward पश्चवर्ती विवर्तन
 Shifting, forward अग्र विवर्तन
 Shifting equilibrium परिवर्ती संतुलन, विवर्ती
 संतुलन
 Shifting of taxes कर विवर्तन, करान्तरण, कर-
 हस्तांतरण, कर-भार विवर्तन
 Shifting of tax burden कर-भार विवर्तन
 Shifting through price कीमत द्वारा विवर्तन
 Shifts, overlapping परस्परध्यापी पारियाँ
 Shifts, rotating बदलती पारियाँ
 Shifts, staggering केरवीं पारियाँ
 Ship-building पोत-निर्माण
 Ship-building industry जहाज बनाने का उद्योग,
 पोत-निर्माण उद्योग
 Shipment पोत-सदान
 Shipment schedules पोत-सदान अनुसूचियाँ
 Ship money जलमान कर
 Shipping नौ-परिवहन
 Shipping business पोत-व्यापार

Shipping company नौ-परिवहन कम्पनी
 Shipping conferences नौ-परिवहन सम्मेलन,
 जहाजरानी सम्मेलन
 Shipping Corporation, Eastern पूर्वी जहाजरानी
 निगम
 Shipping Corporation, Western पश्चिमा
 जहाजरानी निगम
 Shipping freight नौ-भाडा, जहाज-भाडा
 Shipping Policy Committee जहाजरानी नीति
 समिति
 Shipping price नौ-भरण कीमत
 Shipping rings जहाजरानी कम्पनियों के गुट
 Shipping services जहाजरानी सेवाएँ
 Shipyards पोत प्रांगण
 Shop, fair price उचित दर दुकान
 Shopping, hinterland कृता परिवृत्त, कृता
 पृष्ठ प्रदेश
 Shopping hours खरीदारी का समय, पहाज-समय
 Shortages अभाव, कमी
 Shortfalls कमियाँ, न्यूनताएँ
 Short credits अल्पकालिक उधार
 Short dated bills अल्पकालीन विपत्र/विल
 Short-dated loan अल्पकालीन उधार
 Short-dated fund अल्पकालीन उधार निधि
 Short-dated money अल्पकालीन राशि
 Short-dated money market अल्पकालिक मुदा
 बाजार
 Short-dated paper अल्पकालिक प्रपत्र
 Short notice money अल्पकाल में देय राशि
 Short notice loan अल्पकाल सूचना उधार
 Short period अल्पकाल
 Short period cost curves अल्पकालीन लागत
 वक्र
 Short period equilibrium अल्पकालिक साम्य/
 संतुलन
 Short period loan अल्पकालिक उधार
 Short period market अल्पकालिक विपत्र/बाजार
 Short period normal price अल्पकालीन सामान्य
 कीमत

- Short period price अल्पावधि-कीमत
 Short period trend अल्पावधि प्रवृत्ति
 Short rate अल्पकालिक-दर
 Short run अल्पकाल
 Short run expectations अल्पकालीन प्रत्याशाएँ
 Short run phenomenon अल्पकालीन घटना/क्रिया
 Short sale मद विक्री
 Short-sighted policy अल्पदृष्टि नीति, निकट दृष्टि नीति, अदूरदर्शी नीति
 Short term अल्पावधि, अल्पकालीन
 Short term capital अल्पावधि पूँजी
 Short term credit अल्पावधि उधार
 Short term equilibrium of the firm under monopolistic competition एकाधिकार-त्मक प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म का अल्पकालीन सतुलन
 Short term farm credit अल्पकालीन कृषि ऋण
 Short term finance अल्पकालिक वित्त प्रबन्ध
 Short term fluctuations अल्पावधि उच्चावचन
 Short term foreign funds अल्पावधि विदेशी पूँजी कोष
 Short term investment अल्पकालिक विनियोग
 Short term loan अल्पावधि उधार
 Short term oscillations अल्पावधि प्रदोल/घटवढ़
 Short term rates अल्पकालिक दरें
 Short term rate of interest ब्याज की अल्पावधि दर
 Short term securities अल्पावधि प्रतिभूतियाँ
 Short term tax अल्पावधि कर
 Short term settlement अल्पावधि बन्दोबस्त
 Short term solution अल्पकालिक समाधान
 Short term trading bill of exchange अल्पकालिक व्यापारिक विनिमय-पत्र
 Short term treasury bill market अल्पावधि राजकोष पत्र बाजार
 Short wave business cycle अल्पकालिक व्यवसाय-चक्र
 Shut down कामबंदी
 Shut down (prime) Cost कामबंदी कीमत, प्राथमिक लागत, मूल लागत—यह शब्द प्राथमिक लागत या प्रत्यक्षलागत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका अभिप्राय कच्चे मालो तथा अन्य ऐसे चालू भुगतान से है जिसे फर्म टाल नहीं सकती। यदि कीमत इस लागत से भी कम हो जाए, तो फर्म के पास उत्पादन बन्द करने की अपेक्षा और कोई चारा नहीं रह जाता।
- Sick leave अस्वस्थता अवकाश
 Sickness benefit बीमारी सवधी लाभ
 Sickness insurance बीमारी-बीमा
 Sight bill of exchange दर्शनी टुण्डी, दर्शनी विनिमय-पत्र
 Sight draft दर्शनी ड्राफ्ट/टुण्डी
 Sighting a bill विपन्न-दर्शन, बिल के दर्शन
 Silent partner निष्क्रिय भागी
 Sigma effect सिग्मा प्रभाव
 Silver coin चाँदी का सिक्का
 Silver standard रजत मान
 Similar persons समरूप व्यक्ति
 Similar triangles एक-से त्रिभुज
 Simple arbitrage एकान्तरपणन, सरल मूल्यान्तर लाभार्थ क्रय-विक्रय
 Simple commodity production साधारण वस्तु उत्पादन
 Simple competition साधारण प्रतियोगिता
 Simple deposit system साधारण जमा-प्रणाली
 Simple index number साधारण सूचकांक
 Simple interest सरल ब्याज
 Simple monopolist सामान्य एकाधिकारी
 Simple monopoly सामान्य एकाधिकार
 Simple premises सरल पूर्वव्यव
 Simple random sampling सरल यादृच्छिक नमूना-चयन
 Simple reserve सरल रक्षित निधि
 Simplification सरलीकरण
 Simplified model सरलीकृत मॉडल
 Simplified version सरलीकृत वर्णन
 Simulation Games For Business व्यापार के लिए स्वांग खेल—नए उच्चाधिकारियों को

वास्तविक व्यापारिक जीवन का ज्ञान कराने के लिए खेलों का स्थापन करना। खेल के अन्दर उच्चाधिकारी को उसी प्रकार की समस्या का समाधान करना पड़ता है जो कि सामान्यतया उच्च स्तर के प्रबन्धकों के सामने पेश आती हैं। इन खेलों के नियम व्यापारिक कार्यशास्त्र की वास्तविक परिस्थितियों के जहाँ तक सम्भव हो तदनु रूप ही रखे जाते हैं। इन खेलों में कम्प्यूटर (Computer) की सहायता भी ली जाती है।

Simultaneous algebraic equations समकालिक बीजगणित समीकरण

Simultaneous multiple growth एक साथ बहुमुखी विकास

Simultaneous variations in the supply of labour and capital श्रम एवं पूँजी की पूर्ति में समकालिक परिवर्तन

Simultaneous multiplier एककालिक गुणाक

Simultaneous working of multiplier and accelerator गुणाक एवं त्वरक की समकालिक कार्यशीलता

Sinecure कार्यभार रहित नौकरी, चैन की नौकरी— बिना किसी कार्यभार के, लाभ या प्रतिष्ठा की नौकरी अथवा पद जिसमें वेतन भी काफी अधिक मिले।

Sine qua non (indispensable) अपरिहार्य

Single commodity एकल वस्तु

Single employer bargaining एक मालिक सौदे-बाजी

Single entry system एक प्रविष्टि, इकहरी खतान पद्धति

Single firm monopoly एक-कर्म एकाधिकार

Single monopoly price एकैय-एकाधिकारी/एकाधिकारवात्मक कीमत

Single point basis एक-बिन्दु आधार

Single point sales tax एक-बिन्दु विक्री-कर

Single shift system इकहरी पारी पद्धति

Single standard एकी प्रमाण

Single tax एकी कर

Single tax system एकी/एक कर प्रणाली—

विभिन्न समयों पर यह सुझाव दिया गया कि सरकार को अपनी ज़रूरतों के लिए समस्त आगम, प्रायः पर लगाए गए एक ही कर से प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके पक्ष में तर्क यह दिया गया कि आगमकर का निर्धारण व्यापक एवं समावृत्त के सिद्धान्त के अनुसार करना अपेक्षाकृत सुगम है। पर आधुनिक सरकारों को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में मुख्य कठिनाई यह है कि इस कर को दर बहुत ऊँची और इसका प्रसारण बहुत कड़ा करना होगा। परिणामतः इसका कार्य करने की इच्छा पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है और इससे कर-बोरी की प्रवृत्ति नष्ट सकती है। परिणामतः यह गुणाक किसी भी देश में स्वीकार नहीं किया गया।

Single union bargaining एक सव सौदाकारी

Single use goods एक प्रयोग वाली वस्तुएँ

Single versus multiple note-issue एक बनाम अनेक नोट-निर्गमन प्रणाली

Sink of precious metals बहुमूल्य धातुओं की खपत के लिए गड्ढा

Sinking bond शोषण निधि बाँड

Sinking Fund ऋण शोषण निधि, ऋण-निवारण निधि—इसका अर्थ ऐसी निधि से है जिसमें नियत-कालिक रूप से धनराशियाँ डाली जाती हैं। इस प्रकार एकत्र राशि और उससे प्राप्त व्याज का प्रयोग किसी ऋण का भुगतान करने या किसी परिसम्पत्त अथवा मशीनरी का प्रतिस्थापन करने के लिए किया जाता है।

Sit-down strike परना, बैठ हड़ताल—कर्मचारियों की प्रार्थना या माँग स्वीकार न होने तक कारखाने या प्रतिष्ठान के बाहर अड़कर बैठना।

Site value स्थल/स्थान मूल्य

Situation value स्थिति मूल्य

"Six" and "Seven" छः और सात—यूरोप के दो मुक्त व्यापार क्षेत्र—यूरोपीय सामाजिक बाजार (European Common Market) और यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (European Free Trade Area)। चूँकि इन दो संस्थाओं के आरम्भ में क्रमशः छः और सात सदस्य थे, इसलिए इन्हें "छः" और "सात" कहा जाता है।

- Size distribution of income आय का आकार वितरण
- Size of country's population देश की जनसंख्या का आकार
- Size of family परिवार का आकार
- Size of the farm खेत का आकार, फार्म का आकार
- Size of holding जोत का आकार
- Size of income आय का आकार
- Size of market बाजार का आकार
- Size of national income राष्ट्रीय आय का आकार
- Skewed series वक्रमय माला
- Skewness विपमता, वक्रमय
- Skill classifications दक्षता पर आधारित वर्गीकरण
- Skull formation बौशल-निर्माण
- Skilled labour दक्ष/कुशल श्रम
- Skilled labour, semi अर्द्ध कुशल श्रम
- Slun-friktion (of ship) पृष्ठघर्षण
- Sky-rocketting prices गगनचुम्बी कीमतें, तेजी से बढ़ती कीमतें
- Slab basis शिला पद्धति के आधार पर
- Slab rates of lending उधार की शिलापट्ट दरें
- Slab system वर्ग प्रणाली
- Slab system of taxation कराधान की खंड पद्धति
- Slave economy दास-अर्थव्यवस्था
- Slave labour दास श्रम
- Slavery दासत्व, दासता, दास-प्रथा
- Slavery, commercial वाणिज्यिक दास-प्रथा
- Slavery, domestic घरेलू दास-प्रथा
- Sleeping partner निष्क्रिय साझेदार
- Sliding Scale वितरणी क्रम, विसृप अनुपात— इसका अर्थ ऐसी मजदूरी-प्रणाली से है जिसमें प्रदान की गयी दर रहन-सहन की लागत के साथ परिवर्तित होती है और इस उद्देश्य के लिए रहन-सहन का उपभोगता सूचकांक या परचून कीमतों के सूचकांक का प्रयोग किया जाता है।
- Sliding scale tariff विसृप प्रचुल्क
- Sliding scale wages विसृप मजदूरी मान
- Slightly differentiated product तिनक विभेदीकृत वस्तु
- Slightly regressive थोड़ा प्रवरोही
- Slipshod dogmatism लचर सिद्धान्तवाद/सिद्धान्तवादिता
- Slope of the demand curve माँग वक्र का प्रावण्य/इलान
- Slow asset कालापेक्षी परिसम्पत्
- Slow down मन्द गति से काम करना
- Slum clearance गन्दी/मलिन बस्तियों की सफाई
- Slump मंदी, प्रवपात, प्रवसाद
- Slump equilibrium प्रवसाद साम्य/सन्तुलन
- Slutsky Method स्लट्स्की विधि— आय एवं स्थानापत्ति प्रभावों को इस विधि द्वारा पृथक् कर सकते हैं।
- Small coin depots छोटे सिक्कों के गोदाम
- Small entrepreneurs छोटे उद्यमकर्ता
- Smaller waves of innovations नवप्रवर्तनों की लघु लहरें
- Small factory छोटी फैक्ट्री, छोटा कारखाना
- Small holdings लघु/छोटी जोत
- Small inducement मामूली प्रोत्साहन
- Small industry लघु उद्योग
- Small savings movement मल्पबचत आन्दोलन
- Small savings scheme मल्पबचत योजना
- Small Savings Scheme Organisation मल्पबचत योजना संस्था
- Small scale लघु पैमाना
- Small scale enterprise छोटे पैमाने का उद्यम
- Small scale farming लघु-स्तर खेती
- Small scale industries लघु-स्तर उद्योग
- Small scale production लघु-स्तर उत्पादन, छोटे पैमाने का उत्पादन
- Smoke-nuisance धुआ-अनुहास
- Smooth curve सरलित वक्र, निष्कोण वक्र
- Smoothed histogram सरलित मापवचित्र
- Smuggling दस्वर व्यापार
- Snob appeal वयंदास्यो भावर्षण

Spacing of children बच्चों के जन्म के बीच समयान्तर देना

So-called 'synical' rule of taxation कराधान के तथाकथित दोषान्वेयी नियम

Social accounting सामाजिक लेखा विधि— सामाजिक लेखाकल पद्धति समष्टि अर्थशास्त्र में हाल ही में विकसित की गई एक प्रणाली है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, व्यय और आय-उपायन की आर्थिक क्रियाएँ व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों, संस्थानों, धर्मार्थ संस्थाओं, सरकारी निकायों आदि द्वारा की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई अपने सौदे का किसी न किसी रूप में हिसाब रखती है। यदि इन सब लेखों को जोड़ लिया जाए, तो ये मिल कर सामाजिक लेखा या राष्ट्रीय लेखा कहलाते हैं। प्रत्येक सौदे में दो आर्थिक इकाइयों की जरूरत पड़ती है, एक भुगतान करने वाली और दूसरी भुगतान प्राप्त करने वाली। इन सौदों को रिकार्ड करने के लिए दोहरी खतान पद्धति का प्रयोग करना पड़ता है और इस प्रकार इन सभी लेखों का समेकन कर उत्पादन, उपभोग, सरकार और पूँजी-निर्माण के लेखों तैयार किए जाते हैं ताकि उनका अर्थव्यवस्था में आपसी सम्बन्ध ज्ञात हो सके। अतः सामाजिक लेखांकन पद्धति आर्थिक सिद्धान्तों और आर्थिक घटनाओं के प्रवाप में एक पुल का कार्य करती है। इसका मूल तथ्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंशों को स्पष्ट करता है ताकि यह पता चल सके कि अर्थव्यवस्था अपनी मूल समस्याओं (अर्थात् इसे क्या उत्पन्न करता है, जिसके लिए उत्पन्न करना है और उत्पादन के साधनों के प्रतिकूल को वर्तमान और भावी विकास के लिए कैसे बाँटना है) को कैसे हल करती है।

Social accounts सामाजिक खाते

Social activities सामाजिक कार्य/क्रियाएँ

Social and economic overheads सामाजिक और आर्थिक उपरिचय

Social and economic status सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा/पद/स्थान

Social and economic values सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य

Social aspect सामाजिक दृष्टिकोण

Social assistance सामाजिक सहायता

Social attitude सामाजिक अभिवृत्ति/मनोवृत्ति

Social being सामाजिक प्राणी

Social benefit सामाजिक लाभ

Social budgeting सामाजिक बजट बनाना, सामाजिक बजट

Social capital सामाजिक पूँजी

Social change सामाजिक परिवर्तन

Social classification सामाजिक वर्गीकरण

Social contract theory of money मुद्रा का सामाजिक संधि सिद्धान्त—जॉन लॉक ने अपने राजनीतिक दर्शन के अनुकूल मुद्रा के सामाजिक संधि सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया था।

Social control of banks बैंकों का सामाजिक नियंत्रण

Social cost सामाजिक लागत, सामाजिक लागत— किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया के फलस्वरूप समाज के लिए कुल लागत। उदाहरणार्थ, धुएँ के कारण परिवेश का दूषित होना, परिवहन की भीड़-भाड़ आदि के कारण समाज को काफी खर्च करना पड़ता है जो कारखानों में उत्पन्न वस्तुओं की कीमतों में समाविष्ट नहीं किया जा सकता। सरकार द्वारा किए गए इन खर्चों को जब निजी लागतों (Private costs) में शामिल किया जाता है, तो इसका योगफल सामाजिक लागत ही है।

Social cost of the marginal unit सीमन्त इकाई का सामाजिक व्यय

Social credit सामाजिक ऋण, सामाजिक उधार

Social credit movement सामाजिक ऋण आन्दोलन

Social desirability सामाजिक वांछनीयता

Social dividend सामाजिक सांभल

Social economics सामाजिक अर्थशास्त्र— हैगनबुक (Hagenbuch) ने सामाजिक अर्थशास्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है—

- (i) यह व्यावहारिक अर्थशास्त्र की एक शाखा है।
- (ii) यह व्यावहारिक सार्विकी की एक शाखा है जिसमें सामाजिक समस्याओं की सीमा और स्वरूप को अर्थों की सहायता से नापा जाता है।
- (iii) यह आर्थिक व्यवहार के सामाजिक कारणों का अध्ययन है। आर्थिक परिवेश-शास्त्र (economic ecology)।
- (iv) यह आर्थिक व्यवहार के सामाजिक परिवेशों का अध्ययन है। (बल्याण अर्थशास्त्र)

Social economy सामाजिक मितव्ययता, सामाजिक अर्थव्यवस्था

Social engineering सामाजिक इंजीनियरिंग—

इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉसको पाउण्ड (Roscoe Pound) नामक एक अमेरिकी दार्शनिक ने किया। उसके अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक सम्प्रदाय को, या इसके अंगों को, किसी केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा एक विधेय सामाजिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोफेसर कार्ल पोपर ने इसकी और संशोधित परिभाषा कर इसे खण्डशः सामाजिक इंजीनियरिंग और ध्यापक सामाजिक इंजीनियरिंग में विभक्त किया।

ध्यापक सामाजिक इंजीनियरिंग में समाज की कल्पना एक मशीन के रूप में की जाती है जिसका निर्माण, मार्गदर्शन एवं निर्देशन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, इसमें शहरी गन्दी बस्तियों का सर्वेक्षण करके नगर आयोजन किया जा सकता है, इसमें कारखानों को रिहायशी बस्तियों से दूर रखने की योजना बनाई जा सकती है, इसमें अल्प-विक्रय वेन्ड एवं मनोरंजन विषयक सुविधाएँ कायम करने का आयोजन किया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य मनुष्य-समाज और उसके आर्थिक सम्बन्धों पर तकनीकी या यांत्रिक इंजीनियरिंग के सिद्धान्त लागू करना है।

दूसरे शब्दों में, इसका उद्देश्य सामाजिक अध-स्थवताओं का पूर्वानुमान लगाना और इन सामा-

जिक लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यर्थ व्यय को कम करना है।

इस विचार-पद्धति के आलोचकों का मत है कि समाज को एक मशीन के रूप में कल्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि सामाजिक संस्थान चेतन निर्णयों का परिणाम नहीं होते बल्कि समग्र एवं स्वयं स्फूर्त मानवीय क्रियाओं का परिणाम होते हैं। अतः उनका मत यह है कि इस प्रकार के प्रयास केवल खण्डशः आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, परन्तु समाज के ढाँचे को बदल नहीं सकते।

Social equality सामाजिक समानता

Social expenditure सामाजिक व्यय

Social framework सामाजिक ढाँचा/रूपरेखा

Social friction सामाजिक प्रतिरोध, सामाजिक घर्षण

Social fund सामाजिक निधि

Social gain सामाजिक लाभ

Social harmony सामाजिक सुमेल/समन्वय/सामंजस्य

Social hierarchy सामाजिक सोपान

Social imbalance सामाजिक असंतुलन

Social income सामाजिक आय

Social injustice सामाजिक अन्याय

Social institutions सामाजिक संस्थाएँ

Social insurance सामाजिक बीमा

Social insurance contribution सामाजिक बीमा योगदान

Social justice सामाजिक न्याय

Social justice oriented rapid economic development सामाजिक-न्यायोन्मुख तीव्र आर्थिक विकास

Social maladjustment सामाजिक अपसमंजन/असमन्वय

Social marginal productivity, criterion of सीमांत सामाजिक उत्पादितता का मानदण्ड/की कसौटी

Social marginal utility सामाजिक सीमांत उपयोगिता

Social monopoly सामाजिक एकाधिकार

Social movement सामाजिक आन्दोलन

Social net product सामाजिक शुद्ध उत्पाद—
 इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर पीगू
 द्वारा किया गया। शुद्ध राष्ट्रीय आय में से
 उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली कुसेवाओं
 (Disservices) को दूर करने के लिए किए गए
 सरकारी व्यय को घटाने से सामाजिक शुद्ध उत्पाद
 प्राप्त किया जाता है। कुसेवाओं में औद्योगिक
 नगरों की अस्वस्थ दशाएँ, अपूर्ण प्रतियोगिता के
 व्यर्थव्यय (विशेषकर प्रतिभोगी विज्ञापन), नाटक
 पट्टाओं का उत्पादन एवं क्रियक और जुझा आदि
 को क्रियाएँ शामिल की जाती हैं।

Social order सामाजिक व्यवस्था

Social optimum समाज-सर्वोत्तम, सामाजिक अनु-
 कूलतमावस्था

Social outlay सामाजिक परिव्यय

Social overheads सामाजिक उपरिव्यय

Social overhead capital सामाजिक उपरिवृत्ती

Social parasitism सामाजिक परजीविता

Social planning सामाजिक आयोजन

Social prestige सामाजिक प्रतिष्ठा

Social relationship सामाजिक सम्बन्ध

Social relations of production उत्पादन के सामा-
 जिक सम्बन्ध

Social responsibility सामाजिक दायित्व

Social rigidities सामाजिक कठोरताएँ

Social sanitation सामाजिक स्वच्छता

Social sanctions सामाजिक स्वीकृतिवर्षा, सामाजिक
 प्रादेश

Social savings सामाजिक बचत

Social scale of preference समाज के प्राथम्यता
 का पैमाना/मापदण्ड

Social science सामाजिक विज्ञान

Social security सामाजिक सुरक्षा

Social security contribution सामाजिक सुरक्षा
 अंशदान/योगदान

Social security expenditure सामाजिक सुरक्षा
 व्यय

Social security funds सामाजिक सुरक्षा निधियाँ

Social security measures सामाजिक सुरक्षा
 सम्बन्धी उपाय

Social security tax सामाजिक सुरक्षा कर

Social services सामाजिक सेवाएँ

Social service agency समाज सेवा संस्था/एजेंसी

Social structure सामाजिक संरचना/ढाँचा

Social system सामाजिक प्रणाली

Social thrift सामाजिक बचत

Social transfer सामाजिक अन्तरण

Social valuation सामाजिक मूल्यांकन

Social values सामाजिक मूल्य

Social wage सामाजिक मजदूरी

Social waste सामाजिक क्षति/व्यर्थव्यय/क्षय

Social wealth सामाजिक सम्पत्ति

Social welfare सामाजिक कल्याण

Social welfare function सामाजिक कल्याण
 फलन

Social welfare principle of taxation कराधान
 का समाज-कल्याण सिद्धान्त

Social workshop सामाजिक प्रयोगशाला

Socialisation समाजीकरण

Socialisation of banks बैंकों का समाजीकरण

Socialisation of industries उद्योगों का समाजी-
 करण

Socialisation of investment निवेश का समाजी-
 करण

Socialisation of manufacture विनिर्माण का
 समाजीकरण

Socialisation of property सम्पत्ति का समाजी-
 करण

Socialised concerns समाजीकृत फर्म

Socialised industry समाजीकृत उद्योग

Socialised production समाजीकृत उत्पादन

Socialism समाजवाद

Socialism, agrarian कृषक समाजवाद

Socialism, associative सहचर्य समाजवाद

Socialism, Christian ईसाई समाजवाद

Socialism, competitive प्रतियोगितापरक/प्रति-
 योगी/समाजवाद

Socialism, creeping मंदगति समाजवाद
 Socialism, democratic जनतान्त्रिक समाजवाद,
 लोकतान्त्रिक समाजवाद
 Socialism, Fabian फेबियन समाजवाद
 Socialism, guild श्रेणी समाजवाद
 Socialism, Marxian मार्क्सवादी समाजवाद
 Socialism, municipal म्यूनिसिपल समाजवाद
 Socialism, revisionist संशोधनवादी समाजवाद
 Socialism, revolutionary क्रांतिकारी समाजवाद
Socialism, scientific वैज्ञानिक समाजवाद—
 इसका अर्थ मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किए गए उस
 सिद्धान्त से है जिसके अनुसार पूँजावादी समाज
 अपने नाश की ओर अनिवार्य रूप में मतिमान होता
 जाता है। मार्क्स ने अपने सिद्धान्त को अर्थव्यवहार्य
 समाजवादियों के सिद्धान्त से पृथक् करने के लिए
 इसका नाम वैज्ञानिक समाजवाद रखा। मार्क्स
 के अनुसार चाहे अर्थव्यवहार्य समाजवादियों ने
 सामाजिक आन्दोलन का उचित सद्य अवसर ही
 खोज लिया था परन्तु उनके द्वारा इसे प्राप्त करने
 का निर्देशित मार्ग सही नहीं था क्योंकि वे ऐति-
 हासिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के स्वरूप को
 ठीक ढंग से समझ न सके। अतः उनका समाज-
 वाद अर्थव्यवहार्य और प्रवैज्ञानिक था। मार्क्स ने
 अपने वैज्ञानिक समाजवाद का आचार समग्र
 मानवीय एवं सामाजिक इतिहास का बनाया।
 चूँकि मार्क्स ने समाजवाद की अनिवार्यता का
 सिद्धान्त प्रतिपादित किया, इसलिए उसने अपने
 सिद्धान्तों को वैज्ञानिक माना और अपने विश्लेषण
 का नाम वैज्ञानिक समाजवाद रखा।

Socialism, state राजकीय समाजवाद— इस
 शब्द का प्रयोग कुछ हद तक सदिग्ध रूप में
 समाजवाद की मर्यादित मात्रा के लिए किया
 जाता है। इसमें मूलभूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण
 या एकाधिकारी प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए
 उद्योग का राजकीय विनियमन शामिल है ताकि
 आर्थिक जीवन को स्थिर किया जा सके और
 इनमें आय तथा सम्पत्ति की असमानताओं को
 कम किया जा सके। कई बार इसका प्रयोग सामा-
 जिक बरह्याण सम्बन्धी विधान या अन्य पूँजुवादी

उपायों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार
 इसका प्रयोग ऊँची आय को कम करने के आरोही
 कराधान की नीति के रूप में किया जाता है।

Socialism, utopian अर्थव्यवहार्य समाजवाद
 Socialism, achievements of समाजवाद का
 उपलब्धिर्षा
 Socialism, as a welfare ideal समाजवाद,
 बरह्याणकारी आदर्श के रूप में
 Socialist समाजवादी
 Socialist, associative साहचर्य समाजवादी
 Socialist, bourgeois बुजुर्ग समाजवादी
 Socialist, radical उग्र समाजवादी
 Socialist blue-print समाजवादी कार्यक्रम की रूप
 रेखा
 Socialist economy समाजवादी अर्थव्यवस्था
 Socialist emulation समाजवादी प्रतिस्पर्धा
 Socialist enterprise समाजवादी उद्यम
 Socialist objectives समाजवादी लक्ष्य
 Socialist pattern of society समाजवादी ढंग
 का समाज
 Socialist planning समाजवादी आयोजन
 Socialist theory of crisis संकट का समाजवादी
 सिद्धान्त
 Socialistic society समाजवादी अर्थव्यवस्था/
 समाज
 Socially सामाजिक दृष्टिकोण से
 Socially necessary labour सामाजिक रूप से
 आवश्यक श्रम
 Socially optimal rate of growth सामाजिक
 दृष्टि से अनुकूलतम वृद्धि-दर
 Society समाज, समिति, परिषद्
 Society, affluent सुसम्पन्न/सुसमृद्ध समाज
 Society, capitalist पूँजीवादी समाज
 Society, classless वर्गहीन समाज
 Society, pre-capitalist पूर्व-पूँजीवादी समाज
 Socio-cultural obstacles सामाजिक एवं सांस्कृ-
 तिक बाधाएँ
 Socio-economic democracy ममानाजिक लोक-
 तन्त्र

- Socio-economic relations समाजार्थिक संबंध
 Socio-economic status समाजार्थिक प्रतिष्ठा
 Socio-economic survey समाजार्थिक सर्वेक्षण
 Socio-political theory of public finance लोक-वित्त का सामाजिक-राजनीतिक सिद्धान्त
 Sociological factors in economic development सामाजिक विकास के समाजशास्त्रीय तत्त्व
Soft currency मुनम चलान्य/मुद्रा—यह कुर्लभ करेन्सी का विलौम है। इसका अर्थ ऐसा करेन्सा से है जिसका संभरण उसकी माँग से अधिक है। यह परिस्थिति तब विद्यमान होती है जब आयात निर्यात से अधिक होते हैं। इस प्रकार जिस देश की मुद्रा सुलभ करेन्सी होती है उसके साथ कुछ या सभी देशों का मानू खते पर अनुकूल भुगतान-शेष होता है और इसी कारण विनिमय-दर ऐसे देश के प्रतिफल होती चली जाती हैं
Soft currency area सुलभ-चलान्य क्षेत्र
Soft currency countries सुलभ-चलान्य देश
Soft-drink industries अम्लाक पेय-पदार्थ उद्योग
Soft goods नाशवान वस्तुएँ—इनमें ऐसी उपयोग वस्तुएँ शामिल की जाती हैं जो चिरस्थायी नहीं हैं, अर्थात् वे थोड़े ही समय में प्रयोग के पश्चात् व्यर्थ हो जाती हैं। सामान्यतया, इन वस्तुओं में कपड़े, जूते, औपचारिक आदि सम्मिलित का जाता है।
Soft job आसान काम
Soft loan window सुलभ उधार खिड़की—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का कुछ लोगों ने यह नाम दिया है।
Soft market गिरता बाजार
Soft money (= Paper money) सुलभ मुद्रा/पत्र-मुद्रा/नरम मुद्रा—संयुक्त राज्य अमेरिका में धातु मुद्रा के विरुद्ध इसका अर्थ कागजी मुद्रा के लिया जाता है।
 एक और अर्थ में सुलभ मुद्रा से अभिप्राय ऐसी मुद्रा से है जिसके आन्तरिक तथा बाहरी दोनों मूल्य थोड़े से आर्थिक या सामाजिक दबाव से जल्दी-जल्दी बढ़ते-घटते रहते हैं।
Soil bank and crop restriction भूमि बैंक तथा फसल का सीमाबंधन
 Soil conservation भू-रक्षण
 Soil erosion मिट्टी का कटाव, भूमि-क्षरण
 Soil reclamation भू-उद्वरण
 Sold note विक्रीत नोट
 Soldering on the job काम खोरो
 Sole bargaining एकधिकारी सौदेबाजी/एकल सौदाकारी
 Sole employer एकमात्र नियोजक
 Sole proprietorship एक व्यक्ति स्वामित्व, एकाका स्वामित्व, एकल स्वामित्व
 Sole tenant एकल भाटकी/किरायेदार/मुजारा
 Sole trader एकल/एकाकी व्यापारी
 Solidarism समेकतावाद
 Solvency शोध क्षमता, सम्पन्नता, मालदारी
 Solvency certificate शोधक्षमता प्रमाण-पत्र
 Some degree of progression आरोहीपन के कुछ अंश
 Sound finance ठोस वित्त
 Sources of additional tax revenue करों से अतिरिक्त आय प्राप्त करने के स्रोत
Source of cash मुद्रा का उद्गम—केन्द्रीय बैंक सारे देश के लिए मुद्रा का उद्गम है।
 Sources of development finance विकास वित्त के स्रोत
 Source of fluctuations उच्चावचन का स्रोत
 Source of light प्रकाश स्रोत
 Source of power शक्ति का साधन
 Source of profit लाभ के साधन, लाभ के स्रोत
 Source of public revenue सार्वजनिक आय के साधन
 Source of supply संभरण-स्रोत
 Sovereignty of the consumer उपभोक्ता की प्रभुता, उपभोक्ता का प्रभुत्व
 Sovietism सोवियतवाद
 Spare cash अग्रपुस्तक तकदी
 Sparsely settled areas विरल आबादी वाले क्षेत्र
 Spearhead money (= Occupation money) आधिपत्य मुद्रा
 Special assessment विशेष कर, विशेष कर-निर्धारण

Special benefit revenue विशेष सेवा आय

Special case of joint supply समुक्त संभरण की विशेष स्थिति

Special crossing विशेष रेखन

Special debt redemption levy विशेष ऋण-परिशोध-कर

Special deferred annuity विशेष स्थगित वार्षिकी

Special drawing rights विशेष प्राप्ति अधिकार, विशेष आहरण अधिकार—अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F) द्वारा जारी की गई एक विधि जिसके अनुसार विशेष आहरण अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से एक प्रकार का उधार नहीं माना जाएगा, परन्तु इसके बावजूद इनके द्वारा स्वर्ण और परिवर्तनीय मुद्राओं की पूर्ति की जाएगी और इस प्रकार वे प्रत्येक सदस्य की रक्षित-निधि का भाग बन जाएंगे। अतः विशेष प्राप्ति अधिकारों का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच भौतिक भुगतान के लिए स्वर्ण के साथ एक सहायक उपाय उपलब्ध कराना है। उदाहरणार्थ, यदि भारत में स्वर्ण, डालर या स्टैलिंग की कमी है, तो यह दूसरे देश को एक निश्चित सीमा तक उसकी करेन्सी के बदले विशेष प्राप्ति अधिकार के रूप में भुगतान कर सकता है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन नयी इकाइयों में से 70 प्रतिशत के लिए कभी भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं। वे तो वास्तव में नयी निर्मित मुद्रा हैं और स्वर्ण, डालर और पाउण्ड के प्रतिरक्षित, विशेष प्राप्ति अधिकार अतिरिक्त प्रारक्षण (Reserves) का कार्य करेंगे। इसलिए इन्हें नयी प्रकार की कागजी मुद्रा कहा गया है जो कि बिना किसी शर्त के निर्मित की गई है। इसी कारण इसे पत्र-स्वर्ण कहते हैं।

अतः से अर्थशास्त्रियों ने विशेष प्राप्ति अधिकार योजना की आलोचना इस आधार पर की है कि समृद्ध देशों को पत्र-स्वर्ण की बहुत अधिक मात्रा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया है और विकास आवश्यकताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी। उदाहरणार्थ, विशेष

प्राप्ति अधिकारों का 72 प्रतिशत समृद्ध और पूंजीवादी देशों को सौंप दिया गया है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 86 विकसमान और अधिक ज़रूरतमन्द सदस्य देशों को केवल 28 प्रतिशत प्राप्त हुआ है।

Special fund विशेष निधि

Special immediate annuity विशेष तुरत वार्षिकी

Special investment problem in under-developed countries अल्प-विकसित देशों की विनियोजन सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएँ

Special privilege monopoly विशेष मुविधा एकाधिकार

Special property विशेष सम्पत्ति

Special treatment of certain forms of income कुछ किस्म की आयों के साथ विशिष्ट व्यवहार

Special United Nations Fund विशेष संयुक्त राष्ट्र निधि

Specialisation विशिष्टीकरण, विशेषज्ञता

Specialisation, functional वृत्त्यारमक विशेषज्ञता

Specialisation, by process प्रक्रियामूलक विशिष्टीकरण

Specialisation, by product उत्पादमूलक विशिष्टीकरण

Specialised capital विशेषित पूँजी

Specialised capital goods विशेषित पूँजी वस्तुएँ

Specialised equipment विशेषित साज-सामान

Specialised firms विशेषित फर्म

Specialised skill विशिष्ट कौशल

Specialised techniques विशिष्ट तकनीकें

Specie सोना-चाँदी

Specie flow price mechanism द्रव्यावाह कीमत-सोचन प्रक्रिया

Specie point स्वर्ण-बिन्दु, स्वर्णिक, धातुबिन्दु—

ये विनिमय के स्वर्ण बिन्दु भी कहे जाते हैं। स्वर्णमात्र के आधीन ये दो मुद्राओं की विनिमय-दरों में परिवर्तन की चरम सीमाओं को निर्धारित करते हैं। यदि विनिमय की टकसाल दर में परिवर्तन तथा बीमा लागत को मिला कर यह ज्ञात हो कि विनिमय-दर इससे अधिक है, तो उस

परिवर्धति में स्वर्ण का प्रायास करता सस्ता पड़ता है; यदि विनिमय की टकसात दर में से परिवहन तथा बीमा लागत को घटाने पर यह ज्ञान हो कि विनिमय दर इससे कम है, तो स्वर्ण निर्यात सस्ता पड़ता है। अतः विनिमय की टकसात दर में परिवहन तथा बीमा लागत जमा करने पर उच्च स्वर्ण विन्दु प्राप्त होगा और इसे घटाने से निम्न स्वर्ण विन्दु प्राप्त होगा।

- Specie standard स्वर्णमान, मुद्रामान
 Specific capital विशिष्ट पूँजी
 Specific duty विशिष्ट शुल्क
 Specific exemption विशेष छूट
 Specific expenditure incidence विशिष्ट व्यय
 घापात/प्रभाव/भार
 Specific goods विशिष्ट माल, खास माल
 Specific incidence of tax विशिष्ट करापात
 Specific loans विशिष्ट उधार, विशेष उधार
 Specific tax विशिष्ट कर
 Specifications विशिष्टियाँ
 Specificity विशिष्टता
 Specificity of a factor साधन का विशिष्ट

प्रयोग—इनसे हमारा अभिप्राय उत्पादन के उन साधनों से है जो अत्यधिक विशिष्ट कार्य के लिए उचित हैं और इसके लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना सम्भव नहीं। जितना अधिक कोई साधन विशिष्टीकृत होगा, उतना ही उसका प्रतिस्थापन कठिन होगा। साथ ही विशिष्टीकृत साधनों के संभरण की, विशेषकर अल्पकाल में, बढ़ाना अत्यन्त कठिन है। उदाहरणार्थ, भौतकों के एक विशेषज्ञ के प्रशिक्षण के लिए बहुत समय लभता है और इस कारण इका प्रतिस्थापन भी उतना ही कठिन है। अतः विशिष्टीकृत अथ उत्पादन का एक विशिष्ट साधन है। बहुत सी निम्न पूँजी अत्यधिक विशिष्ट होती हैं; उदाहरणार्थ, लौह तथा इस्पात कारखाने में ब्लास्ट फर्नेस। भूमि को उत्पादन का विशिष्ट साधन कहना कठिन है क्योंकि इसके कई विचलन प्रयोग हैं, परन्तु भूमि का महत्त्वपूर्ण संभरण अर्थात् इसकी स्थिति इसे एक हद तक विशिष्ट बना देते हैं।

- Speculation परिकल्पना, सट्टा
 Speculative boom परिकल्पी तेजी, सट्टेबाजी से प्रेरित तेजी
 Speculative buying परिकल्पनी क्रय
 Speculative circulation परिकल्पनी संचलन
 Speculative demand परिकल्पनी माँग
 Speculative demand for money मुद्रा की सट्टा/परिकल्पनी माँग
 Speculative investment परिकल्पनी विनियोजन, अपेक्षी निवेश
 Speculative market सट्टा बाजार
 Speculative money सट्टा-मुद्रा
 Speculative motive परिकल्पनी/सट्टा उद्देश्य
 Speculative movements of funds विनियों की परिकल्पनी गतिविधियाँ
 Speculative price परिकल्पनी मूल्य
 Speculative tendency सट्टे की प्रवृत्ति
 Speculative transactions परिकल्पनी रोडे
 Speculative vacancy अपेक्षी रिक्ति
 Speculator परिकल्पक, सट्टेरिया, सट्टेबाज
 Speeder चुस्त मजदूर
 Speed-up गति-वर्धन—किसी भी उपाम द्वारा श्रमिकों से प्रति घण्टा या प्रतिदिन अधिक कार्य लेना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या तो प्रति श्रमिक कार्य करने की न्यूनतम मात्रा बढ़ा दी जाती है, या मशीनों की गति तेज कर दी जाती है।
 Speedy economic development द्रुतगति से आर्थिक विकास
 Spend व्यय करना
 Spendable income व्यय-योग्य आय
 Spendable resources व्यय-योग्य संसाधन
 Spend-thrift अतिव्ययो, अल्पव्ययो
 Spending व्यय
 Spending expansionism व्यय-प्रधान प्रसारवाद
 Spending, private निजी खर्च, गैर-सरकारी व्यय
 Spending, public राजकीय खर्च
 Spending power व्यय-शक्ति
 Spending units व्यय-इकायाँ

Spiral of wages and prices मजदूरी और कीमतों का कुन्तल

Spiral rise उत्तरोत्तर वृद्धि

Split income विभाजित आय

Spoils system इनामी पद्धति

Sporadic dumping (= Occasional dumping) अकस्मिक राशिपातन

Spot market तत्क्षण/तात्कालिक बाजार—इसका अर्थ ऐसे बाजार से है जिसमें वस्तुएँ नकदी के बदले बेची और फौरन हस्तांतरित की जाती हैं। तत्क्षण बाजार को भौतिक बाजार भी कहते हैं। इसमें ऐसे विक्रेता विद्यमान होते हैं जिनके पास व्यापार के लिए स्टॉक में वस्तुएँ होती हैं जिन्हें वे नकदी प्राप्त करते ही क्रेता को दे देते हैं और ऐसे क्रेता भी होते हैं जो वस्तुओं को फौरन खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तत्क्षण या तात्कालिक बाजार और भावी बाजार में भेद यह है कि पूर्वोक्त में तुरन्त सौदे होते हैं परन्तु भावी बाजार में सौदे खरीदने के करार किए जाते हैं और वस्तुओं का आदान-प्रदान भी एक भावी तिथि पर ही किया जाता है। साधारण व्यापार तत्क्षण बाजारों में ही होता है।

Spot price तत्क्षण/तात्कालिक कीमत—वह कीमत जो वस्तु के फौरी विक्रय और हस्तांतरण के लिए मांगी जाती है, तत्क्षण कीमत कहलाती है। तत्क्षण कीमत और भावी कीमत में अन्तर है। भावी कीमत का अर्थ उस मूल्य से है जिस पर भावी तिथि पर वस्तुएँ विक्रय की जाती हैं और उनका आदान-प्रदान किया जाता है। तत्क्षण और भावी कीमतें दोनों ही एक साथ पटती-बढ़ती हैं क्योंकि तत्क्षण और भावी बाजार दोनों पर वही मूल कारण क्रियाशील होते हैं। कारण यह है कि तत्क्षण व्यापारियों का हित इस बात में है कि वे वस्तु को भावी कीमत की तुलना में यथासम्भव अनुकूल शर्तों पर प्राप्त कर लें। भावी विक्रेताओं के लिए अपने सौदे को तत्क्षण सौदे में परिवर्तित करना संभव है और विलोमक्रम भी। इसका प्रभाव यह है कि

ये दोनों कीमतें एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाती हैं।

Spot rate वर्तमान/हाजिर दर

Spotter system भेदिया पद्धति

Spot transactions तात्कालिक सौदे

Spread effects प्रसार प्रभाव—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रोत्साहक प्रभाव। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव निर्यात में वृद्धि के कारण होने वाला गुणक प्रभाव (Multiplier effect) है, जिसके फल-स्वरूप अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है। जितना अधिक आर्थिक विकास किसी देश में हो चुका हो, उतना ही अधिक सामान्यतया इसमें प्रसार प्रभाव होगा। इसका कारण यह है कि उस देश का निर्यात-क्षेत्र भी देश की अर्थव्यवस्था से टढ़ रूप में सम्बद्ध होता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि अल्पविकसित देशों में प्रसार प्रभाव कमजोर होते हैं और प्रत्यस्त (Back-wash) प्रभावों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण इनका अंतर और भी कम हो जाता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अल्पविकसित देशों को लाभ होने की अपेक्षा हानि हुई है।

Spread over कार्य-समय विस्तार, अम-समय विस्तार

Stabilisation bond स्थिरीकरण बॉन्ड

Stabilisation of the rate of exchange विनिमय दर का स्थिरीकरण

Stabilisation experiment स्थिरता प्रयोग

Stabilisation fund स्थायीकरण कोष

Stabilisation of prices मूल्य-स्थापिका

Stabilisation of foodgrains prices साधानों की कीमत का स्थिरीकरण

Stabilisation of wages मजदूरी-स्थापिका

Stabilised paper standard स्थिरीकृत पत्र-मान

Stabiliser स्थायीकारक, स्थिरक

Stabiliser, built-in आन्तरिक स्थिरक

Stabilising element स्थापक/स्थापिकाकारी तत्व

Stability, exchange विनिमय स्थिरता

- Stability, monetary मौद्रिक स्थायित्व
 Stability, structural संरचनात्मक स्थिरता
 Stability of equilibrium साम्य स्थायित्व, संतुलन स्थायित्व
 Stability of gold value स्वर्ण-मूल्य का स्थायित्व
 Stability of prices कीमत-स्थिरता/स्थायित्व
 Stability of propensity to consume उपभोग प्रवृत्ति की स्थिरता
 Stability of value मूल्य-स्थिरता, मूल्य-स्थायीकरण
 Stability of wants आवश्यकताओं की स्थिरता
 Stable bond market policy स्थिर/स्थायी बॉन्ड बाजार नीति
 Stable equilibrium स्थायी समतोल, स्थिर संतुलन
 Stable equilibrium at full employment पूर्ण रोजगार बिन्दु पर स्थिर संतुलन
 Stable growth स्थायी वृद्धि
 Stable money स्थिर मुद्रा
 Stable price स्थिर कीमत
 Staff benefit fund कर्मचारी लाभार्थ निधि
 Stag स्टॉक-क्रेता—एक ऐसा सट्टेबाज जो नये कम्पनियों के हिस्सों को खरीदने के लिए इस विचार से प्रार्थनापत्र देता है कि वह उन्हें छोड़े समय के बाद ही मुताके पर बेच सके।
 Stage, agricultural कृषि अवस्था
 Stage, handicraft हस्तशिल्प/दस्तकारी अवस्था
 Stage, hunting शिकार अवस्था
 Stage, industrial उद्योग अवस्था
 Stage, pastoral पशु-चारण अवस्था, पशु पालन अवस्था
 Stage of mass consumption जन-उपभोग की अवस्था
 Stage of maturity परिपक्वता की स्थिति
 Stage of pre-take-off उत्पादन-पूर्व अवस्था
 Stage of take-off उत्पादन/उत्थान अवस्था
 Stage of traditional society परम्परागत समाज की स्थिति/अवस्था
 Stages of economic development आर्थिक विकास की अवस्थाएँ
 Stages of economic growth आर्थिक संवृद्धि की अवस्थाएँ
 Stages of planning आयोजन की अवस्थाएँ
 Staggering लाभार्थ हिरतों की खरीद
 Stagnant economy प्रवृद्ध अवस्था
 Stagnation वृद्धिरोध
 Stagnation in savings बचतों में वृद्धिरोध
 Stagnation theory/theosis गतिरोध सिद्धान्त वृद्धिरोध सिद्धान्त/प्रवृद्ध
 Stagnationist गतिहीनतावादी, वृद्धिरोधतावादी
 Stairstop curve सीढ़ीनुमा वक्र
 Stale cheque गतवधि बैंक, पुराना बैंक
 Stamp duties स्टाम्प शुल्क, मुद्रांक शुल्क
 Stamped bond विशेष शर्तें बॉन्ड, विशेष शर्तें बंध पत्र
 Stamped money मुद्रांक द्रव्य
 Stamped money plan डाक टिकट मुद्रा योजना
 Stamped money reformer मुद्रांकित मुद्रा-सुधारक
 Standard मानक, मान
 Standard, gold bullion स्वर्ण मानक मान
 Standard, gold currency स्वर्ण मुद्रा मानक मान
 Standard, gold exchange स्वर्ण विनिमय मानक मान
 Standard classification मानक वर्गीकरण
 Standard coin प्रमाण टंक, पूर्णकाम सिक्के
 Standard commodity आधार वस्तु, प्रामाणिक वस्तु
 Standard credit स्थायी साध्य
 Standard deviation मानक विचलन
 Standard earning मानक कमाई
 Standard of comfort सुख-प्रमाण, सुविधा-मानक मान
 Standard of efficiency कुशलता-मानक मान
 Standard error मानक त्रुटि
 Standard goods मानक वस्तुएँ
 Standard hour plan मानक घंटा योजना
 Standard item मानक वस्तु
 Standard money प्रामाणिक मुद्रा
 Standard of cost लागत-मानक मान
 Standard of deferred payments स्थगित-योग्य प्रमाण, स्थगित भुगतान का मान

Standard of life जीवन-प्रमाण, जीवनस्तर
 Standard of living रहन-सहन का स्तर
 Standard of living of community समुदाय का जीवन-स्तर

Standard of service सेवा मान
 Standard of value मूल्य-मान
 Standard profits मानक लाभ
 Standard rent प्रमाण किराया, मानक लगान
 Standard schemes प्रमाण योजनाएँ
 Standard tariff मानक प्रशुल्क
 Standard tool मानक उपकरण
 Standard value मानक/प्रमाण ग्रहण/मूल्य

Standard volume of unemployment

बेरोजगारी की 'मानक' मात्रा—जहाँ बेरोजगारी की मात्रा इस सीमा तक घटा दी जाती है कि मजदूरी की मौद्रिक दरें धम के सीमागत उत्पाद की गति के समान बढ़ने लगती हैं।

Standardisation प्रमापीकरण, मानकीकरण
 Standardisation, industrial औद्योगिक मानकीकरण
 Standardisation of goods वस्तुओं का मानकीकरण
 Standardisation of wages मजदूरी मानकीकरण
 Standardised assessment प्रामाणिक कर-निर्धारण
 Standardised birth rate प्रमापीकृत/मानकीकृत जन्म-दर
 Standardised death rate प्रमापीकृत/मानकीकृत मृत्यु-दर
 Standardised goods प्रमापीकृत/मानकीकृत वस्तुएँ
 Standardised product/commodity मानकीकृत वस्तु
 Standardised production प्रमापीकृत/मानकीकृत उत्पादन
 Standardised weights and measures मानकीकृत माप और तौल के बट्टे
 Stand-by arrangement आपत्कालीन प्रबंध
 Stand-by controls आपत्कालीन नियंत्रण
 Stand-by credit आपत्कालीन ऋण

Stand-by equipment आपत्कालीन साज-सामान
 Standing Advisory Committee on Agricultural Credit कृषि-साक्ष के लिए स्थायी सलाहकार समिति

Standstill agreements यथास्थिर समझौते
 Staple commodities/goods प्रमुख वस्तुएँ
 Staple exports प्रधान निर्यात
 Starvation wages फाका-मजदूरी

State Agricultural Corporation राज्य कृषि निगम

State capitalism राज्य पूँजीवाद—यह एक श्रष्टपट और भ्रामक शब्द है जिसका प्रयोग पूँजीवादी श्रमव्यवस्था में कुछ मात्रा में राजकीय स्वामित्व और पूँजी-नियंत्रण के लिए किया जाता है। कई पूँजीवादी समाजों में संसदीय पद्धति के आधीन कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, कुछ आरोही कर लगा दिए जाते हैं, कुछ हद तक सम्पत्ति की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जाती है। इन सभी उपायों का उद्देश्य आय तथा सम्पत्ति का पुनर्वितरण है, परन्तु राज्य का मूल स्वरूप पूँजीवादी होने के कारण ये सभी उपाय, चाहे राज्य के आधीन स्वामित्व को बढ़ाते हैं परन्तु ये समाजवाद की स्थापना नहीं करते। इसी कारण लेनिन ने इस प्रकार के फेबियन उपायों (Fabian methods) के फलस्वरूप जनित समाज को समाजवादी समाज न पुकार कर, इसे राज्य पूँजीवाद के नाम से सम्बोधित किया। शब्द 'राज्य पूँजीवाद' को कई बार राज्य समाजवाद के पर्यायवाची के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।

State capitalist राज्य पूँजीपति
 State co-operative banks राज्य सहकारी बैंक
 State enterprise राजकीय उद्यम/उद्योग
 State excise duties राजकीय उत्पादन-शुल्क
 State farming राजकीय कृषि/खेती
 State interference राजकीय/राज्य हस्तक्षेप
 State intervention राजकीय/राज्य हस्तक्षेप
 State farm सरकारी खेत, सरकारी फार्म
 State Financial Corporation राजकीय/राज्य वित्त निगम

State government enterprises राज्तीय सरकारी
उद्यम

State money राजकीय मुद्रा/करैन्सी

State monopoly राजकीय/सरकारी एकाधिकार

State of balance or state of rest संतुलन
अवस्था विषयम अवस्था

State of disequilibrium असंतुलन की स्थिति

State of long-term expectations दीर्घकालीन
प्रत्याशाओं/प्राशंसाओं की अवस्था

State ownership राज्य-स्वामित्व

State Planning Commission राज्य योजना आयोग

State policy राज्य की नीति

State provident fund राज्य भविष्य निधि/पूर्वो-
पार्थी कोष

State revenue राजकीय आगम, सरकारी आय,
सरकारी राजस्व

State sector राजकीय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र

State taxation राजकीय करारपान

State of technical knowledge तकनीकी ज्ञान-
कारी की अवस्था

State theory of money मुद्रा की राजकीय
धारणा—जितना सबसे बड़ा समर्थक जी० एफ०
नैप (G. F. Knapp) था ।

State trade राज्य-व्यापार/राजकीय व्यापार

State trading राज्य-व्यापार

State Trading Corporation राज्य-व्यापार निगम

State trading enterprises राज्य व्यापार उपक्रम

State treasury राज्य-कोषागार

State tribunals राज्तीय व्यापारिककरण

State undertakings राजकीय उपक्रम

State Warehousing Board राज्य भंडार गृह/
मंडल/भाण्डागार बोर्ड

Statewise estimates राज्यवार अनुमान

Stateless राज्यहीन

Stateless society राज्यहीन समाज

Statesmanship राजमर्मज्ञता, राजनीतिमत्ता

Statement of the law नियम का कथन/वर्णन

Statement of the theory of interest व्याज
के सिद्धांत का निरूपण

Static analysis स्थैतिक विश्लेषण—सैद्धान्तिक
अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें संतुलन की
विभिन्न स्थितियों का विश्लेषण किया जाता
है । स्थैतिकी में संतुलन स्थितियों की परिभाषा
की जाती है और विभिन्न संतुलन स्थितियों की
आवश्यकताओं का वर्णन किया जाता है । किन्तु
स्थैतिकी में संतुलन तक पहुँचने के मार्ग या उन
विभिन्न स्थितियों का अध्ययन नहीं किया जाता
जिनमें से कोई अर्थव्यवस्था गुजरती है । न ही
इसमें संतुलन तक पहुँचने के समय का अध्ययन
किया जाता है । उदाहरणार्थ, सुपरिचित कीमत
तथा उत्पाद-निर्धारण का विश्लेषण आर्थिक
स्थैतिकी का ही प्रयोग है । तुलनात्मक स्थैतिकी
(Comparative Statics) में इस बात का
अध्ययन किया जाता है कि अर्थव्यवस्था एक
संतुलन स्थिति से दूसरी स्थिति में कैसे पहुँचती
है ।

Static assumptions स्थैतिक मान्यताएँ

Static economics स्थैतिक अर्थशास्त्र

Static economy स्थैतिक अर्थव्यवस्था

Static equilibrium स्थैतिक संतुलन

Static models स्थैतिक मॉडल/प्रतिमान

Static situation स्थैतिक स्थिति

Static theory स्थैतिक सिद्धान्त

Static theory of foreign exchange विदेशी
विनिमय का स्थैतिक सिद्धान्त

Static welfare theory स्थैतिक कल्याण सिद्धांत

Static worker स्थैतिक श्रमिक

Static technique स्थैतिक प्रविधि/तकनीक

Stationary स्थिर, स्थावर, स्थायी

Stationary economy स्थावर/स्थिर अर्थव्यवस्था

Stationary equilibrium स्थिर संतुलन

Stationary growth स्थावर वृद्धि

Stationary population स्थिर जनसंख्या

Stationary state स्थावर अवस्था—इसका अर्थ
अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति से है जिसमें एक काल
के पश्चात् दूसरे काल में केवल पुनरुत्पादन होता
है । प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, अर्थात् रिकार्डों और
जे० एम० मिल, यह विश्वास रखते थे कि तक-

- नीकी नवक्रियाओं (Technical Innovations) से हासमान प्रत्याय के प्रभाव को दूर करना सम्भव नहीं और इस प्रकार विकसमान पूँजीवादी अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे एक परिपक्व अर्थव्यवस्था की स्थावर अवस्था की ओर अग्रसर होती जाती है। कारण यह है कि जैसे विनियोग बढ़ता है, हासमान प्रत्याय के कारण लाभ की दर घटती चली जाती है और इस प्रकार लाभ घटते-घटते इतना कम हो जाता है कि नये पूँजी संचयन के लिए कोई प्रोत्साहन बाकी ही नहीं रह जाता। प्रतिष्ठित स्थावर अवस्था में, मजदूरी तो निर्वाह स्तर से बढ़ नहीं सकती, शुद्ध पूँजी-निर्माण शून्य होता है और अर्थव्यवस्था का उत्पादन अपने उच्चतम स्तर तक पहुँच चुका होता है।
- Stationary stock** स्थिर स्टॉक
- Statism** राज्यवाद—इस शब्द का प्रयोग अर्थ-व्यवस्था में बढ़ते हुए सरकारी हस्तक्षेप के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ, भारत में स्वतंत्र पार्टी सहकारी क्षेत्रों या कुछ उद्योगों को सरकारी स्वामित्व के अधीन करने के प्रयास को भी राज्यवाद की ओर प्रयास समझती है।
- Statistical accident** सांख्यिकीय संयोग
- Statistical approach** सांख्यिकीय विधि/दृष्टिकोण
- Statistical bureau** सांख्यिकी ब्यूरो
- Statistical committee** सांख्यिकी समिति
- Statistical concept** सांख्यिकीय धारणा
- Statistical correlation** सांख्यिकीय सहसंबंध
- Statistical demand curve** सांख्यिकीय माँग-वक्र
- Statistical department** सांख्यिकी विभाग
- Statistical discrepancy** सांख्यिकीय अन्तर/भेद/असंगति
- Statistical errors and omissions** सांख्यिकीय भ्रुटियाँ एवं भूलें
- Statistical form** सांख्यिकीय रूप
- Statistical inference** सांख्यिकीय निष्कर्ष
- Statistical laws** सांख्यिकीय नियम
- Statistical measurement** सांख्यिकीय माप
- Statistical realities** सांख्यिकीय वास्तविकताएँ
- Statistical review** सांख्यिकीय समीक्षा
- Statistical situation** सांख्यिकीय परिस्थिति
- Statistical statement** relating to the co-operative movement in India भारत में सहकारी आन्दोलन से संबंधित सांख्यिकीय सार-णियाँ
- Statistical survey** सांख्यिकीय सर्वेक्षण
- Statistical tables** relating to banks बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ
- Statistical unit** सांख्यिकीय एकक/इकाई
- Statistician** सांख्यिक, सांख्यिकीविद्
- Statistics** सांख्यिकी
- Statistics, applied** व्यावहारिक सांख्यिकी
- Statistics, economic** आर्थिक सांख्यिकी
- Statistics, food** खाद्य सम्बन्धी आँकड़े
- Statistics, industrial** औद्योगिक आँकड़े
- Statistics, labour** श्रम सम्बन्धी आँकड़े
- Statistics, livestock** पशुधन आँकड़े
- Statistics, vital** जीवनांक, जन्म-मरण सम्बन्धी आँकड़े
- Statistics, wage** मजदूरी सम्बन्धी आँकड़े
- Statistics of exports** निर्यात के आँकड़े
- Statistics of imports** आयात के आँकड़े
- Statistics of production** उत्पादन के आँकड़े
- Status** हैसियत, मर्यादा, स्थिति
- Status quo** यथापूर्व स्थिति
- Status symbol** commodity प्रतिष्ठा वस्तु, "सामाजिक-स्तर प्रतीक" वस्तु
- Statutory agency** सांख्यिक एजेंसी
- Statutory corporation** वैधानिक निगम
- Statutory deposits** वैधानिक जमा
- Statutory law** सांख्यिक नियम
- Statutory marketing monopoly** सांख्यिक विपणन एकाधिकार
- Statutory maximum prices** परिनियत अधिकतम मूल्य
- Statutory organisation** सांख्यिक संगठन
- Statutory report** वैधानिक रिपोर्ट
- Statutory rationing system** वैधानिक राशनिंग प्रणाली
- Statutory undertakings** सांख्यिक उपक्रम

- Steady growth सतत आर्थिक विकास, अद्विगत विकास
- Steel, structural इमारती इस्पात
- Steel forging and casting इस्पात की गढ़ी और हली वस्तुएँ
- Steel rolling mill इस्पात रोलिंग मिल
- Steeply progressive taxation अत्यधिक प्रगतीशील कराधान
- Steep slope गहरी ढाल, सीधी ढाल
- Step system of taxation कराधान की सीपान पद्धति
- Sterile ex-post equations निष्फल वास्तविक समीकरण
- Sterilisation नसबंदी, बन्धनकरण
- Sterilisation camps बन्धनकरण शिविर, नसबंदी केंद्र
- Sterling स्टर्लिंग
- Sterling area स्टर्लिंग-क्षेत्र**—इसके अन्तर्गत उन देशों का समूह शामिल किया जाता है जो अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रारक्षण पाउण्ड स्टर्लिंग के रूप में ब्रिटिश वैली के पास रखते हैं। इसमें कनाडा को छोड़ राष्ट्र मण्डल के सभी अन्य देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आइसलैण्ड, आयरलैण्ड, बर्मा, जॉर्डन, लिविया भी इसके सदस्य हैं। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान स्टर्लिंग क्षेत्र देश ग्रेट ब्रिटेन को वस्तुओं का निर्यात करते रहे और बदले में ग्रेट ब्रिटेन से पर्याप्त आयात न हो सका। परिणामतः स्टर्लिंग देशों द्वारा भारी मात्रा में अधिनेय इंग्लैंड में जमा हो गया जिसे स्टर्लिंग अधिवेध कहते हैं। इंग्लैंड ने युद्ध के पश्चात् इस स्टर्लिंग अधिवेध को अचञ्चल खाता करार दिया और बाद में इंग्लैंड ने अपनी सुविधानुसार श्रेष्ठतावादी देशों को इसका भुगतान कर दिया।
- Sterling area system स्टर्लिंग-क्षेत्र प्रणाली
- Sterling balances स्टर्लिंग-शेष/पावना
- Sterling bills स्टर्लिंग-विषय/बिल
- Sterling block स्टर्लिंग-देश-समूह/ब्लॉक
- Sterling bonds स्टर्लिंग बॉन्ड
- Sterling debt स्टर्लिंग ऋण
- Sterling exchange स्टर्लिंग विनिमय
- Sterling exchange standard स्टर्लिंग विनिमय-मान
- Sterling loans स्टर्लिंग उधार
- Sterling securities स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ
- Stickiness of interest rates व्याज-दरों की संलग्नता
- Stickiness of wages मजदूरी संलग्नता
- Sticky prices सलागी कीमत
- Stipulated period नियत अवधि
- Stipulated rate नियत दर
- Stipulated service नियत सेवा
- Stochastic model यादृच्छिक मॉडल**—दो या दो से अधिक आर्थिक चलों में सम्बन्ध को व्यक्त करने वाला फार्मूला या फार्मूलों का समूह। इस मॉडल में विशिष्ट सांख्यिकी मान्यताओं के प्राचीन कुछ हद तक शुद्ध स्वीकार कर ली जाती है। इन सम्बन्धों को ठीक-ठीक ढंग से व्यक्त न कर सकने के कारण इस मॉडल के समीकरण परिपूर्ण नहीं होते। कुछ अर्थशास्त्रियों की तो यह विश्वास है कि मानवीय क्रियाओं को मॉडलों की सहायता से अभिव्यक्त करना असंभव है क्योंकि इन पर अनेक ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता। यादृच्छिक मॉडल इस दृष्टि से उपयोगी माने जा सकते हैं कि ये वास्तविक जटिल परिस्थितियों का शीघ्रनिर्णय में अर्थपूर्ण हैं।
- Stock स्टॉक, स्तम्भ, संचयन, संग्रह, भण्डार
- Stock, buffer बफर स्टॉक, प्रतारोधिक स्टॉक
- Stock, capital पूँजी-स्टॉक, पूँजी सप्ल
- Stock, closing इतिथेय मान, रूढ़िवा, संवरण-शेष
- Stock, reserve सुरक्षित स्टॉक/भंडार
- Stock appreciation स्टॉक अधिमूल्यन, पूँजी की मूल्य-वृद्धि
- Stock broker स्टॉक ब्रोकर, कम्पनी के हिस्सों का दलाल
- Stock certificate स्तम्भ-प्रमाणपत्र, स्टॉक प्रमाणपत्र
- Stock concept संग्रह-धारणा/स्टॉक धारणा

Stock depreciation स्टॉक मूल्यह्रास
 Stock exchange हिस्सा बाजार, स्कन्ध विनिमय बाजार
 Stock exchange clearing house स्कन्ध-समा-
 चोपन-गृह
 Stock exchange market हिस्सा-बाजार
 Stock exchange securities स्टॉक/हिस्सा बाजार की प्रतिभूतियाँ
 Stock exchange speculation शेयर बाजार के सट्टे
 Stock-holder स्टॉकधारी, स्टॉक धारक, स्कन्धधारी
 Stock holders' equity स्कन्धधारियों की हिस्सा-
 पूँजी—इसके अन्तर्गत कुल स्कन्ध-पूँजी और प्रति-
 घृत भाग्य (Retained Earnings) शामिल की जाती हैं। स्कन्धधारियों की हिस्सा पूँजी का खाता तैयार करते हुए पूँजी के खोन पर बल दिया जाता है। इसके दो भाग हैं, एक तो स्कन्ध-
 धारियों के योगदान द्वारा काम की गई हिस्सा-
 पूँजी और दूसरे प्रतिघृत भाग्य से प्राप्त हिस्सा
 पूँजी। सामान्यतः शुद्ध भाग्य और स्कन्धधारियों
 की हिस्सा पूँजी का अनुपात निगम की सफलता
 का मापदण्ड माना जाता है।
 Stock in hand हस्तगत स्कन्ध, हस्तगत स्टॉक
 Stock-in-trade बिक्री का माल
 Stock jobber स्टॉक का आड़तिया, स्कन्ध
 व्यापारी—सरकारी हुण्डी का लेन-देन करनेवाला
 Stock market स्कन्ध बाजार, हिस्सा बाजार
 Stock market boom हिस्सा बाजार की तेजी
 Stock minded स्टॉक-प्रवृत्त, स्कन्ध प्रवृत्त
 Stock of intermediate products माध्यमिक
 उत्पादों का स्टॉक, अन्तर्वर्ती वस्तुओं का सग्रह
 Stock of value मूल्य का भण्डार
 Stock option स्कन्ध विकल्प—एक ऐसा सविदा
 जिसके अनुसार किसी क्रेता को एक निश्चित
 अवधि में एक विशेष कीमत पर स्कन्ध की एक
 विशिष्ट मात्रा खरीदने या बेचने का विशेषाधिकार
 होता है। कई निगम अपने उच्चाधिकारियों को
 धर्ममान बाजार मूल्य पर कम्पनी के स्कन्ध खरी-
 देने का विकल्प देने हैं। इस कारण उच्चाधिकारी

कम्पनी के लिए दिल लगा कर काम करते हैं
 क्योंकि यदि कम्पनी फलती-फूलती है, तो इसके
 स्कन्ध की कीमत भी समवतः बढ़ती है और इस
 प्रकार विकल्प का मूल्य भी बढ जाता है। कोई
 भी कर्मचारी जब यह अनुभव करता है कि परि-
 स्थिति अत्यंत उचित है, तो वह अपने विकल्प का
 प्रयोग करता है। यदि वह अपने स्कन्ध को लाभ
 पर बेच देता है, तो उसके लाभ को पूँजी-लाभ
 (Capital gain) कहा जाता है और वृत्तिक
 कर्मचारी को इस पर कम कर देना पड़ता है।
 Stockpiling भंडार जमा करना, संचयन, पुद्-
 संचयन—सामरिक कच्चे माल का क्रय और संच-
 यन
 Stock right स्कन्ध अधिकार—किसी कम्पनी के
 स्कन्धधारियों को यह एक प्रकार का प्राप्त विशेषा-
 धिकार होता है जिसके अनुसार वे, अन्य व्यक्तियों
 की तुलना में जो स्कन्धधारी नहीं हैं, अपेक्षाकृत
 कम कीमत पर अतिरिक्त स्कन्ध खरीद सकते हैं।
 Stock taking स्टॉक गणन, मात जाँचना, स्टॉक
 लेना
 Stock watering स्टॉक अधिनियमन
 Stocks and shares स्कन्ध एवं हिस्से, स्टॉक और
 शेयर
 Stockist स्टॉकिसट, भाडारी
 Stop-loss हानि रोकने का आदेश—जैसा कि इसके नाम
 से ही स्पष्ट है इसका उद्देश्य हानि को सीमित
 करने का निर्देश है। इस शब्द का प्रयोग प्रति-
 भूतियों के क्रय-विक्रय के लिए किया जा सकता
 है और यह हिस्सों के दलाल (Stockbroker)
 को एक आदेश होता है कि जब कीमतें गिर रही
 हों, तो वह हिस्सों को एक निश्चित बाजार
 कीमत पर बेच दे और जब कीमतें बढ़ रही हों,
 तो उन्हें खरीद ले।
 Stoppages of productive activity उत्पादन
 क्रिया में अवरोध
 Stop-watch work बालनिष्ठ कार्य
 Storable commodity भंडार योग्य वस्तु
 Storage capacity सग्रहण क्षमता
 Storage charges गोदाम-भाड़ा, सग्रहण-भाड़ा

- Storage of food अन्न-संग्रहण
- Storage potential सग्रहण-सामर्थ्य
- Storage work canals संचायक नहरें
- Store, departmental बहु-विभागी भंडार
- Store house भांडागार, भंडार
- Store of value मूल्य-सचय, मूल्य का संग्रह
- Straddle संविदा (स्टॉक एक्सचेंज)**—इस संविदा के द्वारा धारक को एक निश्चित समय में प्रौर एक निश्चित कीमत पर स्टॉक को खरीदने या बेचने का अधिकार होता है। साधारणतया, यह क्रय एव विक्रय विकल्प का सम्मिश्रण होता है। यदि धारक इनमें से किसी भी विकल्प का प्रयोग कर सके, तो वह दूसरे विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकता।
- Straight time सामान्य समय, काम के सामान्य घंटे, नियत कार्यकाल
- "Strait-jacket of 1925-31" 1925-31 की संकटपूर्ण प्रवस्था**—स्वर्णमान के पुनःस्थापन की दुःखद घटना इंग्लैंड के लोगों के मन में संकटपूर्ण प्रवस्था के रूप में सदैव स्मरण रहेगी।
- Strategic factors निष्पत्तिक कारक, महत्त्वपूर्ण कारक
- Strategic materials सामरिक सामग्री
- Strategic variable केन्द्रीय चल**—केन्द्र के रोजगार के सामान्य सिद्धांत में निवेश एक केन्द्रीय चल है क्योंकि रोजगार में वृद्धि तभी हो सकती है जब निवेश में वृद्धि हो।
- Strategy of balanced growth संतुलित विकास की विधि
- Strategy of deferred rapid growth स्थगित द्रुत विकास की युक्ति
- Strategy of development विकास-युक्ति
- Strategy of economic growth आर्थिक संवृद्धि की युक्ति
- Strategy of immediate rapid growth शीघ्र द्रुत विकास की शैली/युक्ति
- Strategy of plan योजना की विकास-विधि
- Strategy of planning in India भारतीय आयोजन की विकास-विधि
- Strategy of technical dualism प्राविधिक द्वैधता की युक्ति
- Strategy of unbalanced growth असंतुलित विकास की विधि
- Stratification, occupational व्यावसायिक स्तरीकरण
- Street price पटरी कीमत, बायीं कीमत
- Street trade पटरी घषा
- Stretch out अधिक काम कराना
- Strict planning कठोर आयोजन
- Strike हड़ताल
- Strike, demonstration प्रदर्शन हड़ताल
- Strike, desperation निराशास्य हड़ताल, हताश हड़ताल
- Strike, enforcement नाग्नकारी हड़ताल
- Strike, general आम हड़ताल
- Strike, general industry उद्योगव्यापी हड़ताल
- Strike, illegal अवैध हड़ताल, गैरकानूनी हड़ताल
- Strike, jurisdiction अमलदारी हड़ताल
- Strike, lightening तत्काल हड़ताल
- Strike, negative सस्वात्मक हड़ताल
- Strike, partial आंशिक हड़ताल
- Strike, positive माँग हड़ताल
- Strike, secondary सम्पर्क हड़ताल
- Strike, sit-down परना**—ऐसी हड़ताल जितमें हड़ताली अपने स्थान पर बैठे रहते हैं।
- Strike, sympathetic सहानुभूति हड़ताल**—इस शब्द का प्रयोग ऐसे अधिकारी की हड़ताल से है जिन्हें अपने नियोजक के विरुद्ध तो कोई गिला न हो, परन्तु वे इसलिए काम बन्द कर देते हैं ताकि किसी सम्बन्धित मजदूर संघ की हड़ताल को उनकी हमदर्दी का लाभ हो। इसके बाद द्वितीयक हड़ताल (Secondary strike) भी कहते हैं।
- Strike, multiplied गुणित हड़ताल
- Strike, threatened आघातित हड़ताल, अन्वेषित हड़ताल
- Strike, unlawful अवैध हड़ताल, गैर-कानूनी हड़ताल

- Strike, vacation अवकाश हड़ताल
 Strike bound हड़ताल प्रस्त
 Strike breaker हड़ताल तोड़ने वाला, हड़ताल भेदक
 Strike committee हड़ताल समिति
 Strike fund हड़ताल निधि
 Strike insurance हड़ताल बीमा
 Strike notice हड़ताल अधिसूचना
 Strike pay हड़ताल वेतन
 Striker हड़ताली
 Strike vote हड़ताल मत
 Strikes and lockouts हड़तालें एवं तालबंदियाँ
 Strong deflationary movement तेज़ संकुचन-कारी प्रवृत्ति
 Strong feel प्रबल अनुभूति
 Struck goods हड़तालरालीन माल
 Structural analysis संरचनात्मक विश्लेषण
 Structural changes संरचनात्मक परिवर्तन
 Structural disequilibrium at the factor level साधन-स्तर पर संरचनात्मक असाम्य/असंतुलन
 Structural inflation संरचनात्मक स्फीति/प्रसार
 Structural rigidities of the economy अर्थव्यवस्था के ढाँचे सम्बन्धी वेलोचताएँ/कठोरताएँ
 Structural stability संरचनात्मक स्थायित्व
 Structural under-employment संरचनात्मक अल्परोज़गार
 Structural unemployment संरचनात्मक बेरोज़गारी—द्विमी अर्थव्यवस्था के परिवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप नौकरियों की कमी अथवा हानि। रोज़गार पर प्रभाव डालने वाले मुख्य संरचनात्मक परिवर्तनों में त्रिनका रोज़गार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, शामिल किए जाने वाले में उपभोक्ताओं की रुचियाँ, तकनीकों की कसर, जनसंख्या-वृद्धि और सरकारी नीतियाँ शामिल हैं। कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में तकनीकी और उपभोक्ता रुचियों में दीर्घकालीन परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ उद्योग तो तुल्य हो जाते हैं और परिणामतः बेरोज़गारी उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि उत्पादन की माँग और धर्मिकों के संभरण को प्रभावित कर बेरोज़गारी पर असर डालती है। आज के युग में जब कि सरकार का कार्य भाग बढ़ गया है, तो सरकार की व्यय एवं कर नीतियाँ भी बेरोज़गारी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।
- Structure and character of towns नगरों की संरचना और स्वरूप
 Structure of production उत्पादन का गठन/ढाँचा
 Structure of taxation कराधान संरचना
 Struggle for existence जीवनार्थ संघर्ष
 Students' store विद्यार्थी भंडार
 Studies in the national income राष्ट्रीय आय के अध्ययन
 Study team on public sector undertakings सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का अध्ययन-दल
 Sub-category उप-श्रेणी, उप-वर्ग
 Subdivided bar अन्तर्विभक्त दंड
 Subdivided bar diagram अन्तर्विभक्त दण्डचित्र
 Sub-division and fragmentation उप-विभाजन और खंडन
 Sub-division of holdings जोड़ों का उपविभाजन
 Subject-matter of contract संविदा विषय
 Subject-matter of economics अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु
 Subjective burden of taxation व्यक्तपरक कर-भार
 Subjective concept व्यक्तिनिष्ठ धारणा
 Subjective condition व्यक्ति-सापेक्ष शर्तें
 Subjective cost व्यक्तिपरक लागत
 Subjective element आत्मनिष्ठ तत्व
 Subjective estimate आत्मनिष्ठ अनुमान
 Subjective information आत्मनिष्ठ जानकारी/सूचना
 Subjective sacrifice doctrine आत्मनिष्ठ त्याग सिद्धान्त
 Subjective value व्यक्तिपरक मूल्य
 Subjectivity of satisfaction मनुष्य की व्यक्ति-पररना

Subletting शिकमी पट्टेदारी
 Sub-manufacture उपनिर्माण
 Sub-marginal level श्रवसीमान स्तर, अनुशीलित स्तर
 Submission सम्प्रेषण
 Subnormal equilibrium उपनान्य साम्य/संतुलन
 Subnormal period उपनान्य अवधि
 Subnormal profits उपनान्य लाभ
 Sub-optimum उप-अनुकूलतम
 Subordinate bodies मातहत निकाय, अधीनस्थ निकाय
 Subordinate factor अधीन माघन/कारक
 Sub-process उप-प्रक्रिया
 Sub-sale उपविक्रय, उपविक्री
 Subscribed capital प्रापित पूंजी, अभिदत्त पूंजी
 Subsequent units अनुवर्ती इकाइयाँ
 Subsidiary banks अनुपंगी/महायुक्त बैंक
 Subsidiary coin सहाय टंक
 Subsidiary companies अनुपंगी कम्पनियाँ
 Subsidiary firm अनुपंगी/महायुक्त फर्म
 Subsidiary industry सहाय/महायुक्त उद्योग
 Subsidiary money सहायक मुद्रा—सिकके सहायक मुद्रा के रूप में छोटे मुद्राओं के लिए चलाये जाने हैं।
 Subsidiary occupation सहायक व्यवसाय
 Subsidize साहाय्य देना
 Subsidised articles साहाय्य-प्राप्त वस्तुएँ
 Subsidised industrial housing scheme साहाय्यित औद्योगिक आवास योजना
 Subsidized loan साहाय्य ऋण
 Subsidized price differential साहाय्यित कीमत-अंतर
 Subsidized rates साहाय्यित दरें
 Subsidy साहाय्य, अर्थसाहाय्य
 Subsidy, export निर्यात उपदान/साहाय्य
 Subsistence निर्वाह, जीवन-निर्वाह, उपजीविका
 Subsistence, means of निर्वाह-साधन
 Subsistence agriculture निर्वाह खेती

Subsistence allowance निर्वाह भत्ता, गुजारा भत्ता
 Subsistence economy निर्वाह-मूलक प्रयंध्यवस्था
 Subsistence farmers जीवन-निर्वाह, गुजर-बसर करने वाले किसान
 Subsistence farming निर्वाह खेती
 Subsistence fund निर्वाह कोष
 Subsistence level निर्वाह-स्तर, जीवन-स्तर
 Subsistence money निर्वाह राशि, निर्वाह भत्ता
 Subsistence oriented निर्वाह प्रेक्षित
 Subsistence sector निर्वाह क्षेत्र
 Subsistence wage निर्वाह मजदूरी

Subsistence theory of wages मजदूरी का निर्वाह सिद्धान्त—18वीं सताब्दी के पिछले भाग और 19वीं सताब्दी के पहले भाग में प्रतिष्ठित प्रयंथास्त्रियों, विशेषकर माल्थस द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि दीर्घकाल में मजदूरी जीवन-निर्वाह के एक आवश्यक न्यूनतम भौतिक स्तर के बराबर ही हो सकती है। इस सिद्धान्त के पक्ष में तर्क इस प्रकार है : चूंकि साखान्न वा उत्पादन जननस्थिति की तीव्र वृद्धि के अनुकूल नहीं बढ़ सकता, इसलिए जननस्थिति वा आकार लगभग उस स्तर पर धारक स्थिर ही आया जिम पर कि लोगों का जीवन-निर्वाह हो सकता है। यदि मजदूरी आवश्यक जीवन-निर्वाह स्तर से कम हो जाएगी, तो लोग अधिक मात्रा में मरने लगेंगे, परिणामतः श्रम का संभरण गिर जाएगा और फिर मजदूरी बढ़ जाएगी। यदि मजदूरी निर्वाह-स्तर से अधिक होगी, तो अधिक संख्या में बच्चे पैदा होंगे क्योंकि परिवार इनका पोषण कर सकेंगे। परिणामतः श्रमिकों का संभरण बढ़ जाएगा और मजदूरी गिर जाएगी। इस सिद्धान्त को मजदूरी का लोह सिद्धान्त भी कहा जाता है क्योंकि इसके अनुसार मजदूरी निर्वाह-स्तर के दहर-उपर नहीं हो सकती।

इस सिद्धान्त की कठोरता को जीवन-स्तर सिद्धान्त ने कम किया जिसके अनुसार मानव जीवन में निर्वाह वा अर्थ केवल न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के रूप में ही नहीं लेना चाहिए बल्कि परम्परा और आदतों पर धारित जीवन-

स्तर लेना चाहिए। चूँकि ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्धान्त प्रमाणित न हो सका और योरोप और समुचित राज्य अमेरिका में मजदूरी के स्तर निर्वाह-स्तर से वही अधिक बढ़ गए, अर्थशास्त्रियों ने अब इस सिद्धान्त का परित्याग कर दिया है। मार्क्स-वादियों को छोड़, आज मजदूरी का सीमान्त उत्पादित सिद्धान्त सबसे अधिक स्वीकार्य माना जाता है।

Sub-situations उप-परिस्थितियाँ

Substantial economies विपुल मितव्ययताएँ

Substantial incentive ठोस प्रलोभन

Substantial security पर्याप्त प्रतिभूति

Substantial tangible security ठोस गोचर
श्रृंखलाधार

Substitutability स्थानापत्ति योग्यता, प्रतिस्था-
पनीयता

Substitutability of factors साधनों की प्रति-
स्थापनीयता

Substitute स्थानापन्न वस्तु

Substitute, close निबट स्थानापन्न वस्तु

Substitute, closely competing निबट प्रतियोगी
स्थानापन्न वस्तु

Substitute, imperfect अपूर्ण स्थानापन्न

Substitute, perfect पूर्ण स्थानापन्न

Substitute, remote दूरस्थ स्थानापन्न वस्तुएँ

Substitute of money मुद्रा-स्थानापन्न

Substituted policy प्रतिस्थापित नीति

Substitution स्थानापत्ति, स्थानापन्नता

Substitution, diminishing marginal rate of
ह्रासमान सीमान्त स्थानापन्न दर

Substitution, elasticity of स्थानापत्ति की लोच

Substitution, law of स्थानापत्ति नियम

Substitution, technical rate of स्थानापत्ति की
तकनीकी दर

Substitution analysis स्थानापत्ति विश्लेषण

Substitution curve प्रतिस्थापन वक्र

Substitution effect स्थानापत्ति प्रभाव, स्थानापन्न
प्रभाव

Substitution effect with a fall in the

price of one commodity किसी वस्तु का
कीमत में गिरावट के फलस्वरूप स्थानापत्ति
प्रभाव

Substitution elasticity स्थानापत्ति लोच, स्थाना-
पन्न लोच

Substitution ratio प्रतिस्थापन अनुपात

Sub-unit उप-इकाई

Suburb उपनगर, शाखा-नगर, नगर शाखा, नगराचल

Suburban उपनगरीय

Subventions आर्थिक सहायता, राजसहाय्य—
इस पद का प्रयोग सरकार या किसी अन्य
फाउण्डेशन से प्राप्त विशेष अनुदान या अर्थसहाय्य
के रूप में किया जाता है।

Succession duty उत्तराधिकार कर

Succession tax उत्तराधिकार कर

Successive doses उत्तरोत्तर मात्रा

Successive industrial process क्रानुक्रमिक
औद्योगिक उत्पादन क्रिया

Successive round of expenditure क्रमिक व्यय
के दौर

Successive utility curve क्रमिक उपयोगिता वक्र

Sudden pressures अचानक दबाव

Sudden reversal अचानक प्रतिपरिवर्तन

Sugar industry चीनी उद्योग

Suggestion bonus सुझाव बोनस

Suggestion system सुझाव-पद्धति

Suitable economic organisation उचित आर्थिक
संगठन

Suitable taxes उपयुक्त कर

Suitability of the foreign technique and
knowledge विदेशी तकनीक और ज्ञान की
अनुकूलता

Sumptuary allowance आतिथ्य भत्ता, सरकार
भत्ता

Sumptuary excises व्यय-नियन्त्रक उत्पादन शुल्क

Sumptuary legislation व्यय नियन्त्रक विधान

Sumptuary tax व्यय नियन्त्रक कर—यह कर
हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर लगाया जाता
है। भारत में शराब पर लगाया जाने वाला कर

इसका उदाहरण है। मध्ययुग में विलास-वस्तुओं का उपभोग प्रायः हानिकारक समझा जाता था। इसलिए इनके उपभोग को निरस्तारहित करने के लिए यह कर लगाया जाता था। आज भी विलास-वस्तुओं पर अनेकानेक अधिक कर लगाए जाते हैं और इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि जो व्यक्ति इनका प्रयोग करना चाहते हैं, वे प्रतिरिक्त कर देने की क्षमता रखते हैं।

Sum payable देय-राशि

Sums of money मुद्रा राशि

Sundry and other charges फुटकर खर्च

SUNFED (Special U. N. Fund for Economic Development) आर्थिक विकासार्थ विशेष संयुक्त राष्ट्र निधि

Sunk costs निष्पन्न पूँजी—इसका अर्थ निरस्वायी संयंत्र एवं मशीनरी पर किए गए ऐसे व्यय से है जो परिहृत्य न हो। यदि यह संयंत्र विसिष्टीकृत है और इसका प्रयोग केवल एक उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है (जैसे लौह कारखाने में स्टास्ट फर्नेस या स्टास्ट भट्ठी), तो इस संयंत्र का प्रयोग कारखाने में करना ही होगा, चाहे इससे लाभ हो या हानि। कारण यह है कि इस संयंत्र में तो पूँजी लगी ही दी गयी है और इसे किसी और प्रयोग में लाया नहीं जा सकता।

Sun-spot theory of trade cycle व्यापार-चक्र का सूर्य-धरा सिद्धांत—इस सिद्धांत को जेवन्स (Jevons) द्वारा प्रतिपादित किया गया। सूर्य में धब्बों के स्थान-परिवर्तन होने के कालस्वरूप सूर्य की किरणों की तीव्रता में परिवर्तन होता है और इस प्रकार वर्षों की मात्रा में परिवर्तन होता है। इसका प्रभाव फसल पर पड़ता है और परिणामतः देश की आर्थिक क्रिया और समृद्धि इससे विचलित होती है। जेवन्स का मत था कि सूर्य के धब्बों के स्थान-परिवर्तन और व्यापार-चक्र में एक सह-सम्बन्ध है। आज इस सिद्धांत को कोई भी नहीं मानता क्योंकि यह व्यापार चक्रों को पूर्णतया बाह्यकारणों से सम्बन्धित करता है।

Superannuation fund अधिवयन निधि, पार्थक्य-निवृत्ति भत्ता

Superannuation payment अधिवयन अदायगी

Super-company महा-कम्पनी

Super-corporation महा-निगम

Super de luxe श्रेयधिक आर्वासात

Super-entrepreneurs उच्चकोटि के उद्यमकर्ता

Superfluous population फलतः जनसंख्या, प्रति-रिक्त जनसंख्या

Super-marginal purchase अधिसीमान्त क्रय

Super-multiplier अधिगुणक

Super-national Central Bank अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक

Super-normal profit अधिसामान्य लाभ

Super-profit अधिलाभ

Super-tax (= surtax) अधिकर

Superior commodity श्रेष्ठ वस्तु

Superiority of indirect taxes परोक्ष करों की श्रेष्ठता

Superiority of planned economy आयोजित अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता

Superiority of socialist pricing समाजवादी कीमत-निर्धारण की श्रेष्ठता

Supervision order परिरोक्षण/निरीक्षण आदेश

Supervision and co-ordination पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं समन्वय

Supervisor पर्यवेक्षक/निरीक्षक

Supervisory personnel पर्यवेक्षण कर्मचारी

Supplemental unemployment benefits अनुपूरक बेरोजगारी लाभ—ईंटी किए गए या बेरोजगार श्रमिकों को राज्य बेरोजगारी शीपिंग योजना से प्राप्त होने वाले लाभ। घाम तीरे पर ये लाभ विकसित देशों में बेरोजगार व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रमिकों को बेरोजगारी के काल के दौरान उनकी आय का 40-45 प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। ये लाभ दो प्रकार की योजनाओं से उपलब्ध होते हैं: (i) निधि-वृद्ध या बीमा योजना; और (ii) वैयक्तिक स्वास्थ्य सेवा या वचत-संगठन योजना। इन लाभों के लिए, नियोजकों को योगदान या वैयक्तिक स्वास्थ्य निधि से वित्त जुटाया जा सकता है। जब इस निधि में धन

राशि कम हो, तो बेरोजगार व्यक्तियों का प्राप्त-लाभ की मात्रा कम की जा सकती है।

अनुपूरक बेरोजगारी लाभ योजना का एक परिणाम तो यह हुआ है कि नियोजक अतिरिक्त श्रमिकों को नौकरी पर लगाने से हिचकिचाते हैं और इसी प्रकार, यह भी अनुभव किया गया है कि बेरोजगार व्यक्ति नया रोजगार प्राप्त करने के कम इच्छुक हो जाते हैं।

Supplementary activities अनुपूरक क्रियाएँ

Supplementary budget अनुपूरक बजट

Supplementary cost पूरक लागव

Supplementary employment सहायक राजगार, अनुपूरक रोजगार

Supplementary industries अनुपूरक उद्योग

Supplementary tax rates कर की अनुपूरक-दर

Supplementary works programme अनुपूरक निर्माण कार्यक्रम

Supplier सभरणकर्ता, संचारक, सम्भरक, प्रदायक

Supply सभरण, प्रदाय, पूर्ति, आपूर्ति

Supply, competitive प्रतियोगी सभरण

Supply, composite समूहित सभरण

Supply, contraction of सभरण का संकुचन

Supply, decrease of सभरण में कमी

Supply, elasticity of सभरण की लोच/संचक

Supply, extension of सभरण का विस्तार

Supply, increase of सभरण में वृद्धि

Supply, inelastic लोचहीन सभरण, बेलोच सभरण

Supply, interdependent अन्तःनिर्भर सभरण

Supply, joint समुक्त सभरण

Supply, law of सभरण का नियम

Supply, potential सभाव्य सभरण, पूर्ति क्षमता

"Supply always creates its own demand"

"पूर्ति स्वयं ही अपनी माँग उत्पन्न कर लेती है"

Supply and demand सभरण और माँग

Supply bill सभरण विपत्र/विल

Supply curve सभरण वक्र

Supply curve, constant स्थिर सभरण वक्र

Supply curve, long run दीर्घकालीन सभरण वक्र

Supply curve, short run अल्पकालीन सभरण वक्र

Supply curve of the perfectly competitive industry पूर्णतया स्पर्धी उद्योग का सभरण वक्र

Supply of labour श्रम का सभरण

Supply of money मुद्रा का सभरण

Supply officials सभरण अधिकारी

Supply price सभरण कीमत

Supply price of capital asset पूँजी परिसम्पत् की सभरण कीमत

Supply of saving बचत का सभरण

Supply schedule सभरण अनुसूची

Supply of work कार्य की पूर्ति

Support prices साहाय्यित कीमतें

Suppressed Inflation दमित स्फीति, प्रवृद्ध

स्फीति—इस परिस्थिति में स्फीतिकारी दबाव तो अर्थव्यवस्था में दिदामान होते हैं, परन्तु वे प्रत्यक्ष कीमत नियन्त्रण या राशनिंग के कारण दबे रहते हैं। कीमत नियन्त्रण के कारण उपभोग वस्तुओं की कीमतें पूर्ति कम होने पर भी अधिक बढ़ नहीं सकती, चाहे चोर बाजार का विकास इनकी धोर संकेत करता है। द्वितीय विश्वयुद्ध में कीमत नियन्त्रण एव राशनिंग द्वारा स्फीतिकारी प्रभावों को सीमित किया गया। परन्तु जैसे ही नियन्त्रण या राशनिंग हटाये जाते हैं, कीमतें एकदम बढ़ने लगती हैं। भारत में तो कई बार सरकार को मजबूर होकर पुनः नियन्त्रण लागू करने पड़े।

Suppression दमन, निग्रहण

Supra-marginal land अधिक-सीमान्त भूमि

Supra-marginal units अधिकसीमान्त इकाइयाँ

Supra-national अधिक-राष्ट्रीय

Supremacy सर्वोच्चता, श्रेष्ठता

Surcharge अधिक-भार

Surcharges on stamp duty स्टाम्प शुल्क पर अधिकभार

Surety प्रतिभू, जामिन, वन्धक, जमानत देने वाला

Surplus अधिकशेष, अतिरिक्त, शेष, अधिकतम, वैशी

Surplus, acquired उपार्जित अधिकशेष, अर्वाप्त अधिकशेष

- Surplus, analysis of प्रतिरेह/वैली का विश्लेषण
- Surplus, appraisal (= Appreciation surplus) मूल्य-वृद्धि जन्य प्रतिरेह का विश्लेषण
- Surplus, appropriated विलिपजित अधिशेष
- Surplus, budgetary बजटीय अधिशेष
- Surplus, buyer's क्रेता-अधिशेष
- Surplus, capital पूँजी-अधिशेष
- Surplus, consumer's (= Consumer's rent) उपभोक्ता-प्रतिरेह
- Surplus, divisible विभाष्य अधिशेष
- Surplus, donated अनुदान अधिशेष
- Surplus, earned अर्जित अधिशेष
- Surplus, export निर्यात प्रतिरेह, निर्यात अधिशेष
- Surplus, external बाह्य अधिशेष
- Surplus, farm खेती जन्य प्रतिरेह
- Surplus, marketable विक्रय अधिशेष
- Surplus, net निवल अधिशेष
- Surplus, paid-in प्रभिनत अधिशेष
- Surplus, peacetime शांतकालीन अधिशेष
- Surplus, producer's उत्पादक अधिशेष
- Surplus, recapitalisation पुनः पूँजीकरण अधिशेष
- Surplus, reorganisation पुनर्गठन अधिशेष
- Surplus, reserved आरक्षित अधिशेष
- Surplus, saver's बचतकर्ता-अधिशेष
- Surplus, seller's विक्रेता अधिशेष/प्रतिरेह
- Surplus, worker's श्रमिक अधिशेष
- Surplus, agricultural labour प्रतिरिक्त कृषि-श्रमिक
- Surplus balance फलतु-अधिशेष
- Surplus budget प्रतिरेह बजट
- Surplus country बचत वाला देश—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा शेष के दृष्टिकोण से किसी देश का बचत का देश तब कहा जाता है जब भुगतान-शेष घटु-कृत होने के कारण उद्य देश की मुद्रा इस काव में उस देश के प्रारम्भिक दृष्टि से कम हा जाये ।
- Surplus demand प्रतिरिक्त मांग
- Surplus from government enterprises सरकारा उद्यमों से प्राप्त अधिशेष
- Surplus fund प्रतिरिक्त निधि
- Surplus in current revenues चालू राजस्व में प्रतिरेह
- Surplus investments प्रतिरिक्त विलिपयोग
- Surplus labour प्रतिरिक्त श्रम
- Surplus labour power प्रतिरिक्त श्रम-शक्ति
- Surplus man-power प्रतिरिक्त मानव-शक्ति
- Surplus potential संभावित अधिशेष, प्रतिरिक्त क्षमता
- Surplus produce प्रतिरेह उत्पादन
- Surplus product बेशी उत्पादन
- Surplus profits प्रतिरिक्त लाभ
- Surplus purchasing power प्रतिरिक्त क्रय-शक्ति
- Surplus reserve प्रतिरिक्त आरक्षण
- Surplus stock प्रतिरिक्त स्टॉक, फलतु स्टॉक
- Surplus value वैशी मूल्य—काल भावर्त और अन्य समाजवादियों द्वारा यह सिद्धान्त विकसित किया गया कि किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन पर व्यय किए गए सामाजिक दृष्टि से आवश्यक श्रम के समान होना चाहिए । इस तर्क से यह निष्कर्ष निकाला गया कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र उत्पादक साधन है और इस कारण वह समस्त उत्पादक मूल्य का हकदार है परन्तु उसे तो निर्वाह के लिए इसका कुछ भाग ही दिया जाता है और पूँजीपति शेष लाभ या प्रतिरेह मूल्य अपने पास रख लेता है । चूँकि पूँजीपति श्रमिक का श्रेय हड़प कर जाता है, इसलिए प्रतिरेह मूल्य का अनुपात शाषण की शीघा को निर्धारण करता है और मार्क्सवादी द्वांन में यह वर्ग-द्वन्द्व का साधारण है ।
- Surplus value, absolute निरपेक्ष प्रतिरेह मूल्य
- Surplus value, relative सापेक्ष प्रतिरेह मूल्य
- Surplus of wage goods मजदूरी वस्तुओं के प्रतिरेह
- Surrendered holding समर्पण जोत
- Surrender to landlord मूषति के प्रति समर्पण
- Surrender value समर्पण मूल्य—वह नकद राशि जो कोई बीमा कम्पनी जीवन बीमा पाविसी के

धारक को देना स्वीकार करती है यदि वह इसे परिपक्वता तिथि से पूर्व बन्द करने का निर्णय कर ले। समर्पण मूल्य की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि धारक ने बीमा किस्तों के रूप में कितना पैसा दिया है और पालिसी की वितनी अवधि बाकी है।

Surtax अधिकार—पहले ही लगे हुए कर पर उसी कर-आधार पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर। उदाहरणार्थ, आयकर के परिकसन के लिए आय को आधार मान कर एक धारोही आय कर लगाया जाता है परन्तु इस कर को और अधिक धारोही बनाने के लिए एक अतिरिक्त राशि या एक और कर (प्रथम अधिकार) उसी आय पर लगा दिया जाता है।

Survival of the fittest योग्यताभावशेष

Survival rate जीवित शेष-दर

Survivorship annuity उत्तरजीवी वार्षिकी

Suspense account उर्वत खाता, निलम्बित लेखा

Suspension निलम्बन

Sustainable growth धारणीय संवृद्धि—इसका अर्थ राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की उस वृद्धि से है जिसे दीर्घकाल के लिए कायम रखा जा सके। धारणीय आर्थिक संवृद्धि की प्रतिवार्य धारत यह है कि विकास प्रक्रिया प्रवृद्ध न हो जाए। धारणीय आर्थिक विकास में अतिरिक्त जनसंख्या को रोजगार तथा अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएँ उपलब्ध करानी पड़ेंगी। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक कल्याण से है। प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार किसी देश में धारणीय संवृद्धि की स्थिति उत्थान-प्रवस्था (Take-off stage) को पार करने के पश्चात् उत्पन्न होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत से अर्थशास्त्रियों ने 2-3 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि-दर उचित मानी है।

Sustained austerity निरन्तर मितोपभोग

Sustained economic growth प्रवृद्ध आर्थिक विकास

Sweated labour शोषित श्रम—श्रमिकों को निम्न मजदूरी, काम की घटिया दशाओं और अधिक

समय के लिए लगाना। सामान्यतया, यह श्रम के शोषण का तरीका है जिसका श्रमिक के नैतिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

Sweated labour argument शोषित श्रम तर्क

Sweated trades शोषित श्रम घन्धे

Sweet heart agreement छद्मवेशी संबिदा—

एक ऐसी घटिया किस्म की सन्धि जो किसी बेईमान मजदूर संघ नेता द्वारा किसी मिल-मालिक से घूस लेकर की गई हो। छद्मवेशी संबिदा अष्ट मजदूर नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित की जाती है। कई मिल मालिकों पर यह दोष लगाया जाता है कि वे कुछ मजदूर मजदूर संघों को कमजोर करने के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें मालिकों का विश्वास प्राप्त है, प्रतियोगी मजदूर संघ लड़े करवा देते हैं। कई देशों में यदि यह साबित कर दिया जाए कि मजदूर नेताओं ने घूस लेकर सन्धि करवायी है, तो वे उस संघ का सौदागरी एजेंट का प्रमाणपत्र समाप्त कर देते हैं।

Switch operation अन्तरण क्रियाएँ—रिजर्व बैंक अपने निवेशों में संतुलन रखने के लिए तथा निवेशकर्ताओं की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय समय पर एक श्रेणी के ऋण-पत्रों को बेचकर दूसरी श्रेणी के ऋण-पत्रों का क्रय-विक्रय करता है।

Symbiosis सह-उत्पादक वर्ग—इस शब्द का प्रयोग व्यक्तियों की उस समूह-रचना से किया जाता है जो उत्पादन के लिए संगठित हो। उदाहरणार्थ, इनमें से प्रत्येक अपने लिए यथासंभव कार्य कर सकता है या इनमें श्रम-विभाजन की एक भारी मात्रा विद्यमान हो सकती है।

Symbolic delivery प्रतीक मुद्राई

Symbol of evil बुराई का प्रतीक—'कार्टेल' शब्द लोगों के लिए एक बुराई का प्रतीक बन गया है।

Symmetrism मिश्र धातुमान—इस शब्द का प्रयोग सिक्कों में कीमती धातुओं के सम्मिश्रण के रूप में किया जाता है। सिक्कों में दो या दो से

अधिक धानुओं (सोना एवं चांदी) का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग एक ऐसी मौद्रिक प्रणाली के रूप में भी किया जाता है जिसमें कागजी मुद्रा के समर्थन के लिए स्वर्ण एवं चांदी रखे जाते हैं और कागजी मुद्रा इन दोनों धानुओं के निश्चित अनुपात में परिवर्तित की जा सकती है।

Symmetrical सममित, प्रतिसम, समुलित

Symmetry एकसा-पन, सममिति, प्रतिसाम्य

Sympathetic changes सहानुभूतिक परिवर्तन

Syndicalism श्रमिक संघवाद, संघाधिपत्यवाद—

श्रमिक संघवाद आन्दोलन के शर्यक राज्य एवं आर्थिक व्यवस्था में मजदूर संघों को सर्वोच्च स्थान देते हैं। उनके अनुसार उद्योगों का नियंत्रण मजदूर संघों के आधीन होना चाहिए और इन संघों के महासंघ (Federation) को ही राज्य व्यवस्था का उच्चतम प्राधिकार माना जाना चाहिए। श्रमिक-संघवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन में विश्वास रखते हैं। वे समाज के दो वर्गों में युद्ध (Two class war) में विश्वास रखते हैं। इस युद्ध में प्रत्यक्ष क्रिया ही उनका मार्ग है। वे तोड़-फोड़ द्वारा पूंजीपतियों को भयभीत करना चाहते हैं। इनकी धारणा यह है कि संसदीय प्रणाली से समाजवाद की स्थापना असंभव है। वे समझते हैं कि तोड़-फोड़ की क्रियाओं से वे एक दिन सारे देश के श्रमिकों द्वारा सम्पूर्ण हड़ताल (General strike) करवाएंगे जिसके फलस्वरूप आर्थिक ढाँचे की गति स्तब्ध हो जाएगी और परिणामतः पूंजीवादियों की विवश होकर घुटने टेकने पड़ेगे और श्रमिक समाजवाद की स्थापना कर सकेंगे। रूस में क्रान्तिकारी आन्दोलन से पूर्व यह आन्दोलन इटली और स्पेन में बड़ा बल पकड़ गया था परन्तु रूस में साम्यवाद के विकास से यह पृष्ठभूमि में चला गया। यह समाजवाद का वामपंथी आन्दोलन है।

Syndicalism, criminal उग्र संघाधिपत्यवादी

Syndicalism, neo- नव सिंडीकेटवाद, नव संघाधि-पत्यवाद

Syndicalism, revolutionary क्रान्तिकारी संघाधि-पत्यवाद

Syndicate समिपद, सिंडीकेट, संघ—इस शब्द का प्रयोग कुछ व्यक्तियों, व्यापारिक संगठनों या बैंकों के उस समूह के रूप में किया जाता है जो किसी ऐसे उद्यम के चलाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं जिसमें भारी गाना में पूंजी चाहिए।

Syndicated oligopoly व्यवसायी संघ अल्प-धिकार

Synthetic product संश्लिष्ट उत्पाद

Synthetic substitutes संश्लिष्ट स्वामानसि वस्तु

System of compulsory delivery of food-grains अनिवार्य खाद्य-वस्तु प्रणाली

System of commodity production पन्थ वस्तु उत्पादन प्रणाली

System of deferred payments स्थगित भुगतान पद्धति

System, economic ऋण प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था

System, free enterprise मुक्त उद्यम प्रणाली

System, monetary मुद्रा प्रणाली, मौद्रिक व्यवस्था

System of flexible exchange rate लोचपूर्य विनिमय-दर प्रणाली

System of land tenure भू-धारण पद्धति

System of multilateral clearing बहुपक्षीय समासौधन-प्रणाली

System of multiple exchange rates धनक/बहु विनिमय-दर प्रणाली

System of mutual exchanges पारस्परिक विनिमय प्रणाली

System of prices कीमत-प्रणाली, कीमत-पद्धति

System of progression आरोहण पद्धति

System of rigid tariffs कठोर टैरिफों की प्रणाली

System of secret rebates गुप्त बट्टा प्रणाली

System of universal rationing व्यापक राशन व्यवस्था

System of work-relief कार्य-सहायता की व्यवस्था

Systematic body of economic theory आर्थिक सिद्धान्त का व्यवस्थित ढाँचा

T

Tableau Economique प्राथिक सारणी—1785

में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री क्वेनै (Quesnay) ने अर्थ-व्यवस्था में धन के प्रवाह को एक चित्र द्वारा प्रस्तुत किया। इस सारणी में तीन आर्थिक वर्गों में भेद किया गया (i) उत्पादक वर्ग उन व्यक्तियों पर आधारित था जो कृषि में कार्य करते थे, (ii) स्वामी वर्ग जिनमें सम्पत्ति के मालिक तथा नागरिक कर्मचारी (Civil servants) शामिल थे, और (iii) अनुत्पादक वर्ग जिसमें व्यापारी, विनिर्माता और नौकर शामिल थे। इस सारणी के अनुसार उत्पादक वर्ग सभी धन उत्पन्न करता था जो अर्थव्यवस्था में परिभ्रमण के पश्चात् फिर उसी वर्ग के पास लौट आता था जिसने उसे उत्पन्न किया हो।

क्वैने का यह मत था कि कुल उत्पन्न धन में से 40 प्रतिशत उत्पादक वर्ग अपने पोषण के लिए रख लेता था, 20 प्रतिशत अनुत्पादक वर्ग को कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए दे देता था और शेष का 40 प्रतिशत स्वामी वर्ग को लगान और करों के रूप में दिया जाता था। इसमें से कम-से-कम 40 प्रतिशत भोजन पर व्यय किया जाता और परिणामतः वह उत्पादक वर्ग को लौट आता और लगभग 50 प्रतिशत अनुत्पादक वर्गों को विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए दिया जाता। अनुत्पादक वर्ग द्वारा कुल में से प्राप्त 40 प्रतिशत फिर उत्पादक वर्ग के पास खाद्य तथा अन्य साधन प्राप्त करने के बशले पहुँच जाता। कुल मिलाकर परिणाम यह होता कि सभी धन उत्पादक वर्ग के पास लौट आता।

क्वैने की सारणी सम्भवतः समष्टि-अर्थशास्त्र में पहला प्रयास था जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में धन के उत्पादन और वितरण का विश्लेषण किया गया।

Taboo नियेय

Tabular or index number standard सारणी

अथवा सूचीबद्ध मान

Tabular standard (=Isometric standard

of value) सूचकांक प्रमाप—इसका आधार सुव्यवस्थित ढंग से सकलित कीमत सूचकांक से है।

Tabular statement सारणी-पत्र, सारणीबद्ध विवरण

Tacit agreement मौन समझौता

Tacit collusion अव्यक्त गठबन्धन

Take-home pay निवल वेतन, हस्तगत वेतन—सब प्रकार की काट के बाद प्राप्त वेतन। मजदूरी या वेतन का वह भाग जिसे श्रमिक घर ले जा सकता है या जिसको खर्च करने के सम्बन्ध में वह पूर्णतः स्वतन्त्र है।

Take-off in economic development

प्राथिक विकास में उत्थान अवस्था/उठान अवस्था—प्रोफेसर रोस्टो ने अपनी पुस्तक **The Stages of Economic Growth : A Non-communist Manifesto** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि किसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में उठान अवस्था वह क्रान्तिक बिन्दु है जिस पर आर्थिक विकास के विरुद्ध पारम्परिक समाज के विरोध समाप्त हो जाते हैं और लगातार आर्थिक विकास के लिए निर्माण शक्तियाँ बल पकड़नी हैं। प्रेट ब्रिटेन में यह उठान अवस्था 1783 के बाद के दो दशकों, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1860 से कुछ दशक पहले, जर्मनी में उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे चतुर्थ-भाग, जापान में चौथे चतुर्थ-भाग और भारत और चीन में 1950-60 के दौरान व्यक्त हुई। इनमें से प्रत्येक देश में तीव्र आर्थिक विकास के पूर्व की शर्तें पूरी हो चुकी थीं : सामाजिक उपरिपूर्वी का पर्याप्त स्टॉक स्थापित हो चुका हो, उद्योग और कृषि में तकनीकी विकास हो चुका हो; सत्तारूढ़ शासन वर्ग ऐसे व्यक्तियों पर आधारित हो जो प्राधुनिकीकरण के लिए वचनबद्ध हो और जो देश में प्रतिव्यक्ति आय की तीव्र वृद्धि को राष्ट्रीय प्राथिक नीति का उद्देश्य मानते हो। अतः उठान अवस्था की अनिवार्य शर्त यह है कि विनियोग दर बढ़ कर 10-12 प्रतिशत हो जाए, नये विनिर्माण उद्योगों का विकास हो जाए और

आयव्योपित विकास के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं संस्थानात्मक शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाए ताकि लोगों की प्रायः धीरे जीवन-स्तर उन्नत हो सके।

Take-off stage उठान अवस्था, उत्थान अवस्था

Take over bids स्वामित्वाधिकार में लेने का प्रस्ताव—किसी कम्पनी द्वारा किसी अन्य कम्पनी के सभी या अधिकतर हिस्सों को क़य करने का प्रस्ताव ताकि दूसरी कम्पनी उसके स्वामित्वाधीन आ जाए। इसान उद्देश्य दूसरी कम्पनी पर नियन्त्रण प्राप्त करना है ताकि बड़े पैमाने के उत्पादन से प्राप्त मितव्ययताओं का लाभ उठाया जा सके।

साम्राज्यवादी साहित्य में इस पद का अर्थ किसी गैर-सरकारी कम्पनी एवं संस्थान को सरकारी स्वामित्व के अधीन करने के प्रस्ताव से है।

Tale मसुना—सह्यानुसार वस्तु-गणना, वजन के अनुसार नहीं

Tangency point स्पर्शिता बिन्दु

Tangent to the price line कीमत रेखा पर स्पर्शक

Tangible moveable property गोचर प्रस्थावर सम्पत्ति

Tangible national wealth गोचर राष्ट्रीय संपत्ति

Tangible personal wealth/property गोचर अकितगत सम्पत्ति

Tangible security गोचर श्रुत्यावार/जमानत

Tangible wealth गोचर सम्पत्ति

Tank irrigation तालाबों द्वारा सिंचाई

Tap प्रतीमित प्रतिभूति विक्रय—द्वय शब्द का अर्थ किसी समय-विशेष पर किसी प्राधिकार द्वारा प्रतिभूतियों की प्रतीमित मात्रा में जारी करना है और उन्हें प्राधिकार से प्रत्यक्ष रूप से खरीदने का अधिकार देना है (चाहे किसी एक व्यक्ति द्वारा क्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों की मात्रा की सीमित किया जा सकता है)। छोटे व्यवहक्तकों के लिए अधिकतर सरकारी प्रतिभूतियाँ—राष्ट्रीय मत्त सर्विफिकेट, प्रतिरक्षा बॉड, प्रीनियम बॉड—

सभी इसी प्रकार की प्रतिभूतियाँ हैं। कुछ राज-कोषीय पत्र भी विक्रय प्रतिभूतियों के रूप में जारी किए जाते हैं।

Tardiness rate दिव्यिधता-दर

Target लक्ष्य

Targeted rate of growth विकास की लक्षित दर

Tariff टैरिफ, शुल्क-दर, शुल्क-पद्धति, प्रशुल्क

Tariff, ad valorem मथामूल्य प्रशुल्क/टैरिफ

Tariff, anti-dumping प्रतिपाटन शुल्क

Tariff, compensating प्रतिपूरक प्रशुल्क

Tariff, compound (=Compound duty)

मिश्रित प्रशुल्क/टैरिफ

Tariff, compromise समझौताकारी टैरिफ/शुल्क दरें

Tariff, countervailing प्रतिकारी प्रशुल्क

Tariff, customs सीमा शुल्क

Tariff, differential विभेदक प्रशुल्क

Tariff, educational शैक्षणिक प्रशुल्क

Tariff, flexible लोचनीय टैरिफ, नम्य प्रशुल्क

Tariff, lowering of टैरिफ घटाना

Tariff, multipart बहुभागीय टैरिफ, बहुसत्रीय प्रशुल्क

Tariff, multiple बहुविध प्रशुल्क

Tariff, preferential अधिमानी टैरिफ/प्रशुल्क

Tariff, protective संरक्षक प्रशुल्क

Tariff, public सार्वजनिक टैरिफ

Tariff, retaliatory प्रतिकार टैरिफ/प्रशुल्क

Tariff, revenue राजस्वदायक टैरिफ/प्रशुल्क

Tariff, sectional अनुभाषपरक टैरिफ/प्रशुल्क

Tariff, selective चयनात्मक प्रशुल्क

Tariff, single schedule एकल अनुसूची टैरिफ

Tariff, sliding scale वितर्षी प्रशुल्क

Tariff, specific विशिष्ट प्रशुल्क

Tariff, standard मानक टैरिफ/प्रशुल्क

Tariff, two-part द्विभागी टैरिफ/प्रशुल्क—गैर,

द्वितीय और टैलीफोन प्रादि सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए ये विभेदात्मक दातव्य है जो उपयोग की सभी मात्रा के साथ परिवर्तित होते

रहते हैं। इनमें उपभोक्ता को एक निश्चित राशि किराये के रूप में देनी पड़ती है और दूसरा भाग उपभोग की गयी मात्रा के अनुसार देना पड़ता है। उदाहरणार्थ, टेलीफोन के लिए एक तो निश्चित किराया देना पड़ता है, चाहे कितनी ही 'कॉल' ब्यो न की जाए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कॉल के लिए एक राशि देनी पड़ती है।

इसी प्रकार बिजली के सम्बन्ध में एक सीमा तक उपभोग के पश्चात् इकाई-दर कम कर दी जाती है। कई बार उपभोक्तियों को एक न्यूनतम राशि तो देनी पड़नी है और शेष इकाइयों पर उपभोग के उद्देश्य के अनुसार राशि देनी पड़ती है। उदाहरणार्थ, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कम इकाई-दर और घरेलू उपभोग के लिए अपेक्षाकृत अधिक इकाई-दर चलायी जाती है।

Tariff agreement प्रशुल्क सविद्ध/समझौता/करार

Tariff Board टैरिफ बोर्ड, प्रशुल्क मण्डल

Tariff charge प्रशुल्क प्रभार

Tariff Commission प्रशुल्क आयोग

Tariff Committee प्रशुल्क समिति

Tariff concession प्रशुल्क अवमोचन/रियायत

Tariff duty प्रशुल्क

Tariff negotiations प्रशुल्क सबधी वार्ता

Tariff preference टैरिफ तरजीह, प्रशुल्क अधिमान

Tariff price प्रशुल्क मूल्य

Tariff protection शुल्कदर संरक्षण

Tariff quota प्रशुल्क अभ्यंश, टैरिफ-कोटा

Tariff rate प्रशुल्क दर

Tariff reform प्रशुल्क सुधार

Tariff Revision Committee प्रशुल्क पुनर्विचार समिति

Tariff rulings प्रशुल्क नियमावलि

Tariff schedule प्रशुल्क अनुसूची

Tariff schedule, common सामान्य टैरिफ अनुसूची

Tariff valuation प्रशुल्क मूल्यांकन

Tariff value प्रशुल्क मूल्य

Tariff value schedule प्रशुल्क-मूल्य अनुसूची

Tariff wall प्रशुल्क-दीवार, प्रशुल्कजन्य अवरोध

Tariff war टैरिफ-युद्ध, प्रशुल्क-युद्ध—दो या दो

से अधिक देशों के बीच व्यापार आकर्षित करने के लिए टैरिफ-भेद नीति, वाणिज्यिक रियायतों आदि के रूप में प्रतियोगिता।

Task Bonus कार्यबद्ध भत्ता—इस शब्द का प्रयोग मजदूरी की उस पद्धति से है जिसमें एक कार्य निश्चित कर दिया जाता है और श्रमिक के लिए यह कार्य एक निर्धारित समय में पूरा करने की शर्त लगा दी जाती है। यदि श्रमिक इस कार्य को निर्धारित समय में पूरा कर देता है, तो वह बोनस का हकदार बन जाता है। कार्यबद्ध बोनस की गैर प्रणाली (GANTT system) में कार्य-सम्बन्धी बड़ी बड़ी शर्तें रखी जाती हैं और यदि श्रमिक इसमें विफल हो जाएँ, तो बोनस नहीं दिया जाता। परन्तु एमरसन (Emerson) तथा अन्य प्रणालियों में, एक अधिक युक्तियुक्त कार्य निश्चित किया जाता है और श्रमिक का बोनस श्रमिक द्वारा इस कार्य को समाप्त करने के समय के अनुपात में दिया जाता है।

Task wage कार्यबद्ध मजदूरी, नियतकार्य भत्ता

Task work नियत कार्य

'Taste obstacle' theory 'रसि अवरोधक' सिद्धांत

Tax कर

Tax, ad valorem यथामूल्य कर

Tax, agricultural income कृषि आय कर

Tax, amusement विनोद कर

Tax, apportioned अनुभाज्य कर/विभाजित कर

Tax, backward shifting पश्चगामी पन्तरणशील कर

Tax, beer मदिरा-कर

Tax, bequests वसीयत कर

Tax, betterment समुन्नति कर, खुशहाली कर

Tax, betting वाजी कर

Tax, business profit व्यापार-लाभ कर

Tax, callings (=Occupation tax) आजीविका

कर, वृत्ति कर, व्यवसाय कर

Tax, capital gains पूँजी-लाभ कर

Tax, capitalisation of कर वा पूँजीकरण

Tax, capital stock पूँजी-स्टॉक कर

Tax, capitation (=Head tax=Poll tax)

प्रति व्यक्ति कर

- Tax, classified** वर्गीकृत कर, वर्गीकृत कर
Tax, commodity पण्य कर, वस्तु कर
Tax, consumption उपभोग कर
Tax, corporation निगम कर
Tax, death मृत्यु कर
Tax, delinquent उद्भ्रात कर, बकाया महसूल
Tax, differential विभेदक-कर
Tax, direct प्रत्यक्ष कर
Tax, double point द्वि-बिन्दु कर
Tax, employment रोजगार कर, व्यवसाय कर
Tax, entertainment मनोरंजन कर
Tax, estate सम्पदा कर
Tax, excess profit अधिकलाभ कर
Tax, excise उत्पादन-कर
Tax, expenditure व्यय-कर
Tax, export निर्यात कर
Tax, forest वन कर
Tax, forward shifting अग्रान्तरणशील कर
Tax, general property सामान्य सम्पत्ति कर
Tax, general sales सामान्य बिक्री कर
Tax, gift उपहार कर
Tax, graded श्रेणीबद्ध कर, वर्गित कर
Tax, graduated प्रगामी कर
Tax, gross receipts सबल प्राप्ति कर
Tax, head (=Poll tax=Capitation tax) प्रति व्यक्ति कर
Tax, hidden प्रच्छन्न कर
Tax, horse घोड़ा कर
Tax, house गृह कर
Tax, ideal आदर्श कर
Tax, impact of कर शेषता, कर-प्राप्ति
Tax, incidence of कर-प्राप्ति
Tax, income आय कर
Tax, indirect परोक्ष कर
Tax, inheritance दाय कर, उत्तराधिकार कर
Tax, in lieu स्थाने कर, एवजी कर
Tax, land भूमि-कर
Tax, land-value भू-मूल्य कर
Tax, lumpsum एकमुश्त कर
Tax, luxury विलास कर
Tax, multi बहुकर
Tax, multiple बहुविध कर
Tax, multiple point बहु-बिन्दु (विक्री) कर, बहु स्तर (विक्री) कर
Tax, municipal नगरपालिका कर
Tax, non-differential समप्रभावी कर
Tax, normal सामान्य कर
Tax, nuisance कष्टक/अपद्रव कर
Tax, occupation व्यवसाय कर
Tax, pay-roll वेतन चिट्ठा कर
Tax, personal वैयक्तिक कर
Tax, pilgrim तीर्थयात्री कर
Tax, poll व्यक्ति कर
Tax, presumptive सानुमानिक कर, प्रकल्पित कर
Tax, privilege विशेषाधिकार कर
Tax, processing विषयान कर
Tax, productive उत्पादक कर
Tax, profession व्यवसाय कर, पेशा कर
Tax, profits लाभ-कर
Tax, progressive प्रगामी कर, प्ररोही कर
Tax, property सम्पत्ति कर
Tax, proportional अनुपातिक कर
Tax, punitive दंडात्मक कर
Tax, purchase खरीद कर, क्रय कर
Tax, rate of कर की दर
Tax, real estate स्यावर सम्पदा कर
Tax, regressive प्ररोही कर
Tax, repressive दमनकारी कर
Tax, sales बिक्री कर
Tax, general sales सामान्य बिक्री कर
Tax, selective sales चिह्नित/चयनात्मक बिक्री कर
Tax, single-point sales एक-बिन्दु बिक्री कर
Tax, sovereignty सेंटवारा कर, विच्छेदन कर
Tax, shifting of कर अन्तरण
Tax, show प्रदर्शन कर
Tax, single एकमात्र कर
Tax, single point एक स्तर कर, एक-बिन्दु कर
Tax, social security सामाजिक सुरक्षा कर

Tax, specific विशिष्ट कर
 Tax, succession उत्तराधिकार शुल्क/कर
 Tax, sumptuary व्यय नियंत्रक कर
 Tax, super अधिकर
 Tax, sur प्रति/अधिकर
 Tax, terminal सीमा कर, चुंगी
 Tax, theatre नाटक कर, थियेटर कर
 Tax, toll राहदारी, पथकर
 Tax, trades व्यापार-कर
 Tax, turnover पण्यावर्त कर
 Tax, unproductive अनुत्पादक कर
 Tax, use उपयोग कर
 Tax, war profits युद्धजन्य लाभ-कर
 Tax, water जलकर
 Tax, wealth सम्पत्ति/धन कर
 Tax, yield उपज कर

Taxability करदेयता

Taxable कर देय, कर ग्राह्य, कर योग्य/भारोप्य

Taxable capacity करदेय क्षमता/सामर्थ्य—

इससे हमारा अभिप्राय किसी देश के लोगो की कर सहन करने की क्षमति से है अर्थात् किस सीमा तक लोगो पर कर लगाया जा सकता है। करदेय क्षमता को निर्धारित करना एक बहुत कठिन सवाल है क्योंकि यह इस बात पर भी निर्भर है कि राज्य सरकार करो से प्राप्त आय को कैसे खर्च करती है। करदेय क्षमता की सीमा उस बिन्दु पर निर्धारित होगी जहाँ अतिरिक्त कराधान के आर्थिक दृष्टि से हानिकारक प्रभाव होने लगे, उदाहरणार्थ, इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय कम हो जाए, विनियोग की मात्रा पर दुष्प्रभाव पड़े आदि, और ये हानिकारक प्रभाव अतिरिक्त करो द्वारा प्राप्त आय से राज्य द्वारा उपलब्ध सेवाओं के लाभदायक प्रभावो से अधिक हो जाएँ। वास्तव मे, करदेय क्षमता का निर्धारण लोगो पर लगाए गए करो से जनित अनुपयोगिताओ और अतिरिक्त करो से राज्य द्वारा निमित्त उपयोगिताओ की तुलना का प्रश्न है।

Taxable capacity, absolute पूर्ण करदेय सामर्थ्य/क्षमता

Taxable capacity, relative सापेक्ष करदेय क्षमता
 Taxable costs कर निर्धार्य परिव्यय, कर-भारोप्य लागतें

Taxable goods करयोग्य पदार्थ

Taxable income करयोग्य आय

Taxable inhabitant करयोग्य निवासी

Taxable profits करदेय लाभ

Taxable property करयोग्य सम्पत्ति

Taxable quantum करयोग्य मात्रा

Taxable territory करयोग्य प्रदेश/क्षेत्र, कराधान प्रदेश/क्षेत्र

Taxable turnover करयोग्य व्यापारावर्त

Taxable value करयोग्य मूल्य

Tax administration कर प्रशासन

Tax amortisation certificate कर परिशोधन प्रमाण-पत्र

Tax and bounties to correct mal-adjustments कुसमंजन सुधार कर एवं साहाय्य

Tax-anticipation bond कर शोधक बॉन्ड, कर अदायगी बंधपत्र

Tax assessment कर-निर्धारण

Taxation कराधान

Taxation, ability theory of कराधान का सामर्थ्य सिद्धान्त

Taxation, additional अतिरिक्त कराधान

Taxation, burden of कराधान-भार

Taxation, canons of कराधान के सिद्धान्त, कराधान सम्बन्धी प्रनियम

Taxation, compensatory principle of (= Benefit theory of taxation) कराधान का क्षतिपूरक सिद्धान्त

Taxation, degressive ह्रासी कर, अभोगामी कर

Taxation, diffusion theory of कराधान का विसरण सिद्धान्त

Taxation, direct प्रत्यक्ष कराधान

Taxation, discriminatory भेदमूलक कराधान

Taxation, distributional aspect of कराधान का वितरणत्मक पहलू

Taxation, double दोहरा कराधान

- Taxation, effects of कराधान के प्रभाव
- Taxation, equality of कराधान समता
- Taxation, equity in कराधान में न्याय
- Taxation, faculty theory of (=ability to pay theory) कराधान का सामर्थ्य सिद्धान्त
- Taxation, graduated प्रगामी/धारोही कराधान
- Taxation, impact of कर-संघात
- Taxation, incentive प्रेरक कराधान
- Taxation, incidence of कराधात
- Taxation, indirect अप्रत्यक्ष कराधान
- Taxation, international double अन्तर्राष्ट्रीय दोहरा कराधान
- Taxation, inter-state अन्तरराज्यीय कराधान
- Taxation, level of कराधान स्तर
- Taxation, local स्थानीय कराधान
- Taxation, marginal rate of कराधान की सीमात-दर
- Taxation, multiple बहुविध कराधान
- Taxation, non-marginal सीमाहतर कराधान
- Taxation, object of करारोपण/कराधान का उद्देश्य
- Taxation, objective burden of कराधान का धार्यनिष्ठ भार
- Taxation, over प्रति कराधान
- Taxation, principles of कराधान के सिद्धान्त
- Taxation, progressive धारोही/प्रगामी कराधान
- Taxation, proportional अनुपाती कराधान, अनुपातिक कराधान
- Taxation, real burden of कर का वास्तविक भार
- Taxation, regulatory नियामक कराधान
- Taxation, relative burden of कराधान का सापेक्षिक भार
- Taxation, slab system of कराधान की शिला पद्धति
- Taxation, state राजकीय कराधान
- Taxation, step system of कराधान की सीढ़ी पद्धति
- Taxation, structure of कराधान संरचना, कराधान का ढांचा
- Taxation, sumptuary उपभोग-व्यय कर, व्यव-निपेक्षक कराधान
- Taxation, theory of कराधान के सिद्धान्त
- Taxation according to ability योग्यतानुसार कराधान, सामर्थ्य/क्षमता के अनुसार कराधान
- Taxation and ability to work and save कराधान और कार्य तथा बचत करने की क्षमता
- Taxation and incentives in the under-developed country अल्पविकसित देश में कराधान तथा प्रेरणा
- Taxation and willingness to work and save कराधान और कार्य तथा बचत करने की इच्छा
- Taxation as an anti-inflationary instrument स्फीतिविरोधी अस्त्र के रूप में कराधान
- Taxation authority कराधान प्राधिकार
- Taxation Enquiry Commission कराधान जाँच आयोग
- Taxation for development विकासार्थ कराधान
- Taxation of corporate incomes निषण आय पर कर
- Taxation of costs लागतों का कराधान
- Taxation of income आय का कराधान
- Taxation of luxuries जितान वस्तु कर
- Taxation of personal incomes वैयक्तिक आय पर कराधान
- Taxation of wealth धन पर कराधान
- Taxation on transfer incomes हस्तांतरित आय पर कराधान
- Taxation on transfers of immovable property अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कराधान
- Taxation policy कराधान नीति
- Taxation reduces the volume of purchasing power कराधान क्रय-शक्ति की मात्रा को घटाता है।
- Taxation without representation is tyranny बिना प्रतिनिधित्व के कराधान अत्याचार है।

Tax avoidance कर परिहार

Tax avoidance and tax evasion कर-परिहार और कर-बचन—दो दो व्यवहारों में भेद करना बहुत आवश्यक है। कर-परिहार में तो एक कर-दाता का ताल द्वारा प्राप्त सभी छूटों का प्रयोग कर अपनी करदेय राशि को कम करने की चेष्टा करता है, उदाहरणार्थ, वह करमुक्त राष्ट्रीय वस्तु सर्टीफिकेट खरीद सकता है या बीमा कम्पनी की बड़ी पालिसी खरीद सकता है या कुछ आय एवं सम्पत्ति अपनी पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। इनके विरुद्ध करबचन एक अपराध है और इसमें कर दिवाने के गैर-कानूनी उपायों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आयकर विभाग को झूठा आय-विवरण देना, या आय के कुछ खोतों की जानकारी छिपा लेना आदि।

Tax base कराधार

Tax base, gross कुल कराधार

Tax base, net शुद्ध कराधार

Tax bounty कर अतिदान

Tax brackets कर कोष्ठक, कर-श्रेणिका

Tax burden कर-भार

Tax collection कर संग्रहण, कर दमूली

Tax collector कर-संग्रहीता/संग्राहक

Tax compliance कर अनुपालन

Tax concessions कर रियायतें

Tax consciousness कर चेतना, कर अहसास, कर-दोष

Tax credit (=Tax offset) कर समजन

Tax credit certificate कर समजन प्रमाण-पत्र

Tax de se jour वाम मुक्त

Tax direct money burden कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार

Taxed commodity करारोपित वस्तु

Tax effect कर प्रभाव

Tax evader कर बचक

Tax evasion कर-बचन, कर दिवाना

Tax exclusion कर छूट

Tax exempt gains कर-मुक्त लाभ

Tax exempt slab कर छूट तबड़/गिलापट्टी

Tax exemption कर छूट, कर माफी

Tax formula कर-सूत्र, कर फार्मूला

Tax free कर मुक्त

Tax-free goods करमुक्त वस्तुएँ

Tax-free income करमुक्त आय

Tax haven कर पनाह—कई बार ऐसा देखने में आया है कि कुछ देशों में अपने देश की अपेक्षा कर की दरें नीची हैं और व्यापारिक निगमों की कई और लाभ भी प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए, एक समय पूर्व कर के अधिनियमों के अधीन कम्पनियों को यह दबावत थी कि वे विदेशों में कर मुक्त लाभ संग्रहीत कर लें और उतने समय के लिए कर न दें जब तक कि वे इन पैसों को पँचू कर निगम को वापिस नहीं लौटाते। इसके फलस्वरूप बहुत सी व्यापारिक फर्मों ने अपनी अनुपंगी कम्पनियों विदेशों में कायम कीं। कर-पनाह के ऐसे देश स्विट्ज़रलैंड, बँजुगला और पानामा ये त्रिनमें बहुत सी अमरीकी फर्मों ने पँचू मंचित कर लीं।

Tax holdings कर रोक

Tax holidays कर-अवकाश

Tax incentives कर प्रोत्साहन

Taxing power करायान शक्ति

Taxing the foreigner विदेशियों पर कर लगाना

Tax in kind त्रिन रूपी कर

Tax jurisdiction कर अमनदारी, कर अधिकार क्षेत्र

Tax legislation कर विधान

Tax leviable उद्ग्राह्य कर

Tax liability करदेयता, कर-शक्ति

Tax limit कर-सीमा

Tax-loss carry back कर-हानि को पीछे डालना—एक प्रकार का वातून त्रिनके अनुसार व्यापारिक कम्पनियों को वातू वर्ष की महार्य-हानि (Operating losses) को पिछले वर्ष के लाभ के विरुद्ध डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस धारा का लाभ यह है कि हानि के वर्षों में कम्पनिमा पहले वर्षों में दिए गए वर्षों में कर-वापसी का दावा कर सकता है और इस प्रकार अपनी हानि को घटा सकता है।

- Tax-loss carry forward** कर-हानि प्राप्ति से जाया—एक कानूनी धारा जिसके अनुसार व्यापारिक कम्पनियों को चालू वर्ष की संकल्प-हानि को अगले वर्ष के लाभ के विरुद्ध ढालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस धारा के अधीन व्यापार के कर-न्यय जोड़ित कम किए जा सकते हैं और इन प्रकार विनियोग एवं व्यापारिक क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है।
- Tax loopholes** कर बचाव के रास्ते—वर्ष वार कर अधिनियमों में कुछ ऐसी कमियाँ रह जाती हैं जो करदाताओं को कर-परिहार में सहायता देती हैं। कई बार तो ये कमियाँ विधान बनते समय सभी सभासदों का ध्यान न रखने के कारण पैदा हो जाती हैं। कई बार पूर्जापतियों के प्रभावधीन राज्य सरकारें जानबूझ कर कुछ कानूनी छिद्र छोड़ देती हैं ताकि पूर्जापतियों पर कर-भार अल्पधिक न हो सके। कई बार इन कर-बचाव के रास्तों का उद्देश्य यह होता है कि कुछ विशिष्ट उद्योगों या आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिल सके।
- Tax obligations** कर-दायित्व
- Tax on advertisements** विज्ञापन पर कर
- Tax on business profits** व्यावसायिक लाभों पर कर
- Tax on capital** पूँजी पर कर
- Tax on commodities by the state** राज्यों द्वारा वस्तुओं पर कर
- Tax on the entry of goods** वस्तुओं के प्रवेश पर कर
- Tax on income** आय पर कर
- Tax on land and buildings** भूमि तथा भवनों पर कर
- Tax on motor vehicles** मोटर गाड़ियों पर कर
- Tax on professions, trades, callings and employments** व्यवसायों, व्यापारों, पेशों और रोजगार पर कर
- Tax on property** सम्पत्ति पर कर
- Tax on property and circumstances** सम्पत्ति और परिस्थिति पर कर—उत्तर प्रदेश में जिला परिषद द्वारा लगाए गए कर।
- Taxes on the transfer of immovable property** अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर
- Taxes on vehicles, animals and boats** गाड़ियों, पशुओं तथा नावों पर कर
- Tax-paid label** कर भुगतान लेबल
- Tax payable** देय कर
- Tax payable to local authority** स्थानीय प्राधिकार को देय कर
- Tax payer** कर-दाता
- Tax policy** कर नीति
- Tax policy in relation to deflationary and inflationary situations** अपस्फीतिकारी एवं स्फीतिकारी ९शासनों के सम्बन्ध में कर नीति
- Tax proceeds (receipts)** कर प्राप्तियाँ
- Tax rate** कर दर
- Tax rates, effective and marginal** करों की प्रभावी एवं सीमान्त दरें
- Tax rate limitation** कर-दर परिसीमन
- Tax rebate** कर छूट/कटौती
- Tax receipts** कर-प्राप्तियाँ
- Tax reduction schemes** कर प्रहृणन योजनाएँ, कर घटाव योजनाएँ
- Tax remissions** कर-छूट
- Tax Research Bureau** कर अनुसंधान ब्यूरो
- Tax revenue** कर आय, कर माय
- Tax roll** कर-निर्धारण पत्र
- Tax sale** करार्थ विक्रय—कर भुगतान न करने के कारण उस सम्पत्ति का सामान्यतः नीलाम द्वारा विक्रय।
- Tax schedule** कर-दर सूची, कर-सूची
- Tax shares** कर-हिस्से
- Tax structure** कर ढाँचा
- Tax system** कर प्रणाली
- Tax system, depth and range in** कर प्रणाली में गहनता एवं व्यापकता
- Tax system in a developing economy** विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में कर-पद्धति
- Tax system, productivity of** कर पद्धति की उत्पादितता

Tax title कर स्वत्व	Technical goods तकनीकी वस्तुएँ
Tax token कर प्रतीक	Technical incentives तकनीकी प्रेरणाएँ
Tax transfer structure कर अन्तरण संरचना	Technical know-how तकनीकी कुशलता, तकनीकी जानकारी
Tax yields कर प्राप्तिदायी	Technical knowledge तकनीकी ज्ञान/जानकारी
Taylor system टेलर प्रणाली—यह कार्यानुसार मजदूरी की वह प्रणाली है जिसमें जैसे-जैसे श्रमिक अपने कार्य की गति तेज करता जाता है, वैसे-वैसे उसकी मजदूरी-दर बढ़ायी जाती है। इसके विरुद्ध बडोनी-बोनस प्रणाली (Premium bonus system) में जैसे-जैसे श्रमिक अपने कार्य की गति बढ़ाता है, मजदूरी-दर वैसे-वैसे कम की जाती है।	Technical manpower तकनीकी मानवशक्ति
Team bonus दलीय भत्ता	Technical methods तकनीकी विधियाँ
Technical ability तकनीकी योग्यता	Technical monetary detail मुद्रा सम्बन्धी तकनीकी व्यौरा
Technical advantage of specialisation विशिष्टीकरण का तकनीकी लाभ	Technical occupations तकनीकी व्यवसाय
Technical and institutional reasons तकनीकी एवं संस्थानात्मक कारण	Technical personnel तकनीकी कर्मचारी
Technical aspect तकनीकी/प्राविधिक पहलू	Technical physical productivity तकनीकी भौतिक उत्पादितता
Technical assistance औद्योगिक/तकनीकी सहायता	Technical possibilities तकनीकी संभावनाएँ
Technical assistance board तकनीकी सहायता बोर्ड	Technical production conditions उत्पादन सम्बन्धी प्राविधिक परिस्थितियाँ
Technical assistance programme तकनीकी सहायता कार्यक्रम/प्रोग्राम	Technical progress तकनीकी प्रगति/उन्नति
Technical backwardness प्राविधिक पिछड़ापन	Technical rate of substitution प्रतिस्थापन की प्राविधिक-दर
Technical co-efficient तकनीकी गुणांक	Technical re-adjustment तकनीकी पुनःसमायोजन
Technical considerations तकनीकी तथ्य/कारण	Technical risk प्राविधिक जोखिम, तकनीकी जोखिम
Technical co-operation agreement तकनीकी सहयोग समझौता	Technical structure तकनीकी ढांचा
Technical discontinuities तकनीकी असतताएँ/असततताएँ	Technical substitution प्राविधिक स्थापान्नता
Technical diseconomy of production उत्पादन की प्राविधिक अग्रितव्ययता	Technical superiority तकनीकी श्रेष्ठता
Technical economies of production उत्पादन की प्राविधिक मितव्ययताएँ	Technical training तकनीकी प्रशिक्षण
Technical education तकनीकी शिक्षा	Technique प्रविधि, तकनीक
Technical efficiency तकनीकी कुशलता	Technique of democratic planning लोकतंत्रीय आयोजन की विधि/तकनीक
Technical factors तकनीकी कारणवत्त्व/कारण	Technique of planning in India भारत में आयोजन की तकनीक/विधि
	Technique of production उत्पादन की विधि/तकनीक
	Technocracy तकनीकी तंत्र, औद्योगिकी तंत्र—यह आन्दोलन 1912-33 के महामन्दी काल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में चालू किया गया। तकनीकविदों में इंजीनियर, प्रयंत्रास्त्री, वैज्ञानिक, सिस्टरकार (Architect) शामिल थे। इन लोगों ने निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किए :—

(i) सामाजिक घटनाचक्र माप्य है और इन प्रमेय धनुमानों से नियम प्रतिपादित किए जा सकते हैं।

(ii) उत्पादन में मशीनरी के प्रयोग के कारण किसी एक वस्तु के मूल्य को मापना असम्भव हो गया है।

(iii) सास-विस्तार ने पूँजीवाद के छापीन उत्पन्न वस्तुओं पर धम और पूँजी के अधिकारों को अस्पष्ट बना दिया है।

(iv) सामाजिक व्यवस्था की मितव्ययताएँ इतनी जटिल हैं कि इन्हे समझना राजनीतिज्ञों या पूँजीपतियों की समझ से बाहर है।

इन सिद्धान्तों के आधार पर यह माँग की गई कि अर्थव्यवस्था का नियंत्रण तकनीकविदों अर्थात् इंजीनियरों एवं अर्थशास्त्रियों के हाथ में होना चाहिए। शब्द 'टैक्नोक्रेटों' का प्रयोग प्रथम बार विलियम एच० हिमिंग ने 1919 में किया। उसकी परिभाषा के अनुसार तकनीकीतन्त्र सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय औद्योगिक प्रबन्ध का एक सिद्धान्त है।

Technocrat तकनीकवादी, प्रौद्योगिकीवादी, टैक्नोक्रेट
Techno-economic compulsions तकनीकाधिक बाध्यता

Techno-economic survey तकनीकाधिक सर्वेक्षण,
तान्त्रीक एवं आर्थिक सर्वेक्षण

Technological backwardness तकनीकीय
विद्यङ्गान

Technological change तकनीकीय परिवर्तन

Technological characteristics तकनीकीय
विशेषताएँ

Technological co-efficient तकनीकीय गुणांक

Technological dualism तकनीकीय द्वैतवाद

Technological environment तकनीकीय पर्या-
वरण/परिदृश्य

Technological expansion approach तकनीकीय
विस्तार दृष्टिकोण

Technological factors तकनीकीय तत्त्व

Technological imperialism तकनीकीय
साम्राज्यवाद

Technological improvement तकनीकीय उन्नति

Technological neutrality तकनीकीय तटस्थता

Technological Progress तकनीकीय प्रगति

Technological revolution तकनीकीय क्रांति

Technological unemployment तकनीकीय

बेरोजगारी—जब भी किसी उद्योग में नयी मशी-

नरी का प्रयोग किया जाता है, इसके फलस्वरूप कुछ

अस्थायी बेरोजगारी कायम हो जाती है। इसके

कारण श्रमिकों में कई बार नयी मशीनों का विरोध

पैदा हुआ है और इस विरोध को अभिव्यक्ति के रूप

में कई बार श्रमिक हड़ताएँ करते हैं और जानबूझ

कर मशीनों को तोड़ते हैं। किन्तु, यह भी स्वीकार

किया गया है कि नई मशीनों के प्रचालन का

दीर्घकालीन प्रभाव यह हुआ है कि इससे उत्पादन

बढ़ता है, राष्ट्रीय आय और लोगों का जीवन-

स्तर उन्नत होता है। इस कारण दीर्घकाल में

कुल रूप में धम की समस्त माँग बढ़ती है, परन्तु

चूँकि धम पूर्णतया गतिशील नहीं है, इसलिए नई

मशीनरी से तत्काल बेरोजगारी पैदा होती है।

यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर कार्य

कर रही हो, तो भी तकनीकी प्रगति के कारण,

कुछ अस्थायी संरचनात्मक बेरोजगारी होनी आव-

श्यक है, चाहे यह भी सत्य है कि दीर्घकाल में

अपेक्षाकृत अधिक रोजगार कायम हो जाता है।

इसीलिए ऐसे बेरोजगार श्रमिकों की सहायता के

लिए विशेष उपाय किये जाने चाहिए और उन्हें

वीव्रान्तिशील रोजगार दिखाना चाहिए।

Technological variations तकनीकीय परिवर्तन

Technology तकनीकी—ज्ञान की वह शाखा

जो व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए ज्ञान का प्रयोग

करती है। इसमें औद्योगिक कला, प्रयोगात्मक

विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि शामिल होते हैं।

एक व्यापक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग

किसी सामाजिक वर्ग द्वारा इस्तेमाल किए गए

उन समस्त उपायों से है जिनके द्वारा वह अपनी

सम्पत्ता के लिए भौतिक वस्तुएँ उपलब्ध कराता

है। यदि इस व्यापक अर्थ में विचार किया जाए

तो आधुनिक तकनीकी का विस्तार वर्तमान

औद्योगिक पूँजीवाद के विकास का सबसे महत्त्व-

पूर्ण कारण है। भौतिक उत्पादन का अभूतपूर्व विकास तकनीकीय परिवर्तन का ही परिणाम था और इसी कारण पूँजीवाद तरकीब कर गया, चाहे इसके कारण सामाजिक अन्तर्द्वन्द्व भी पैदा हो गए।	Tenant from year to year वर्षानुवर्ष पट्टेदार
Technostructure तकनीकी वर्ग	Tenant hereditary मौससी मुजारा, मौससी काश्तकार
Telegraphic transfer तार द्वारा हस्तांतरण	Tenant non-hereditary गैर-मौससी मुजारा, गैर-मौससी काश्तकार
Temporarily settled areas अस्थायी रूप से बसे हुए क्षेत्र	Tenant land पट्टे-प्रापीन भूमि
Temporary accommodation अल्पकालीन सहायता, अस्थायी निवास	Tendency, automatic स्वचालित प्रवृत्ति
Temporary annuity अस्थायी वार्षिकी	Tendency to hoarding आसचयन प्रवृत्ति
Temporary aquisition अस्थायी अर्वाप्त	Tendency to restrict consumption उपभोग को सीमित करने की प्रवृत्ति
Temporary debt अस्थायी ऋण	Tender टैंडर, निविदा
Temporary divergence अस्थायी विचलन	Tender a cheque बैंक देना
Temporary employment अस्थायी रोजगार	Tender method टैंडर पद्धति, निविदा पद्धति
Temporary equilibrium अस्थायी साम्य/संतुलन	Tenor of bill (= Term of bill) बिल की अवधि
Temporary lease अस्थायी पट्टा	Tenure भू-अधिकार, धारणाधिकार
Temporary lessee अस्थायी पट्टापारी	Tenure, cultivation काश्तकारी भू-अधिकार
Temporary price discrepancies अस्थायी कीमत असंगति/अन्तर	Tenure, ownership स्वामित्व भू-अधिकार
Temporary settlement अस्थायी बन्दोबस्त, अस्थायी व्यवस्था	Tenure holder भू-धारी, भू-वृत्तिधारी
Temporary tenure अस्थायी भू-अधिकार, अस्थायी धारणाधिकार	Tenure of land भू-अधिकार
Tenancy किरायेदारी, भू-धारण, काश्तकारी	Tenure of property सम्पत्ति धारणाधिकार
Tenancy holding काश्तकारी जोत	Tenure of service सेवा-काल
Tenancy laws काश्तकारी कानून	Terminable annuity समापनीय वार्षिकी
Tenancy legislation भू-धारण विधान, काश्तकारी विधान	Terminable debenture समापनीय ऋणपत्र
Tenancy reforms काश्तकारी सुधार, भू-धारण सुधार	Terminable debts समापनीय ऋण
Tenancy rights भू-धारण अधिकार	Terminable loan समापनीय उधार
Tenancy system भू-धारण पद्धति	Terminal annuity सावधि वार्षिकी
Tenancy system of land tenure भू-धारण की पट्टेदारी/वास्तकारी पद्धति	Terminal associations आवाधिक संस्थाएँ/संघ
Tenant काश्तकार, मुजारा, पट्टेदार	Terminal cost नियत-कार्य लागत
Tenant-at-will इच्छाधीन मुजारा/काश्तकार	Terminal facilities सेवान्त सुविधाएँ
Tenant farmer पट्टेदार किसान	Terminal loan सावधि उधार
Tenant for life आजीवन मुजारा/पट्टेदार	Terminal tax सीमा-कर, चुंगी
	Terminal tax on goods वस्तुधर्म पर. सीमाकर. चुंगी, महसूल
	Terminal tax on passengers (= pilgrim tax) यात्रियों पर सीमाकर
	Terminal toll सीमा-गण कर
	Termination of appointment नियुक्ति समाप्ति
	Termination of contract सविदा समाप्ति, ठेके की समाप्ति

- Terminology, economic प्राथिक शब्दावली
- Term of bill हुण्टी की दिमाद
- Term of employment नौकरी की अवधि
- Term of settlement भू-व्यवस्था की अवधि
- Terms of contract सविदा की शर्तें
- Terms of employment नौकरी की शर्तें
- Terms of reference विचारार्थ विषय, निर्देश-पद
- Terms of trade** व्यापार की शर्तें—व्यापारार्थ ज्ञात करने के लिए किसी देश के आयात और निर्यात की कीमतों में परिवर्तन की तुलना करनी अत्यन्त आवश्यक है। यदि निर्यात की कीमतों की तुलना में आयात की कीमतें प्रवेशाङ्क अधिक बढ़ती हैं, तो व्यापारार्थ में परिवर्तन को प्रतिकूल माना जाएगा और विलोम क्रम भी। दूसरे शब्दों में, यदि किसी देश को आयात की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रवेशाङ्क अधिक निर्यात करना पड़े, तो व्यापारार्थ उसके विरुद्ध हुआ समझा जाएगा।
- व्यापारार्थ को ज्ञान करने के लिए किसी विशेष आधार पर कीमेक निर्यात वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और आयात वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन की तुलना की जाती है।
- व्यापारार्थ सूचकांक** =
- $$\frac{\text{निर्यात कीमतों का सूचकांक}}{\text{आयात कीमतों का सूचकांक}} \times 100$$
- यदि व्यापारार्थ सूचकांक 100 से अधिक हो, तो व्यापारार्थ अनुकूल गिना जाता है और 100 से कम होने पर यह प्रतिकूल माना जाता है।
- Terms of trade, barter वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें
- Terms of trade, commodity वस्तु व्यापार की शर्तें
- Terms of trade, double factorial द्वि-सापनात्मक व्यापार शर्तें
- Terms of trade, income आयत व्यापार शर्तें
- Terms of trade, permanent shift of व्यापार शर्तों का स्थायी रूप से परिवर्तन
- Terms of trade, single factorial एकल सापनात्मक व्यापार-शर्तें
- Tertiary industries तृतीयक उद्योग
- Tertiary occupation तृतीयक व्यवसाय
- Tertiary sector तृतीयक क्षेत्र
- Territorial bond क्षेत्रीय बाँड, क्षेत्रीय बंधपत्र
- Territorial division of labour क्षेत्रीय श्रम-विभाजन
- Territorial specialisation क्षेत्रीय विसिष्टीकरण
- Test, ability योग्यता परीक्षण
- Test, aptitude रुझान परीक्षण, प्रवृत्ति परीक्षण
- Test, means जीविका-साधन जाँच
- Test, performance क्रिया-परीक्षण, निष्पादन परीक्षण
- Test hand जाँच कर्म
- Test of inflation according to Keynes केन्स के अनुसार मुद्रा-स्फीति का परीक्षण
- Tests of soundness समंगता-परीक्षण, स्वास्थ्य का परीक्षण
- Tests of soundness of a theory सिद्धान्त की तर्कपूर्णता का परीक्षण
- Textile industry वस्त्र उद्योग
- Textile industrialist वस्त्र उद्योगपति
- The age of high mass-consumption वृहद् जन-उपभोग का युग, उच्च बहुमात्र-उपभोग का युग
- The Central Soil Conservation Board केन्द्रीय भूमि संरक्षण मंडल
- The classical argument संस्थापक संप्रदाय का तर्क
- The degree of consumer preferences for a particular brand of the product वस्तु की किसी विशेष ट्याग/ट्रेड मार्क के प्रति उपभोक्ता प्रथिमान की मात्रा
- The extent of deficit financing न्यून वित्त-स्यवस्था की मात्रा
- The favourable balance of trade as investment अनुकूल व्यापार-शेय निवेश के रूप में
- The Federation of Association of Small Industries of India भारतीय लघु-उद्योगों का महासंघ
- The immediate steps तात्कालिक उपाय
- The long view दीर्घकालीन दृष्टि

- The marginal product principle of least cost न्यूनतम लागत का सीमांत उत्पाद सिद्धांत
- The new economics नवीन अर्थशास्त्र
- The part played by rigidity in wage-rates मजदूरी-दर में अनम्यता योगदान
- The point of satiety तुष्टि का बिन्दु
- The principle of different desires विभिन्न इच्छाओं के सिद्धान्त
- The principle of different incomes विभिन्न आय के सिद्धान्त
- The principle of different uses विभिन्न उपयोगों का सिद्धांत
- The principle of taxation according to ability to pay कराधान का करदेय सामर्थ्य के अनुसार सिद्धान्त
- The proper criterion of policy नीति का उचित मापदण्ड
- The rate of interest ब्याज की दरें
- The terms of trade argument व्यापारार्थ सर्क
- The whole demand and supply situation of foreign currency विदेशी करेंसी की माँग एवं पूर्ति संबंधी सम्पूर्ण स्थिति
- The rich धनी वर्ग
- Theology धर्म दर्शन
- Theoretical economics सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र
- Theoretical economics, advanced बृहद्/उच्च सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र
- Theoretical economist सैद्धान्तिक अर्थशास्त्री
- Theoretical model सैद्धान्तिक मॉडल/प्रतिमान
- Theoretical possibility सैद्धान्तिक संभावना
- Theoretical value सैद्धान्तिक मूल्य
- Theories of trade cycle व्यापार चक्र सम्बन्धी सिद्धान्त
- Theory सिद्धान्त
- Theory, absorption अन्तर्लयन सिद्धान्त
- Theory, choke बचन सिद्धान्त
- Theory, class वर्ग सिद्धान्त
- Theory, cobweb मक्खु जाल का सिद्धान्त
- Theory, crisis संकट सिद्धान्त
- Theory, diffusion विसरण सिद्धान्त
- Theory, economic प्राथिक सिद्धान्त
- Theory, endogenous business cycle अन्तर्जात व्यापार-चक्र सिद्धान्त
- Theory, equal sacrifice समान त्याग सिद्धान्त
- Theory, exogenous business cycle बाह्यजात व्यापार चक्र सिद्धान्त
- Theory, falling rate of profit षट्समान लाभ-दर सिद्धान्त
- Theory, general सामान्य सिद्धान्त
- Theory, income determination आय-निर्धारण सिद्धान्त
- Theory, linear cycle रेखिक चक्र सिद्धान्त
- Theory, multiplier गुणक सिद्धान्त
- Theory, pure शुद्ध सिद्धान्त
- Theory, random shock यादृच्छिक प्रभाव सिद्धान्त
- Theory, sacrifice tax कराधान का त्याग सिद्धान्त
- Theory, saving-investment बचन-निवेश सिद्धान्त
- Theory, stagnation गतिहीनता सिद्धान्त
- Theory and practice of banking बैंकिंग का सिद्धान्त एवं व्यवहार
- Theory of automatic regulation of balance of trade व्यापार-शेष का स्वतः विनियमन सिद्धान्त (स्वूम द्वारा प्रस्तुत)
- Theory of bank rate बैंक-दर का सिद्धान्त
- Theory of big push महान् प्रयास सिद्धान्त
- Theory of business cycles व्यापार-चक्र सिद्धान्त
- Theory of business cycles, monetary व्यापार चक्र का मौद्रिक सिद्धान्त
- Theory of business cycles, non-monetary व्यापार-चक्र का अमौद्रिक सिद्धान्त
- Theory of business fluctuations व्यावसायिक उच्चावचन का सिद्धान्त
- Theory of comparative costs तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त
- Theory of concentration सकेन्द्रण-सिद्धान्त
- Theory of consumer behaviour उपभोक्ता-व्यवहार सिद्धान्त

- Theory of consumers' choice उपभोक्ता चयन सिद्धान्त
- Theory of consumers' choice and sovereignty उपभोक्ता चयन एवं प्रभुता सिद्धान्त
- Theory of consumer demand उपभोक्ता-माँग का सिद्धान्त
- Theory of consumer equilibrium उपभोक्ता-संतुलन सिद्धान्त
- Theory of custom unions सीमा-शुल्क संघों का सिद्धान्त
- Theory of demographic transition जनाक्रीय संक्रमण का सिद्धान्त
- Theory of distribution वितरण का सिद्धान्त
- Theory of economic growth आर्थिक विकास/सृष्टि का सिद्धान्त
- Theory of employment रोजगार-सिद्धान्त
- Theory of exchange rates विनियम-दरों का सिद्धान्त
- Theory of factor pricing साधनों का कीमत-निर्धारण सिद्धान्त
- Theory of firm फर्म-सिद्धान्त
- Theory of functional distribution क्रियात्मक वितरण का सिद्धान्त
- Theory of general equilibrium सामान्य संतुलन का सिद्धान्त
- Theory of gold movements स्वर्ण-प्रावाहकता का सिद्धान्त
- Theory of growth सृष्टि का सिद्धान्त, विकास का सिद्धान्त
- Theory of the highest net revenue उच्चतम शुद्ध आय का सिद्धान्त
- Theory of incidence and shifting कर-वाह्यता एवं अन्तरण का सिद्धान्त
- Theory of income distribution आय-वितरण सिद्धान्त
- Theory of increasing misery विपन्नता-वृद्धि सिद्धान्त
- Theory of inflation स्फीति सिद्धान्त
- Theory of interest व्याज-सिद्धान्त
- Theory of international value अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का सिद्धान्त
- Theory of investment निवेश/विनियोग का सिद्धान्त
- Theory of localisation स्थानीयकरण का सिद्धान्त
- Theory of location स्थान-चयन सिद्धान्त, स्थान-निर्धारण सिद्धान्त
- Theory of marginal productivity सीमान्त उत्पादिता का सिद्धान्त
- Theory of marginal substitution सीमान्त प्रति-स्थापन सिद्धान्त
- Theory of a monetary economy मौद्रिक/मुद्रा-भ्रम-व्यवस्था का सिद्धान्त
- Theory of money मुद्रा-सिद्धान्त
- Theory of net reproduction rate शुद्ध पुन-रत्पादन दर का सिद्धान्त
- Theory of output उत्पादन का सिद्धान्त
- Theory of population जनसंख्या सिद्धान्त
- Theory of prices कीमतों का सिद्धान्त
- Theory of price control कीमत नियन्त्रण का सिद्धान्त
- Theory of price discrimination कीमत-भेद का सिद्धान्त
- Theory of product pricing वस्तु/उत्पाद-कीमत निर्धारण सिद्धान्त
- Theory of production उत्पादन का सिद्धान्त
- Theory of profit लाभ सिद्धान्त, मुनाफा सिद्धान्त
- Theory of protection संरक्षण का सिद्धान्त
- Theory of pump-priming समुत्थान-उत्तेजन का सिद्धान्त
- Theory of purchasing power parity क्य-शक्ति समता सिद्धान्त
- Theory of rent लगान सिद्धान्त
- Theory of revealed preference प्रकट अविनाश सिद्धान्त
- Theory of stationary equilibrium गतिहीन संतुलन का सिद्धान्त
- Theory of subjective value आत्मगत/व्यक्तिपरक मूल्य का सिद्धान्त
- Theory of surplus value अतिरिक्त-मूल्य का सिद्धान्त

Theory of taxation कराधान का सिद्धान्त
 Theory of the take-off उत्थान/उठान अवस्था सिद्धान्त
 Theory of trade cycle व्यापार चक्र का सिद्धान्त
 Theory of unemployment बेरोजगारी का सिद्धान्त
 Theory of value मूल्य-सिद्धान्त
 Theory of wages मजदूरी-सिद्धान्त
 Therapeutic to capitalist crisis पूंजीवादी संकट के निदान स्वहृष्य
Thin corporation अतिश्रुणी निगम—एक ऐसा निगम जिसे हिस्सा पूंजी की तुलना में श्रृण की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा देनी हो। यदि श्रृण एवं हिस्सा पूंजी (Debt-to-equity) का अनुपात 4 : 1 या इससे कम है, तो ऐसा निगम अति-श्रृणी निगम माना जाएगा।
 Third Finance Commission तृतीय वित्त आयोग
 Third five-year plan तृतीय पंचवर्षीय योजना
 Third of exchange विपक्ष तृतीयक
 Third party अन्य पक्ष
Third world तीसरी दुनिया—राष्ट्रों का एक समूह (विशेषकर एशिया और अफ्रीका में) जो न तो साम्यवादी ब्लॉक और न ही गैर-साम्यवादी ब्लॉक से गठबंधन करना चाहता है।
 Thorough-going competition सम्पूर्ण प्रति-योगिता
 Thorough-going stationary state सम्पूर्णतः अचरद्वय अर्थव्यवस्था
 Thou-anils of variables हजारों चर-मात्राएँ
 Three-point arbitrage त्रिस्तरीय मूल्यांतर लाभार्थ क्रय विक्रय
 Three-tier panchayati raj त्रि-स्तरीय पंचायती राज
 Threatened state आशंकित हृदयता
 Threshold worker नववर्मी, द्वारस्थकर्मि
 Thrift विनयत, अल्पव्यय, गिरव्यय
 Thrift, attitude to मितव्ययता के प्रति दृष्टि-कोण
 Thrifty अल्पव्ययी, मितव्ययी

Through rate सीधी दर
 Thumb-rule व्यवहार्य-नियम

Tied loan सशर्त ऋण/श्रृण—जब किसी विदेशी को श्रृण देते समय यह शर्त लगा दी जाती है कि उस श्रृण की राशि श्रृणदाता देश में ही खर्च करनी होगी, तो ऐसे श्रृण को सशर्त श्रृण कहते हैं। श्रृणदाता देश की दृष्टि से ऐसे श्रृणों का लाभ यह है कि इनके कारण उन देशों में रोजगार एवं आय को प्रोत्साहन मिलता है और श्रृणदाता देश के भुगतान-व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अल्पविकसित देशों में सशर्त श्रृणों का विरोध किया जाता है। इसके कई कारण हैं : एक तो ऐसे श्रृण उधार लेने वाले देश की स्वतन्त्रता को सीमित करते हैं और उसे वहीँ मात्र खरीदने पर विवश करते हैं जो श्रृणदाता देश देने को तैयार होता है। दूसरे, उधार देने वाले देश अपने माल का मनचाहा मूल्य वसूल करते हैं और अल्पविकसित देश इसे विदेशी सहायता पर एक प्रकार का कर मानते हैं।

Tied shop निबद्ध दुकान—एक ऐसी दुकान, जिस पर किसी विनिर्माता का नियंत्रण या स्वामित्व हो और जहाँ उसी निर्माता द्वारा निर्मित वस्तुएँ अधिकतर या कुल रूप में बेची जाएँ। भारत में बहुत से सिनेमाघरों पर फिल्म-निर्माताओं का नियंत्रण एवं स्वामित्व है और इसीलिए उन्हें इन फिल्म-निर्माताओं द्वारा बनाई गई फिल्मों को प्राथमिकता देनी ही पड़ती है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भी कई बड़े-बड़े उत्पादक कुछ थोक या परचून दुकानदारों को माल तभी देते हैं जब वे केवल उन्हीं द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को बेचें।

Tied worker बंधा हुआ श्रमिक
 Tie-up arrangements शृंखलाबद्ध प्रबंध
 Tie-up of capital पूंजी प्रतिबद्ध करना
 Tight money (=dear money) महंगी मुद्रा, उच्च व्याज-द्वय

Tightness of the market बाजार की तंगी
 Tillage जुताई, खेती
 Tillage of the soil भूमि का जोतना
 Tiller जोतने वाला, किसान

- Till money** (= chest money) तिजोरी रोकड़—
मुद्रा का वह भाग जो केवल नकद मुद्रा के रूप में
होता है ।
- Time bargain** सावधि सोदा
- Time consuming process** समय लेने वाली
प्रक्रिया
- Time deposit** सावधि जमा
- Time dimension of the investment** निवेशोंम
का समय-विस्तार
- Time draft** सावधि ड्राफ्ट
- Time element** समय तत्व
- Time gap** समयान्तर
- Time interval** कालान्तर
- Time lag** समत पश्चता, समय अन्तराल, विलंब
- Time lags between successive spending** क्रम-
बद्ध व्यय-राशियों में समय-पश्चताएँ
- Timeless analysis** समयहीन विश्लेषण
- Time liability** सावधि देयता
- Time money** सावधि ध्रुए
- Time preference** समय अधिमान—व्याज का
एक सिद्धान्त जिसका आधार यह है कि कुछ लोग
वर्तमान में मुद्रा खर्च करने को तरजीह देते हैं
और इस अधिचार के लिए व्याज के रूप में कुछ
मुद्रावजा देने को तैयार हो जाते हैं । इसके
विपरीत कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने उपयोग को
कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं और इस
प्रकार वे अपनी आवश्यकताओं को भविष्य में ध्यय
करके पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं । ऐसे
लोग जो अपनी वचत को उधार के रूप में देने के
लिए तैयार हैं, व्याज प्राप्त करते हैं ।
- Time preference scale** समय अधिमान माप
- Time rates versus price rates** समय दर बनाम
कायं दर
- Time saving** समय बचाने वाला, समय रक्षी
- Time scale of pay** कालमान वेतन, समयमान
वेतन, वेतन की समय-श्रेणी
- Time schedule** समय सारणी
- Time series** काल-याता, समय-याता
- Time study** समय अध्ययन—इस अध्ययन में

कितनी अनुभवी श्रमिक द्वारा सामान्य गति से कितनी
विशिष्ट कार्य को करने के समय का निर्धारण
किया जाता है । समय-अध्ययन प्रणाली का प्रयोग
प्रायः उद्योगों में उत्पादन-मान (Production
norms) निश्चित करने के लिए किया जाता है
ताकि प्रोत्साहन योजनाएँ बनायी जा सकें । समय-
अध्ययन के लिए, प्रक्रिया को छोटे-छोटे हिस्सों
या सामान्य अंशों में बांट लिया जाता है । कार्य
के प्रत्येक हिस्से या सामान्य अंश के लिए मान-
रूपक समय को सही-सही रूप में नापा जाता है ।
इसके पश्चात् विभिन्न क्रियाओं के आधार पर
कुल कार्य के लिए आवश्यक समय का अनुमान
लगया जाता है । इस प्रकार प्रति इकाई उत्पादन
के लिए स्टैंडर्ड मिन्ट या प्रति घण्टे के लिए
उत्पादन की इकाइयाँ निर्धारित की जाती हैं ।

Time utility समय उपयोगिता

Time wages समयानुसार मजदूरी—मजदूरी दर
का ऐसा ढाँचा जिसमें मजदूरी का मुग्तान प्रति
घण्टा, प्रति सप्ताह या प्रति मास के आधार पर
किया जाता है । इस प्रणाली में व्यक्ति को कार्य
पर व्यय किये गये समय के अनुसार मजदूरी दी
जाती है, न कि उत्पन्न की गयी वस्तुओं की मात्रा
के आधार पर जोकि कार्यानुसार मजदूरी का
आधार होता है । धन-शक्ति के अधिकतर भाग
को, विशेषकर सफेदपेशा श्रमिकों के लिए, मजदूरी
समयानुसार दी जाती है । चाहे इसमें सन्देह नहीं
कि समयानुसार मजदूरी श्रमिक को उसके कार्य
के अधिकतम प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित
नहीं करती और इस कारण उत्पादन को लागत
प्रतिष्ठाकृत अधिक हो सकती है, परन्तु बहुत से
कार्य ऐसे हैं जिन्हें कार्यानुसार मापना बहुत कठिन
है । किन्तु नियोजक जब समयानुसार मजदूरी भी
देते हैं, वे उस समय में उत्पादन की मात्रा का
औसत-मान अवश्य अपने मरिचक में रखते हैं ।

Time work समय कार्य

Time worth समय-मूल्य

Tithe उत्पादन दशांश—मुद्रा के रूप में न लिया जा
कर वस्तु के रूप में कृषि के वार्षिक उत्पादन या
पत्तल का दसवा भाग जो कि कर के रूप में खर्च

को दिया जाता था। 1836 के कानून के प्राचीन इंग्लैण्ड तथा वेल्ज में यह कर मुद्रा के रूप में देना बाध्य कर दिया गया।	Topography तल रूप
Title to land भूमि-स्वत्व	Top executives उच्च पदाधिकारी
Title of ownership स्वामित्व प्रलेख	Total asset turnover ratio कुल परिसम्पत्ति भावित अनुपात
Title to property सम्पत्ति स्वत्व	Total benefit सकल लाभ, कुल हित
Title to wealth सम्पत्ति स्वत्व	Total conditions सकल शर्तें
"To arrive" price सुपुर्दगी-पूर्व कीमत	Total cost समस्त परिव्यय
To create demand in foreign markets विदेशी बाजारों में माँग उत्पन्न करना	Total cropped area शस्यार्थीन कुल क्षेत्र
To crush rivals in foreign markets विदेशी बाजारों में प्रतियोगियों को कुचलना	Total cultivated area कुल कृष्य क्षेत्र
To establish relation between different currencies विभिन्न मुद्राओं के बीच संबंध स्थापित करना	Total current expenditure कुल चञ्चल व्यय
To get rid of surplus production अतिरिक्त उत्पादन से छुटकारा पाना	Total demand समस्त माग
To maintain the exchange rate at a pre-determined parity पूर्व-निर्धारित साम्य पर विनिमय-दर स्थिर रखना	Total demand price कुल माँग कीमत
To pay in treasure बहुमूल्य धातु में भुवावगी	Total demand schedule कुल माग अनुसूची
To reap the advantages of increasing returns चढ़ते-मान प्रतिफल (नियम) का लाभ उठाना	Total direct real burden of taxation करा-धान का कुल प्रत्यक्ष वास्तविक भार
To take advantage of differences in demand elasticity माँग की लोच में होने वाले अन्तरों का लाभ उठाने के लिए	Total disablement सम्पूर्ण अग्रहानि
Toll or effort परिश्रम या प्रयास	Total domestic expenditure सम्पूर्ण अन्तर्देशीय व्यय
Token coin प्रतीक/साकेतिक सिक्का	Total earnings कुल आय
Token grant प्रतीक/साकेतिक अनुदान	Total effective demand कुल समर्थ माग
Token money साकेतिक मुद्रा	Total emoluments समस्त परिलब्धि
Token standard coin साकेतिक प्रामाणिक सिक्का	Total enrolment कुल प्रवेश
Toll पथकर	Total expenditure समस्त व्यय
Toll collector पथकर सभाहक	Total expenditure incurred किया गया समस्त व्यय
Toll tax पथकर	Total fixed cost कुल निश्चित लागत
Tonnage टनभार	Total income समस्त आय
Tool of analysis विश्लेषण का उपकरण	Total indebtedness समस्त ऋणग्रस्तता
"Too much money chasing too few goods" मुद्रा की अत्यधिक राशि की तुलना में बहुत ही कम वस्तुएँ उपलब्ध होना	Total installed capacity कुल स्थापित क्षमता
	Totalitarian economy अधिकारतन्त्रीय अर्थव्यवस्था
	Totalitarian methods अधिकारतन्त्रीय उपाय
	Totalitarian socialism अधिकारतन्त्रीय समाजवाद
	Totalitarian state अधिकारतन्त्रीय राज्य—साम्प्रदायी या फासिस्ट राज्यों में राज्य द्वारा अधिक क्रियाओं पर पूर्ण रूप से, और राजनैतिक तथा सामाजिक क्रियाओं पर सामान्य रूप से नियन्त्रण प्राप्त करने वाले राज्य को अधिकारतन्त्रीय राज्य कहते हैं।

Total manhours कुल मानव-घण्टे	Trade, carrying डुलाई व्यापार
Total manpower कुल मानवशक्ति	Trade, closed बन्द व्यापार
Total money समस्त मुद्रा	Trade, coastal तटीय व्यापार
Total money receipts कुल मुद्रा प्राप्ति	Trade, composition of व्यापार का ढाँचा, व्यापार समन्वय
Total nationalisation समस्त/पूर्ण राष्ट्रीयकरण	Trade, direct प्रत्यक्ष व्यापार
Total net wealth कुल शुद्ध धन	Trade, domestic देशीय/घातंत्रिक व्यापार
Total outlay curve कुल परिचय-वक्र	Trade, entrepot मध्यवर्तन व्यापार, पुनर्निर्घात व्यापार
Total production समस्त/कुल उत्पादन	Trade, export निर्यात व्यापार
Total productivity कुल उत्पादितता	Trade, favourable balance of प्रतिकूल व्यापार-क्षेप
Total revenue कुल आय, कुल प्राप्ति, कुल राजस्व	Trade, foreign विदेशी व्यापार
Total revenue attributable to labour अग्रे के वारण प्राप्त होने वाला कुल आय	Trade, free प्रवाग/स्वतन्त्र/व्यापार
Total sales कुल/सकल विक्रय	Trade, home (=domestic trade) स्वदेशीय व्यापार, प्रांतिक व्यापार, गृह व्यापार
Total spending कुल-व्यय	Trade, indirect परोक्ष व्यापार
Total stock कुल इन्वन्ट्री, कुल स्टॉक, कुल भण्डार	Trade, inland देशीय/घातंत्रिक व्यापार
Total strength कुल संख्या	Trade, international अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
Total transactions कुल क्रय-विक्रय, कुल सौदे	Trade, land frontier स्थल-सीमा व्यापार
Total unit cost कुल इकाई लागत	Trade, multilateral बहुपक्षीय व्यापार
Total utility कुल उपयोगिता	Trade, oligopolistic अन्तर्निर्घात व्यापार
Total utility curve कुल उपयोगिता वक्र	Trade, protective रक्षित व्यापार
Total voting power कुल मत संख्या	Trade, quantum of व्यापार-माप
Total welfare समस्त कल्याण	Trade, reciprocal परस्पर व्यापार
Total world income कुल विश्व आय	Trade, restricted परिमित/प्रतिबद्ध व्यापार
Tourist expenses/expenditure पर्यटक व्यय	Trade, revival of व्यापार का पुनरुत्थान
Town planner नगर आयोजक	Trade, seaborne समुद्री व्यापार
Town planning नगर आयोजन	Trade, street पट्टी पथ
Town and country planning नगर तथा ग्राम आयोजन	Trade, terms of व्यापार की शर्तें, व्यापारार्थ
Tract on monetary reforms मुद्रा सुधार संबंधी पुस्तिका	Trade, transfrontier सीमा पर व्यापार
Trade व्यापार	Trade, transit पारगहन व्यापार
Trade, apprentice विशिष्ट अवस्था	Trade, triangular त्रिपक्षीय व्यापार
Trade, balance of व्यापार-क्षेप, व्यापार-सन्तुलन, व्यापारान्तर	Trade, volume of (quantum of trade) व्यापार मात्रा, व्यापार परिमाण
Trade, bilateral द्विपक्षीय व्यापार	Trade, wholesale बौक व्यापार
Trade, board of व्यापार मंडल	Tradable goods व्यापारिक वस्तुएँ
Trade, border सीमावर्ती व्यापार	Trade agency व्यापार एजेंसी
	Trade agent व्यापार एजेंट

- Trade agreement व्यापार सन्धि/समझौता
 Trade and commerce व्यापार और वाणिज्य
 Trade and employment व्यापार और रोजगार
 Trade arrangement व्यापार-व्यवस्था
 Trade association व्यापार-संस्था
 Trade ban व्यापार रोक, व्यापार पर प्रतिबन्ध
 Trade barrier व्यापार रोध/अवरोधक
 Trade block व्यापार गुट
 Trade blockade व्यापारिक नाकेबन्दी
 Trade boom period व्यापारिक तेजी काल
 Trade boycott व्यापार बहिष्कार
 Trade capital व्यापार पूँजी
 Trade channel व्यापार मार्ग
 Trade Commissioner व्यापार आयुक्त
 Trade control व्यापार नियन्त्रण
 Trade corporation व्यापार निगम
 Trade credit व्यापारिक उधार
 Trade crisis व्यापार संकट
 Trade custom व्यापार रूढ़ि, व्यापार का दस्तूर
 Trade cycle व्यापार-चक्र
 Trade cycle movement व्यापार-चक्र की गति
 Trade cycle, phases of व्यापार-चक्र की विभिन्न अवस्थाएँ
 Trade cycle theory व्यापार-चक्र सिद्धान्त
 Trade deadlock व्यापारावरोध
 Trade deficit व्यापार घाटा
 Trade depression व्यापार मन्दी
 Trade discount व्यापार बट्टा
 Trade dispute श्रमिक विवाद
 Trade Dispute Act श्रमिक भगड़ा/विवाद अधिनियम
 Traded goods व्यापार की गई वस्तुएँ
 Traded shares व्यापार किए गए हिस्से
 Trade enquiry व्यापार सम्बन्धी पूछताछ
 Trade expenses व्यापार-व्यय
 Trade gap व्यापार अन्तराल
 Trade goods व्यापार वस्तुएँ
 Trade group व्यापार गुट
 Trade guide व्यापार मार्गदर्शक
 Trade harbours व्यापारिक बन्दरगाह
 Trade index number व्यवसाय सूचकांक, व्यापार दिशानांक
 Trade margin लाभ की गुँजाइश
 Trade mark व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क, मार्क
 Trade name व्यापार नाम
 Trade of commodities वस्तुओं का व्यापार
 Trade pattern व्यापारिक ढाँचा
 Trade practice व्यापार प्रथा
 Trade promotion व्यापार संवर्धन, व्यापार-उन्नति
 Trade prosperity व्यापार समृद्धि
 Trade Protection Association व्यापार संरक्षण मंडल
 Trader व्यापारी
 Traders capital व्यापारी पूँजी
 Trade reference व्यापारिक संदर्भ
 Trade regulation व्यापार-नियमन
 Trade relations व्यापार संबंध
 Trade representatives व्यापार प्रतिनिधि
 Trade restraint व्यापार परिसीमन
 Trade risk व्यापारिक जोखिम
 Tradesman दस्तकार, कारीगर
 Trade statistics व्यापार-आँकड़े
 Trade treaty व्यापारिक संधि
 Trade union मजदूर संघ
 Trade union, registered पंजीकृत मजदूर संघ
 Trade Union Act धर्म संघ अधिनियम
 Trade union contracts धर्म संघ सविदा
 Trade union democracy धर्म-संघ लोकतंत्र
 Trade unionism श्रमिक संधवाद
 Trade unionist श्रमिक संधवादी
 Trade union movement मजदूर संघ आन्दोलन
 Trading block व्यापार गुट
 Trading capital व्यापार पूँजी, व्यवसायगत पूँजी
 Trading channel व्यापार माध्यम, व्यापार सरणी, व्यापार-मार्ग
 Trading company व्यापार-समवाय, व्यापार कंपनी
 Trading corporation व्यापार निगम

- Trading enterprise व्यापार उपक्रम/उद्यम
- Trading estates व्यापारिक बस्तियां
- Trading nations व्यापारी राष्ट्र
- Trading partnership व्यापार-भागीता
- Trading profit व्यापार लाभ
- Trading security व्यापार प्रतिभूति
- Tradition-directed Economy** परम्परा-निर्देशित अर्थव्यवस्था—आर्थिक व्यवस्था का वह ढंग जिसमें उत्पादन और वितरण की समस्याओं को बहुत समय पूर्व कायम किए गए तरीकों और ऋद्ध परम्पराओं के आधार पर हल किया जाता है। उदाहरणार्थ, उत्पादन और रोजगार की समस्या को उत्तराधिकार के आधार पर (पिता से पुत्र को उसी व्यवसाय में डालने से) हल किया जाता है। कुछ समय पहले तक अधिजात अर्थव्यवस्थाएँ परम्परा द्वारा ही निर्देशित की जाती थीं। पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तो आज भी परम्परा का ही प्रधान महत्व है। कई अत्यधिक औद्योगिक एवं आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के कई क्षेत्रों में परम्परा का एक विशेष स्थान है।
- Traditional commodities परम्परागत पथ्य वस्तुएँ, परम्परागत वस्तुएँ
- Traditional exports पारम्परिक/परम्परागत निर्यात
- Traditional handicrafts परम्परागत दस्तकारियाँ/हस्तशिल्प
- Traditional industries पारम्परिक उद्योग
- Traditional occupation पारम्परिक पेशा/व्यवसाय
- Traditional pattern पारम्परिक/परम्परागत ढांचा
- Traditional price-demand curve पारम्परिक कीमत-मांग वक्र
- Traffic receipts यातायात प्रप्तियाँ
- Trained labourer प्रशिक्षित श्रमिक
- Trained labour power प्रशिक्षित श्रम-शक्ति
- Trained manpower प्रशिक्षित मानव शक्ति
- Training प्रशिक्षण
- Training, apprentice शिक्षार्थी प्रशिक्षण
- Training, co-operative सहकारिता प्रशिक्षण
- Training, inplant (=On the job training) कार्यकारी प्रशिक्षण
- Training, job instructions कार्यनिर्देश प्रशिक्षण
- Training, job method कार्यपद्धति प्रशिक्षण
- Training, job relations श्रमिक-संबंध प्रशिक्षण
- Training, job safety कार्य-सुरक्षा प्रशिक्षण
- Training, pre-employment नियुक्तिपूर्व प्रशिक्षण
- Training, remedial उपचारी प्रशिक्षण
- Training, technical तकनीकी प्रशिक्षण
- Training, vocational व्यावसायिक प्रशिक्षण
- Training-cum-production centre प्रशिक्षण-रह-उत्पादन केन्द्र
- Training facilities प्रशिक्षण सुविधाएँ
- Training institutes प्रशिक्षण संस्थान
- Training of personnel कर्मचारी प्रशिक्षण
- Tramp industry अस्थायी मजदूर उद्योग
- Transaction सौदा, व्यवहार, लेन-देन
- Transaction, cash मकद/रोक-व्यवहार
- Transaction, credit उधार व्यवहार
- Transaction, credit-creating उधार कायम करने वाले सौदे
- Transaction, debt-creating ऋण कायम करने वाले सौदे
- Transaction, ex-ante क्रय-विक्रय के पूर्व
- Transaction, ex-post क्रय-विक्रय के पश्चात्
- Transaction, one-sided एकपक्षीय व्यवहार, एक-पक्षीय सौदा
- Transaction, two-sided द्वि-पक्षीय व्यवहार, द्वि-पक्षीय सौदे
- Transaction approach लेन-देन दृष्टिकोण, क्रय-विक्रय/प्रादान-प्रदान दृष्टिकोण
- Transaction demand for money मुद्रा की क्रय-विक्रय संबंधी माँग
- Transaction motive क्रय-व्यवहार उद्देश्य, लेन-देन मतव्य/प्रयोजन
- Transaction velocity of money मुद्रा की क्रय-विक्रय सम्बन्धी चलन गति
- Transaction version क्रय-विक्रय विवरण
- Trans-cyclical shifts परिचक्र्रीय/पारचक्र्रीय परिवर्तन

Transfer agent अंतरण अभिवर्ता/एजेंट
 Transfer cost अंतरण लागत
 Transfer credits अंतरण क्रेडिट/साक्ष
 Transfer crisis अंतरण संकट
 Transfer deed हस्तांतरण दस्तावेज
 Transfer difficulty अन्तरण कठिनाई
 Transfer expenditure हस्तांतरण व्यय
Transfer income (= transfer earning, transfer payment) प्रयोगान्तर आय, अन्तरण आय, प्रयोगान्तर भुगतान—राज्य के द्वारा पेंशन, बेरोजगारी लाभ, पारिवारिक भत्ते, राष्ट्रीय सहायता, विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों आदि के रूप में दिया गया भुगतान जिसके बदले में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में कोई उत्पादक योगदान प्राप्त न होता हो। यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय के बदले उस काल में जिससे कि यह आय सम्बन्धित है, कोई सेवा उपलब्ध न करायी जाय, तो यह आय अन्तरण आय कहलाती है।
 परन्तु, शब्द 'प्रयोगान्तर भुगतान' (Transfer Payment) का अर्थ अक्सर लागत के रूप में लिया जाता है अर्थात् किसी उत्पादन के साधन का वह पुरस्कार जो इसे सबसे उत्तम विकल्प प्रयोग में प्राप्त होता है, प्रयोगान्तर आय कहलाता है।
 Transfer loss अन्तरण-हानि
 Transfer mechanism स्थानांतरण-तंत्र/प्रक्रिया
 Transfer moratorium अन्तरण विलंबकाल
 Transfer of ownership स्वामित्व का हस्तांतरण
 Transfer of property सम्पत्ति का हस्तांतरण
 Transfer of shares हिस्से का हस्तांतरण
 Transfer of use प्रयोगान्तर
 Transfer payment हस्तांतरण भोचन, अन्तरण अदायगी
 Transfer problem अन्तरण/हस्तांतरण समस्या
 Transfer public expenditure अन्तरण सरकारी खर्च, अन्तरण सार्वजनिक व्यय
 Transferability अन्तरणीयता, हस्तांतरणीयता, स्थानान्तरणीयता
 Transferable account हस्तांतरणीय लेखा
 Transferable goods अन्तरणीय वस्तुएँ

Transferable property हस्तांतरणीय सम्पत्ति
 Transferable shares हस्तांतरणीय हिस्से
 Transferable sterling हस्तांतरणीय स्टर्लिंग
 Transferable sterling account स्थानान्तरणीय स्टर्लिंग लेखा
 Transferred resources हस्तांतरित साधन
 Transferred values हस्तांतरित मूल्य/मूल्य
 Transferor company अन्तरक कम्पनी
 Transformation curve (= Production possibility curve) रूपांतरण वक्र
 Transformed capitalism रूपांतरित पूँजीवाद
 Transients अस्थिर, चलते-फिरते
 Transient goods अस्थायी वस्तुएँ, नश्वर वस्तुएँ
 Transient advertising वाहनस्थ विज्ञापन
 Transient duty पारगमन कर, पारवाहन कर
 Transit trade स्थानान्तरण व्यापार, पारवहन व्यापार
 Transition wage संक्रमण वेतन
 Transitional period संक्रमण अवधि, संक्रमण काल
 Transitivity of choice चयन संक्रमणता
 Transitivity of indifference अनभिमान संक्रमणता
 Transmission of electricity बिजली का पारेपण
 Transmission of shares हिस्से का संक्रमण
 Transport परिवहन, यातायात, निर्वाहन
 Transport and communication परिवहन तथा संचार
 Transport charges परिवहन-प्रभार
 Transport cost परिवहन लागत
 Transport junction centre परिवहन संधि केन्द्र
 Transport labour day परिवहन श्रम दिवस
 Transport occupation परिवहन व्यवसाय
 Transport society परिवहन समिति
 Transport worker परिवहन कर्मचारी
 Transportation परिवहन, निर्वाहन
 Transportation company परिवहन कम्पनी
 Transportation cost यातायात व्यय, परिवहन लागत

Transportation economies परिवहन/यातायात अर्थशास्त्र

Transshipment बाह्यान्तरण, नावान्तरण, पोतान्तरण

Traveller's cheque यात्री-चैक

Travelling allowance यात्रा भत्ता

Travelling charges यात्रा-प्रभार

Treasure कोष, खजाना

Treasury राजकोष, खजाना

Treasury balances राजकोष जमा कोष, खजाना कोष

Treasury bill राजकोष पत्र/विल

Treasury bonds कोषागार बंध

Treasury deposit bonds राजकोष जमा बांड

Treasury deposit receipts राज कोष जमा प्राप्ति

Treasury notes सरकारी नोट, करेन्सी नोट

Treasury saving certificate राजकोष बचत पत्र

Treasury saving deposit certificate राजकोष बचत जमा-पत्र

Treatise on money मुद्रा पर निबंध

Trend and progress of banking in India भारतीय बैंक-व्यवस्था की प्रवृत्ति तथा प्रगति

Trends in money and real wages मौद्रिक एवं वास्तविक मजदूरी की प्रवृत्तियाँ

Trends of public expenditure in India भारत में सरकारी व्यय की प्रवृत्तियाँ

Trial and error method भ्रूल एव सुधार विधि

Trial Balance श्रवणीक्षा तुलन, परीक्षा तुलन, दोष परीक्षा, दोष परीक्षण—दोहरी खतान प्रणाली में गणितीय श्रुतियों का परीक्षण करने के लिए तैयार किया गया श्रवणीक्षा तुलन । हिसाब की किताबों में से नामों और उधार सेले में जघा किए जाते हैं और इन दोनों पक्षों के जोड़ बराबर होने चाहिए ।

Trial period परख काल, परीक्षण काल

Triangular trade त्रिकोणीय व्यापार—एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जो केवल तीन देशों में आपसी व्यापार-कोष कायम रखने के लिए किया जाए । इसका प्रतिष्ठित उदाहरण 18 वीं शताब्दी में

इंग्लैण्ड, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और वेस्ट इन्डिज में होने वाला व्यापार था । सिवरपुल से हीरे जवाहरात गिनी की खाड़ी में भेजे जाते थे और इनके बदले में गुलाम खरीदे जाते थे, जिन्हें वेस्ट इन्डिज भेजा जाता और वहाँ उनका विनिमय कुछ पदार्थों, चीनी, तम्बाकू और शराब से किया जाता जो कि इंग्लैण्ड भेजे जाते ।

Tribal economy कबीलों अर्थव्यवस्था

Tribunal न्यायाधिकरण, अधिकरण

Tribute बलि, उपहार

Tripartite agreement त्रिपक्षीय संधि/समझौता

Tripartite division त्रिखंड विभेद

Tripartite labour machinery त्रिदलीय श्रम-व्यवस्था, त्रिदलीय श्रम मशीनरी

Trough गर्त, अधोबिन्दु, सवर्ण, सवसाद काल

Truck वस्तु विनिमय, आदान-प्रदान

Truck system वस्तु-सोपान पद्धति, जिन्स भवा-यगी पद्धति, वस्तु-विनिमय पद्धति—औद्योगिक क्रांति के आरम्भिक काल में यह एक साम र्विवाज था कि कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मजदूर किया जाता था कि वे मासिक द्वारा चालू की गई दुकान से ही अपने दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदें । इस प्रकार मजदूरी मुद्रा के रूप में न देकर जिन्स के रूप में दी जाती । बहुत बार कारखाने के मासिक श्रमकों की मजदूरी का लाभ उठा कर उन्हें घटिया वस्तुएँ जूँची कीमतों पर उपलब्ध कराते । इसके विरुद्ध, इस प्रणाली का लाभ यह था कि मजदूरी छाया-पदार्थों के रूप में ही खर्च की जाती और इसका प्रयोग वे शराब आदि के लिए नहीं कर सकते थे ।

Truo economic rent वास्तविक आर्थिक लगान

Truo inflation यथाथं स्फीति

Truo social preferences सही सामाजिक अधि-याच

Truism स्वयंसिद्ध सत्य

Trunk roads प्रमुख सड़क मार्ग, जननी सड़क

Trust भ्यास, ट्रस्ट, गुट

Trust certificate प्रभ्यास-पत्र

Trust company भ्यास कम्पनी

Trust fund न्यास निधि
 Trust money न्यास राशि
 Trust property न्यास सम्पत्ति
 Trustee निक्षेपधारी, ट्रस्टी, न्यासी, न्यासधारी
 Trustees, board of न्यासधारी मंडल
 Trusteeship principle न्यासी सिद्धांत
 Trustification न्यासीकरण
 Trustified न्यासनिष्ठ
 Turning point परादत्तन बिन्दु, मोड़ बिन्दु
 Turn key job टर्न की जाँच, दायित्वपूर्ण काम
 Turn over आवर्तन, कुल बिक्री—किमी विशेष
 आवर्तन के दौरान व्यापार की कुल बिक्री
 Turnover, deposit जमा आवर्तन
 Turnover, investment निवेश आवर्तन
 Turnover, rate of पण्यावर्तन दर—व्यापार में
 किसी विशेष अवधि के दौरान औसत स्टॉक के
 परिभ्रमण की दर। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति
 ने व्यापार में 1,000 रुपये लगाया हो और एक
 वर्ष में उसकी कुल बिक्री 10,000 रुपये हो, तो
 यह कहा जाएगा कि पण्यावर्तन दर 10 है। ऐसी
 वस्तुओं में, जो नाशवान हैं या बिनका प्रयोग
 दैनिक जीवन में बार-बार करना पड़ता है, पण्या-
 वर्तन दर अधिक होती है परन्तु इसके विरुद्ध महंगी
 वस्तुओं में, और विशेषकर चिरस्थायी वस्तुओं में,
 पण्यावर्तन दर कम होती है।
 Turnover, voluntary स्वैच्छिक आवर्तन
 Turnover of capital पूँजी का फेर, पूँजी का आवर्तन
 Turnover tax पण्यावर्तन कर
 Turnpike road शुल्क मार्ग, रोक फाटक वाली सड़क
 Turnpike theorem टर्नपाइक प्रमेय
 Two-commodity approach दो-वस्तु दृष्टिकोण
 Two-dimensional diagram द्वि-विमा रेखाकृति
 Two-fold equilibrium दोहरा संतुलन
 Two-part tariff द्वि-भागी टैरिफ/प्रचुल्क
 Two-point arbitrage द्वि-मुखी मूल्यांतर लाभार्थ
 क्रय-विक्रय
 Two-way street traffic दोनों ओर का रास्ता
 Tying agreement सशर्त करार/समझौता
 Tying contract (tie in sale) अनुबद्ध संविदा

अनुबद्ध बिक्री, सशर्त करार—एक ऐसा सौदा
 जिसमें कोई विक्रेता अपने क्रेता को इस बात के
 लिए विवश करता है कि यदि वह उसकी प्रमुख
 वस्तु खरीदेगा, तो उसे उसके साथ कुछ अन्य
 वस्तुएँ भी खरीदनी पड़ेंगी। ऐसे सशर्त सौदे केवल
 वे विक्रेता कर सकते हैं जिन्हें कुछ वस्तुओं का
 किसी विदेश वस्तु में एकाधिकार प्राप्त हो।
 उदाहरणार्थ, भारत के एकाधिकार जाँच आयोग
 (1965) की रिपोर्ट में इस प्रकार के समझौते
 अवाञ्छनीय बताए गए हैं और औपधियो, शृंगार-
 सामग्री और सूती वस्त्रों में इन्हें प्रायः विद्यमान
 पाया गया है।

Type of advance अधिम का प्रकार
 Type of capital taxes पूँजी करों के प्रकार
 Type of deposit जमा का प्रकार
 Type of price discrimination मूल्य-भेद के
 प्रकार
 Type of planning आयोजन का प्रकार
 Typical average प्रारूपिक औसत माध्य
 Typical demand curve प्रारूपिक माँग वक्र
 Typical factory प्रतिनिधि कारखाना
 Typical firm सावंलाभणिक फर्म, प्रारूपिक
 फर्म
 Typical market प्रारूपिक बाजार
 Typical trade cycle प्रारूपिक व्यापार चक्र

उ

Ultimate burden अंतिम भार
 Ultimate causes अंतिम/मूलभूत कारण
 Ultimate table अंतिम सारणी
 Ultra cheap money policy अत्यधिक सस्ती/
 सुलभ मुद्रा नीति—इस पद का प्रयोग 1945-48
 के दौरान ब्याज की वर्तमान दर को अत्यधिक
 नीचे स्तर पर रखने के लिए किया गया। यह
 नीति डा० एच० डाल्टन जो इंग्लैंड का वित्त
 मंत्री था, द्वारा अपनायी गयी। स्फीतिकारी
 दबाव होने के बावजूद ब्याज-दर 2½ प्रतिशत के
 निम्न-स्तर पर कायम रखी गयी। जब सरकार
 राजकीय पत्रों को 2½ प्रतिशत दर पर जारी

करने में प्रसमर्भ हो गयी, तो अत्यधिक सस्ती मुद्रा नीति समाप्त हो गयी।

Unabsorbed expenses ग्रसंविहीन-अध्यय

Unabsorbed profit ग्रसंविहीन लाभ, ग्रनवसोचित लाभ

Unaccounted money छिपा धन, छिपी मुद्रा, अनधिकृत मुद्रा

Unalloyed with monopoly elements एकाधिकारी तत्वों से पूर्णतया स्वतन्त्र

Unambiguous changes स्पष्ट एवं निश्चित परिवर्तन

Unambiguously inflationary ग्रसंदिग्ध रूप से स्फीतिकारी

Unanimous social choice सर्वसम्मत सामाजिक चयन

Unappropriable goods अविनियोग्य वस्तुएँ

Unassessed land अनिर्धारित भूमि

Unauthorized cultivation अनधिकृत कृषि/शेती

Unauthorized import अनधिकृत आयात

Unauthorized occupation अनधिकृत व्यवसाय, अनधिकृत ग्रभिधारण

Unauthorized organisation अनधिकृत संस्था/संगठन

Unauthorized person अनधिकृत व्यक्ति

Unauthorized sale अनधिकृत विक्रय

Unauthorized taxation अनधिकृत कराधान

Unbalanced budget असंतुलित बजट

Unbalanced growth ग्रसंतुलित विकास—

प्रोफेसर नवर्ष ने संतुलित विकास की धारणा प्रस्तुत की जिसमें पूरक आर्थिक क्षेत्रों के एक साथ विकास पर बल दिया गया। प्रोफेसर हर्षमैन ने इसके विपरीत असंतुलित विकास का सिद्धान्त पेश किया। उसके तर्क का आधार यह था कि संतुलित विकास प्रोग्राम के लिए आवश्यक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में चाहिए और अल्पविकसित देश इतनी बड़ी योजना के लिए साधन नहीं जुटा सकते। इसलिए आवश्यक यह है कि अर्थव्यवस्था में जानबूझ कर पूँजी विनियोग सम्बन्धी असंतुलन कायम किया जाए। अतः विनियोग केन्द्रीय

महत्व के उद्योगों में प्रोत्साहित करना होगा ताकि इसके फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों में विकास प्रीनत हो सके। इसके लिए प्रोफेसर हर्षमैन अग्रगामी सम्बन्ध (Forward Linkage) और प्रतिगामी सम्बन्ध (Backward Linkage) की कसौटियों का सुझाव देता है। अग्रगामी सम्बन्ध से हमारा अभिप्राय किसी ऐसी परियोजना में विनियोग से है जिसके फलस्वरूप उत्पादन की अग्रगामी अवस्थाओं में विनियोग को प्रोत्साहन मिले। इसके विरुद्ध प्रतिगामी विनियोग से हमारा अभिप्राय किसी ऐसी परियोजना में विनियोग से है जिसके फलस्वरूप उत्पादन की पूर्व-अवस्थाओं में विनियोग प्रोत्साहित हो जाए। इस प्रकार इस विकास-युक्ति के अनुसार सरकार का कार्य यह है कि वह पहले असंतुलन कायम करे और फिर संतुलन कायम करने की क्रियाओं का निर्धारण करे।

Unbalancing with directly productive activities (D.P.A.) प्रत्यक्षतः उत्पादक क्रियाओं द्वारा असंतुलन

Unbalancing with social overhead capital (S.O.C.) सामाजिक जगरि पूँजी द्वारा असंतुलन

Unbanked area बैंक-विहीन क्षेत्र

Uncalled capital अनमांगी पूँजी

Uncertainty अनिश्चितता

Uncertainty about the budget period बजट अवधि के बारे में अनिश्चितता

Uncertainty bearing अनिश्चितता सहन करना

Uncharged for benefits नि:शुल्क हितलाभ

Unclaimed balances अदावी शेष, वेदावेदार शेष

Unclaimed dividend अदावी सामाज्य, वेदावेदार सामांश

Unclaimed property अदावी सम्पत्ति

Unclaimed securities अदावी प्रतिभूतियाँ

Unclassed forest अवर्याकृत जंगल

Uncommitted fund अग्रबद्ध राशि/निधि

Uncompensated disservices (=social costs) अग्रूरित कुसेवाएँ

Unconditional most favoured nation clause शर्तरहित परमानुग्रहीत राष्ट्र कण्ट्रिक्ल

Uncontrollable cost अनियंत्रणीय लागत
 Unconvertible interest-free securities अपरिवर्तनीय ब्याज-रहित प्रतिभूतियाँ
 Uncoordinated nature असमन्वित प्रकृति/स्वरूप
 Uncovered debts असुरक्षित ऋण, प्रतिभूति-रहित ऋण
 Uncovered deficit अपूरित घाटा
 Uncovered demand अपूरित मांग
 Uncovered gap अपूरित अन्तर
 Uncropped land अनजोती भूमि, अशस्य भूमि
 Uncropped soil विनजोती धरती, शस्यहीन धरती
 Uncultivable wasteland अकृष्य वजर भूमि
 Uncultivated land अकृष्य भूमि, न जोती गई भूमि
 Unculturable land अकृष्य भूमि, न जोतने योग्य भूमि
 Unculturable waste अकृष्य वजर भूमि, खेती के अयोग्य वजर भूमि
 Uncurrent coin अप्रचलित सिक्का
 Undated cheque तिथिहीन चैक
 Underassessment अवनिर्धारण
 Undercapitalisation अवपूँजीयन, अल्पपूँजीयन, अवपूँजीकरण
 Undercapitalised अल्पपूँजीयित
 Undercompensation अल्प क्षतिपूर्ति/प्रतिपूर्ति
Underconsumption अल्पोपभोग—इसका अर्थ वस्तु-उत्पादन का उपभोक्ता माँग की तुलना में अधिक होना है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार सामान्य अस्त्युत्पादन सम्भव नहीं। इसका मूलाधार जे० बी० से का बाजार का नियम है जिसके अनुसार सभरण स्वयं अपनी माँग को पैदा करता है। माल्यस पहला अर्थशास्त्री था जिसने इस नियम को अनुभव के विपरीत और तर्क-विहीन बताया। परिणामतः से के नियम की अवहेलना की गयी और व्यापार-चक्रों की व्याख्या के लिए अल्पोपभोग अथवा अस्त्युत्पादन के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इन सिद्धांतों का सार यह था कि पूँजीवाद प्रणाली में अस्त्युत्पादन होता स्वाभाविक ही है और इस कारण उत्पादन,

उपभोग-माँग से अधिक हो जाता है। इसके फलस्वरूप कीमतें और लाभ गिर जाते हैं और बेरोजगारी फैल जाती है। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मन्दी की परिस्थितियाँ कायम हो जाती हैं।
 Underconsumptionist अल्पोपभोगवादी
 Underconsumption theory अल्पोपभोग सिद्धांत
 Underconsumption theory of trade cycle व्यापार चक्र का अल्पोपभोग सिद्धांत
 Underdeveloped अल्पविकसित
 Underdeveloped areas अल्पविकसित प्रदेश/क्षेत्र
 Underdeveloped countries अल्पविकसित देश
 Underdeveloped economy अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्था
 Underdeveloped human capital अल्पविकसित मानव पूँजी
 Underdeveloped nation अल्पविकसित राष्ट्र
 Underdeveloped regions अल्पविकसित क्षेत्र/प्रदेश
 Underdeveloped versus developed economies अल्पविकसित बनाम विकसित अर्थव्यवस्थाएँ
 Underdevelopment equilibrium अल्पविकास सतुलन
 Underdevelopment equilibrium trap अल्प-विकास सतुलन जाल
 Underemployed manpower अल्पनियोजित मानव-शक्ति, अल्परोजगार प्राप्त मानव-शक्ति
 Underemployed resources अल्पप्रयुक्त ससाधन
 Underemployment अल्पनियोजन, अल्परोजगार
 Underemployment, progressive वर्धमान अल्प रोजगार
 Underemployment, structural संरचनात्मक अल्प-रोजगार
 Underemployment equilibrium अल्परोजगार सतुलन
 Underestimates अल्पानुमान, अधोप्राश्कलन, अल्प-प्राश्कलन
 Underestimation अल्पानुमान
 Under given conditions दी हुई परिस्थितियों के अधीन

- Underground wealth छिपा घन
- Underhands शागिर्द, कारीगर
- Underinvestments अल्पविनियोग, विनियोग न्यूनता
- Underlying bond पूर्वाधिकार बाँड/बंधपत्र
- Underlying mortgage पूर्वाधिकार बंधक
- Undernourishment अल्पपोषण
- Underpopulation न्यून-जनसंख्या
- Underproduction अल्पोत्पादन, न्यून-उत्पादन
- Underproduction inflation अल्प-उत्पादन प्रेरित मुद्रा स्फीति
- Underproprietary right उपस्वामित्व अधिकार
- Undersale सस्ता बेचना, गटान विक्रय
- Undersell सस्ता बेचना
- Underseller अधिक सस्ता बेचने वाला
- Underselling सस्ता बेचना, अपविक्रयण
- Undertaker उद्यमकर्ता, उपक्रमी
- Undertaking उद्यम, उपक्रमण, उपक्रम, देयता, वचन
- Undertaxation छवकराधान
- Undertenure भयोक्ति
- Under the counter** विक्रय फलक/काउण्टर के नीचे
—ऐसी वस्तुएँ जिनका मुद्र के समय या मुद्रोत्तर-काल के दौरान संभरण कम हो जाता है और जिन पर सरकार राशन व्यवस्था भी लागू नहीं करती, दुकानदारों द्वारा राशन की जाती है। दुकानदार इन्हें प्रत्येक ग्राहक को देने की अपेक्षा अपने नैयमित्तक ग्राहकों को देना पसन्द करते हैं क्योंकि वे उनकी प्रायः का स्थायी स्रोत हैं। इस लिए वे ऐसी वस्तुओं को छिपा कर रखते हैं और केवल पक्के ग्राहकों को ही देते हैं और वे भी ऊँची कीमतों पर। ऐसे विक्रय को काउण्टर के नीचे बेचना कहते हैं।
- Under the impulse of self-interest निजी हित के प्रभावाधीन
- Underutilisation अल्प-प्रयोग
- Underutilisation of capacity समता का अल्प-प्रयोग
- Underutilisation of capital पूँजी का अल्प-प्रयोग
- Underutilised growth theory अल्पप्रयुक्त विकास सिद्धान्त
- Underutilised labour अल्प-प्रयोज्य श्रम, अल्प-प्रयुक्त श्रम
- Underutilised productive capacity अल्प-प्रयुक्त उत्पादन क्षमता
- Undervaluation** अल्पमूल्यन—अल्पमूल्यन की स्थिति उस समय विद्यमान होती है जब किसी मुद्रा की उसके आन्तरिक मूल्य की अपेक्षा कम बाहरी मूल्य प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह हुआ कि मुद्रा की स्वतन्त्र बाजार की स्थिति में अपेक्षाकृत कम मूल्य प्राप्त होता है। इसका स्वाभाविक प्रभाव आयात को महंगा बनाना और निर्यात को सस्ता करना होता है। अतः अल्पमूल्यन का परिणाम निर्यात प्रोत्साहन देना होता है।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान, ऐसे देशों की मुद्राएँ, जिनमें स्फीति ने अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डाला, दूसरे देशों की तुलना में अल्पमूल्यित हो गयीं। ऐसी परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का संतुलन स्थापित करने के लिए यह अनिवार्य था कि ऐसी मुद्राओं का पुनर्मूल्यन (Revaluation) किया जाए। 1961 में पश्चिमी जर्मनी के मार्क और डच गिल्डर के पुनर्मूल्यन का यही उद्देश्य था।
- Undervaluation of currency मुद्रा अल्प-मूल्यन
- Undervalue अल्पमूल्य
- Undervalued currency अल्पमूल्यित करेंडे
- Underwriter हामीदार
- Underwriter approved स्वीकृत हामीदार
- Underwriting, हामीदारी, अभिगोपन
- Underwriting capital पूँजी को हामीदारी देना, पूँजी अभिगोपन, पूँजी का निम्नांकन
- Underwriting firms हामीदार फर्म, निम्नांकन फर्म
- Underwriting houses हामीदारी गृह, निम्नांकन गृह
- Undesirability of a chronic imbalance दीर्घ-कालिक असाम्य की अवाञ्छनीयता

- Undeveloped country अविक्तित देश
- Undisbursed loans अवितरित उधार
- Undistributed corporate profits अवितरित निगम लाभ
- Undistributed profits अवितरित लाभ
- Unearned income अनुपाजित आय
- Unearned increment अनजित वृद्धि
- Unearned interest अनजित च्याङ्क
- Uneconomic आधिकेतर/अनाधिक/अलाभकर
- Uneconomic agriculture अलाभकर कृषि/खेती
- Uneconomic holding अलाभकर जित
- Uneconomic spending अनाधिक ख्यय
- Uneconomic units अलाभकारी इकाइयाँ
- Unemployable अनियोध्य, नौकरी के अयोग्य—**
 इस शब्द का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक अर्थ में इसका अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो मानसिक या शारीरिक कमजोरियों या अयोग्यताओं के कारण नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। इन्हें बेरोजगार व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। दूसरे अर्थ में, अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो योग्य (शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से) होते हुए भी देश में उपलब्ध आर्थिक परिस्थितियों के कारण एक लम्बे समय तक नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। उनमें सामान्यतः इतना नैतिक पतन हो जाता है कि वे अपने आपको नौकरी के अयोग्य समझने लगते हैं, चाहे यह उनकी मानसिक स्थिति का ही प्रतिबिम्ब है।
- Unemployability अनियोध्यता
- Unemployed resources अग्रयुक्त संसाधन
- Unemployment बेरोजगारी
- Unemployment, backlog प्रवसिष्ट बेरोजगारी
- Unemployment, casual आकस्मिक बेरोजगारी
- Unemployment, chronic दीर्घकालीन बेरोजगारी
- Unemployment, classical संवर्धापित बेरोजगारी
- Unemployment, concealed गुप्त बेरोजगारी
- Unemployment, cyclical चक्रिक बेरोजगारी
- Unemployment, disguised दृश्य बेरोजगारी, छद्मवेप बेरोजगारी
- Unemployment, export निर्यात-मूलक बेरोजगारी
- Unemployment, forms of बेरोजगारी के रूप
- Unemployment, frictional घातीयिक बेरोजगारी, प्रतिरोधक बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी
- Unemployment, involuntary अनैच्छिक बेरोजगारी
- Unemployment, mass वृहद् बेरोजगारी, व्यापक बेरोजगारी
- Unemployment, non-structural अक्षेत्र बेरोजगारी
- Unemployment, normal सामान्य बेरोजगारी
- Unemployment, open व्यक्त/खुली बेरोजगारी
- Unemployment, permanent स्थायी बेरोजगारी
- Unemployment, recurrent आवर्ती बेरोजगारी
- Unemployment, seasonal मौसमी बेरोजगारी, ऋतुनिष्ठ बेरोजगारी
- Unemployment, standard volume of बेरोजगारी का मानक परिमाण
- Unemployment, structural सार्वनिक बेरोजगारी
- Unemployment, technological तकनीकी/तकनीकीय बेरोजगारी
- Unemployment allowance बेरोजगारी भत्ता
- Unemployment assistance बेरोजगारी सहायता
- Unemployment benefits बेरोजगारी लाभ/भत्ता
- Unemployment benefit fund बेरोजगारी लाभ कोष
- Unemployment compensation बेरोजगारी क्षति-पूर्ति/प्रतिपूर्ति
- Unemployment dole बेकारी/बेरोजगारी अनुदान, अकर्म वेतन—बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा प्राप्त सहायता।
- Unemployment insurance बेकारी/बेरोजगारी बीमा
- Unemployment of resources सहायकों का अग्रप्रयोग
- Unemployment pay बेकारी/बेरोजगारी वेतन
- Unemployment rate बेरोजगारी दर
- Unencumbered approved securities मुक्त/भार-रहित स्वीकृत प्रनिभूतियाँ
- Unencumbered securities मुक्त प्रनिभूतियाँ
- Unequal development असम विनाश

Unequal distribution of wealth धन का अस- माल वितरण	Uniform exemptions समान छूटें
Unequal opportunities अवसरों की असमानता	Uniform price सम कीमत
Uneven growth असम विकास	Uniform rate समान दर
Unexhaustive economies अनिशेष मितव्ययताएँ/ किफायतें	Uniform reversionary bonus समानदावा प्राप्ति बोनस
Unexpected investment अप्रत्याशित विनियोग	Uniform tax समान कर
Unexpended savings व्यय न की गई बचत	Uniformity in taxation करायान में एकरूपता
Unexploited resources अविदोहित संसाधन	Uniformity of data सामग्री साहचर्य
Unfair competition अनुचित प्रतिযোগिता	Unilateral contract एकपक्षीय संबन्ध
Unfair employer अन्यायी मालिक	Unilateral import quotas एकपक्षीय आयात कोटा
Unfair employers list अन्यायी मालिकों की सूची	Unilateral payment एकपक्षीय भुगतान
Unfair labour practices अनुचित श्रम व्यवहार	Unilateral quota एकपक्षीय कोटा/प्रमर्श
Unfair practices अनुचित व्यवहार	Unilateral transfers एकपक्षीय भन्तरण/एकपक्षीय हस्तान्तरण
Unfair wage अनुचित मजदूरी	Unilateral transfer of payments एकपक्षीय भुगतान
Unfavourable balance प्रतिकूल शेष	Unimplemented licences अप्रयुक्त लाइसेंस
Unfavourable balance of payment प्रतिकूल भुगतान-शेष	Unincorporated अनियमित
Unfavourable balance of trade प्रतिकूल व्यापार-शेष	Unincorporated commercial undertakings अनियमित व्यापारिक उद्यम
Unfavourable rate of exchange प्रतिकूल विनि- मय दर	Unincorporated trading अनियमित व्यापार
Unfavourable state of the exchange विनि- मय की प्रतिकूल दशा	Uninsurable risks बीमा-अयोग्य जोखिम
Unfavourable trade balance प्रतिकूल व्यापार- शेष	Union संघ, यूनियन, एकता
Unforeseen expenses अनपेक्षित व्यय, अनुमान- नित व्यय, अप्रत्याशित व्यय	Union, amalgamated समागमित संघ
Unfunded debts अनिविबद्ध ऋण, अल्पकालिक ऋण	Union, associated craft सम्बद्ध हस्तकारी संघ
Unfunded floating debt अल्पकालीन चल ऋण, अनिविबद्ध अल्पकाल ऋण	Union, business व्यावसायिक संघ
Unfunded income अनिविधिक आय	Union, class वर्ग एकता
Unified bond समेकन बॉन्ड/बंधपत्र	Union, closed संवृत/दुष्प्रवेश्य संघ
Unified control एकीकृत नियंत्रण	Union, company कम्पनी मजदूर संघ, कम्पनी पोषित मजदूर संघ
Unified direction केन्द्रीय/एकीकृत निर्देशन	Union, co-operative सहकारी यूनियन/संघ
Unified theory एकीकृत सिद्धान्त	Union, craft शिल्पी/दस्तकार संघ
Unified thought एकीकृत विचार	Union, credit उधार समिति/सघ
Uniform costing समरूप लागत-आकलन	Union, customs सीमा शुल्क संघ
	Union, dual द्वैध श्रमिक संघ
	Union, economic आर्थिक संघ/संघटन
	Union, ephemeral अल्पजीवी संघ
	Union, horizontal समस्त संघ

Union, independent स्वतन्त्र/स्वाधीन संघ
 Union, industrial उद्योग-व्यापी संघ
 Union, labour श्रमिक/मजदूर संघ
 Union, monetary मौद्रिक संघ
 Union, multicraft बहुशिल्प संघ
 Union, open खुला/अनावृत संघ
 Union, paper कागजी संघ
 Union, plant कारखाना संघ
 Union, predatory स्वाधंचालित/लुटेरा संघ
 Union, rival स्पर्धी संघ
 Union, trade मजदूर/श्रमिक संघ
 Union, yellow पोपित संघ
 Union basting संघ विरोध
 Union contract संघ सविद्या
 Union duty संघ-शुल्क
 Union excise संघीय उत्पादन शुल्क
 Union excise duties केन्द्रीय/संघीय उत्पादन शुल्क
 Union feed संघ चारा
 Union Public Service Commission संघीय लोक सेवा आयोग
 Union scale संघ वेतन-मान
 Union services संघ सेवाएँ
 Union shop संघ समर्पित प्रतिष्ठान—इस पद का प्रयोग किसी ऐसे सयन्त्र या संस्थान से किया जाता है जिसमें सभी श्रमिकों को नियुक्ति के पश्चात् एक निश्चित अवधि (सामान्यतया तीस दिन) में श्रम-संघ का सदस्य बनना पड़ता है। संघ समर्पित प्रतिष्ठान और सञ्चय प्रतिष्ठान (Closed Shop) में मूल भेद यह है कि पूर्वोक्त में नियोजक को किसी भी श्रमिक को रजिस्ट्रार करने की स्वतन्त्रता होती है जबकि उपरोक्त में उसका चयन केवल उन व्यक्तियों को नियुक्त करने तक सीमित हो जाता है जो पहले ही श्रम-संघ के सदस्य बन जाते हैं। संघ समर्पित प्रतिष्ठान का मूल उद्देश्य सामूहिक सौदा शक्ति का प्रोत्साहित करना है क्योंकि इसके कारण संघ का मान एवं प्रतिष्ठा बढ़ती है। जबकि 1916 में इस व्यवस्था के अंग्रेजी संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 प्रतिशत सामूहिक सौदे हुए, वहीं 1955 में इनका अनुपात

बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया। अतः इस व्यवस्था का तीव्रता से विकास हुआ है।

Union smasher संघ चूषक
 Union territories संघीय क्षेत्र
 Union wage संघ-मजदूरी
 Unionism संघवाद, संघता, संघ पद्धति
 Unionism, reformist सुधारक संघवाद
 Unionism, revolutionary क्रांतिकारी संघवाद, क्रांतिकारी श्रम-संघ आन्दोलन
 Unionist संघी, संघवादी
 Unionized labour संघबद्ध श्रम
 Unique equilibrium अनन्य सतुलन
 Unirrigated land बिना सिंचाई प्राप्त भूमि, असिंचित भूमि, धारानी भूमि
 Unissued capital अनिर्गमित पूँजी
 Unit इकाई

Unit assurance इकाई बीमा—इसका अर्थ जीवन बीमा को इकाई-व्यापी से सम्बन्धित करना है। बीमा-क्रिये की राशि का अधिकतर भाग किसी विशिष्ट न्यास की इकाइयों खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि स्कीम के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है परन्तु न्यास की इकाइयों के मूल्य में तो मुद्रा-मूल्य की वृद्धि के फलस्वरूप वृद्धि होती है। परिणामतः इकाई-बीमा पद्धति स्कीम के दुष्प्रभावों के विरुद्ध संरक्षण देती है।

Unit banking system इकाई बैंक-व्यवस्था—इस बैंक-व्यवस्था के अधीन बैंकों को अपनी शाखाएँ खोलने की इजाजत नहीं दी जाती। अतः बैंक, अधिकतर एक-शाखा बैंक बन जाते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में बैंकों को एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में शाखाएँ खोलने की इजाजत दी जाती है। यह पद्धति संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। इसके विरुद्ध ब्रिटिश बैंक-व्यवस्था में प्रत्येक बैंक की बहुत-सी शाखाएँ होती हैं। किसी आर्थिक मंदी के काल में इकाई बैंकों के फेल होने का अधिक खतरा रहता है। यही कारण था कि जब 1929 में विश्व में महामन्दी फैली, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत से इकाई-बैंक फेल हुए,

परन्तु इंग्लैण्ड में कोई भी बैंक फेल नहीं हुआ । किन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि इकाई-बैंक-व्यवस्था से बैंक-जमा का संकेन्द्रण नहीं हो सकता । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इकाई-बैंक-व्यवस्था मूल रूप में निर्बल बैंक प्रणाली है ।

- Unit control इकाई नियन्त्रण
 Unit cost इकाई लागत
 Unit elasticity इकाई लोच
 Unit elasticity of demand माँग की इकाई लोच/
 समानुपाती लोच
 Unit elasticity of supply संप्रण की इकाई
 लोच/समानुपाती लोच
 Unit holder इकाईधारी
 Unit of account लेखा इकाई
 Unit of capacity क्षमता इकाई
 Unit of commodity वस्तु की इकाई
 Unit of cultivation खेती की इकाई, जोत की
 इकाई
 Unit of currency करेंसी की इकाई
 Unit of measurement माप की इकाई
 Unit of output उत्पाद की इकाई, उत्पादन की
 इकाई, प्रदा-एकक
 Unit of ownership स्वामित्व की इकाई
 Unit Trust of India भारतीय इकाई न्यास
 Unitary elastic demand ऐकिक लोचदार माँग
 Unitary elasticity of supply पूर्ति की ऐकिक
 लोच
 Unitary income elasticity of demand माँग
 की ऐकिक आय-लोच
 Unitary tax system एक/ऐकिक कर पद्धति
 United action संयुक्त कार्यवाही
 United Nations' Conference on Trade and
 Development (UNCTAD) संयुक्त राष्ट्र
 व्यापार और विकास सम्मेलन
 United Nations Special Fund for Economic
 Development (SUNFED) आर्थिक विकास
 हेतु संयुक्त राष्ट्र संघीय विशिष्ट कोष
 Universal acceptability सर्व/सामान्य स्वीकृति

- Universal agent पूर्णाधिकारी एजेंट
 Universal application सार्वभौमिक प्रयोग, सर्व-
 व्यापक प्रयोग
 Universal demand विश्वव्यापी/सर्वव्यापी माँग
 Universal distribution विश्वव्यापी/सर्वव्यापी/
 वितरण
 Universal economics सार्वत्रिक अर्थशास्त्र
 Universally valid सार्वभौम रूप से वैध/स्वीकार्य
 Unknown data अज्ञात तत्व
 Unknown points अज्ञात बिन्दु
 Unlawful strike अवैध हड़ताल
 Unlicensed cultivation लाइसेंस-रहित खेती
 Unlimited company असीमित दायित्व वाली कम्पनी
 Unlimited legal tender असीमित कानूनी ग्राह्य
 Unlimited liability असीमित दायित्व
 Unlimited partnership असीमित भागीदारी, असी-
 मित साझेदारी
 Unlisted security असूचीबद्ध प्रतिभूति — ऐसी
 प्रतिभूति जो स्टॉक एक्सचेंज के पास पंजीकृत नहीं
 होती । चाहे कुछ असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का
 स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार होता है किन्तु इन
 प्रतिभूतियों पर कुछ असूचीबद्ध विशेषाधिकार
 भी दिये जाते हैं । पर वास्तविकता यह है कि इन
 प्रतिभूतियों का मान्य क्रय-विक्रय क्षेत्र के बाहर ही
 व्यापार करना पड़ता है ।
 Unloading charges उतराई सर्व/लागत
 Unmanaged paper standard अनप्रबन्धित पत्र-
 मान
 Unmerchutable प्रविक्रय
 Unmixed blessing अमिश्रित वरदान
 Unnecessary profit अनावश्यक लाभ — प्रोफेसर
 फ्रलस ने आभान लगान को एक अनावश्यक लाभ
 बताया है ।
 Unofficial strike अनधिकृत हड़ताल
 Unorganised sector असंगठित क्षेत्र
 Unpaid capital अदत्त पूँजी, अदा न की गई पूँजी
 Unpaid share अदत्त अंश/हिस्सा
 Unpaid tax अदत्त कर
 Unplanned अनायोजित, योजना-रहित, अनियोजित

Unplanned economy अनायोजित अर्थव्यवस्था
 Unplanned society अनायोजित समाज
 Unplanned type अनायोजित किस्म/प्रकार
 Unplanned urbanisation अनायोजित नगरी-
 करण/सहरीकरण

Unpredictable अप्रवृत्त
 Unproductive अनुत्पादक
 Unproductive consumer अनुत्पादक उपभोक्ता
 Unproductive consumption अनुत्पादक उपभोग
 Unproductive dependent अनुत्पादक आश्रित
 Unproductive employment अनुत्पादक रोजगार
 Unproductive expenditure अनुत्पादक व्यय

Unproductive labour अनुत्पादक श्रम, अनु-
 त्पादी श्रम -- प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने
 अपनी पुस्तक राष्ट्रो की सम्पत्ति में उत्पादक तथा
 अनुत्पादक श्रम के बारे में लिखा कि कोई भी
 प्रयत्न जिसका परिणाम किसी भौतिक वस्तु का
 उत्पादन नहीं है, अनुत्पादक श्रम है। स्मिथ के
 शब्दों में, "समाज के अधिकतम सम्मानित वर्गों का
 श्रम सेवकों के श्रम की भाँति है जो किसी विशेष
 सम्पत्ति को तो उत्पन्न नहीं करता और न ही यह
 श्रम अपनी समाप्ति के अनन्तर अपना अस्तित्व
 रखते हुए अपने आपको किसी स्थायी पदार्थ
 अथवा विक्रय योग्य वस्तु के रूप में निश्चित भयवा
 अभिव्यक्त करता है।" उदाहरणार्थ, एक सम्राट
 के सभी ग्याय तथा युद्ध सम्बन्धी उच्चधिकारी
 अनुत्पादक श्रमिक हैं।" इसी वर्ग में दोनों प्रकार
 के सबसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण तथा कुछ अत्यन्त
 महत्वपूर्ण ध्वजसाय रखे जा सकते हैं, जैसे पादरी,
 वकील, डाक्टर, सभी प्रकार के विद्वान, भिलाड़ी,
 मसलर, सगीन, गायक, नर्तकी आदि। आधुनिक
 अर्थशास्त्री स्मिथ के इस विचारसे सहमत नहीं हैं।
 उनके अनुसार कोई भी ऐसा कार्य/क्रिया जो
 विनिमय द्वारा अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं
 की तुष्टि करता है, उत्पादक श्रम कहलाता है।

Unproductive purposes अनुत्पादक प्रयोजन, अनु-
 त्पादी श्रम

Unproductive savings अनुत्पादक बचन

Unproductive tax अनुत्पादक कर

Unproductive wages अनुत्पादी मजदूरी

Unproductive work अनुत्पादक कार्य

Unprofitable अलाभकर

Unrealised gains अप्राप्त लाभ, वसूल न किये गये
 मुनाफे

Unreal social wealth अवास्तविक सामाजिक धन
 Unreality of assumptions मान्यताओं की
 अयथार्थता

Unregulated and unorganised markets अनि-
 यमित एवं असंगठित बाजार

Unrelated subjects असंबन्धित विषय

Unremunerative अलाभकारी, असतोषप्रद, अपरि-
 तोषद

Unrequired exports अनावश्यक निर्यात

Unrequited अपरिशोधित, अप्रतिदत्त

Unrequired exports अपरिशोधित निर्यात,
 अप्रतिदत्त निर्यात—इनका अर्थ ऐसे निर्यात
 से है जिनके लिए उसी समय भुगतान नहीं
 किया जाता बल्कि पहले किए गए आयात
 के कारण बकाया ऋण को घटा कर भुगतान
 किया जाता या निर्यातक देश के खाते में
 राशि जमा कर दी जाती है और इसका भुगतान
 किसी भावी तिथि पर करने का आश्वासन दिया
 जाता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इंग्लैंड
 निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में वस्तुएँ उत्पन्न
 करने के लिए असमर्थ था परन्तु युद्ध के कारण
 इने अन्य देशों से भारी मात्रा में आयात करना
 पड़ा। परिणामतः इंग्लैंड ने इन देशों के खाते में
 यह राशि जमा कर दी जिसे स्टर्लिंग अविशेष
 (Sterling Balances) कहा जाता है। चूंकि
 युद्ध के पश्चात् इस सारी राशि का भुगतान
 इंग्लैंड एक साथ नहीं कर सकता था, इसलिए
 इसे अवरुद्ध खाता (Blocked Account) घोषित
 किया गया। धीरे-धीरे इंग्लैंड ने कई वर्षों के
 दौरान स्टर्लिंग अविशेष का भुगतान कर दिया।

Unresponsive प्रतिक्रियायुक्त, प्रभावशून्य

Unrestricted random sampling अप्रतिबन्धित
 यादृच्छिक नमूनाचयन

Unsecured creditor अप्रतिभूत ऋणदाता—

अप्रतिभूत ऋणदाता से प्रतिप्राय उस ऋणदाता से है जिसका दावा ऋणी की सम्पत्ति पर होता है। इसके विरुद्ध प्रतिभूत ऋणदाता का दावा ऋणी की विशिष्ट परिसम्पत्ति पर होता है।

Unsecured debt अप्रतिभूत ऋण

Unsecured liability अप्रतिभूत देयता/दायित्व

Unsecured loan प्रतिभूति-रहित ऋण, अप्रतिभूत उधार

Unsheltered occupation अपरिरक्षित व्यवसाय

Unskilled labour अकुशल मजदूर/श्रम, अदक्ष श्रम/श्रमिक

Unskilled labourer अदक्ष श्रमिक, अकुशल श्रमिक

Unskilled work अदक्ष कार्य, अकुशल कार्य

Unskilled worker अदक्ष कार्य, अकुशल मजदूर

Unstable equilibrium अस्थिर सन्तुलन, अस्थायी सन्तुलन

Unstable equilibrium price अस्थिर सन्तुलन कीमत

Unsurfaced roads कच्ची सड़कें

Untilled land अकुल्ल भूमि, न जोती गई भूमि

Unused capacity अप्रयुक्त सामर्थ्य

Unutilised excess capacity अतिरिक्त अप्रयुक्त क्षमता

Unutilised manpower अप्रयुक्त मानव शक्ति

Unutilised natural resources अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन

Unwanted maternity अपांछित मातृत्व

Unweighted average अभांरित औसत/माध्य

Unweighted index numbers अभांरित सूचकांक

Up and out promotion विन दारी तरहकी

Up by the bootstraps approach आर्थिक विकास की स्वसिद्ध पद्धति

Upkeep देख-रेख

Upper incomes उच्च प्राय

Upper price limit कीमत की उच्च-सीमा

Upper turning point ऊर्ध्व-वर्तन-बिन्दु

Upset price सरकारी बोली, निर्धारित कीमत

Upwings of the trade cycle व्यापार-चक्र की ऊर्ध्वगति

Up to-date farm machinery प्रयत्न काम मशीनरी

Upward sloping curve ऊपर उठते हुए वक्र

Upward tendency ऊर्ध्व प्रवृत्ति

Upward thrust उपरिमुखी उत्क्रम

Upward valuation अधिमूल्यन

Urban नगर, नगरीय, शहरी

Urban co-operative bank शहरी सहकारी बैंक

Urban co-operative society नगर सहकारी समिति

Urban economics नगर अर्थशास्त्र

Urban growth-centre नगरीय विकास केन्द्र

Urban growth of population जनसंख्या की नगरीय वृद्धि

Urban growth rate नगरीय सवृद्धि दर

Urban households शहरी परिवार

Urban immoveable property शहरी स्थावर/अचल सम्पत्ति

Urban income नगरीय आय

Urbanisation नगरीकरण, शहरीकरण

Urbanisation process नगरीकरण प्रक्रिया

Urban population नगरीय जनसंख्या, शहरी जनसंख्या

Urban property नगरीय सम्पत्ति, शहरी सम्पत्ति

Urban property, ceiling on शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा/हदबन्दी

Urban rationing नगर-राशनिंग, शहरी राशनिंग

Urban sector नगरीय क्षेत्र

Urban wages नगरीय मजदूरी, शहरी मजदूरी

Urgent wants अविनिम्बनीय आवश्यकताएँ, अनिवार्य आवश्यकताएँ

Usable flow उपयोग-योग्य प्रवाह

Usance अर्थधि, विपन्नार्थधि, निमाव — विदेशी वृष्टिधर्मों की चुकीली के लिए स्वीकृत अर्थधि। इस शब्द का प्रयोग सावधि विनिमय-पत्रों के लिए होता है जिनका भुगतान निश्चित अर्थधि के बाद ही प्राप्त हो सकता है। इसके विरुद्ध दर्शनी बिलों अर्थात् बैंक, आदि का भुगतान प्रस्तुति के फौरन बाद ही करना पड़ता है।

Usance bill (=time bill) सावधि विपन्न, मुहती हूट्टी

- Usance of bill बिपत्रावधि, बिपत्र की प्रचलित अवधि
- Usance promissory note मुद्दी प्रामिसरी नोट, मुद्दी प्रोनोट
- Usance rate of exchange (= long exchange rate) मिप्रादी/पुद्दी विनिमय दर
- Use and occupancy insurance प्रयोग एवं अभिधारिता बीमा—प्राग या किसी अन्य विपत्ति के कारण कई बार कुछ समय के लिए व्यवसाय को चलाना असम्भव हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ में घमी होनी है, या कुछ विशिष्ट दानवों घर्नात् करो, वेतन या रायल्टी का भुगतान करना पडना है। व्यवसाय को इस प्रकार की धति के विरुद्ध जो सरक्षण दिया जाता है उसे प्रयोग एवं अभिधारिता बीमा कहते हैं।
- Use of contraceptives गर्भ निरोधकों का प्रयोग
- Use of existing capital stock वर्तमान पूँजी भण्डार का उपयोग
- Use of money income मौद्रिक आय का प्रयोग
- Use of negative methods नकारात्मक विधियों का उपयोग
- Use of resources ससाधनों का प्रयोग
- Use of unfair means अनुचित साधनों का प्रयोग
- User charge उपयोग प्रभार
- User cost उपयोग लागत—मूल्यहास और रक्षण लागत के रूप में मशीनों के प्रयोग और उन्हें निष्प्रयोज्य रखने की लागत के अन्तर को उपयोग लागत कहते हैं। इस पद का प्रयोग लाई जॉन मेनार्ड केन्ड्र द्वारा किया गया
- Uses of indifference curves समन्वय वक्रों के उपयोग
- Uses of statistics सांख्यिकी के उपयोग
- Use tax उपयोग कर
- Use value उपयोग-मूल्य, प्रयोग-मूल्य
- U-shaped cost curve U-आकृति लागत-वक्र
- Usual quantity सामान्य मात्रा
- Usurer सूदखोर, कुसीदक
- Usury कुसीद, सूदखोरी
- Utilisation of boards भ्रमसचय का उपयोग
- Utilisation of labour श्रम का उपयोग
- Utilisation of manpower resources मानव-शक्ति साधनों का उपयोग
- Utilisation of saving potential बचत क्षमता का उपयोग
- Utilisation of storage capacity संग्रहण क्षमता का प्रयोग
- Utilisation of surplus manpower अतिरिक्त मानव शक्ति का उपयोग
- Utilised aid प्रयुक्त सहायता
- Utilitarian उपयोगितावादी
- Utilitarian assumptions उपयोगितावादी पूर्व-धारणाएँ/मान्यताएँ
- Utilitarian economics उपयोगितावादी अर्थशास्त्र
- Utilitarianism उपयोगितावाद—इस दार्शनिक और राजनीतिक शब्द का प्रयोग जे० बेंथम (J. Bentham) द्वारा किया गया। इस सिद्धान्त का मूल "अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम लाभ" है। इसमें लाभदायकता मूल बसोटी है और उचित व्यवहार को निर्धारित करने का आचार इसके परिणामों की लाभदायकता या प्रयोगवादिता है।
- Utilitarian purpose उपयोगितावादी प्रयोजन
- Utilitarian radicals उपयोगितावादी उपद्रव
- Utility उपयोगिता
- Utility, average औसत उपयोगिता
- Utility, cardinal सख्या सूचक उपयोगिता
- Utility, creation of उपयोगिता का सृजन
- Utility, decreasing ह्रासमान उपयोगिता
- Utility, degree of उपयोगिताम, उपयोगिता की मात्रा
- Utility, diminishing ह्रासमान उपयोगिता
- Utility, diminishing marginal ह्रासमान सीमान्त उपयोगिता
- Utility, direct प्रत्यक्ष उपयोगिता
- Utility, doctrine of उपयोगिता का सिद्धान्त
- Utility, final (=marginal utility) सीमान्त उपयोगिता
- Utility, final degree of उपयोगिता की अन्तिम मात्रा

Utility, form रूपमूलक उपयोगिता
 Utility, immediate तत्काल उपयोगिता
 Utility, increasing वर्धमान उपयोगिता
 Utility, indirect अप्रत्यक्ष उपयोगिता
 Utility, inter-personal comparisons of उपयोगिता की अन्तर्व्यक्तिगत तुलनाएँ
 Utility, law of diminishing marginal सीमान्त उपयोगिता द्वारा नियम
 Utility, law of equi-marginal सम-सीमान्त उपयोगिता नियम
 Utility, marginal सीमान्त उपयोगिता
 Utility, maximum अधिकतम उपयोगिता
 Utility, negative नकारात्मक उपयोगिता
 Utility, ordinal क्रम-सूचक उपयोगिता
 Utility, place स्थानमूलक उपयोगिता
 Utility, positive धनात्मक उपयोगिता
 Utility, private marginal निजी सीमान्त उपयोगिता
 Utility, service सेवामूलक उपयोगिता
 Utility, social marginal सामाजिक सीमान्त उपयोगिता
 Utility, time समयमूलक उपयोगिता
 Utility, total कुल उपयोगिता
 Utility, zero शून्य उपयोगिता
 Utility analysis उपयोगिता विश्लेषण
 Utility analysis of consumer's demand उपभोक्ता की मांग का उपयोगिता विश्लेषण
 Utility approach उपयोगिता दृष्टिकोण
 Utility creation उपयोगिता सृजन
 Utility curve उपयोगिता वक्र
 Utility equivalents उपयोगिता के तुल्यांक
 Utility goods उपयोगी वस्तुएँ
 Utility level उपयोगिता स्तर
 Utility optimum उपयोगिता अनुकूलतम बिन्दु
 Utility possibility curve उपयोगिता संभावना वक्र
 Utility scale उपयोगिता-क्रम, उपयोगिता मान
 Utility surface उपयोगिता तल
 Utility theory of value मूल्य का उपयोगिता सिद्धान्त

Utilization value उपयोग/प्रयोग मूल्य
 Utopian planning भ्रष्टवहार्थ/काल्पनिक आयोजना

Utopian socialism अर्थवहार्थ समाजवाद, यूटोपियाई समाजवाद—घटारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध भाग और उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध भाग में कुछ भादर्सवादियों एवं भ्रष्टवहार्थ समाजवादियों ने समाजवाद के एक प्रारम्भिक रूप की सत्पना की। इसके मुख्य समर्थकों में सेंट साइमन (Saint Simon), रॉबर्ट ओवन (Robert Owen), फोरियर (Fourier), गोडविन (Godwin), सिस्मोंडी (Sismondi), लुई ब्लांक (Louis Blanc) आदि गिने जाते हैं। इन विचारकों ने श्रम संघों और उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा उत्पादन करने का सुझाव दिया। निःसन्देह भ्रष्टवहार्थ समाजवादियों ने पूँजीवादी समाज के दोषों का विश्लेषण किया और इसमें वर्तमान वर्ग संघर्ष और अन्याय का उल्लेख किया। किन्तु इन दोनों की समाप्ति के लिए छोटे-छोटे, स्वतन्त्र और स्वच्छिन्न सम्प्रदायों की स्थापना का सुझाव दिया जिनमें श्रमिक मिल कर रहे। इन सम्प्रदायों के सदस्य अपनी सम्पत्ति को एक सामूहिक संग्रह में एकत्र करके और इसका प्रयोग सम्प्रदाय के हित के लिए करें। इस प्रकार उत्पादन के लाभ को सभी श्रमिकों में विभक्त किया जाए। उनके अनुसार केन्द्रीय सरकार की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ये भादर्सवादी सहकारी सम्प्रदाय निर्रंधता, असंतोष आदि को समाप्त करने के लिए सशम समर्थ गए। भ्रष्टवहार्थ समाजवादियों के विचारों को अर्थशास्त्रिक माना गया क्योंकि समाज के विश्लेषण के पश्चात् ये एक नए समाज की स्थापना के बारे में निश्चित योजना का निर्माण न कर सके। न ही भ्रष्टवहार्थ समाजवादियों ने पूँजी के सामाजिक नियंत्रण की योजना पेश की। इन कारणों से लोगों ने इनके विचारों पर यत्नीर रूप में चिन्तन न किया क्योंकि उनके प्रोद्धान्त भ्रष्टवहार्थिक थे। इसी कारण यह भादर्सवादी ही समाप्त हो गया।

Utopian socialists भ्रष्टवहार्थ समाजवादी

V

Vacancy clearing रिक्ति परिसूचन, रिक्ति स्थान परिसूचन
 Vacancy exchange रिक्ति दफ़्तर, रिक्ति स्थान दफ़्तर, रोज़गार-दफ़्तर
 Vacation of office पदरिक्ति
 Vacation strike प्रवकाश हड़ताल
 Validity of economic laws आर्थिक नियमों की प्रामाणिकता
 Validity period वैधता अवधि
 Valorization मूल्य स्थिरीकरण—सरकारी हस्त-क्षेप द्वारा किसी स्वैच्छिक कीमत को स्थापित करना। इस उद्देश्य के लिए कृषि-उत्पादकों को ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में जिनकी कीमत सरकार प्रचलित बाज़ार कीमत से अधिक या कम करना चाहती है, सार्वजनिक भ्रूण दिए जाते हैं। उदाहरणार्थ, यू० एस० न्यू डील के अधीन सरकार ने उत्पादकों को उत्पादन कम करने के लिए सहायता दी। इसी प्रकार सरकार एकाधिकारी क्रय एवं विक्रय एजेंसी कायम कर सकती है ताकि कीमत-नियन्त्रण किया जा सके। कई देशों में सरकारें उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को अर्धसाहाय्य देती हैं। इस प्रकार उत्पादन बढ़ाकर कीमतों को बढ़ने से रोका जा सकता है।
 Valorization scheme मूल्य-स्थिरीकरण योजना
 Valuation मूल्यांकन, मूल्य-निर्धारण, मूल्यन
 Valuation method मूल्यन विधि, मूल्यांकन विधि
 Valuation scales मूल्यांकन पैमाना, मूल्यांकन का मापदण्ड
 Valuation statement मूल्यन-विवरण
 Value मूल्य
 Value, above par अधिमूल्य
 Value, absolute निरपेक्ष मूल्य
 Value, absolute surplus निरपेक्ष वैश्वी मूल्य
 Value, aggregate समस्त मूल्य
 Value, average औसत मूल्य
 Value, below par अधमूल्य
 Value, banded कर-रहित मूल्य
 Value, book खाता मूल्य

Value, break-up वर्तमान विक्रय मूल्य
 Value, capital पूँजी मूल्य
 Value, capitalised पूँजीकृत मूल्य
 Value, cash दकद मूल्य
 Value, commuted रूपांतरित मूल्य
 Value, contributory अद्ययायी मूल्य
 Value, declared घोषित मूल्य
 Value, denominational (= face value) अंकित मूल्य
 Value, derived व्युत्पन्न मूल्य
 Value, determination of मूल्य-निर्धारण
 Value, discounted बट्टागत मूल्य
 Value, economic आर्थिक मूल्य
 Value, exchange विनिमय मूल्य
 Value, face अंकित मूल्य
 Value, going चालू/वर्तमान मूल्य
 Value, human and material मानवीय और भौतिक मूल्य
 Value, intrinsic वास्तविक मूल्य
 Value, investment निवेश मूल्य
 Value, labour theory of मूल्य का श्रम सिद्धान्त
 Value, land भूमि-मूल्य, भू-मूल्य
 Value, market बाज़ार मूल्य
 Value, mean औसत मूल्य
 Value, measure of मूल्य-माप
 Value, money मुद्रा मूल्य
 Value, net निवल मूल्य
 Value, nominal अंकित मूल्य
 Value, non-productive अनुत्पादक मूल्य
 Value, normal सामान्य मूल्य
 Value, objective विषयपरक मूल्य
 Value, par सममूल्य
 Value, paradox of मूल्य विरोधाभास
 Value, permanent स्थायी मूल्य
 Value, productive उत्पादक मूल्य
 Value, real वास्तविक मूल्य
 Value, recurring आवर्ती मूल्य
 Value, redemption प्रतिदान/प्रतिदेय मूल्य
 Value, relative सापेक्ष मूल्य

Value, relative surplus संपोष वेदी मूल्य
 Value, rental जमाबन्दी/लगान मूल्य
 Value, scarcity दुर्लभता मूल्य
 Value, short-period अल्पकालीन मूल्य
 Value, site स्थान/भूवस्थिति मूल्य
 Value, social सामाजिक मूल्य
 Value, standard of मूल्यमान
 Value, stability of मूल्य की स्थिरता
 Value, store of मूल्य का संग्रह, मूल्य-संचय
 Value, subjective व्यक्तिपरक मूल्य
 Value, sub-normal उपसामान्य मूल्य
 Value, surplus वेदीमूल्य, घटितरेक मूल्य
 Value, surrender समर्पण मूल्य, समर्पण मूल्य
 Value, survival अनुवर्ती मूल्य
 Value, theory of मूल्य का सिद्धान्त
 Value, use उपयोग मूल्य
 Value, utility theory of मूल्य का उपयोगिता सिद्धान्त
 Value added मूल्य वृद्धि
 Value added method मूल्य-वृद्धि विधि
 Value added taxes मूल्य-वृद्धि कर—यह कर किसी फर्म द्वारा की गयी प्रक्रिया के मूल्य पर लगाया जाता है। उदाहरणार्थ, रंगे के कारखाने में केवल मूल्य-वृद्धि पर कर लगाया जाये जो इस प्रक्रिया द्वारा कपड़े को प्राप्त हुई है। इसके विरुद्ध घावों कर में कपड़े के कुल मूल्य पर कर लगा दिया जाता है। अतः ऐसी परिस्थिति में जहाँ फर्म विभिन्न क्रियाओं को विशिष्ट रूप में करती हैं, मूल्य-वृद्धि कर उनके द्वारा उत्पादित मूल्य पर लगाया जाता है। इस कर का मुख्य गुण यह है कि इतने बोझे करायान की सम्भावना नहीं रहती।
 Value creating power मूल्य सृजन शक्ति
 Value date मूल्यन तिथि
 Value determination मूल्य-निर्धारण
 Value economics मूल्य-अर्थशास्त्र
 Value index मूल्य सूचकांक
 Value-in-exchange विनिमय-मूल्य
 Value in exchange and value in use
 विनिमय मूल्य तथा उपयोग मूल्य—इन शब्दों का

प्रयोग एडम स्मिथ द्वारा 'मूल्य के विरोधाभास' के लिए किया गया। विरोधाभास यह था कि हीरों और पानी की कीमतें उनके उपयोग-मूल्य से बिलोम सम्बन्ध रखती थी। एडम स्मिथ ने इसके समाधान के लिए यह कहा कि विनिमय-मूल्य वस्तु की कीमत है, परन्तु उपयोग-मूल्य उसके महत्त्व पर निर्भर करता है। इसका कारण यह था कि एडम स्मिथ ने मूल्य की समस्या पर समग्र पक्ष की दृष्टि से विचार किया और माँग पक्ष की उपेक्षा की।

Value-in-use उपयोग-मूल्य
 Value judgements मूल्य-सम्बन्धी निर्णय
 Value loaded theory मूल्य प्रधान सिद्धांत, मूल्य-युक्त सिद्धांत—उदाहरणार्थ, 'बल्पाण' एक द्रव्य एवं अस्पष्ट तथा मूल्य-युक्त विचार है।
 Value of marginal product सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य, सीमान्त उत्पाद का मूल्य
 Value of marginal productivity सीमान्त उत्पादित का मूल्य
 Value of money मुद्रा का मूल्य
 Value of service principle सेवा-मूल्य सिद्धान्त
 Value postulates मूल्य सम्बन्धी आवाहकत्व
 Value problem मूल्य निर्धारण की समस्या
 Value table मूल्य सारणी
 Value theory मूल्य सिद्धांत
 Value under imperfect competition अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य-निर्धारण
 Value under monopoly एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य-निर्धारण
 Value under perfect competition पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य-निर्धारण
 Variability in proportions of factors साधनों के अनुपात में परिवर्तनशीलता
 Variability of investment विनिवेश/निवेश परिवर्तनशीलता
 Variable चल, चर, परिवर्तन कारक
 Variable, autonomous स्वायत्त चर
 Variable, dependent आश्रित चर
 Variable, economic आर्थिक चर/चल
 Variable, independent स्वतंत्र चर

Variable, unknown अज्ञान चर/अन

Variable aggregates चल-समूह

Variable capital परिवर्ती पूँजी

Variable cost परिवर्तनशील लागत, घटती-बढ़ती लागत, परिवर्ती लागत

Variable cost curve परिवर्ती लागत वक्र

Variable cost curve, average औसत परिवर्ती लागत वक्र

Variable cost of production उत्पादन की परिवर्ती लागत

Variable factor परिवर्तनशील साधन

Variable input परिवर्ती आदान

Variable parameter चर-प्राचल

Variable proportions परिवर्तनशील अनुपात

Variable proportions, law of परिवर्तनशील अनुपात नियम

Variable reserve ratio परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात

Variance प्रसरण

Variation in public expenditure सरकारी-व्यय में परिवर्तन

Variation of parameter प्राचल-विचरण

Variation of reserve ratios आरक्षित अनुपात में परिवर्तन

Varied products विविध वस्तुएँ

Variety of uses अनेक प्रयोग

Various theories of profits लाभ के विभिन्न सिद्धांत

Varying proportions परिवर्तनशील अनुपात

Vegetable oil वनस्पति तेल

Vegetable products वनस्पति पदार्थ

Vehicle tax गाड़ी कर

Veil of money concept मुद्रा आवरण संकल्पना
—इस संकल्पना के अनुसार मुद्रा तटस्थ है। चूँकि वस्तु, वस्तुओं का वस्तुओं से विनिमय किया जाता है, मौद्रिक सोदे केवल आवरण-मात्र हैं जो वास्तविक प्रक्रियाओं को छिपाए रखते हैं। जब लोग मुद्रा के आवरण के पार नहीं देख पाते और स्वयं मुद्रा में ही मूल्य निहित मानते हैं, तो मुद्रा के बारे में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है।

प्रतिष्ठित ग्रंथशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा पूर्णतया तटस्थ है और मुद्रा-समरण में किसी प्रकार के परिवर्तन का केवल परम कीमत-स्तर पर प्रभाव पड़ता है, परन्तु इसका ग्रंथव्यवस्था के वास्तविक चलो अर्थात् उत्पादन के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह धारणा तो केवल पूर्ण-रोजगार संतुलन की परिस्थितियों की तुलना के लिए सत्य मानी जा सकती है। परन्तु जब ग्रंथव्यवस्था में अल्प-प्रयुक्त साधन विद्यमान होते हैं, मुद्रा तटस्थ नहीं रह सकती और मुद्रा-समरण में परिवर्तन वास्तविक चलो पर भी प्रभाव डालते हैं।

Velocity of circulation of money मुद्रा परिचलन का प्रवेग, मुद्रा की चलन गति, मुद्रा का संचलन-वेग

Velocity of currency करेंसी संचलन-वेग

Velocity ratio वेग अनुपात

Vender विक्रेता

Venture capital जोखिमो पूँजी—ऐसी पूँजी जिसमें जोखिमो का भारी अंश हो। इसी कारण इसे जोखिमो पूँजी (Risk capital) भी कहते हैं। किसी नए व्यापार में लगायी गयी पूँजी जिसमें सफलता के अवसर अनिश्चित हो।

नये स्कन्ध के रूप के लिए स्कन्धधारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई पूँजी, चाहे वह अर्जित लाभ के पुनः विनियोजन में लगाई जाए या अन्य स्रोतों से पूरित की जाए, जोखिमो पूँजी कहलाती है। यह औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक अधिवास धनराशि उपलब्ध कराती है जिससे नये निगमों के लिए वित्त-प्रवण्य या पुराने निगमों के विस्तार कार्यक्रमों के लिए वित्त जुटाया जाना है। जोखिमो पूँजी व्यापारिक उधार के आलम्बन का कार्य भी करती है। बैंकर तथा विनियोक्ता किसी ऐसी कम्पनी को उधार नहीं देगे जिसकी हिस्सा-पूँजी अयर्थात् है।

Verifiable सत्यापनीय

Vernacular system देव भाषा प्रणाली

Versatility of resources साधनों में बहु-उपयोगिता

Vertical axis लम्बवत्/उद्वर्ग/उर्ध्वधर/तदा अक्ष

- Vertical combination उदय संयोज/संयोजन, ऊर्ध्व-
स्तर गुटबन्दी
- Vertical competition ऊर्ध्वस्तर प्रतियोगिता
- Vertical disintegration उदय वियोजन
- Vertical distance उदय अन्तर, ऊर्ध्व अन्तर
- Vertical economies उदय/लम्बवत् मितव्ययताएँ
- Vertical equity लम्बवत्/उदय समानता
- Vertical integration ऊर्ध्वीपर/लम्बवत्/उदय**
एकीकरण—किसी फर्म द्वारा उत्पादन की एक
से अधिक अवस्थाओं का कार्य करना। सबसे
अधिक व्यापक उदय एकीकरण तब समझा जाएगा
जब कोई फर्म कच्चे माल के विघायन से लेकर
तैयार माल के उत्पादन और बितरण तक की सभी
उत्पादन सम्बन्धी अवस्थाओं को समाविष्ट कर
ले। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस्पात उत्पादकों
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो कोयले तथा कच्चे
लोहे को खानों से निकलवाते हैं। फिर इसे लोह-
कारखानों में गरम कर इससे लोहा और फिर
इस्पात तैयार करते हैं। इसके पश्चात् तैयार
इस्पात से कई अर्द्ध-निर्मित एच निर्मित वस्तुएँ
बनाते हैं और अन्त में इन वस्तुओं को या तो देश
में अन्तिम उपभोक्ताओं को बेच देते हैं या इनका
निर्पत करते हैं।
उदय एकीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है
कि इसके द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में तालमेल
हो जाने से कई प्रकार की रिफायर्वे उत्पन्न होती
है जिनसे उत्पादन की लागत कम हो जाती है
और उत्पादन अधिक कुशल ढंग से होने लगता
है।
- Vertical labour mobility उदय श्रम गतिशीलता
- Vertical maladjustment उदय कुव्यवस्था/कुसं-
मजन
- Vertical mobility of labour श्रम की उदय गति-
शीलता
- Vertical movement of labour श्रमिकों की
ऊर्ध्वस्तर गतिशीलता
- Vertical scale लम्ब पैमाने
- Vertical strata उदय स्तर/दर/श्रेणियाँ
- Vertical subclassification उदय उपवर्गीकरण
- Vertical unionism ऊर्ध्वस्तर संघवाद
- Very distant substitutes अति दूरस्थ प्रतिस्थापन
वस्तुएँ
- Very high marginal rates अत्यधिक ऊँची
सीमांत दरें
- Very long period अतिदीर्घकाल
- Very short period (\approx market day) अत्यन्त
अल्पकाल (अर्थात् बाजार दिवस)
- Vested interest निहित स्वार्थ, निहित हित
- Vested in trust न्यास निहित
- Veteran services and benefits वयोवृद्ध सेवाएँ
तथा लाभ
- Viable level सक्षम स्तर
- Vicious circle दुश्चक्र, कुचक्र
- Vicious circle of poverty निर्धनता का दुश्चक्र/
कुचक्र
- Vicious wage-price spiral गजदूरी-कीमत का
दुश्कुन्तल
- Village and cottage industries ग्राम और
कुटीर उद्योग
- Village and Small-scale Industries Commi-
ttee ग्राम तथा लघुस्तरीय उद्योग समिति
- Village community project ग्राम सामुदायिक
परियोजना
- Village economy ग्राम अर्थव्यवस्था
- Village industry ग्रामोद्योग
- Village level worker ग्राम-स्तरक
- Village management ग्राम प्रबंध
- Village market ग्राम विपणि
- Village organisation, primitive आदिवासी
ग्राम-व्यवस्था
- Village planning ग्राम आयोजन
- Village Production Council ग्राम उत्पादन परिषद्
- Village production plans ग्राम उत्पादन योजनाएँ
- Village society ग्राम समाज
- Village survey ग्राम सर्वेक्षण
- Village uplift ग्रामोद्धार, ग्राम-सुधार
- Village uplift movement ग्राम सुधार आन्दोलन
- Village volunteer force ग्राम स्वमतेजक दल

- Villein कृषिदास**—सामन्तवादी प्रथा में इसका अर्थ उस वर्ग के सदस्यों से लिया जाता है जो भू-स्वामियों की दृष्टि से गुलाम थे परन्तु अन्य व्यक्तियों के सवध में वे मुक्त व्यक्तियों की भाँति अधिकार एवं विशेषाधिकार रखते थे ।
- Violent fluctuations** प्रचण्ड उच्चावचन, उग्र उतार-चढ़ाव
- Visible balance** दृश्य दोष
- Visible exports** दृश्य निर्यात
- Visible imports** दृश्य आयात
- Visible items of trade** व्यापार की दृश्य मदें
- Visible mercantile** दृश्य व्यापार वस्तुएँ
- Visible trade** दृश्य व्यापार, अभिलिखित व्यापार
- Visible under-employment** दृश्य अल्परोजगार
- Visual commercial publicity** दृश्य धार्मिज्यिक प्रचार
- Vital statistics** जीवन समंका, जीवनांक, जीवन संबंधी सांख्यिकी, जीवन संबंधी आंकड़े—इन आंकड़ों का सम्बन्ध जन्म तथा मरणदर के आंकड़ों, विवाह, प्रजनन, बीमारी, आयु-वितरण, लिंग मूलक वितरण आदि से है ।
- Vocation** व्यवसाय
- Vocational and technical training** व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण
- Vocational education** व्यावसायिक शिक्षण
- Vocational guidance** व्यावसायिक मार्गदर्शन
- Volume of currency in circulation** परिचलन में करेन्सी की मात्रा
- Volume of employment** रोजगार परिमाण, रोजगार की मात्रा
- Volume of export** निर्यात मात्रा
- Volume of indebtedness** ऋणितता की मात्रा, ऋणप्रस्तता की मात्रा
- Volume of money** मुद्रा का परिमाण, मुद्रा की मात्रा
- Volume of output/production** उत्पादन-परिमाण, उत्पाद की मात्रा
- Volume of trade** व्यापार-मात्रा
- Voluntary arbitration** स्वैच्छिक पंच फैसला
- Voluntary association for profit** लाभ के लिए ऐच्छिक संघ
- Voluntary award** स्वैच्छिक पंचनियुक्त/अवार्ड
- Voluntary bankruptcy** स्वैच्छिक दिवाल
- Voluntary co ordination** स्वैच्छिक समन्वय
- Voluntary deposit** स्वैच्छिक जमा
- Voluntary domestic savings** ऐच्छिक आंतरिक बचत, स्वैच्छिक अन्तर्देशीय बचत
- Voluntary labour** स्वैच्छिक मजदूर
- Voluntary liquidation** स्वैच्छिक परिसमापन
- Voluntary loans** स्वैच्छिक ऋण
- Voluntary monopoly** स्वैच्छिक एकाधिकार
- Voluntary organisations** स्वैच्छिक संस्थाएँ
- Voluntary paper standard** ऐच्छिक पत्र-मान
- Voluntary savings** ऐच्छिक बचत
- Voluntary sterilisation** स्वैच्छिक वन्धनकरण, स्वैच्छिक नसबन्दी
- Voluntary surrender** स्वैच्छिक समर्पण
- Voluntary surrenders and restorations** स्वैच्छिक समर्पण और प्रत्यावर्तन
- Voluntary turnover** स्वैच्छिक आवर्तन
- Voluntary unemployment** ऐच्छिक बेरोजगारी
- Voluntary welfare programme** ऐच्छिक कल्याण कार्यक्रम
- Voluntary winding up** स्वैच्छिक समापन
- Votes of account** लेखानुदान
- Votes of credit** प्रत्ययानुदान
- Voting shares** मताधिकारी हिस्से

W

Wage मजदूरी

Wage, actual (=real wage) वास्तविक/प्रसन्न मजदूरी

Wage, bare subsistence गुजारे लायक मजदूरी, निर्वाह-मात्र मजदूरी

Wage, beginning प्रारम्भिक मजदूरी

Wage, cash नकद मजदूरी

Wage, compulsory dismissal अनिवार्य बर्खास्तगी मजदूरी

Wage, constant नियत मजदूरी

Wage, contract सविदागत मजदूरी

- Wage, current प्रचलित मजदूरी
 Wage, customary रिवाजी मजदूरी, पारम्परिक मजदूरी
 Wage, day दिहाड़ी, दैनिक मजदूरी
 Wage, dismissal बर्खास्त/बर्खास्तगी मजदूरी
 Wage, fair उचित मजदूरी
 Wage, family परिवार मजदूरी
 Wage, going धातु/वर्तमान मजदूरी
 Wage, graduated क्रमिक मजदूरी
 Wage, guaranteed गारंटीकृत मजदूरी
 Wage, guaranteed annual गारंटीकृत सन्नात मजदूरी
 Wage, imputed आरोपित मजदूरी
 Wage, just यथोचित मजदूरी
 Wage, living जीवन के लिए पर्याप्त मजदूरी
 Wage, minimum न्यूनतम मजदूरी
 Wage, minimum living न्यूनतम निर्वाह मजदूरी
 Wage, money मौद्रिक मजदूरी
 Wage, natural स्वाभाविक मजदूरी
 Wage, need-based प्रावश्यकता-आधारित मजदूरी
 Wage, nominal नकद मजदूरी
 Wage, piece कार्यानुसार मजदूरी, उजरत
 Wage, real वास्तविक मजदूरी
 Wage, social सामाजिक मजदूरी
 Wage, starvation प्राथे पेट भर की मजदूरी, फाका मजदूरी
 Wage, task अनुबंध मजदूरी
 Wage, time समयानुसार मजदूरी, धमानी
 Wage, transition संक्रमण मजदूरी/वित्त
 Wage, unfair अनुचित मजदूरी
 Wage, union संघ मजदूरी/वित्त
 Wage according to work कार्यानुसार मजदूरी
 Wage analysis मजदूरी विश्लेषण
 Wage bargaining मजदूरी सम्बन्धी सीदेबाजी
 Wage Board मजदूरी बोर्ड/मण्डल
 Wage Boards, Tripartite त्रि-पक्षीय मजदूरी बोर्ड/मण्डल
 Wage boost मजदूरी बढ़ोतरी
 Wage brackets मजदूरी पीछक/श्रेणियाँ
- Wage census मजदूरी-गणना
 Wage census scheme मजदूरी गणना परिमोजना
 Wage contract मजदूरी संधिदा
 Wage control मजदूरी नियन्त्रण
 Wage cost मजदूरी लागत
 Wage cost per unit of output प्रति इकाई मजदूरी लागत
 Wage cut मजदूरी कटौती
 Wage cut, general सामान्य मजदूरी काट/कटौती
 Wage deflation मजदूरी संकुचन
 Wage determination मजदूरी निर्धारण
 Wage differentiation मजदूरी भेद, मजदूरी भेद
 Wage dispute मजदूरी विवाद
 Wage dividend मजदूरी सान्नाह—विशेष निवम के कर्मचारियों को उनकी वार्षिक मजदूरी के प्रतिरिक्त प्रदा किया गया भोनेस। इस भोनेस का निवम के पूंजी-स्वन्ध पर दिए जाने वाले बोनस से निश्चित सम्बन्ध होता है।
 Wage earner मजदूरी कमाने वाला, मजदूरी-उपार्जन
 Wage fixation मजदूरी निर्धारण/निश्चयन
 Wage flexibility मजदूरी की लोचनीलता/परिवर्तनीयता
 Wage fluctuation मजदूरी में उतार-चढ़ाव, मजदूरी में उच्चावचन
 Wage freeze मजदूरी-वृद्धि-रोप, मजदूरी जड़ो-करण—कुछ समय के लिए मजदूरी को अपने वर्तमान स्तर पर रोक देना। इसका उद्देश्य मजदूरी में वृद्धि से जनित स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को रोकना है। साम्तीर पर मजदूर-संघ इस प्रकार की नीति का विरोध करते हैं। 1901-02 में इग्लैंड में मजदूरी जड़ोकरण की नीति अपनायी गई परन्तु इसे विशेष सफलता प्राप्त न हुई।
 Wage fund मजदूरी-कोष/निधि
 Wage fund theory मजदूरी-निधि सिद्धांत, मजदूरी-कोष सिद्धांत
 Wage goods मजदूरी वस्तुएँ, मृति वस्तुएँ—इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर ए० सी० पीयू द्वारा किया गया। इसका अर्थ उन वस्तुओं से है

- जिनकी कीमतें श्रौतिक मजदूरी की अपेक्षा वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करती हैं।
- Wage goods gaps मजदूरी-वस्तु अन्तर, श्रुति वस्तु रिक्ति
- Wage goods sector मजदूरी-वस्तु क्षेत्र, श्रुति-वस्तु क्षेत्र
- Wage in cash नकद मजदूरी
- Wage incentive system मजदूरी-प्रेरणा प्रणाली, मजदूरी प्रोत्साहन प्रणाली
- Wage increase absorption मजदूरी वृद्धि सविलयन
- Wage-induced inflation मजदूरी-प्रेरित स्फीति
- Wage in kind जिन्स मजदूरी
- Wage leadership मजदूरी नेतृत्व
- Wage level मजदूरी स्तर
- Wage offer curve मजदूरी-प्रस्ताव वक्र
- Wage of supervision निरीक्षण की मजदूरी
- Wage policy मजदूरी नीति
- Wage-price flexibility मजदूरी-मूल्य नम्यता/लोचशीलता
- Wage-price inflexibility मजदूरी-मूल्य अनम्यता/लोचहीनता
- Wage-price-profit spiral मजदूरी-कीमत-लाभ कुन्तल
- Wage-price spiral मजदूरी-कीमत कुन्तल
- Wage-push inflation मजदूरीजन्य स्फीति, मजदूरीधक्का स्फीति
- Wage rate मजदूरी दर
- Wage rate variance मजदूरी दर विचरण/प्रसरण
- Wage regulation मजदूरी नियमन
- Wage restraint मजदूरी प्रतिबन्ध, मजदूरी नियन्त्रण/संयमन
- Wage rigidity मजदूरी की परिदृढता/लोचहीनता/अनम्यता
- Wage salary earners मजदूरी-वेतन अर्जक
- Wage statistics मजदूरी सम्बन्धी आँकड़े
- Wage structure मजदूरी का ढाँचा
- Wage subsidy मजदूरी साहाय्य
- Wage system मजदूरी प्रणाली
- Wage theory of profits लाभ का मजदूरी सिद्धांत
- Wage unit मजदूरी-इकाई
- Wage variability मजदूरी परिवर्तितता
- Wages, dual nature of मजदूरी का दोहरा स्वभाव
- Wages, freezing of नकद मजदूरी का जड़ीकरण
- Wages, general सामान्य मजदूरी
- Wages, industrial श्रौतिक मजदूरी
- Wages, iron law of मजदूरी का लौह सिद्धांत
- Wages, level of money मुद्रा-मजदूरी स्तर
- Wages, make-up पूरक मजदूरी
- Wages, marginal productivity theory of मजदूरी का सीमांत उत्पादित सिद्धांत
- Wages, money मुद्रा रूपी मजदूरी, नकद मजदूरी
- Wages, regulation of मजदूरी का नियमन
- Wages, standardisation of मजदूरी का मानकीकरण
- Wages, stickiness of मजदूरी की संलग्नता
- Wages, theory of मजदूरी का सिद्धांत
- Wages for management प्रबन्ध-मजदूरी
- Wagon capacity माल-ट्रिक्वो की क्षमता, बेंगन क्षमता
- Waiting period प्रतीक्षा-काल
- Walking inflation चलती स्फीति
- Wall street वाल स्ट्रीट—न्यूयार्क में एक मार्ग जहाँ बहुत से बैंको, बीमा कम्पनियों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के मुख्य कार्यालय स्थित हैं। न्यू यार्क स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ स्थित है और इस शब्द का प्रयोग इसके पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। जिस प्रकार लन्दन में शब्द 'city' का प्रयोग होता है, उसी प्रकार न्यूयार्क में शब्द 'Wall Street' का प्रयोग किया जाता है।
- Wall street crash वाल स्ट्रीट संकट—1929 में न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों की कीमतों के एकदम गिर जाने के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर सारे विश्व में महामन्दी फैल गयी। स्टॉक तथा हिस्सों में अत्यधिक सट्टे-बाजी के कारण इनकी कीमतें बहुत ही ऊँची चढ़ गयी थी तथा इन कीमतों के गिरने से ही संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई।

- Walrasian system** वासरस की पद्धति—
सामान्य संतुलन की पद्धति
- Want creation** मायश्यकताओं की उत्पन्न करना,
मायश्यकताएँ बँधा करना—मौद्रिक एवं राज-
कोषीय उपायों से माँग को प्रोत्साहन देना ताकि
रोजगार-स्तर काममें रखा जा सके। समृद्ध समाजों
में विज्ञान तथा किरत उधार उपायों द्वारा माँग
को प्रोत्साहित किया जाता है और लोगों के मन में
नयी वस्तुओं के लिए माँग उत्पन्न की जाती है।
- Wantlessness** मायश्यकता-विहीनता
- Want satisfying power** मायश्यकता गुष्टि की
शक्ति
- Wants** मायश्यकताएँ
- Wants, characteristics of** मायश्यकताओं के
लक्षण
- Wants, classification of** मायश्यकताओं का वर्गी-
करण
- Wants, creation of** मायश्यकताओं का उत्पन्न
होना
- Wants, double coincidence** मायश्यकताओं का
दोहरा तात्विक/समोप
- Wants, insatiable** अतृप्य मायश्यकताएँ
- Wants, multiplication of** मायश्यकताओं की
वृद्धि
- Wants, satiable** तृप्य मायश्यकताएँ
- Wants, satisfaction of** मायश्यकताओं की गुष्टि
- Wants, simplification of** मायश्यकताओं का
सरलीकरण
- War bond** युद्ध-बाँड
- War economy** युद्ध-सामर्थी अर्थव्यवस्था, युद्धकालीन
अर्थव्यवस्था
- War finance** युद्ध-सामर्थी वित्त-प्रणय
- War industry** युद्ध उद्योग
- War loan** युद्ध ऋण, युद्ध-भूण
- War profits tax** युद्ध-लाभ कर
- War-time goods** युद्धकालीन वस्तुएँ
- War-time inflation** युद्ध-कालीन स्फीति
- War-time pent-up demand** युद्धकालीन अवरुद्ध
माँग
- War-time price control** युद्धकालीन मूल्य-निय-
न्त्रण
- Warehouse** भाण्डागार, गण्डार
- Warehouse Act** भाण्डागार अधिनियम
- Warehouse receipt** भाण्डागार-रसीद
- Warehousing corporation** भाण्डागार नियम
- Warehousing Corporation, Central** केन्द्रीय
भाण्डागार नियम
- Warehousing facilities** भाण्डागार सुविधाएँ
- Warehousing finance** भाण्डागार वित्त
- Warehousing legislation** भाण्डागार विधान
- Warehousing loan** भाण्डागार भूण
- Warranted rate of growth** समृद्धि/विकसन की
समाप्तरत-दर
- Wastage** अपव्यय, क्षति, व्यर्थ-व्यय
- Wastage, natural** सामान्य क्षति
- Wastage of resources** ससाधनों का अपव्यय/व्यर्थ-
व्यय
- Wasteful investment** शर्ष विनियोग
- Wasteful use** शयनारी उपयोग
- Wasteland** बंजर भूमि
- Waste Land Survey and Reclamation Com-
mittee** बंजर भूमि सर्वेक्षण और भू-उद्धारण
समिति
- Waste materials** अपव्यय, रद्दी
- Waste product** व्यर्थ उत्पाद
- Wastes of competition** प्रतिस्पर्धिता के अपव्यय/
व्यर्थ-व्यय
- Wasting asset** शयनकारी परिसम्पत्—ऐसी
सम्पत्ति जिसकी क्षानु क्षीयता होती है परन्तु
जिसका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। उदा-
हरण के लिए कोयले की खान या तेल के कुएँ।
इनके बारे में सह बात तो निश्चित ही है कि कुछ
समय के पश्चात् इनमें प्राप्त होने वाला सनिज
सम्पत् हो जाएगा।
- Wasting resources** शयनकारी/शयनी संसाधन
- Water conservation** जल-संरक्षण
- Watering capital** पूँजी कुलाना, समिपूँजीकरण
- Watering of stock** समिपूँजीकरण, हिरसापूँजी

का अधिक फैलाव—इस क्रिया के आधीन किसी कम्पनी द्वारा हिस्सा पूँजी, बिना इसका पूरा भुगतान प्राप्त किए जारी की जाती है। इसका उद्देश्य ऐसा प्रभाव कायम करना होता है कि उद्यम में बहुत अधिक पूँजी लगी हुई है चाहे वस्तुस्थिति यह नहीं होती। इसका लक्ष्य कम्पनी की मान और प्रतिष्ठा कृत्रिम रूप में बढ़ाना है ताकि इसके हिस्से का बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त हो सके। यह शब्द डेनियल ड्रयु (Daniel Drew) के समय से प्रचलित है (जो बाद में सट्टा-बाज बना), जो पशुघो को उनके नारे के साथ नामक खिलाकर बाजार में ले आता था और वहाँ उन्हें बहुत अधिक पानी पिलाना था जिससे उनका वजन बढ़ जाता और वह ऊँची कीमत पर बिक सकते। इस व्यवहार की भाँति ही उसने हिस्सा बाजार में कार्य किया। सरकार द्वारा अधिपूँजी-यम के विरुद्ध कई रोक लगायी गयी हैं क्योंकि यह साधारण हिस्सेदारों के हित के विरुद्ध है।

Water-logged land जललान्न भूमि, जलप्रस्त भूमि
Water-logging जल तन्मता, जलप्रस्तता

Water tax जल कर

Water transport जल परिवहन

Wave of prosperity समृद्धि की लहर

Ways and means advances अर्थोपाय
अग्रिम—यह देश के केन्द्रीय बैंक के राजकोष से प्राप्त किया गया प्रत्यक्ष उधार होना है। यह कुल सरकारी उधार का बहुत छोड़ा भाग ही होता है।

Ways and means estimates अर्थोपाय प्रावकलन

Ways and means position अर्थोपाय स्थिति

Ways of trade व्यापार के मार्ग

Wayward master सनकी स्वामी, हठधर्मी स्वामी

Weak competitive power क्षीण प्रतियोगिता शक्ति, मन्द स्पन्द शक्ति

Weakening of demand माँग का मन्द पड़ना

Weakening of supply सभरण का मन्द हो जाना

Wealth धन, सम्पत्ति

Wealth, accumulation of धन संचयन, धन संग्रहण

Wealth, business व्यावसायिक सम्पत्ति

Wealth, collective सामूहिक धन/सम्पत्ति

Wealth, cosmopolitan सार्वभौमिक धन

Wealth, economic आर्थिक सम्पत्ति/धन

Wealth, hoarded जमा धन, संग्रहीत धन

Wealth, illiquid अतरल धन

Wealth, international अन्तर्राष्ट्रीय धन

Wealth, national राष्ट्रीय धन/सम्पत्ति

Wealth, negative शून्यात्मक धन

Wealth, personal वैयक्तिक/निजी धन

Wealth, real social वास्तविक सामाजिक धन

Wealth, reproducible पुनरुत्पादनीय धन

Wealth, social सामाजिक धन

Wealth, underground छिपा धन

'Wealth' definition धन सम्बन्धी परिभाषा

Wealth tax सम्पत्ति कर

Weapons of credit control साख नियन्त्रण के उपकरण/उपाय

Wear and tear विषर्षण, घिसाई, टूटपूट, क्षय

Wear and tear allowance घिसावट सम्बन्धी हानि पूर्ति-भत्ता

Weavers' societies बुनकर समितियाँ

Weeding नलाई, निराई, निदाई

Weekly contribution साप्ताहिक योगदान

Weekly holiday साप्ताहिक छुट्टी

Weekly hours साप्ताहिक कार्यघटे

Weekly premium साप्ताहिक बीमा-किस्त

Weekly statement साप्ताहिक विवरण

Weighted arithmetic average भारित गणितीय औसत

Weighted arithmetic mean भारित गणितीय औसत

Weighted average भारित औसत

Weighted geometric mean भारित गुणोत्तर औसत

Weighted index number भारित सूचकांक

Weighted marginal utility भारित सीमान्त उपयोगिता

Weighting महत्त्व प्रदान, भारण, भारावण्डन

Weight losing factor भार खोने वाला साधन

Weight of the finished product निमित्त वस्तु का भार

Weight of inertia जड़ता का भार

Weight of the localised material स्थानीय पदार्थों का भार

Weight-saving factor भार-बचाव साधन

Weir system घोर प्रणाली—यह मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में बढती बोनस प्रणाली है। कार्य के प्रत्येक अंश के लिए एक मानक-समय निश्चित कर दिया जाता है। यदि श्रमिक इससे कम समय में कार्य समाप्त कर देता है, तो उसे एक तो मानक-समय के आधार पर निर्धारित मजदूरी दे दी जाती है और बचाये गये समय के लिए साधारण समय-दर से प्राप्ति दर पर मजदूरी दी जाती है।

Welfare कल्याण

Welfare, economic आर्थिक कल्याण

Welfare, material भौतिक कल्याण

Welfare, public सार्वजनिक/लोकजनकल्याण

Welfare, social सामाजिक कल्याण

Welfare activities कल्याण-कार्य, कल्याण संकन्धी क्रियाएँ

Welfare criteria कल्याण सम्बन्धी कसौटियाँ

'Welfare' definition 'कल्याण' सम्बन्धी परिभाषा
Welfare economic analysis कल्याणवादी आर्थिक विश्लेषण

Welfare economics कल्याण अर्थशास्त्र

Welfare economics, normative आदर्शात्मक कल्याण अर्थशास्त्र

Welfare economics, Paretian पैरेटो का कल्याण-अर्थशास्त्र

Welfare economics, positive वास्तविक कल्याण अर्थशास्त्र

Welfare economists कल्याणवादी अर्थशास्त्री

Welfare expenditures कल्याणकारी व्यय

Welfare ideal कल्याणवादी आदर्श

Welfare implications of equilibrium संतुलन के कल्याण सम्बन्धी निहितार्थ

Welfare indicator कल्याण सूचक

Welfare judgements कल्याण-सम्बन्धी निर्णय

Welfare monopoly कल्याणवादी एकाधिकार

Welfare motive कल्याण-प्रयोजन

Welfare optima कल्याण-अनुकूलतम अवस्थाएँ

Welfare programme कल्याण-कार्यक्रम, कल्याण-प्रोग्राम

Welfare propositions कल्याण सम्बन्धी अस्थापनाएँ

Welfare science कल्याणकारी विज्ञान

Welfare services कल्याणकारी सेवाएँ

Welfare society कल्याणकारी समाज

Welfare state कल्याण-राज्य

Well-integrated theory सुविलीयित सिद्धांत

Western Shipping Corporation पश्चिमी जहाज-रानी निगम

Wet land revenue सिंचित-भूमि राजस्व

Wet time pay वर्षा-समय वेतन

Wharfage charges तट-भरण प्रभार, घाटशुल्क

Wharfinger घाटवाला, घाटिया

What the market will bear बाजार कितना सहन कर सकता है, वह कीमत जो व्यापार सहन कर सके

Wheat zone गेहूँ प्रदेश/क्षेत्र

White collar class सफेदपोश वर्ग

White collar jobs सफेदपोश नौकरियाँ

White collar workers (=blue collar workers) सफेदपोश कर्मचारी (ब्लू कॉलर इत्यादि)—ऐसा श्रमिक जिसे अपने कार्य के लिए सामान्य पोशाक चाहिए। सफेदपोश व्यवसायों में श्रमिकों को अधिक सारोरिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस व्यापक शब्द में वे सभी श्रमिक शामिल हैं जो क्लर्क, प्रशासनिक एवं व्यावसायिक कार्यों और उद्योग में प्रबन्ध-कार्यों में लगे हुए होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के कारण सफेदपोश श्रमिकों का कुल श्रमशक्ति में अनुपात बड़ा है।

White plan व्हाइट योजना—ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में इस योजना द्वारा अमरीकी सरकार का इटलिनोए व्यक्त किया गया था, जिसका शीर्षक था "संतुलित राष्ट्र स्वायत्त कोष के लिए अमरीका के सुझाव।"

- Whole cluster of price ranges कीमत की विस्तार-सीमाओं का सम्पूर्ण समूह
- Whole manufacturing industries सम्पूर्ण निर्माण उद्योग
- Wholesale and retail prices थोक और खुदके कीमतें
- Wholesale cash price थोक नकद मूल्य
- Wholesale distributor थोक वितरणकर्ता/वितरक
- Wholesale index number थोक सूचकांक
- Wholesale market price थोक बाजार कीमत
- Wholesale prices थोक कीमतें, थोक भाव
- Wholesalers थोक विक्रेता
- Wholesale standard थोक विक्री मान
- Wholesale trade थोक व्यापार
- Wholesale trader थोक व्यापारी
- Wholesale value थोक मूल्य
- Wholetime agent पूर्णकालिक एजेंट
- Wholetime employment पूर्णकालिक रोजगार
- Wholetime labour पूर्णकालिक श्रम/श्रमिक
- Wholetime servant पूर्णकाल सेवक
- Wholetime work पूर्णकाल-कार्य
- Wholetime worker पूर्णकाल श्रमिक
- Wicksell's interest theory विन्सेल का ब्याज सिद्धांत
- Wide income disparities व्यापक आय सम्बन्धी असमानताएँ
- Wide market विस्तृत बाजार
- Widening and deepening of tax structure कर-पद्धति को विस्तारित और गहन करना
- Widening of capital पूँजी को विस्तारित करना
- Wider coercive powers व्यापक जोर-जबरदस्ती वाली शक्तियाँ
- Wider process व्यापक प्रक्रिया
- Wider scope व्यापक क्षेत्र
- Wild cat money अस्थिर बैंक की मुद्रा
- Wild cat strike अनधिकृत हड़ताल—मजदूरों द्वारा बिना किसी अधिकृतता दिए और बिना औपचारिक मजदूर संघ की स्वीकृति लिए हड़ताल कर देना। अनधिकृत हड़ताल का उद्देश्य एकदम शक्ति प्रदर्शन करना होता है ताकि मिल मालिक भयभीत होकर मजदूरों की मांगों को स्वीकार कर लें।
- Willingness to save बचत करने की इच्छा
- Will to save बचत करने की इच्छा
- Will to work कार्य करने की इच्छा
- Windfall अप्रत्यासित आय, दैव आय, आकस्मिक आय
- Windfall gains and losses अप्रत्यासित लाभ एवं हानियाँ
- Windfall income अप्रत्यासित आय, आकस्मिक आय
- Windfall profits आकस्मिक लाभ
- Windfall wealth अनायास-प्राप्त सम्पत्ति
- Wind up परिसमाप्त—किसी सीमित दायित्व वाली कंपनी को अपनी इच्छा से या न्यायालय के आदेश के अनुसार समाप्त करना।
- Window dressing बाह्य अलंकरण, बाहरी सजावट—तत्त्वों को गलत ढंग से पेश करके अनुकूल प्रभाव डालने की क्रिया। इसका प्रयोग कई ऐसी कंपनियों द्वारा किया जाता है जिनकी वित्तीय स्थिति खराब होती है।
- Withdrawal प्रत्याहरण, प्रत्याहार, निकालना
- Withdrawable at short notice अल्प सूचना पर प्रत्याहार्य
- Withdrawal form प्रत्याहरण प्रपत्र/फार्म
- Withdrawal of credit उधार लौटाना
- Withdrawer प्रत्याहर्ता
- Withheld amount रोकी हुई धनराशि
- Without some sort of confession of faith बिना किसी तरह के मत या प्रतिपादन किए
- Without upsetting the main structure of capitalism बिना पूँजीवादी व्यवस्था के मुख्य ढाँचे को उलटाने
- Wobbles अस्थिर उतार-चढ़ाव
- Women labour स्त्री श्रम, स्त्री श्रमिक, श्रमिक औरतें
- Work कार्य/काम
- Work, bread अन्नदायी कार्य, रोटी कमाने का रोजगार

Work, dead श्रैतन कार्य, बेकार
 Work, fair days' उचित दैनिक काम
 Work, highly paid उच्चवर्धन कार्य
 Work, job जॉब कार्य
 Work, labour welfare श्रमिक कल्याण कार्य
 Work, make up रोजगारार्थ/निमित्त कार्य
 Work, measured day समायोज्य दिवस कार्य
 Work, night रात्रि कार्य
 Work, over प्रतिश्रम, श्रमिक कार्य
 Work, piece उदरती काम
 Work, task नियत कार्य
 Work centre कार्य-केंद्र
 Work certificate कार्य-प्रमाण-पत्र
 Work contract निर्माण सविन, कार्य ठेका
 Work curve कार्य चक्र
 Work cycle कार्य चक्र
 Work day कार्य दिवस
 Work decrement कार्य-ह्रास
 Work expenditure कार्य-व्यय
 Work fund कार्य-राशि
 Work habits काम की आदतें
 Work house सोहताइगाना, कलाशाला, निर्धन निरेहन
 Work-in-process turnover प्रक्रियाधीन कार्य-घावर्त अनुपात
 Work load कार्य भार
 Work project कार्य परियोजना
 Work rules कार्य के नियम
 Work schedule कार्य अनुसूची
 Work seekers कामखोजी लोग, रोजगार खोजने वाले
 Work spreading कार्य प्रसरण
 Work study कार्य अध्ययन
 Work value निर्माण मूल्य
 Workable competition साम्य प्रतियोगिता, व्यवहार्य स्पर्धा
 Worker कार्यकर्ता, कामिक, कर्मी, श्रमिक, कामगार, मजदूर

Worker, casual अस्थायी श्रमिक, वैमिथिक कामगार
 Worker, gainful प्रत्येक कामगार
 Worker, handicapped विकलांग कर्मी/श्रमिक
 Worker, impaired प्रसमर्थ कर्मी
 Worker, intermittent असाधारण श्रमिक
 Worker, itinerant परिभ्रामी कर्मी
 Worker, metal धातुकार
 Worker, migratory प्रवासी श्रमिक
 Worker, mill मिल मजदूर
 Worker, mine खान मजदूर, खनिक
 Worker, mobile संचाल श्रमिक
 Worker, part-time अर्धकाल कर्मी
 Worker, skilled दक्ष कर्मी, कुशल श्रमिक
 Worker, static स्थैतिक कर्मी
 Worker, threshold न्यूनतमी, नव श्रमिक
 Worker, unskilled अक्षर कर्मी, अकुशल श्रमिक
 Worker, wholotime पूर्णकाल कर्मी, पूर्णकाल श्रमिक
 Workers' attitude श्रमिकों का दृष्टिकोण
 Workers' bonus fund श्रमिक भोगन कोष, श्रमिक श्रमिलाभात निधि
 Workers' cost of living standard index मजदूरों के जीवन-निर्वाह स्तर संबंधी सूचकांक
 Workers' participation in management औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता
 Workers' surplus श्रमिक अतिशेष
 Workers' union कर्मी संघ, कामकार संघ, कामगार संघ, श्रम संघ
 Working ago कार्यकारी आनु
 Working agreement कार्यवाहक संधि
 Working capital चलपूंजी, सक्रिय पूंजी, कर्मवाहू पूंजी, कामकारी पूंजी
 Working capital turnover ratio कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात
 Working cattle श्रम योग्य पशु
 Working class श्रम वर्ग, मजदूर वर्ग
 Working class leadership श्रम वर्ग द्वारा नेतृत्व
 Working concept कामचलाऊ धारणा

Working condition of labour श्रमिकों की कार्य-
दशा

Working conditions काम की दशाएँ

Working cost कार्य-व्यय, ध्रावश्यक व्यय

Working day कार्य-दिवस, काम का दिन

Working deposits कार्य-योग्य भंडार

Working employer कर्मी मालिक

Working expenses निर्माण व्यय, कार्य व्यय, ध्राव-
श्यक व्यय

Working force कार्यकारी श्रमशक्ति

Working group कार्य-दल

Working hours कार्य-समय, काम के घंटे

Working life अर्जनकारी आयु

Working partner सक्रिय साझेदार

Working period कार्य अवधि

Working population कार्यकारी जनसंख्या

Working results कार्य परिणाम

Working system कार्य-प्रणाली

Working through price mechanism कीमत
प्रक्रिया द्वारा कार्य करना

Working unit कार्य एकक

Working week कार्य सप्ताह

Workman कर्मकार, कामगार

Workmanship कर्म कौशल, कारीगरी

Workmen's compensation कर्मकार-प्रतिकर,
श्रमिक क्षतिपूर्ति

Workmen's Compensation Act कर्मकार प्रति-
कर अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम,
कामगार म्श्रावज्जा अधिनियम

Workmen's Compensation Insurance श्रमिक
क्षतिपूर्ति बीमा

Workmen's Compensation Legislation कर्म-
कार प्रतिकर विधान

Work of public utility सार्वजनिक उपयोगी
कार्य, लोकोपयोगी कार्य

Works निर्माण कार्य

Works, public सार्वजनिक निर्माण कार्य

Works, abstract निर्माण सार

Works committees कार्य समितियाँ, मालिक-
मजदूर समितियाँ

Works cost निर्माण परिव्यय, कर्मन्त परिव्यय

Works expenditure निर्माण/कर्मन्त व्यय

Works expenses निर्माण व्यय

Workshop कारखाना, प्रयोगशाला

Workshop of the world विश्व की प्रयोगशाला

— इस शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के आरम्भ
में ब्रेट ब्रिटेन के लिए किया जाता था। इसका
मुख्य कारण यह था कि औद्योगिक क्रान्ति सबसे
पहले इस देश में आरम्भ हुई थी और इसे अन्य देशों
की तुलना में एक तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुआ
जिससे इंग्लैंड में प्रभूत्वपूर्ण औद्योगिक प्रगति हुई।

Work to rule शुद्ध नियम अनुसार कार्य करना—
कई बार श्रमिक हड़ताल करने की अपेक्षा मन्द
गति से कार्य करना आरम्भ कर देते हैं। वे
अपने व्यवहार को स्यायचित्त ठहराने के लिए यह
कहते हैं कि जब मालिक उनकी माँगों को नहीं
मानते, तो वे भी शुद्ध नियम के अनुसार कार्य करेंगे।
यदि कोई कार्य उनकी कर्तव्य-सूची में नहीं है,
तो वे उसे करने से इन्कार कर देते हैं। वे केवल
उतना ही काम करते हैं जितना उनके कोटे में
निर्धारित होता है। जिन व्यवसायों में इस प्रकार
के नियम नहीं होते, वहाँ श्रमिक अपने कार्य को
धीरे-धीरे करना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर
इसका प्रभाव यह होता है कि एक घण्टे में पूरे
होने वाले काम की मात्रा कम हो जाती है।

World authority विश्व प्राधिकारी

World bank विश्व बैंक

World demand विश्व माँग

World market विश्व बाजार

World monetary crisis विश्व मौद्रिक संकट

World money income विश्व मौद्रिक आय

World of super men अचतारी पुरुषों की दुनियाँ,
अति मानवों के विश्व

World Population Conference विश्व जनसंख्या
सम्मेलन

World trade विश्व व्यापार

World trade policy विश्व व्यापार नीति

Worldwide market विश्वव्यापी बाजार

Worldwide problem विश्वव्यापी समस्या

Worn (or debased) coin सोटा/पिता तिकका
Worn-out plant and machinery भीर्ण संयंत्र
और मशीनें

Written down value ह्रासित मूल्य

Write up मूल्य बढ़ाना—वह क्रिया जिसके द्वारा किसी परिसम्पत् को उसके अनुमानित वर्तमान मूल्य के बराबर बढ़ाया जाता है।

Writing down (or off) ह्रासित मूल्य—किसी परिसम्पत् के बही-मूल्य को कम करना या इसे अप्रान्य श्रेणी की भाँति बही-खाते से बिलकुल निकाल देना।

Wrong allocation of resources साधनों का गलत बँटन

Wrong assumptions गलत पूर्वधारणाएँ, अनुचित मान्यताएँ

Y

Yard sticks मापदण्ड—किसी कार्य/क्रिया को पूरा करने के लिए साधनों अथवा समय का औचित्य मानदण्ड तैयार करना। इसका उद्देश्य एक ऐसा प्रमाण तैयार करना होता है जो विभिन्न प्रदेशों, विभिन्न व्यक्तियों की कुशलता का मानदण्ड बन सके।

Yearly arrivals वार्षिक आगमन

Year of account लेखा-वर्ष

Year of harvest फसल-वर्ष

Yield प्राप्ति, उत्पात्ति, उपज, पैदावार, प्रतिफल, आय—किसी भूमि के टुकड़े से फसल की औसत उपज। इसका परिकल्पन प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर किया जाता है।

एक दूसरे अर्थ में, इसका प्रयोग उस प्रतिफल से लिया जाता है जो किसी विनियोग की वार्षिक प्रत्याय को उस विनियोग की मात्रा पर विभक्त करने से प्राप्त किया जाता है।

प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में इसका अर्थ इससे प्राप्त वर्तमान प्रत्याय और स्टॉक एक्मिशन पर इसके वर्तमान मूल्य से लिया जाता है।

Yield, annual वार्षिक उपज/उत्पादन/आय/प्राप्ति

Yield, basic आधार रूप आय/उपज

Yield, bond बंधन आय, बोंड आय

Yield, current वर्तमान प्राप्ति, वर्तमान आय

Yield, flat प्रवृत्तिरहित प्रतिभूति आय, सीपी प्राप्ति

Yield, gross कुल पैदावार/उपज

Yield, marginal सीमांत उपज

Yield, net शुद्ध पैदावार/उपज

Yield, prospective भावी प्राप्ति

Yield, redemption प्रतिदान प्राप्ति

Yield, revenue राजस्व आय

Yield a return प्रत्याय देना

Yield calculation उपज/प्राप्ति गणना

Yield gap प्रत्याय-अंतर—सरकारी स्कन्ध से प्राप्त प्रत्याय और साधारण हिस्से से प्राप्त प्रत्याय में अंतर। एक समय या जब अधिक जोखिम के कारण साधारण हिस्से पर प्रत्याय सरकारी स्कन्ध पर प्राप्त प्रत्याय से अधिक था परन्तु अब परिस्थिति बदल गयी है।

Yield per acre प्रति एकड़ उपज

Yield ratio उपज/प्रतिफल अनुपात

Yield statistics उपज के आँकड़े

Yield table उपज सारणी

Yield tax उपज कर

Young economy नवोदित अर्थव्यवस्था

Z

Zamindari abolition जमींदारी उन्मूलन

Zamindari system जमींदारी व्यवस्था/प्रणाली/प्रथा

Zero cost शून्य लागत

Zero deficiency in maintainable demand समर्थनीय माँग की कमी का शून्य होना

Zero elasticity of demand माँग की शून्य लोच

Zero elasticity of supply पूर्ति की शून्य लोच

Zero tax paying capacity शून्य करदेय क्षमता

Zionist funds यहूदी विधियों—इजरायल में सहकारी समितियों को प्राथमिक पूँजी विभिन्न यहूदी विधियों से प्राप्त हुई।

Zollverein सीमा शुल्क संध, जोल्सेराइन—1833 में प्रशिया के नेतृत्व के आशीन जर्मन राज्यों द्वारा

स्थापित सीमा-शुल्क सघ। इसका उद्देश्य जिस सीमा तक आर्थिक था, उस सीमा तक राजनीतिक भी था।

Zonal barriers क्षेत्रीय अवरोधक

Zonal system क्षेत्रीय प्रणाली

Zone, deficit अभाव क्षेत्र

Zone, food खाद्य क्षेत्र

Zone, rice चावल क्षेत्र

Zone freight rate क्षेत्रशः भाडा-दर

Zone price क्षेत्रशः कीमत

Zone pricing क्षेत्रशः कीमत-निर्धारण

Zone rate क्षेत्रशः दर

Zone tariff क्षेत्रशः प्रशुल्क/टैरिफ

Zoning इलाकाबन्दी—इस शब्द का प्रयोग दो

अर्थों में किया जाता है :

1. सरकार द्वारा वितरण की लागत को कम करने के उद्देश्य से कुछ उपभोग वस्तुओं के सभरकों को केवल इस बात की इजाजत होती थी कि वे उनके लिए निश्चित क्षेत्र में ही फुटकर विक्रेताओं को माल बेचें। इलाकाबन्दी का लाभ यह होता है कि विभिन्न सभरक (Suppliers) एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता नहीं करते। इस प्रकार की इलाकाबन्दी युद्ध-काल में विशेष महत्त्व रखती है।

2. इस पद का प्रयोग नगर तथा ग्राम आयोजन में उन क्षेत्रों के लिए किया जाता है जो बिजली, पानी, हरियाली या उद्योगों के लिए पृथक् रखे जाते हैं।